



**जोधपुर राज्य की ख्यात**



# जोधपुर राज्य की ख्यात

सपादक  
रघुवीर सिंह  
एव  
मनोहर सिंह राणावत

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्, नथी दिल्ली  
एव  
पचशील प्रकाशन, जयपुर

© भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् नयो दिल्ली  
सह प्रकाशक भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्  
35 फिरोजशाह रोड नयो दिल्ला-11001  
पचशील प्रवाशन  
फिल्म वालोनी जयपुर-302003  
मूल्य एक सौ पचास रुपय  
संस्करण प्रथम 1988  
मुद्रक शीतल प्राइट्स  
फिल्म वालोनी जयपुर-302003

Preface	
Introduction	7
Summary of the Khyat	25

### जोधपुर राज्य की ल्यात-मूल पाठ

प्रारम्भिक पूवज	1-14
राजा पु ज	10
राव जबद	12
राव सेतराम	14
राव सीहो	14-22
राव आस्थान	22-26
राव धूहड	27
राव रायपाल	27-28
राव बान्ह	28
राव जलणसी	28-29
रावल छाडो	29-30
रावल तीडो	30-31
राव सलखो	31-32
राव मलीनाथ	31
राव वीरम	33-36
राव चूडो	36-41
राव कान्हो और सतो	41-42
राव रिडमल	42-47

राव जोधो	47-67
राव बीका जोधावत	57
राव सूजा	67-71
वदर वाधा	68
राव गागा	71-76
राव मालदेव	76-104
मालदेव के अधीन परगने	94
मालदेव की सतति और रानिया	96
राव राम और उसके वशज	101
राव च द्रसेन	104-118
च द्रसेन की रानिया और उसके वशज	113
मोटा राजा उदयसिंह	118-131
उसकी रानिया और सतति	124
उसका मनसब और परगने	131
सवाई राजा सुरसिंह	131-161
उसका मनसब और परगने	131
उसकी रानिया और सतति	156
महाराजा गजसिंह	161-202
उसका मनसब और परगने	162
उसके हाथी	193
उसकी रानिया और सतति	197
चारलो इत्यानि को दान पुण्य	202
महाराजा जसवंतसिंह	203-271
उसकी जागीरों और मनसब का व्यौरा	204
उसके प्रधान और प्रमुख भ्रष्टिकारी	263
उसकी रानिया और सतति	268
राव अमरसिंह	272-283
उसकी रानिया और सतति	281
राव रायसिंह	283-287

महाराजा अजीतसिंह	
जसवत्सिंह की मृत्यु के समय मारवाड़ की दशा	287-431
अजीतसिंह का जन्म	287
दिल्ली में मुगल राठोड़ संघर्ष	306
मारवाड़ में राठोड़ मुगल संघर्ष	324
राव इद्रसिंह का जोधपुर पर अधिकार	329
शाहजादा प्रब्द्धर और राठोड़ शाहजादा	331
प्रब्द्धर का विद्रोह	335
दक्षिण में दुर्गानिस	
भोरगजेव का शान्ति प्रस्ताव	339
दुर्गादास के विशद पठवन और	360
मारवाड़ में विद्रोह	363
अजीतसिंह का जोधपुर पर अधिकार	
अजीतसिंह और वहादुरशाह	365
साम्राज्य का युद्ध	379
अजीतसिंह और फरुखशियर	394
अजीतसिंह और मुहम्मदशाह	407
अजीतसिंह की हत्या	419
उसकी रानिया और सतति	425
	427



## Preface

On his way back from the first Delhi Conference of the Ruling Princes and Chiefs of India early in November 1916 my father Maharaja Sir Ram Singhji K C I E, of Sitamau stopped at Ajmer for a few days and I accompanied him during that entire tour. While at Ajmer he went to the Rajputana Museum on 8 November to meet his friend Pt Gaurishankar Hirachand Ojha one of the most respected historians of Rajasthan who was then the Curator of that Museum. During his visit there Pt Ojha told him about the *Jodhpur Rajya Ki Khyat* a copy of which he himself had acquired from Kaviraja Muraridan of Jodhpur. Since Pt Ojha expressed great enthusiasm about the *Khyat* my father wanted to obtain a copy of it for himself. Pt Ojha informed him that he had an unbound transcript copy of the first volume. This volume included an account of the reign of Mota Raja Uda Singh of Jodhpur the progenitor of the Rathore Ruling family of the erstwhile Sitamau State. My father promptly bought this volume of the *Khyat* which remained at Sitamau and was later bound in quarter red leather.

Because of my personal interest in history this transcript of the first volume of the *Khyat* was given to me by my father some time during the late thirties and thus it became one of the most valuable acquisitions of the Shri Raghubir Library in Sitamau. The transcripts of the remaining three volumes of the *Jodhpur Rajya Ki Khyat* were later obtained by me during the early forties of this century from Dr Gaurishankar Hirachand Ojha. Thus this entire transcript of the *Khyat* is a faithful copy of the manuscript copy of the same which was acquired by Dr Gaurishankar Hirachand Ojha from Kaviraja Muraridan of Jodhpur. Transcript copies of this particular *Khyat* are quite scarce in Marwar and no copy of it is extant even in the *Pustak Prakash* the personal collection of the former Ruling family of the Jodhpur State \*\*

\*\* The statement in A Comprehensive History of India vol V the Delhi Sultanat on p 118<sup>t</sup> about a two volume copy of this *Khyat* being there is entirely unfounded. The references to this *Khyat* in the I n s on its pp 803-14 are all to Dr Ojha's transcript copy as given in his *Jodhpur Rajya Ka Itihas*.

Dr Ojha had realised the value and importance of this *Jodhpur Rajya Ki Khyat* as an important primary source for the history of those times with particular reference to the Ruling family of Jodhpur Marwar and had utilized the information in it while writing his monumental work *Rajputana Ka Itihas* specially in the two volumes of his *Jodhpur Rajya Ka Itihas*.

Thirty years ago in 1946 Dr Satish Chandra now the Chairman of the University Grants Commission New Delhi visited Sitamau for collecting material for his Ph D thesis from the transcripts of the *Akhbar i Durbar i Mualla* and other Jaipur Records in Persian or Hindi available in Shri Raghubir Library Sitamau as the originals of these records preserved in the then Jaipur State Archives were still not open to researchers. At that time he had carefully examined the Sitamau transcript of the *Khyat* and found that it was an important primary source not only for the history of Marwar and Rajasthan in particular but was equally valuable for the Muslim and the Maratha periods of Indian History as it put forth to the researchers the Rajput version of the various events of those times in which the Rulers of Marwar Jodhpur had played some part or other.

Later when Dr Satish Chandra joined the Rajasthan University Jaipur as Professor of History in 1963 he had a further look at the primary source material relating to the history of the various Rajas than States and found that the transcript copy of *Khyat* was not available in Jaipur and was scarce even in Jodhpur. Hence he repeatedly urged me to take up the arduous task of carefully editing and preparing for publication the press copy of at least its earlier portion so that researchers could have access to it. However at that time I was unable to take up this project as no grant was available.

Consequently when the newly established Indian Council of Historical Research New Delhi invited research projects to be carried out under its auspices I prepared and submitted in September 1973 a project for editing the *Jodhpur Rajya Ki Khyat* upto the period of the death of Maharaja Ajit Singh in 1724. This project was approved by the end of December 1973 and Rs 20 900 were sanctioned for completing it within a period of eighteen months.

Due to various technical reasons the sanctioned sum could not be released at that time. Eventually the Council agreed to pay me the money directly and the work on the project was started in November 1973.

Shri Manohar Singh Ranawat who had previously assisted me in editing the *Jodhpur Hukumat Ki Bahi* during the later half of 1971 was appointed as the Senior Research Assistant to carry out this project under my guidance. He worked on the project because he had got a permanent appointment as a Lecturer in History at the Shri September 1974 when he tendered his resignation because he had got a permanent appointment at College Ajmer. During this period he Vijay Singh Pathik Shramjivi corrected and edited the *Khyat* upto some death of Maharaja Jaswant Singh in 1678 but had left out some notes on the reigns of Rao Ganga and his three successors. As it was not possible at that time to engage the services of a competent Persian Munshi Shri Manohar Singh could not work on the Persian sources to the Marwar affairs or the Jodhpur Rulers in this portion of the *Khyat* which time notes from the Persian sources were also ready.

Shri Suresh Chandra Patria was appointed the Senior Research Assistant in succession to Shri Manohar Singh Ranawat with effect from 18 September 1974. As he had no previous experience of this type of work it took him some time to pick it up. He prepared the notes on the reigns of Rao Ganga and his successors till the death of Mota Raja. Later he took up the work of comparing, correcting and editing the remaining portion of the *Khyat* namely that relating to the reign of Maharaja Ajit Singh which covers almost one third of the entire *Khyat* now being edited.

Maulavi Abdul Salam Beg Munshi Kamil of Jhalawar was appointed the Persian Munshi on this project on 15 September 1974 and he worked in that capacity till the end of this project on 30 June 1975. During that period he prepared notes from all the Persian sources relating to relevant references to the History of Marwar and its Rulers.

The important remaining work of typing out the press copies of the edited text getting it compared and corrected was still to be

done. This work could not be taken up till May 1976 due to some procedural reasons and practical difficulties. By then Shri Manohar Singh Ranawat had rejoined as the Research Officer in Shri Natnagar Shodh Sansthan Sitamau and thus this remaining work too has been duly completed under his supervision and the press copy is at long last ready to be sent to the press.

Every effort has been made to make the introduction to the *Khyat* as comprehensive and as specific as possible under the circumstances and it is hoped that it will prove helpful to research scholars and historians and will enable them to carry further these researches in the history and the historiography of Marwar on the basis of this *Khyat* and the detailed information provided in the Introduction about other *Khyats* or similar works relating to different periods or major portions of the History of Jodhpur Marwar.

A detailed work of history like this *Khyat* giving a series of events in almost chronological order covering a couple of centuries and more cannot possibly be summarized in the strictest sense of the word. Still to keep in line with the prescribed pattern of the publications of the Indian Council of Historical Research a brief summary in English of the *Jodhpur Rajya Ki Khyat* has been given. This is more of an outline pointing out its basic features and particular details rather than an actual summary. It is hoped that this will help readers and the researchers to familiarize themselves with the contents of the *Khyat*.

In conclusion I must express my grateful thanks to the Indian Council of Historical Research New Delhi for approving this project of editing the *Jodhpur Rajya Ki Khyat* and giving me the requisite grant. My grateful thanks are due to Dr Satish Chandra who had from the out set repeatedly urged me to undertake this arduous task and later did his best to get the project duly approved by the Council for giving me the necessary grant. I am thankful to Shri Manohar Singh Ranawat my first Senior Research Assistant who did the major portion of the work in this important project. My thanks are due to Shri Suresh Chandra Patria the second Senior Research Assistant as well for all his help and assistance during the latter half of the project to bring it to a successful conclusion.

It would not be out of place here to point out that the subsequent portion of this *Khyat* beginning with the accession of Maharaja Abhai Singh and ending with the death of Maharaja Bhim Singh should also be duly edited and published because it gives us the Rajput version of the controversial history of Marwar during the period of the Maratha ascendancy in Rajasthan. What has so far been written in the History of the Marathas on the subject presents only one side of the case. One can not possibly get at the truth without knowing what the other side has to say on the subject. Shri Natnagar Shodh-Samsthan Sitamau is proposing to undertake this project provided she gets a suitable grant.

Raghbir Niwas  
SITAMAU (Malwa)

RAGHUBIR SINH



## INTRODUCTION

Regular and legitimate historical records of the various Rajput dynasties ruling over different principalities in Rajasthan are not to be found earlier than the seventeenth century. My own animadversions upon the defective conditions of the annals of Rajwara wrote James Tod have more than once been checked by a very just remark when our princes were in exile, driven from hold to hold and compelled to dwell in the clefts of the mountains often doubtful whether they would not be forced to abandon the very meal preparing for them was that a time to think of historical records? \* In the case of the State of Jodhpur Marwar it is particularly significant that its capital Jodhpur town and the Fort were under Mughal occupation twice during the two centuries of effective Mughal rule over the Marwar region and that each time the principality had in fact totally ceased to exist. Thus it was re-created by Akbar in the year 1683 when Jodhpur was given to Mota Raja Uda Singh after having been under Mughal occupation for twenty years (1663-83). Similarly it was once again re-established by Maharaja Ajit Singh when he finally re-occupied it in 1708 after the Thirty Years War in Marwar (1678-1708) following the death of Maharaja Jaswant Singh at Peshawar on September 28 1678. It is therefore not surprising that the regular series of historical records now extant in the State archives of the former Jodhpur Marwar State begin only after 1708.

But the traditions of regular historical compositions in poetry or in prose or keeping dynastic genealogies and records of important political events of the times seem to have begun as early as the later half of the 15th century when Rao Jodha not only regained Mandor his ancestral capital and laid the foundations of the famous fort as well as his new capital of Jodhpur but also had extended the boundaries of his own state and helped his younger sons in

---

\* Tod Rajasthan O U P I p ivii

carving out their own independent or semi independent principalities

### **Compositions of Historical Relevance in Rajasthan:**

With the establishment of the Mughal Empire in India and the close contacts of the Rulers of Jodhpur Marwar with the Imperial Court particularly after 1583 these traditions of historical compositions in Marwar not only developed very well but they also began to take a definite form Abul Fazal's possible direct as well indirect contribution to the regional historiography of Marwar particularly that of Muhanot Nainsi is yet to be examined and studied in detail It can however be stated without doubt that the traditions of historical compositions in Marwar are amongst the most important of all the Princely States in Rajasthan The records of the genealogies as well as of the various significant events of those times in the Jodhpur Marwar State were not only kept by the officials but by other non officials also who were in one way or another connected with the Rulers of the State and thus had an intimate knowledge of events in the State or else where relating to the Rulers or pertaining to that principality

All compositions of historical relevance in Rajasthani can be divided into five different categories —

- 1 *Vamshavalis or Pidhians*
- 2 *Akhyats*
- 3 Biographical historical works whether in prose or poetry
- 4 Stray verses in praise of an individual or relating to any particular historical incident
- 5 The *Vat* literature relating to historical personages

Brief notices of each of these categories is essential to correctly and clearly indicate the relative values of each of these different type of compositions as possible historical source material

(1) **Vamshavalis or Pidhians**—These are generally lists of names of the rulers their ranis and also of their heirs who died in their father's reign They are either prose and some times in

verse (*duhas*) also. At times they contain very brief references to some specially significant events as well. These *Vamshavalis* are kept by the *Bhats* who are also known as *jagas* or *bahi vanchas*. In the case of some clans these *Vamshavalis* were kept by Jain *yatis* also. Tod mentions genealogical rolls of some antiquity which were in the possession of a Jain priest (*yati*) who also had the title of *Guru*<sup>1</sup>. The *yatis* who keep similar genealogies of the Rathors are known as *Kul gurus*. Even in their *gotrachar* (the institutes of the clan) there is the mention of the *Kul guru* being of the *Khartar Gachha*. Their records contain fuller details than simply the lists of various generations of the rulers their ranis and progeny.

(2) **Khyats**—These are historical compositions on the dynasty or the State to which they relate. At the outset they generally have a long list of preliminaries from the Adinarayan. Once the historic personages are mentioned the details begin to increase. The accounts relating to the historic times are quite detailed. Such *Khyats* were written not only by the official record keepers of the state but also by some persons or families closely associated with the ruling House of Jodhpur Marwar. First and foremost among such non official *Khyats* now extant is that by Muhnot Nainsi who was an important official and held high offices in the State including that of *Desh diwan* i.e. minister for home affairs and thus had an access to state records but his work was mainly of a non official nature. Then there is the well known *Mundiyad ki Khyat* maintained by the Akhawat Barhat family of Rupawas and Mundiyad who have been the pol pats (keepers of the main gates) of the Rathor House of Jodhpur Marwar through out past centuries. Many other similar *Khyats* by anonymous writers have come to light from time to time. One such noteworthy *Khyat* was the one known as the *Kaviraja ki Khyat* which was discovered enclosed in a wall compartment in Jodhpur. *Jodhpur Hukumat ki Bahi* is infact a collection of raw materials for the writers of *Khyats* rather than a *Khyat* itself. The later *Khyat*-writers have generally borrowed much from the earlier *Khyats* or *bahis* and have duly acknowledged the same as well specially when they give different versions of any particular historical event. The *Jodhpur*

*Rajya Ki Khyat* was however written under the auspices of the Jodhpur-Marwar State and should therefore be studied keeping that perspective in mind.

(3) **Biographical or similar historical works whether in prose or in poetry**—There are several such works relating to some rulers of Jodhpur namely Gaj Singh Ajit Singh Abhai Singh and Bijay Singh. They not only give genealogies of the early rulers of Jodhpur Marwar but in quite a few cases they give detailed accounts of the reigns of previous rulers also. These works are of considerable historical value particularly the ones detailing the events following the death of Maharaja Jaswant Singh at Peshawar on 28 November 1678 and those of the Thirty Years War by the Rathors with the Mughal forces.

(4) **Stray verses in praise of an individual or relating to any particular incident**—Thousands of such stray verses which give details of historical events and thus lend colour to dry facts were composed during past centuries. However as they are neither dated nor give any dates of the incidents mentioned they can not be accepted as a primary source of history.

(5) **The Vat Literature**—There are hundreds of *vats* relating to various historical personages or events which can be described as the precursors of historical fiction. Majority of these *vats* were written during the seventeen century or soon after by anonymous writers on the basis of prevailing historical traditions or legends and as such they do not provide any helpful data for a worth while authentic political history but do give a lively and a fairly accurate picture of the contemporary society and culture of Rajasthan and that of the seventeenth century in general.

The need for an analytical and detailed study of all these different types of historical source material in Rajasthani has been increasingly felt. This is the only way in which a balanced view of the Jodhpur-Marwar history can be obtained because these sources not only present the Rajput version of various events in history but they also fill many important gaps in the various extant historical works in Persian and other languages relating to those times. Thus since the beginning of the twentieth century quite a few biographical and other historical works written previously in prose or in verse have been published. The monumental poetical work *Vanish Bhaskar* by Surajmal Mishran *Raj Rupak* by Virbhan Ratnu

*Suraj-Prakash* by Kaviya Karni Das ‘*Vachanika Rathor Ratan Singhji*’ *ri Maheshdarat* *ri* by Khidiya Jaga *Gaj Gun Rupak Bandh* by Gadan Kesha Das and *Ajit Vilas* (anonymous) are all important sources in historical research. A good many collections of the *rati* literature have been published, though their study as an important source of information regarding the society and culture of the times is yet to be undertaken.

*Muhnot Nainsi* *ri Akhyat*’ has recently been published in extenso in Rajasthani while a Hindi translation of the same had appeared half a century ago. A carefully revised well edited new edition of this Hindi version of *Akhyat* is now being prepared by Shri Manohar Singh Ranawat for the Nagari Pracharini Sabha Varanasi. The Publication of *Muhnot Nainsi*’s *Marwar sa-Pargana* *ri Vigat* by Rajasthan Prachya-Vidya Pratishtan Jodhpur was significant event for researchers in the history of Jodhpur-Marwar in particular and that of Rajasthan in general. But the publication of these works by *Muhnot Nainsi* only increased the demand for the publication of the *Akhyat* which was well known as it came from the Jodhpur Marwar State. This demand was all the more imperative because the existing copies of the *Akhyat* were few in number and not easily obtainable either because they were the private collections or too fragile to be handled.

### The Jodhpur Rajya ki-Khyat

Consequently this project of editing the *Akhyat* was undertaken so that it could be published as soon as possible. But the entire *Khyat* was so voluminous that it was decided to divide it into more than one volume. Therefore, the present project relates to only its first volume which goes as far as the end of the reign of Maharaja Ajit Singh in 1724.

### The Title

This particular *Jodhpur Rajya ki Akhyat*’ has been given more than one title both in its various copies and by the notice-writers and historians who have examined it in the course of their research. At the beginning in its manuscripts it is invariably called *Rathoran* *ri Yamsharali*’ or *Rathoran-ri Yamsharali* *ri Khyat*. At the end of the *Khyat* there is no regular *Pushpika* (colophon) of the entire *Akhyat* but from the reign of Maharaja Ajit Singh onwards

there is given at the end of the account of each reign a short *Pushpika* referring to the ruler concerned e.g. *In Shri Maharaj Ajit Singhji-ri Khyat Sampurna*. In the *Descriptive Catalogue of Non Persian Sources of Medieval Indian History* the compilers have in one case described the Manuscript of this *Khyat* as *Khyat Rathora ri* (Ref No E 20/99 p 17) Tessitorry however has uniformly entitled all the manuscripts of this *Khyat* as *Jodhpur ra Rathora ri Khyat* (Bardic-Sec I Prose Chronicles-Part I Jodhpur State). But Dr Gaurishankar Hirachand Ojha who first brought it to the notice of scholars and used it extensively in his *Jodhpur Rajya ka Itihas* has mentioned it as *Jodhpur Rajya ki Khyat*. Thus it was decided to retain that title and the research project was accordingly called *Jodhpur Rajya ki Khyat*.

### The Contents

The *Khyat* begins with a genealogy of the Rathors right from the creation. In the beginning there is a list of names borrowed from the *Puranas* with occasional biographical notes till Rao Siha when the *Vam havali* takes the form of a real *Khyat*. The origins of the Rathors is traced to Kalyani in Karnataka and thence to Kanauj where he name of the historic personage Jai Chand (Gaharwal) is mentioned. His son Vardai Sen is said to have been the father of Seta Ram whose Son Siha was the progenitor of the Rathor ruling family of Jodhpur. After recounting the exploits of Mallinath the elder son of Salakha who established himself at Khed in the Mehevo region the *Khyat* goes on to detail the exploits of Chunda the son and successor of Mallinath's step brother Viram.

Chunda established himself at Mandor and the history of his successors becomes gradually more diffused as the writer gives many particulars names dates figures concerning Rajput chiefs grants their incomes etc. The income of the Jagir of Marwar as drawn up by the Pancholi Manohar Das are given. The first volume of the *Khyat* now under study ends with the death of Maharaja Ajit Singh in 1724. A summary of the main contents of this *Khyat* is given later.

The *Khyat* thereafter goes on to give detailed accounts of the various successors of Maharaja Ajit Singh from Maharaja Abhai Singh onwards in chronological order. It however concludes with

the death of Maharaja Man Singh after midnight of Monday Bhadrapad Sud 11 1900 V S (Tuesday 5 September 1843) and the details of the events immediately thereafter including his cremation and those leading to the adoption and ultimate accession of Maha raja Takhat Singh as his successor to the gadi of Jodhpur. The last item in this *Jodhpur Rajya Ki Khayat* is a list of the Ranas and the progeny of Maharaja Man Singh.

In some copies of the *Akhyaat* there is an appendix giving an account of the reign of the successor Maharaja Takhat Singh (1843-73).<sup>1</sup> Though this is a continuation of the main *Akhyaat* it is in fact according to Tessitori a kind of diary or register of daily events put down by the compiler day by day just as they happened and he witnessed them or heard about them. In the *pushpika* too it has been clearly stated that in this *Akhyaat* of Maharaja Takhat Singh important events of the reign are noted down briefly.

Although there is a copy of the *Akhyaat*<sup>2</sup> where the entire contents ending with the death of Maharaja Man Singh (1843) are given in one single *Bahi* the *Akhyaat* is generally written in three or four volumes with an even distribution of the contents.

#### The authorship

In none of the manuscripts of this *Jodhpur Rajya Ki Khayat* are the names of its authors given. This includes the Manuscripts examined and described by Tessitori in his *Descriptive Catalogue of Bardic and Historical Manuscripts* (Sec I—Prose Chronicles Part I—Jodhpur State) or referred to in the *Descriptive Catalogue of Non persian Sources of Medieval Indian History*, and now those in the Udaipur and Jodhpur Branches of the *Rajasthan Prachya-Vidya Pratishtith*. None of the names of the copyists of these manuscripts are given except for the manuscript which belonged to Charan Sandu Bhomdan of Mirgesara (Vali).<sup>3</sup>

1 This *Khyat* of Maharaja Takhat Singh is to be found in the following manuscripts

(i) *Khyat Rathora* in Vol IV Non Pers pp 17 18 Ref No 20/69  
 (ii) *Rathora ki Tamshayali* in *Khayat*—R P V P Udaipur Branch No 894/2703

2 *Rathoran ki Tamshayali* R P V P Jodhpur Ref No 20/30

3 Tessitori I-I Ms No 16 pp 57-58

There is however a manuscript (Ref No 10609) in the Raja sthan Shodh-Samsthan Chaupasani (Jodhpur) entitled *Jodhpur-ri Khyat* which is clearly the fourth and concluding volume of the entire *Khyat*. Its *Pushpika* is as follows —

॥ पक्त ॥ सप्तरण समत 1929 मिगसर वं 14

॥ इति महाराज थी मानसिधजी ॥

इहा

कहि गरन भई कूबड़ी बड़ी  
सही सीत तप वाय ।

ईमा कमठ सू प्यानि दू  
मै सोधी दुप पाय ॥ 1 ॥

वार्ता

च्याह पुस्तका प्यात की प्रथ हजार 21) 21000 ईक्सो ने सोध्यो विद्य  
आईदान जोधपुर मै समाप्त करयो ॥

समत 1931 मिती चत सुदि 12 सनीसरवार 444 च्यात की पोध्या चार  
लिखी जोमी साहिव रामजी मारात ने सामल रालि अर सोधी छ ।

On examining this *pushpika* keeping in mind the fact that the continuation of the main *Jodhpur Rajya Ki Khyat* (the *Khyat* of Maharaja Takhat Singh) was written in March 1856<sup>1</sup> it can be concluded that Khidiya Aī Dan completed the copying of the four Volumes of the manuscript *Khyat* on Friday 29 November 1872 at Jodhpur. The manuscript in the Chaupasani Collection is a copy of the transcript by Khidiya Aī Dan. This copy of all the four volumes of the *Khyat* was completed by Joshi Sabib Ram on Saturday 17 April 1875.

In this *Pushpika* the words *Shodhi* and *Shodhjo* have been used in connection with the transcription of both these manuscripts and evidently refer to the amendments by the copyists in their transcript due to their individual styles of writing.

Thus it is clear that one cannot establish exactly who the authors were of the *Jodhpur Rajya Ki Khyat*.

#### Date of composition

None of the existing manuscripts of the *Khyat* give any details about either when it was written or as to how much time was taken

<sup>1</sup> *Tess story I-IMs* No 10 pp 33

to write it. But it is generally believed that it was compiled from similar chronicles during the last decade of the reign of Maharaja Man Singh. The account of the last years of Maharaja Man Singh's reign and the details of the events immediately following his death leading to the adoption and ultimate accession of Maharaja Takhat Singh to the gadi of Jodhpur were obviously written down only during the early years of Maharaja Takhat Singh's reign.

### The possible Source-Materials utilized in the Khyat

There is no indication in the *Khyat* as to what source-materials were used while writing it. It is generally asserted that this *Khyat* was compiled from similar *Khyats* which were in existence at that time. It is however surprising that not many such older *Khyats* have come to light and neither are they to be found in the State Archives of the former Jodhpur State. This made it essential for those in charge of the *Mahakama-i-Tawarikh* to collect transcripts of some of the well known *Khyats* such as *Mundhad-ri Khyat* and the *Kavi Raja-ri Khyat*, for the purpose of being used in writing out the official 'History of Marwar'. This was eventually written by Bishweshwar Nath Reu.

As the Jodhpur Fort and City were under Mughal occupation during the Thirty Years war fought by the Rathor legitimists for Ajit Singh the State Archives of the former Jodhpur Marwar State contain hardly any documents prior to the year 1708.

Therefore while writing the part of the *Khyat* prior to 1708 the authors must have encountered considerable difficulties when looking for source materials. They probably had to rely on similar works which during that period were mostly in private hands barring a few notable exceptions. [Thus a detailed study of the *Khyat* is needed to determine the possible source materials which were used].

The *Vamshashali* of the Rathors from Adinarayan onwards upto Bharat who is represented as having installed himself on the throne of Kanauj appears to have been compiled from the *Puranas* in approximately 1700 V S (1643 A.D.) as it has been mentioned in the context of the Raja Brihadbal to indicate the period of his reign.

In the following account Jai Chand of Kanauj is the first historic person and later the geneology of the Rathor House of Marwar from Rao Siha onwards is authentic. These details were

obviously handed down orally from generation to generation for some centuries and might have been put down on paper sometime early during the sixteenth century as the dates given in the *Ahyan* relating to the events during the reign of Rao Jodha onwards are on the whole historically correct. But it is obvious that the accounts relating to the times prior to the re-establishment of the Jodhpur Marwar State under Udaip Singh were re-written during the early decade of the 17th century on the basis of details found in some older *Khyats*. These *Khyats* somehow survived in private collections even during the period when Jodhpur was under Mughal occupation (1563-1583). By then the Mughal Empire was firmly established and the Mughal historiography had begun to have some impact on that of the Jodhpur Chroniclers.

It was thus that an attempt was made to ascribe specific dates not only to the events in the reign of Jai Chand of Kanauj but also to those of the reign of Rao Siha onwards which are all incorrect. The term *Padishah* which came into use during the Mughal period has been used when referring to the Tughlaq Sultans of Delhi or to the Sultans of Multan or Malwa. Again along with the names of the Muslim commanders who were said to have been killed in battle with Rao Siha their *mansabs* in term of *ha-arts* have been mentioned to emphasize fully their important status. Finally the term Mughal has been used while mentioning the Muslim invaders of Marwar even in the later half of the 15th century. In his *Vigat* (I p 483) Nainsi mentions the *Bahi* of the year 1677 V S (1620) which might have been written during that period.

During the 17th century upto about the end of Maharaja Jaswant Singh's reign and even later many historical compositions were written. These include the writings of Muhamot Nainsi and the well known *Kauraya ri-Ahyan* but while the latter was found only in the last years of the 19th century the former were possibly not readily available to the compilers of the *Ahyan*. However it is clear that those of the sources utilized by Nainsi or others which were in existence even after a century or more had lapsed must have been utilized by the compilers of this *Ahyan*. Many official state mints in the *Ahyan* of the *mansabs* and *jagirs* of the Maharajas. These might have been quoted in it in extenso.

*bahis* or other similar collections of such documents. The account of the events in Marwar and in the Jodhpur camp at Peshawar following the death of Maharaja Jaswant Singh in Peshawar tallies greatly with the account given in the *Jodhpur Hukumat ri Bahi* which was copied out from an old manuscript *Bahi* with Panchooli Brijlal. For the period of the Thirty Years War and thereafter Ratnu Virbhan's historical composition *Raj Rupak* (for which there is a definite date) gives a detailed account of those eventful years and must have definitely proved most useful. The text of the *Khyat* relating to the reigns which over the Seventeenth century was obviously written in the Nineteenth century when it was barely remembered that Amber had been the capital of the Kachhawah State till the foundation of Jaipur in 1727. Consequently, Mirza Raja Jai Singh is referred to as Jaipur ra Raja Bada Jai Singh. But these anachronisms are very few and far between and can be easily corrected. Some more *bahis* or other such private records which provided requisite details to supplement the works of Virbhan Ratau or other important poets of that period must have been used by the compilers of the *Khyat* for the period ending with Ajit Singh's final ascension to the Jodhpur *gadi* in 1708. Thereafter the State Records along with any other *bahis* were readily available to the compilers to complete their account of the remaining sixteen years of the reign of Maharaja Ajit Singh.

### The Historicity of the 'Khyat'

The historical character of the *Khyat* literature in general has always been a matter for much discussion and at times of severe criticism by historians who generally classified them as Bardic Literature and as such deemed them to be prone to unimaginable exaggerations and always full of praise. Tod is accused of having reposed undue confidence in the epics and ballads composed by poet Chand and other tribal bards and his historical inaccuracies greatly enhanced by his impassioned hyperbolic language had such an effect on the historians of the *Khyats* that till about the early decades of the twentieth century no serious historian would attempt to do research on them. However the need to know the Hindu (or Rajput) view of the great historical Movements during the Muslim min and the early British rule was increasingly felt. The search for manuscripts of the Bardic chronicles under the guidance of Har-

Prasad Shastri and detailed survey reports as well as *Descriptive Catalogues of Bardic Historical Manuscripts* by L P Tessitori necessarily focussed the attention on these important historical sources. The inevitable result was that before long in spite of his stringent criticisms even Sir Jadunath Sarkar had to take note of these in the third edition of the *History of Aurangzib* Vol III and later extensively utilized *Vamsha Bhaskar* (Vol IV) in his early volumes of the *Fall of the Mughal Empire*.

The earlier portions of the *Jodhpur Raja ki Khyat* prior to that of Siha should be rejected as being historically inaccurate. However it gives us an insight into the mentality of the early descendants of Siha and others not only to trace their origins from the Princes of the Solar race mentioned in the epics but also to link their dynasty with the historic personages of the recent past. Unaware that he was a Gaharwal Jai Chand was proclaimed to be a Rathor in Raja than giving rise to much confusion which has persisted for centuries.

The legendary account and particularly the dates assigned to the events relating to the descendants of Siha upto the times of Ranmal are on the whole inaccurate except for dynastic details relating to their progeny and the beginnings of the various sub clans of the Rathors. From Jodha onwards the Rathor Dynasty enters the historical age which has its own dynastic exaggerations and inevitable inaccuracies due to the lapse of time many of which can be corrected from other relevant sources.

With the arrival of Babur and the establishment of the Mughal Empire in India in due course of time the *Khyat's* narration rests on firmer ground as there is a large volume of Persian source materials to correct its inaccuracies. There is no mention at all in the *Khyat* either about the participation of the Marwar forces in the Battle of Khanwa (1527) or of the dealings of Rao Maldeva with the Mughal Emperor Humayun (1542) who was then in exile in Sindh.

It is particularly significant that the *Khyat* on the whole has been written quite objectively without bias malice or fear and provides all the necessary details for future historians to draw their

## Introduction

own conclusions. The marriage alliances with earlier Muslim rulers and commanders and later with the Mughal Emperors have all been recorded with apparently specific approval of Maharaja Man Singh himself. The compilers have both stated the view held by some of Maldev having killed his father Rao Ganga by throwing him down from the balcony and have recorded that Ajit Singh was killed by his younger son Bakhat Singh. The various murders committed under instructions from Ajit Singh have also been mentioned without any attempt at distorting the truth.

There are however some matters which need wider study and further examination. The truth about the story of Raghunath Singh Mertia connected with the disturbances in the Sikh region needs to be investigated because the *Kaviraja ri Khyat* (II p 188) does confirm that he was granted the *pitta* of Maroth. From all accounts it is certain that Anara *khanas* of Maharaja Gaj Singh was by no means a fictitious character but it is impossible to identify in any way his spouse referred to as Nawab in the *Khyat*.

## Important Manuscripts of the Jodhpur *Rajya Ki Khyat*

In his Descriptive catalogue of Bardic and Historical Manuscripts (Section I Part I) L P Tessitori mentions two Manuscripts (Nos 3 and 4 pp 7-16) of the *Jodhpur Rajya ki Khyat* which was then in the possession of Kaviraja Asiya Ganesdan of Jodhpur the successor of the famous Kaviraja Murari Dan of Jodhpur from whom Dr Gauri Shankar Hira Chand Ojha secured a transcript of this important historical composition. At least one copy was made now in the Shri Raghubir Library SITAMAU. There is a modern copy of this *Khyat* entitled *Marwar ri Khyat* in three volumes copied out at Beawar by R P Shrotriya in 1933 which is now in the Anup Sanskrit Library Bikaner (Rajasthan) Ser Nos 199-201 p 80.

Tessitori mentions one other modern transcript of this *Khyat* in three volumes copied at Jodhpur by Joshi Ai Dan which was at that time in the possession of Charan Sandu Bhom Dan of Miragesar (Bali, I-I No 16 pp 57-58).

There is a one volume manuscript of this *Khyat* entitled '*Raihoran ki Yamshwali*' in the collection of the Rajasthan Prachya

Vidya Pratishtan Jodhpur which belonged previously to Udaipur Ujjwal of village Ujalan in Pohkaran Pargana (Jodhpur) It is almost complete and consists 482 folios of 51 cms×21.5 cms each (page 349 is missing Ref No 20130) It ends with the list of the Ranis of Maharaja Man Singh

The copying of the manuscript of this *Khyat* which formerly belonged to the Saraswati Bhandar Library Udaipur and is now with the Udaipur Branch of the Rajasthan Prachya Vidya Pratishtan was started in the middle of February 1883 This manuscript (Ref No 894/2703) entitled *Rathorani Yamshahali ki Khyat* is in three volumes and the last volume includes the *Khyat* relating to a part of the reign of Maharaja Takhat Singh The first volume of this manuscript has been noticed in the *Descriptive Catalogue of Non Persian Sources of Medieval Indian History* (Ref No E 32/150 pp 22-23)

In the *Catalogue of Non Persian Sources* there are notices of two more manuscripts of the *Jodhpur Rajya Ki Khyat* and it has been recorded that both of them were then available at the Rajasthan Shodh Samsthan Chaupasani (Jodhpur) Each was divided into four volumes They were —

(1) *Khyat Rathora ri*—Ref No E 20/99 pp 17 18 It included the *Khyat* of the reign of Maharaja Takhat Singh

(2) *Rathora ri Yamshahali*—(Ref No E 23/102 p 19) The four vols of this complete work ran into 1122 pages in all When this research project was started efforts were made twice once in December 1973 and again in February 1974 to have a look at these manuscripts But the Director of the Chaupasani Samsthan informed us each time that these two manuscripts belonged to the late Kunwar Bijai Singh former M P of Sariari who had apparently taken them away The present whereabouts of these two manuscripts could not be ascertained even from Kunwar Dalpat Singh ex M P of Sariari the brother of Kunwar Bijai Singh

It is significant that there is no Manuscript of the *Jodhpur Rajya ki Khyat* either in the *Pustak Prakash* the personal manuscript collection of the former Ruling House of the Jodhpur Marwar

State, or even in the Rajasthan State archives at Bikaner. It is said that there are some more manuscripts of the *Khyat* in a few other private collections but unless these are seen and carefully collated with the known manuscripts of this particular *Jodhpur Rajya ki Khyat* it is difficult to say anything definitely on the subject as these may either be some abridgements or variations and not actual copies of this particular *Khyat*.

The transcript of the *Khyat* presented to Dr G H Ojha by Kaviraja Murari Dan of Jodhpur, is possibly still at Ajmer in the Ojha collection with his son Prof Rameshwari G Ojha (now retired) but is not available to anyone.

#### Scheme followed in Editing the *Khyat*

The Manuscript of the *Jodhpur Rajya ki Khyat* in Shri Raghu bir Library Sitamau was naturally made the basic copy of the text to be edited under this research project. This being a faithful copy of the transcript presented to Dr G H Ojha by Kaviraja Murari Dan of Jodhpur it was felt that no useful purpose would be served by trying to collate it with either of the two original manuscripts with the present descendant of Kaviraja Murari Dan which have been noticed by Tessitori (Manuscripts No 3 and 4) in his catalogue. The other manuscript copy of the *Khyat* in private custody at Miragesa (Bali) was not easily available and no further efforts were made to trace it as Tessitori had clearly stated that it is full of many changes made by the copyist in accordance with his own views.

This left only two comparatively older copies in the Jodhpur and the Udaipur Branches of the Rajasthan Prachya Vidya Pratishtan which were made available at Sitamau after all the necessary formalities were completed including signing the prescribed indemnity bond as was previously done for some other manuscripts in the collection of the Rajasthan Prachya-Vidya Pratishtan Jodhpur. Consequently a regular formal application for the *Khyat* was made in November 1973 to Dr Dashrath Sharma who was then the Director of the Pratishtan at Jodhpur. Although initially the Director agreed to loan out the Manuscript to us he later informed us that this would not be possible.

During my stay at Jodhpur I had personally carried out some sample collations of the text of my transcript with that of the manuscript in the Jodhpur Branch and had found that the texts of the two manuscripts were almost the same. Later similar sample collations were done with the text of the manuscript in the Udaipur Branch and it was found that in that manuscript the copyist had taken much more liberty with the text. He had thus not only made many changes in the text according to his own style of writing but had made major changes in the names of people and places. On careful examination of these changes it was found that in quite a few places they were not only uncalled for and arbitrary but they even vitiated the text. Eventually we decided to drop the idea of giving any such variant readings in other text.

Hence the text as found in the manuscript in Shri Raghbir Library Sitarmau was carefully edited and revised to correct the improper groupings of letters of various words written together in the original manuscript. To make it easier for researchers accustomed to working with Christian dates corresponding Christian dates and years of all the Vikrami Samvat years months and tithies in the *Khyat* have been given in the foot notes. The language of this *Khyat* has many Rajasthani words commonly used in Marwar previously but which are now not in use or are somewhat obscure and hence not easily comprehensible. Meanings of such words and phrases have also been given in the footnotes. Flagrant mistakes made by the copyist in reading the figures and some letters of the original text or in noting down the relevant fortnight (*vidi* or *sudi*) have been corrected after full consideration of the sequence of events and their dates and also other evidence from contemporary or primary sources.

In places variant dates of contemporasy sources have been given but it was considered inadvisable to load the footnotes with all possible cross references to all the important existing sources as that would have greatly increased the volume of this edited text.

This *Jodhpur Rajya ki Khyat* is full of so many minor details and long lists of names of persons and places that it was not possible to duly identify the various persons or to ascertain the correct location of each of the places mentioned. In this *Khyat* many

incidents are mentioned which are not to be readily found in any other source material. But they could prove helpful in unearthing many hitherto obscure events which might throw new light on the history and the life of those times.

Every possible effort has been made to make this edition as correct and as useful to historians researchers and all others keen to know about the past of the former ruling dynasty as well as about the former Jodhpur Marwar State up until the death of Maharaja Ajit Singh. The *Akhyat* is full of details and specific figures which are certain to provide much valuable informations regarding society culture and the economic conditions which prevailed at that time in that region. Our efforts will be amply rewarded if its publication will in any way enhance knowledge of that period of Rajasthan history.

---

RAGHUBIR SINGH

### At Kanauj & the Thirteen Sub-Clans

Raja Bharat is said to have established himself at Kanauj after killing Ajaspal Parmar who was then ruling over Kanauj. His son Punj conquered thirteen Parmar principalities and married a daughter of each of these thirteen rulers. Each one of his thirteen sons from these Ranas became the progenitor of a separate sub-clan of the Rathors which are—Danesara, Abhapura, Kapalia, Kura, Jalkhedia, Bugalana, Ahar, Parkara, Chandel, Vir, Variyavir, Khairroda and Jewant. The descendants of Dabiya of Vela constitute the remaining half sub-clan of the Rathors. The sons of Punj conquered many lands and some of them established their own independent principalities. Raja Bijai Chand great grandson of Raja Punj was the father of Jaichand (who was defeated by Muhammad Ghori) whose daughter Samyogita was whisked away by Prithviraj Chauhan during the Rajsuya sacrifice by Jaichand at Kanauj.

### Migration to Rajasthan & the Establishment of Maheva Principality

Rao Siha the son of Rao Setaram and great grandson of Jaichand performed many deeds of great valour in Rajasthan and other adjoining regions but ultimately returned to Kanauj (Dates and details given are historically wrong). His son Asthan along with his brothers had however to leave Kanauj finally due to a family feud and ultimately he settled down at Khed which he conquered from the gohil *bhumias*. His younger brother Sonag established himself at Idar while the youngest brother Aj went down to Dwarka where his descendants are known as Vadbels.

Asthyan was succeeded by Dhuhad who brought the golden idol of the family goddess Chakreshwari from the Karnatak region and set it up in the Nagana village. Dhuhad was succeeded by Raipal Kanh Jalansi Chhada and Tida consecutively to the family heritage of the Maheva region.

After Tida's death there was an interregnum of internal strife and external aggressions. Tida was succeeded by his eldest son Kanhad Dev to the major portion of the family heritage of the Maheva region while Salkha the youngest son continued to live

in a village in the Siwana region Salkha's eldest son Mallinath killed Kanhad Dev and became the ruler of the Maheva region in 1431 V S (1374) His younger brother Viram did not get on with Mallinath and had to migrate to Johiyavati where he was killed in battle

### **At Mandor Establishment of the Rathor Rule in Marwar**

Viram's younger son Chunda, who had spent his early years in great hardship retrieved the fortunes of the family He received Mandor as dowry and extended his rule by conquering neighbouring territories and established the Rathor rule in Marwar on a firm footing and extended the boundaries of his principality to include Nagor Sambhar and Didwana as well Finally Chunda was killed while defending Nagor against invading forces

Chunda's favourite younger son Kanha succeeded him at Mandor but he died before very long Then Kanha's elder brother Satta succeeded to the Mandor gadi but his eldest brother Ranmal drove him out and brought the paternal heritage of Mandor under his own rule

But in the meanwhile Rana Mokal of Mewad son of Ranmal's sister Hansa Bai was assassinated there and her son Rana Kumbha was a minor Consequently at Hansa Bai's bidding Ranmal went down to Chittor and assumed the administrative control of Mewar In the course of time this ascendancy of Ranmal and his Rathor associates in Mewar began to irk the Sisodia nobles of Mewar Rana Mokal's elder brother Rao Chunda who had renounced his claim to the Mewar throne and had gone in self imposed exile had returned to Mewar and he arranged the murder of Ranmal in Chittor Fort Ranmal's younger son Jodha and other Rathor warriors stationed below at the base of the Chittor Fort hill were able to escape from there The pursuing Mewar forces however successfully occupied Mandor and the rest of the territories of Rathor principality

### **Jodha, the Founder of Jodhpur City and the Jodhpur Marwar State**

The Rathor principality of Mandor was under the Mewar occupation and the sons of Ranmal were now fugitives Jodha the

younger son of Ranmal who had successfully escaped from Chittor now took the initiative collected the Rathor forces and repeatedly tried to regain Mandor His efforts were thwarted by continued famine in the Marwar region and Jodha's inexperience in such matters But the constant help and support of Kelan Bhati to Jodha proved a real asset for him Thereby ultimately when he succeeded in regaining Mandor Rana Kumbha of Mewar marched against him with a large army but could not curb Jodha's ever increasing power Therefore some time later Rana Kumbha negotiated peace settlement with Jodha and the boundaries between their territories were duly finalized Thence Jodha returned to Mandor

Jodha laid the foundation of the Jodhpur fort about six miles South of Mandor on Saturday Jyeshtha *sudi* 11, 1515 V S (12 May 1459) and round about it laid out the new city of Jodhpur which was named after himself

Jodha undertook the pilgrimage to Gaya to perform the last rites (*pind dan* etc) of his father Ranmal On his way there at Agra he met Rathore Kanha (Rai Karna) the ruler of Kanauj (Khor) and through him succeeded in getting the pilgrim tax abolished Jodha died in 1489

### **Jodha's Successors**

Rao Jodha was succeeded by his eldest son Satal The Muslim governor of Ajmer invaded Jodhpur territories and in the subsequent Battle of Kosana (Thursday 1 March 1492) Satal was killed though the Muslim forces were routed ultimately Satal had no son so he had adopted one of his younger brothers Suja

Bika one of the other younger sons of Jodha from his Sankhali Rani was brave and very adventurous Even during Jodha's life time he had carved out an independent principality of his own in the Jangalu region He laid the foundations of the present fort of Bikaner on Monday Maha *sudi* 9 1541 V S (24 January 1484) which was completed in four years time The city that grew there was named after Bika himself and called Bikaner

Jodha had given away the various parganas of his own principality to his different sons and brothers Thus he gave the Merta

pargana to his sons Barsing and Duda where Barsing was ultimately succeeded by his younger brother Duda as Barsing's son Siha was a drunkard

Barjang son of Bhim and grandson of Rao Chunda was an important personality of his time who had joined Jodha in his escape from Chittor was severely wounded in the rear-guard action at the Jilwada pass and was taken captive by the Mewar army On being cured he escaped from Chittor married the daughter of Achaldas Khichi of Gagron and joined Jodha who later gave him Rohat in *jegir*. Later he was given Bhavi by Rao Satal just prior to the Battle of Kosana. When Suja ascended the Jodhpur *gadi* at Bajang's instigation Bika invaded and besieged Jodhpur but ultimately Bika is said to have returned without achieving anything.

Rao Suja's eldest son Bagha had died during his lifetime Hence Suja was succeeded by Bagha's son Ganga in Margshirsha 1572 V S (November 1515) Ganga defeated the combined forces of his own uncle Shaikha and Daulat Khan of Nagor in the Battle of Sewaki (Tuesday 11 Nov 1539) Daulat Khan's leading elephant Daryajosh had fled from the battle field to Merta where it was captured by Rao Viram son of Duda of Merta Ganga's son Kunwar Maldev demanded the return of Daryajosh but Viram refused to comply with this demand and instead returned it to Daulat Khan which caused bitter animosity between Viram and Kunwar Maldev Viram's pradhan Muhta Raimal unsuccessfully attacked Ganga's stables at Dholera Thereupon Ganga attacked and occupied Sojat Later Ganga joined Rana Sanga of Mewar in attacking Sultan Muzaffar Shah of Gujurat and reconquered the Idar territories which were restored to the Rathor family there According to some sources Kunwar Maldev treacherously threw down Rao Ganga from a lattice window where he was dozing after having taken opium He subsequently died in 1531

### Rao Maldev Marwar State at its Zenith

Maldev the eldest son of Rao Ganga succeeded to the family heritage of Marwar The Marwar State reached its zenith during his reign He became the most powerful ruler in Northern India and had an army of eight thousand horsemen He had occupied Sojat during his father's life time Soon after becoming the ruler of



him in jagir Maldev had nominated Chandra Sen, his young son, as his heir who therefore succeeded him to the Marwar *gadi*. But before long Chandra Sen estranged the nobles of Marwar who incited his brothers to raid Marwar territories. Udaī Singh was defeated in the Battle of Lohawat. Ram however proceeded to the Mughal Court. The Mughal forces sent against Jodhpur invested and finally took it in 1565 (according to *Akbar Nama* in 1563). Chandra Sen had however slipped out of the fort and gone to Bhadrajun. Thus Jodhpur and much of its territories were under Mughal occupation. Jodhpur was given to Rai Singh of Bikaner in the year 1672-73.

Akbar came down to Nagor in '570 while returning from his pilgrimage to Ajmer. Chandra Sen too waited on Akbar but he returned soon after to Bhadrajun. His eldest son Rai Singh however went into service with Akbar and along with his uncle Udaī Singh and others became Mughal *Mai-sabdar*. Udaī Singh was granted the Samavali *paragana* (in Gwalior *Sarkar* of the Agra *Sabha*) which he duly subjugated and brought under his full control.

Misfortunes however dogged Chandra Sen who never had gone. Mughal forces occupied Bhadrajun early in 1571 and Siwana Fort in 1573. Rawal Har Raj of Jaisalmer forced Chandra Sen's commander to evacuate Pokaran Fort early in 1576. Chandra Sen now became a fugitive and spent some years in Dungarpur region also.

Meanwhile his eldest brother Ram and his son Kalla had died. Hence at the express request of nobles there he returned to Marwar and attacked the Ajmer territories. He was then living in the valley of Sinchai (near Saran) where he died on Wednesday Mah Sud 7 1637 VS (11 Jan 1581).

Rai Singh his eldest son was in the Mughal service and after the death of Chandra Sen when he succeeded him Akbar granted him only the Sojat *pargana*. He too was killed in the Battle of Dattani (Thursday 17 Oct. 1583).

Raja Udaī Singh the second son of Maldev better known in history as the Mota Raja had been in the Mughal service since November 1580 and his family was at his head-quarters at Samavali

Pleased with his continued loyal services in 1583 Akbar awarded him the title of Raja and gave him Jodhpur. He came down to Jodhpur and ascended the *gadi* there on Sunday Bhadrapad *Budi* 12 (4 Aug 1583). Later he was granted Sojat (1584) Siwana (1589) and some other parganas as well. Udaī Singh accompanied Khan Khana (Mirza Khan) in his campaign against the rebellious Muzaffar Shah of Gujerat and had become victorious. Udaī Singh's daughter Mani Bai was married to Prince Salim in the year 1587-88. Early in 1589 Udaī Singh conquered Siwana then held by Katyanmal son of Raimal the younger son of Maldev who had displeased Akbar. In 1593 Udaī Singh was sent in battle against Rao Surtan of Sirohi. But Surtan fled away to the Abu hills and no sooner had the Mughal forces left Sirohi Surtan again became the ruler of that principality.

Udaī Singh died in Lahore after midnight on Ashadh *sudi* 15 1651 VS (Saturday 12 July 1596) and the following morning he was cremated on the banks of the Ravi where many of his ranis committed *Sati*. Akbar witnessed the scene from a boat and later consoled his successor Sur Singh and other members of his family.

At the time of his death Mota Raja Udaī Singh enjoyed a *mansab* of 1500 zat-1500 horsemen. A statement of his income from each of his parganas in *dam* and *rupees* at the time of his demise is given at the end of his account.

Many of Mota Raja's sons or their descendants later became important personalities and some of them established independent Principalities or estates thus an account of all his sons and some of their important descendants have been given in the *Akhyat* after giving full details about his various Ranis.

### **Sur Singh and Gaj Singh**

Sur Singh succeeded to the Marwar principality in July 1595 and was given an initial *mansab* of 2000 zat 1250 horsemen. In course of time it was raised to 5000 at 5000 horsemen. A detailed statement of the various parganas and the number of villages included in each of them along with their income in *damis* and *rupees* is given. In December 1595 he was sent to Gujerat and later in 1599 he was transferred from there to the Deccan where he showed great

bravery in the battle with Malik Ambar on Friday, 7 May 1602 Thereupon Sur Singh was rewarded with the restoration of the Sojat *pargana* and with half of the Merta *pargana*. Some time later he was further rewarded with the grant of the Jaitaran *pargana* and the remaining half of the Merta *pargana*.

After the death of Akbar there were disturbances in Gujarat, so the Mughal Emperor Jahangir sent Sur Singh there in 1606. He proceeded to Mandva to crush Lala Mian (Koli) Mandva was taken but a large number of his Rajputs were slain in the subsequent battle.

Sur Singh was then sent to the Deccan in November 1608. But just then the Mughal forces were campaigning in Mewar as well. Kunwar Gaj Singh then served well in the Godwad region and thus in 1609 regained Sojat which had earlier been given to Karamsen Rathor. In the early months of 1613 Raja Sur Singh was recalled from the Deccan and was sent to assist Prince Khurram in the Mewar campaign. As a reward for these services Sur Singh was granted 14 villages of Chanwiod and 84 villages of Khod in the Mewar territory.

On his way back to Jodhpur early in 1613 when Sur Singh was in Sirohi an effort was made to end the enmity between the houses of Jodhpur and Sirohi caused by the death of Rao Rai Singh and others in the Battle of Dattani by arranging marriages of Kunwar Gaj Singh and many other Rajputs with girls from the Sirohi side.

Bhati Govind Das Manawat was an important person in the regime of Sur Singh who appointed him his *pradhan* (Chief Minister). Govind Das Bhati reorganized the administrative structure of the Jodhpur State on the pattern of the Mughal Empire and similar offices were created in Marwar too. The protocol in the formal *Durbars* of the Rulers of Marwar was also carefully defined and the seats of each group of the nobles was finalized.

In a personal quarrel Bhati Surtan brother of Govind Das Manawat was killed by some Rathors closely related with Kishan Singh of Rupnagar who died or were later killed by Govind Das Bhati. Thereupon Kishan Singh went with a force and killed

Govind Das Bhati in the Jodhpur camp in the early hours of Thursday 25 May 1615. Then Kunwar Gaj Singh collected sufficient forces pursued Krishan Singh and killed him.

The Jalor pargana was given to Kunwar Gaj Singh in 1617 at Ajmer. The Marwar forces then got it evacuated from the Bihari Pathans ruling there and it was included in the Marwar principality.

Sur Singh was sent to the Deccan from Ajmer and there he was posted at the Mehkar Thana (80 m South of Burhanpur) where he was given an idol of Chaturbhuj by Khan Khana who had obtained it in his campaign against Trimbak Nasik. The idol was later installed in the Jodhpur Fort. Sur Singh died at Mehkar on Bhadra Sud 9 1676 V S (Tuesday 7 Sept 1619).

Sur Singh's elder surviving son Kanwar Gaj Singh succeeded him to the Jodhpur principality. He was then granted a mansab of 3000 zat-2000 horsemen. But before very long he was given five *ha-ari mansab*, hence the parganas of Phalodi, Jalore, Sanchor and Merta resumed on Sur Singh's death were all given back to him later. A detailed statement of the full jagir of Gaj Singh as it was in 1630 prepared by the Imperial officers is given in full in the *Akhyat*.

Gaj Singh and his forces played a notable part in the battles against Malik Ambar (1620-22) where the latter was ultimately defeated. Gaj Singh was thus given the title of Dalthambhan (the protector of the army).

In 1622 Gaj Singh made Rani Pratap de Sisodani his patrani whereupon in accordance with the prevailing practice her allowance was doubled to meet increased customary expenses.

When prince Khurram rebelled Prince Parvez was sent with the Imperial forces in battle against him and under Jahangir's order Gaj Singh joined Parvez. In the Battle of Tons or Hajipur-Patna on Kartik Sud 15 1681 V S (Saturday 16 Oct 1624) Gaj Singh and Gordhan Kumpavat were instrumental in ultimately killing Raja Bhim Sisodia a pillar of strength to the rebellious prince. Gaj Singh was rewarded with the final increase in his mansab to 5000 zat-5000 horsemen and the grant of Jalgaon pargana in Berar. Gaj Singh returned to the Deccan where he continued till after the death of Jahangir in October 1627.

Ultimately when Shah Jahan ascended the Mughal throne at Agra Gaj Singh returned to Jodhpur and then went to Agra Shah Jahan duly honoured him by giving him suitable presents and made him his own ardent supporter In 1630 when three separate armies were sent against the rebellious Khan Jahan Lodi from Burhanpur Gaj Singh was appointed the commander of one of these armies which included many important Hindu and Muslim *mansabdars* In the ensuing battle the Mughal forces were victorious though Khan Jahan Lodi escaped

Gaj Singh had accompanied Shah Jahan on his trip of Lahore and Kashmir During his stay in Kashmir on Monday 21 July 1634 Gaj Singh was able to secure Shah Jahan's acceptance of his request that his younger son Jaswant Singh be recognised as his heir-apparent instead of his elder son Amar Singh Later when at Lahore Kunwar Amar Singh paid his respects to the Emperor his *mansab* was increased to 2500 *zat* 1500 horsemen and he was granted five *parganas* in *jagir* with Barod *pargana* as his head quarters Thereupon in February 1635 Amar Singh's mother wives and children all moved down to Barod

Gaj Singh was a generous ruler and gave *lakh pasays* to many note worthy Charans and Bhats He gave away 35 elephants during his entire reign but still had 41 elephants left when he died Many buildings were constructed in Jodhpur under his instructions Thus due to his liberal policies the state treasury became empty and large debts were incurred which were paid off during his successor's reign

Gaj Singh died at Agra on Sunday Jyeshtha *sudi* 3 1694 V S (6 May 1638)

#### Maharaja Jaswant Singh

Jaswant Singh was born at Burhanpur on Tuesday Mah *vidi* 4 1633 V S (26 Dec 1626) Thus when he ascended the Marwar *gadi* on Ashadh *vidi* 7 1694 V S (Friday 25 May 1638) he was still a minor Even so he was given a *mansab* of 4000-*zat* 4000 horse men and granted the *parganas* of Jodhpur Merta Sojat Siwana and Phalodi Rathor Raj Singh Khiawat Kumpawat of Asop who had been the *pradhan* during Gaj Singh's reign was entrusted w th the

control and responsibility of the Marwar principality by Shah Jahan who granted Raj Singh personal *mansab* of 1000 *zat* 400 horsemen as well When Raj Singh died in November 1640 Jaswant Singh appointed Mahesh Das Surajmalot Champawat as his *pradhan* in January 1641 Later when in March 1641 Jaswant Singh arrived at the Imperial Court Shah Jahan duly confirmed his appointment on Monday 5 April 1641 as *pradhan* in place of Raj Singh But on Tuesday 19 July 1612 Mahesh Das was removed from the *pradhanship* By then Jaswant Singh had came of age

Jaswant Singh got his first increase of 1000 *zat*-1000 horsemen on Sunday 13 January 1649 when he was granted the additional *pargana* of Jaitaran Thereafter it was further increased from time to time till it became 7000 *zat*-7000 horsemen before he took leave for Malwa in December 1657 Along with these increases Jaswant Singh was granted more and more *parganas* from either neighbouring regions or from the *Subas* where he was appointed The *parganas* thus granted later were changed from time to time to meet administrative requirements Statements of accounts of his *jagirs* in 1649 and at the time of his death in 1678 have been given There is also a full list of all the *parganas* in all the different *subas* which Jaswant Singh held at one time or another

In 1650 after the death of Rawal Manohar Das of Jaisalmer there was a dispute regarding succession to the Jaisalmer *gadi* Jaswant Singh intervened on behalf of Sabal Singh the rightful heir and with the sanction of Shah Jahan sent his forces against Pohkaran & Jaisalmer Pohkaran was conquered and added to his own principality while Sabal Singh was duly installed at Jaisalmer as the ruler of the Bhatis

On Monday 7 September 1657 Shah Jahan fell seriously ill at Delhi and when he recovered he proceeded to Agra by boat But this illness aroused the ambitions of the three younger princes stationed in Bengal Gujerat and the Deccan to take over the Imperial throne Raja Jai Singh was sent in battle against Shuja while Jaswant Singh along with nobles was sent to stop Aurangzeb and Murad Bakhsh Jaswant Singh arrived at Ujjain on Wednesday 13 January 1658 Ultimately he took his position at the village Chor Narina (later renamed Fatehabad) to face the combined

forces of Murad and Aurangzib which had also camped nearby (at Dharmat) In the battle fought on Friday Baisakh *vidi* 9 1714 V S (16 April, 1658) Jaswant Singh was wounded and the Imperial forces were defeated Jaswant Singh was forcibly led away from the battle field There is a list of the leading Mughal *mansabdars* killed in this battle The list of the nobles and other noteworthy personages in the Marwar contingent killed in this battle is very exhaustive and gives details of their holdings etc

After giving a summary account of the Battle of Samugarh near Agra (Saturday 30 May 1658) a full list is given of the Imperial *mansabdars* *tabindars* of Dara Shikoh and the leading noblemen of Raja Rup Singh of Kishangarh killed in this battle

Dara Shikoh fled towards Lahore while the combined victorious forces arrived at Agra Shah Jahan was forced to give up control of the Agra Fort to Aurangzib's men They then proceeded against Dara On the way near Mathura Murad was imprisoned

Aurangzib had sent a *farman* of conciliation to Jaswant Singh from Agra therefore Jaswant Singh sent Mahesh Das Surajmalot Kumpawat to Aurangzib (on Monday 12 July 1658) and secured necessary assurances through him Then on Monday Bhadrapad *vidi* 13 1715 V S (16 Aug , 1658) Jaswant Singh waited on Aurangzib (in his camp on the bank of the Sutlaj river) He was asked to go back to Delhi and await his return there Later Jaswant Singh joined Aurangzib in his campaign against Shuja in the east the opposing forces came face to face near Kora (at Khajwah) Jaswant Singh was assigned to take his place in *chandawal* (rear guard) in the battle on the following day But suspecting foul play sometime after midnight of Mah *vidi* 5 1715 V S (Tuesday 4 January 1659) Jaswant Singh fled and returned to Jodhpur

Aurangzib was victorious in his battle against Shuja and then granted Jodhpur to Rao Rai Singh the son of Rao Amar Singh and sent him along with a force headed by Muhammad Hmin Khan to enforce the transfer of Jodhpur to Rai Singh In the meantime Dara Shikoh had arrived in Gujrat and made overtures to Jaswant Singh to join him against Aurangzib To wean Jaswant Singh away

from Dara's cause Aurangzib made Mirza Raja Jai Singh his interm diary Jaswant Singh was assured about the restoration of his *mirab* and *watan* (home land) on Wednesday 9 March 1659 so he returned back towards Jodhpur and left Dara to his own fate Dara was defeated in the Battle of Deorai (11-14 March 1659) and he fled towards Gujarat

Jaswant Singh received the letter of his appointment as Governor of Gujarat on Wednesday 16 March 1659 and two days later he started for Ahmedabad directly from Jodhpur Two and a half years later on Monday 4 November 1661 he received orders about his being transferred to Aurangabad

Shaista Khan had been sent against Shivaji (in July 1659) and Jaswant Singh was sent to assist him there He arrived in Poona on Wednesday 26 February 1662 His stay coincided with Shivaji's attack on Shaista Khan during the early hour of the night of Sunday 6 April 1663 As a result Shaista Khan was transferred to Bengal Prince Muazzam who replaced Shaista Khan in the Deccan stayed on at Aurangabad Jaswant Singh was thus in sole charge of the affairs at Poona His seige of Kondana (November 1663-May 1664) proved a fruitless and costly venture

Jaswant Singh was recalled to Delhi (3 March 1665) and there Aurangzib bestowed favours on him His eldest son Prithvi Singh was called to the Imperial Court He arrived in Delhi on Friday 7 July 1665 and received favoured treatment from Aurangzib

Mirza Raja Jai Singh had succeeded in persuading Shivaji to visit Agra Kunwar Ram Singh of Amber escorted Shivaji to the Imperial Court But his cold reception as well as the official protocol followed there was wholly unexpected as far as Shivaji was concerned The entire plan misfired and a large force was stationed around Shivaji's residence at Agra But in spite of all this he escaped from there and in due time returned safely to his capital in Maharashtra This discredited Jai Singh in Aurangzib's eyes so once again Jaswant Singh was appointed in the Deccan along with Prince Muazzam

Jaswant Singh left Delhi on Sunday 24 March 1667 for the Deccan His son Kunwar Prithvi Singh remained in attendance

## Summary

at the Imperial capital But early in May 1667 he fell ill with small pox and died a few days later an event which greatly saddened Jaswant Singh

Jaswant Singh became the intermediary in bringing about a peace settlement between Shivaji and the Mughal Empire in October 1667 whereupon Shivaji sent his son Shambhaji to Aurangabad to wait on Prince Muazzam

In July 1671 Jaswant Singh was appointed the Governor of Gujrat for a second time But he did not remain in that office for long and when in the middle of 1672 Muhammad Amin Khan was appointed the Governor of Gujrat Jaswant Singh was ordered to remain for the time being in the Mahi Kanta region Later when in the year 1673 he was ordered to proceed urgently to the Kabul province he did not even go to Jodhpur En route Peshawar he camped at the Guda village 8 m S E S of Jodhpur on Diwali (Wednesday 29 October 1673) where his second son Kunwar Jagat Singh and the Ranis joined him

Jaswant Singh finally crossed the Kohat river on Tuesday, 24 February 1674 and camped at Peshawar On the following day his men took their posts at Jamrud at the mouth of the valley Shujaet Khan who was specially sent to punish the Afghans entered the pass a day later and when he was trying to cross the Kharapa pass on Monday 2 March 1674 he was killed fighting the Afghans and many of Jaswant Singh's forces were also killed that day Even thereafter there were constant skirmishes between his forces and the Afghans

During Jaswant Singh's reign there were a good many incidents involving the Bhatis of Jaisalmer or other neighbouring clans and Marwar forces had to be sent against them Similarly internal disturbances were also duly put down

In the year 1667-8 grazing taxes on camels cattles buffaloes goats and sheep were uniformly levied throughout the Empire and Jaswant Singh was permitted to levy this tax and retain the sums thus collected The levies called *ghasmari* and *charal* were thus imposed in the principality from then onwards

In January 1670 when orders were issued by Aurangzib for the demolition of the Mathura temples the Gosains of the Gordhan Nath (Shrinath) temple in Gokul (Goverdhan) decided to shift the idol elsewhere. They took it to Jodhpur and kept it at Kadam Khedi (Chopasani ?) and then at Patodhi village but finding the region unsafe the idol was finally taken to Mewar where it was installed at Sihad (now Nathdwara).

The famous historian Muhnot Nainsi and his brother Sundarsi were imprisoned for the second time in December 1669 and later were sent from Aurangabad to Jodhpur. En route they both committed suicide on Bhadrapad *vidi* 13 1727 V S (Wednesday 3 August 1670)

Jaswant Singh's second son Jagat Singh too died at Peshawar on Chaitra *vidi* 30 1732 V S (Saturday 4 March 1676). Jaswant Singh too did not survive for very long and he died at Peshawar on Thursday Paush *vidi* 10 1735 V S (28 November 1678) in the garden of Bundela Puranmal where he had been camping all along. He died childless but both of his Rani's with him at Peshawar were pregnant at that time.

Detailed lists of various *pradhans* *desh diwans* and such leading ministers during Jaswant Singh's reign have been given with specific dates regarding the period of their office. A complete list of Jaswant Singh's Rani's and his progeny has been given along with important dates relating to them.

### Rao Amar Singh of Nagor

Though he was disinherited by Raja Gaj Singh from the Jodhpur *gadi* Rao Amar Singh of Nagor and later his descendants continued to figure in history and so their brief accounts have been given here in this *khayat*.

On Gaj Singh's death Amar Singh was granted the title of Rao the Nagor *pargana* and his *mansab* was increased ultimately to 4000 *zat*-3000 horsemen. On Sunday 9 October 1642 there was a major border incident between the principalities of Nagor and Bikaner in which forces of Amar Singh were defeated. This animosity ultimately resulted in the murder of Salabat Khan by

Amar Singh in Shah Jahan's presence at Agra on the evening of Thursday Shrawan sud 2 1701 VS (25 July 1614) Amar Singh was immediately killed by the nobles present including Arjun Gaud Amar Singh's retinue then attacked and got killed by the Mughal forces present there Two of his Ranis and five others committed *sati* in Agra the next day There was another battle at Amar Singh's camp in Agra in which Rathor Ballu Champawat led Amar Singh's forces to face the Mughal forces under Said Khan was defeated and killed with many others

Amar Singh's elder son Rai Singh joined the Imperial service in January 1615 and was given some parts of Nagor in *Jagir* He showed great valour in the Battle of Kora (Khajwa) for which he was duly honoured and rewarded He was to be installed at Jodhpur early in 1659 but as ultimately Jaswant Singh did not join Dara in his Deori (Ajmer) campaign this order was cancelled Rai Singh however again fought bravely in the Battle of Deori His *mansab* had been increased to 4500 (4000) *zat*—4000 horsemen and he had been given the title of Raja and the entire *pargana* of Nagor was in his *jagir* He was sent to the Deccan with Raja Jai Singh He continued to serve in the Deccan and died at Ped Sholapur on Monday Ashadh sud 12 1732 (29 May 1676) Some days soon after the warriors in the pay of the deceased Rai Singh fought bravely in the Battle (of Alibad Indi) on the banks of the Bhima river On the recommendation of Bahadur Khan Rai Singh's only son Indra Singh was granted suitable *mansab* and the Nagor *pargana*

### The Early Years of Ajit Singh and the Thirty Year's War

When Maharaja Jaswant Singh died childless at Peshawar his two Ranis who were with him there were both pregnant hence the question of his successor was kept pending until the birth of the two children Mughal officers were however sent to Jodhpur to take over the Jodhpur fort and the administrative control of the Marwar principality

The two Ranis of Jaswant Singh along with his Marwar nobles officers and other cortège left Peshawar on Tuesday Mah sud 13 1735 VS (14 Jan 1679) When they arrived at Lahore on Saturday 15 February 1679 the Narukti Rani began to feel labour

Jodhpur Rajya Ki Khyat

Pairs so they all halted at Lahore. There in the early hours of Wednesday Chaitra 14/15 V S (20 February 1679) the Jadam Rani prematurely gave birth to a son when only in the seventh month of pregnancy who was later named Ajit Singh. About 40 minutes later the Naruki Rani too gave birth to a son later named Dalthambhan. The news reports were duly sent to Jodhpur as well as to the Mughal Emperor Aurangzib then at Ajmer. The hopes of the Rathors were aroused but Aurangzib was not deterred by this new happening and continued his determined policy of bringing Marwar under his direct rule. The Rathor party escorting the two Rani's and their infant Princes arrived in Delhi and camped in the Jodhpur pargana along with the title of April 1679. But when the Jodhpur Haveli had to be Raja was granted to Indra Singh the grandson of Rao Amar Singh on Monday 26 May 1679 the Jodhpur Haveli had to be evacuated and the Rathor party shifted to the Rupnagar Haveli.

It became obvious that Aurangzib had evil intentions towards the infant Princes. The Rathor nobles began to leave Delhi in small parties. In one such party the two infant Princes were secretly sent away with the family of Mohakam Singh Rathor under the care of Mukund Das Khichi. Dalthambhan the younger Prince died on the way. Ajit Singh was taken to the Kalindri village in the Sirohi State and entrusted to the care of Jai Dev a Pushkarna Brahmin and his wife while Mukund Das Khichi was in constant attendance on him. Thus Ajit Singh was brought up in complete obscurity.

In Delhi the fictitious story of the two Princes being there was kept up. Thus when ultimately Aurangzib demanded that the two Princes be sent down to the Imperial harem the final show down came about on Wed 16 July 1679. The Rupnagar Haveli was closely surrounded but with their wild charge the Rathors broke through the cordon of the Imperial forces and seizing this opportunity Durga Das Rathor and a strong band of devoted horsemen slipped out along with the two Rani's who were on horse back dressed in men's clothes. Still there was bitter fighting and ultimately Chandra Bhan Jodha had to cut off the heads of the two Rani's before he too fell fighting.

A close search was made in the Rupnagar Haveli and its neighbourhoods and some one's child was presented to Aurangzib.

as the infant Prince who was named Muhammadi Raj He was brought up with much care but after many years he died

The fugitives from the Jodhpur party then in Delhi arrived in Marwar on Wednesday 23 July 1679 and as the news of their successfully smuggling Ajit Singh out of Delhi spread opposition to the Mughal domination over Marwar grew Indra Singh arrived at Jodhpur and entered the fort there with great pomp and show on Tuesday 2 September 1679 But some of his acts during the following period estranged many of those who had favoured him earlier The resentment against Indra Singh and the Mughal officers rapidly increased and there began a Thirty Years War in Marwar led by Durga Das Rathor Sonag Udaibhan and some others

Maharana Raj Singh of Mewar allied himself with these rebellious Rathors Hence Aurangzib then at Ajmer began his campaign against Mewar in November 1679 In the Marwar region too there were many skirmishes between the opposing forces In the Battle of Khetasar (6 m S W of Osian) fought on Tuesday 1 June 1680 Durga Das Rathor and his associates defeated Indra Singh's forces Later Muqarrab Khan joined Indra Singh in his pursuit of the rebel forces and Durga Das Rathor but to no effect

In September 1680 Prince Akbar and Tahawwar Khan with a formidable army were sent against Mewar (on the Godwad front) In the meanwhile on Friday Kartik sud 10 1737 V S (22 October 1680) Maharana Raj Singh of Mewar died and he was succeeded by his son Jai Singh Then in November 1680 Durga Das Rathor and his associates returned from Mewar to Marwar Negotiations between Prince Akbar and the Rathor rebels were soon completed Durga Das Rathor and his associates agreed to back Prince Akbar in securing the throne of the Mughal Empire for him

Prince Akbar proclaimed himself Emperor and on Monday 3 January 1681 he honoured the Rathor leaders with grants of robes etc Then he marched out against Aurangzib who was at Ajmer and arrived at the village of Budhwada about 3 m (22m) away from

Ajmer But Aurangzib's deceitful letter and Tahawwar Khan's nocturnal visit to Aurangzib made the Rathors suspect treachery and that very night they galloped off to Marwar Next morning Akbar too rode away in their tracks The Rathors however rejoined him later and took him under their protection

Inayet Khan the *faujdar* of Ajmer arrived in Jodhpur on Vaisakh sudi 10 1737 VS (Sunday 17 April 1681) and the family of Rao Indra Singh returned to Nagor

The female companions of Akbar were left at Barmer with proper security arrangements Then taking Prince Akbar with him Durga Das Rathor proceeded to the Deccan When they reached Shambhaji's domain they were well received Akbar Durga Das Rathor and the party was cantoned at Padishahpur (26 m N of Rajgarh) Kavi Kalash pleaded the cause of Akbar from the very beginning In the last months of 1781 Shambhaji came down to Padishahpur and met them both there

When Aurangzib learnt that Akbar and Durga Das Rathor had joined Shambhaji in the Deccan he made peace with Maharana of Mewar and marched down to the Deccan Asad Khan the Wazir was left behind to negotiate a settlement with the Rathors through Raja Bhim Singh brother of Maharana Jai Singh of Mewar Negotiations began and a meeting of Sonag Rathor and other Rathor leaders with Asad Khan was arranged but Sonag died suddenly on his way to this meeting and the settlement talks fizzled out The rebellious Rathors began their offensive once again and this desultory warfare continued for many years The Mughal officers or the Rathor nobles who sided with them had quite a difficult time and many important Mughals like Bahlool Khan Purdi Khan and Nur Ali were killed fighting the rebels during the years to come

In the Deccan Durga Das remained with Prince Akbar and fought some battles with the Mughal forces the most important one being the hardfought Battle of Nimgaon on the banks of the Bhima river some time in 1686 in which the Mughal forces were victorious in spite of the heavy losses to the Rathor contingent under Durga Das Rathor Ultimately in utter despair Akbar made definite arrangements to proceed to Persia Then Durga Das

Rathor bid him farewell on Wednesday 26 January 1687 and began his return journey to Marwar

Ajit Singh was growing up in hiding in the Sirohi region under the watchful eye of Khichi Mukund Das who had been strictly instructed by Durga Das Rathor not to bring him out of hiding till after his own return to Marwar. But the leading Rathor legitimist nobles had for some time been pressing Khichi Mukund Das to bring Ajit Singh out of hiding. Letters had been sent to Durga Das Rathor in the Deccan about this request but nothing definite was known about his return to Marwar. Hence Khichi Mukund Das felt irresistably compelled to accede to the wishes of the Rathor nobles in Marwar and on Baisakhi *udi* 5 1743 V S (Wednesday 23 March 1687) Ajit Singh was produced before the assembled nobles at Parli (6 m N of Abu). Later Ajit Singh went and worshipped at the temple of Naganecha the family deity.

Ajit Singh's appearance in public gave the nobles as well as the people of Marwar fresh hopes and great enthusiasm. When Inayat Khan learnt about this he came to an understanding with the Durbar settled the *chauth* to be paid by all the villages and gave away Siwana to Ajit Singh. Then Ajit Singh made the Siwana Fort his head quarters. This brought relief to the Mughals.

While returning from the Deccan Durga Das learnt about Ajit Singh having come out of hiding. He was greatly upset and after raiding the Mughal territories of Malpura and others he went to Bhimarlai where his family was residing and finally went to Barmer to pay his respects to Shahzada Surtan the son of Prince Akbar. But as Durga Das Rathor did not go to meet Ajit Singh the latter himself went to Bhimarlai met Durga Das Rathor and honoured him with robes. Thereafter Durga Das Rathor led the Rathor forces in raiding the Mughal territories.

Kartalab Khan later titled Shujaet Khan the Governor of Gujrat was appointed *sajdar* of Jodhpur after the death of Inayat Khan. But finding it impossible to curb the legitimist Rathor forces Shujaet Khan let them collect the *chauth* but only on the sly.

At the express request of Maharana Jai Singh of Mewar Ajit Singh sent Durga Das Rathor to Mewar where he brought

about conciliation between the Maharana and his heir Amar Singh and then left Mewar in 1692 to resume his raiding activities

Early in 1693 Sifi Khan the Governor of Ajmer tried to allure Ajit Singh to Ajmer with a promise to effect a settlement with him after personally discussing details of his *jagir parganas* in lieu of his proposed *mansab* but Ajit Singh sent Mukund Das ahead to Ajmer and himself remained in camp in the hills away from Ajmer During Ajit Singh's absence Siwana was captured by Sujan Singh Rathor and all later efforts to retake it failed

Differences between Maharana Jai Singh of Mewar and his heir apparent b came acute once again Ajit Singh was personally invited to Mewar to settle them Ajit Singh went to Udaipur where on Ashadh *vidi* 7 1752 V S (Thursday 11 June 1696) he was married to the daughter of Kunwar Gaj Singh the younger son of Maharana Jai Singh Ten days later Ajit Singh returned to Marwar after bringing about the reconciliation between the Maharana and his heir apparent

Aurangzib had always been keen to have the children of Akbar then in the custody of Durga Das Rathor returned to him So Narayan Das Kulambi of Patan (Gujrat) was deputed in 1694 to Durga Das Rathor for this purpose with a promise of a grant of *mansab* to him but Durga Das insisted that Ajit Singh should be given the *mansab* first and then alone could he accept one Some time later Aurangzib instructed Shujat Khan to negotiate in this respect Thereupon details were decided about the *mansab* of Ajit Singh Durga Das Rathor and some others The negotiations having thus been duly concluded Durga Das Rathor personally escorted Sultan (Shahzada Buland Akbar) to Aurangzib A list of the *mansab* granted to Durga Das Rathor and others along with the details of the *jagirs* to Durga Das Rathor and his relatives are given in the *Khvat* Mukund Das Champawat Rathor was given Pali in *jagir* in lieu of his *mansab*

Ajit Singh received a *mansab* of 15 000 zat-500 horsemen and the *jagir* as well as the *faujdaris* of the Jalor *pargana* which were granted to him Consequently Ajit Singh proceeded to Jalor and made it his headquarters some time later in June 1698

The *pargana* of Merta then in Durga Das Rathor's *jagir* was resumed and instead he was given the *pargana* of Patan (Gujrat) of which he was appointed *faujdar* as well. Prince Azam was then the Governor of Gujrat. He sent a message to Durga Das Rathor to meet him at Ahmedabad on Kartik *sudi* 12 1762 V S (Thursday 18 October 1705). Accordingly he arrived near Ahmedabad a day before but on being informed of suspected treachery at Azam's Court he fled on the appointed day and though pursued by Mughal forces Durga Das Rathor was able to escape.

Once again the Marwar Mughal war activated Kunwar Mohkam Singh the son of Rao Indra Singh of Nagor then the *faujdar* of Merta conspired with Rathor Udaip Singh Champawat, a confidante of Ajit Singh and marched on Jalore to capture it along with Ajit Singh. But Ajit Singh was cautioned in time to escape from Jalore. Later he regained Jalore and began to create disturbances in the Mughal territories all around.

When he was thus roaming around in the Surachand area on Chaitra *sudi* 2 1763 V S (Sunday 9 March 1707) Ajit Singh learnt about Aurangzib's death and he immediately rushed towards Jodhpur where he arrived three days later and established himself there.

Durga Das too had rebelled when in November 1706, Prince Bedar Bakht sent a force to Patan against him. He too came down to Jodhpur Ajit Singh welcomed him and pressed him to become the *pradhan* but he declined and went away to Udaipur. Some dissatisfied nobles put forth a pretender Dalthambhan to oppose Ajit Singh. But this move failed and the pretender was murdered in Jodhpur on Thursday 17 June 1708.

In 1707 Ajit Singh punished many offenders in Jodhpur including Joshi Girdhar Raghunath Sanchora Vyas Har Kishan Harwanish Shrimati and Purohit Harram Pobkarna.

In December 1707 Ajit Singh sent his *pradhan diwan* and others to Bahadur Shah. But Bahadur Shah had no intention of giving the *parganas* of Jodhpur and Merta to Ajit Singh. Thus Ajit Singh had to prepare to fight Bahadur Shah was keen to avoid any

confrontation so through Khan Khana he persuaded Ajit Singh to come to him on his way to Ajmer. Ultimately Ajit Singh paid homage to Bahadur Shah on Monday 16 February 1708 and then accompanied him to Ajmer. Thence Bahadur Shah had to proceed to the Deccan to suppress the revolt of his youngest brother Kambakhsh.

Durga Das Rathor had also come to the Imperial Court. When pressed to make a submission about his *mansab* he declined to do so till after the grant of the *mansab* to Ajit Singh.

Ajit Singh and Sawai Jai Singh of Amber were ordered to accompany Bahadur Shah to the Deccan. Durga Das Rathor too joined them in this march to the Deccan. Ultimately en route Ajit Singh was granted a *mansab* of 3 500 *zat*-4 000 horsemen (on Wednesday 14 April 1708). *Mansabs* and *jagirs* were granted to his three sons also. But the Jodhpur *pargana* was not granted to Ajit Singh. Instead Mihrab Khan was sent to Jodhpur (as its *faujdar*).

Consequently when the Imperial camp was at Mandsaur Ajit Singh held consultations with Sawai Jai Singh and Durga Das Rathor and when on Tuesday 20 April 1708 Bahadur Shah had marched off to the next halt Ajit Singh Sawai Jai Singh and Durga Das Rathor left the Imperial army and from Mandsaur they returned post haste to Rajasthan via Deolia (Partabgarh).

Maharana Amar Singh of Mewar welcomed them all at Udaipur and on Monday 10 May 1708 Sawai Jai Singh was married to the daughter of Maharana Amar Singh. Later when Ajit Singh and Jai Singh left Udaipur Mewar forces were also sent with them to assist them both. The combined forces of the three principalities first besieged Jodhpur which was peacefully surrendered and on Shrawan 13 1765 V S (Sunday 4 July 1708) Ajit Singh entered Jodhpur and ascended the throne. Later within a fortnight Rathor Mukund Das Champawat the *pradhan* and his brother were murdered under instructions from Ajit Singh in the palace kitchens of the Jodhpur Fort.

Sawai Jai Singh's diwan Ram Chandra Muhta had already taken possession of Amber. But now Ajit Singh Sawai Jai Singh

and Durga Das along with their combined forces moved on to Sambhar and besieged that town. The combined forces of various Sayyad saujdars moved on towards Sambhar. In the fateful Battle of Sambhar on Sunday 3 October 1708 all the leading Sayyad commanders were killed and the Rajputs gained a major victory and from that time the Sambhar *pargana* as well as all the gains from the Sambhar Lake were divided equally between the Jodhpur and Amber (Jaipur) principalities. From Sambhar Durga Das Rathor was deputed by both the rulers to Udaipur to request Maharana of Mewar to join them with his Mewad forces. He was received by Maharana with due honours. Durga Das Rathor however did not return to Marwar thus he began his self imposed exile for the rest of his life.

Ultimately, Ajit Singh was re granted his *mansab* and he finally settled down in Jodhpur (Thus in 1708 the Thirty years War in Marwar ended)

#### Ajit Singh the Ruler of Marwar

Thus firmly established at Jodhpur Ajit Singh invaded Nagor in November December 1708 and ultimately Rao Indra Singh paid homage to him and he was pardoned. Ajit Singh then marched against Ajmer besieged it and extracted money.

The list of the *pradhan*, *diwan* and other high officers of the Marwar State during years 1708 to 1709 is given and the changes made from time to time are recorded. Changes in some leading Jagir holders have also been mentioned.

After the defeat and death of Kam Bakhsh when Bahadur Shah returned to Northern India he came down to Rajasthan in particular to settle the affairs of the rebel rulers there. Ajit Singh and Sawai Jai Singh met him near Ajmer and later at Ajmer *mansabs* were granted to them and their sons on Saturday 17 June 1710.

The following year when summoned by Bahadur Shah to Sadhaura (22 m E of Ambala) to Join the campaign against Banda the leader of the Sikhs Ajit Singh arrived there on Monday 8 October 1711 and stayed till Thursday 22 December, 1711. Bahadur Shah had already gone to Lahore so Ajit Singh could not

meet him but on Saturday 10 November 1711 he was granted a *mansab* of 4 000 -at-4 000 horsemen and also the *faujdari* of Sorath (Gujrat) Ajit Singh returned to Jodhpur after a bath in the Canges at Haradwar \*

Bahadur Shah was succeeded by Jahandar Shah Later when Farrukhsiyar backed by the Saiyyads of Barha marched against Jahandar Shah Ajit Singh did not respond to the latter's call for help Bhandari Bijairaj who was however sent to watch the contest ultimately returned to Jodhpur after having paid homage to Farrukhsiyar

Ajit Singh continued to wreak his vengeance against all those who had sided with the Imperialists in bygone decades The sons of Sujan Singh Jodha Rathor of Pisangan Jainia were treacherously murdered Kunwar Mohkam Singh of Nagor was murdered in Delhi while his younger brother Mohan Singh was assassinated en route Delhi

Farrukhsiyar was displeased with Ajit Singh hence Saiyad Hussain Ali was sent with a large army to invade Marwar (January 1714) Ajit Singh too collected a considerable force but he was keen to avoid confrontation and first deputed his *pradhan* and some others Later when Bhandari Khimsi was sent he finalized a settlement (May 1714) whereby it was agreed (1) to give Ajit Singh's daughter Indra Kunwar in marriage to the Emperor (2) to keep Kunwar Abhai Singh at the Imperial Court and (3) to grant the Thatta *Suba* to Ajit Singh Later on when Ajit Singh was greatly pressed instead of the Thatta *Suba* he was granted the Gujrat *Suba* (December 1714)

The marriage of Indra Kunwar with Farrukhsiyar was solemnised at Delhi (on Wednesday 7 December 1715) Bhandari Khimsi the *pradhan* acted as the main representative on the bride's side in the Jodhpur camp

Ajit Singh was the governor of Gujrat upto May 1717 when he was removed and returned to Jodhpur But in Delhi the relations

\* Additional details from *Kamkar* II pp 348-9 Akh Bahadur Year IV pp 111 2 Years V-VI—part II pp 415 449 546 567-8

between Farrukhsiyar and Sayyad Abdullah Khan had worsened. Hence at the call from Farrukhsiyar Ajit Singh arrived in Delhi and paid his homage to the Emperor on Thursday 21 August 1718. He was greatly honoured given presents the title of 'Rajtajeshwar' and two increases in *mansab* in quick succession each time 1 000 horsemen being made *do aspa* (with two horses). Still Ajit Singh sided with Sayyad Abdulla. This greatly enraged Farrukhsiyar and he tried unsuccessfully to kill Ajit Singh more than once.

Sayyad Hussain Ali too returned to Delhi from Deccan with a large army. The Sayyads secured the control of the Red Fort Palace and then on Wednesday 18 February 1719 Farrukhsiyar was made a prisoner and deposed. He was murdered some time later, when the widowed Indra Kunwar was sent back to Jodhpur where she committed suicide.

Rafi ud darajat and Rafi ud daula were enthroned in quick succession. When the latter also died Muhammad Shah was installed as the Emperor on Saturday 19 September 1719. At that time, Sayyad Abdullah wanted to invade Amber but Ajit Singh intervened to bring about a settlement between the Sayyads and Jai Singh and then returned to Jodhpur.

Ajit Singh was once again appointed the Governor of Gujarat but this time he sent Anup Singh Bhandari as his deputy to Ahmedabad who got Seth Kepur Chand Bhansali murdered.

When Nizam ul mulk was victorious in his battles against Sayyad Dilawar Ali and Sayyad Alim Ali Sayyad Hussain Ali marched south against the Nizam along with the Emperor Muhammad Shah. But Muhammad Shah conspired to get Sayyad Hussain Ali murdered by Haidat Beg. The Mughal army now headed by Muhammad Shah marched back towards Delhi. Sayyad Abdullah marched out and in the ensuing battle of Hasanpur he was defeated and captured.

When Ajit Singh learnt about the end of the Sayyad domination and particularly about the imprisonment of Sayyad Abdullah he was greatly enraged. He had been granted the Ajmer *suba* also in October 1719 and so some time early in 1720 he went to Ajmer settled down there and began to send out the Marwar forces

under Kunwar Abhai Singh and others to create disturbances in the Mughal territories. Thereupon Muhammad Shah summoned him to the Imperial Court but he did not come to Delhi. He however pressed for the end of the *Jiya* tax which was finally abolished by the end of November 1720.

Ajit Singh's defiant attitude became greater after his removal from the *faujdaris* of Gujarat in May 1721. Thus in September 1721 he was removed from the Ajmer *suba* also but there was much difficulty and great delay in getting Ajmer away from Ajit Singh. Ultimately when in April 1723 the Ajmer *suba* was granted to Haldar Quli he along with Sawai Jai Singh and others advanced towards Ajmer. Ajit Singh first made a show of resistance but ultimately evacuated Ajmer and later returned to Jodhpur. An agreement was arrived at with Ajit Singh in July 1723 whereby 13 *parganas*, then under Ajit Singh were taken away from him and Kunwar Abhai Singh was to be sent to the Imperial Court. The Nagor *pargana* was once again regranted to Raja Indra Singh Rathor the grandson of Rao Amar Singh Rathor by the end of May 1723.

Kunwar Abhai Singh left (later in 1723) for Delhi where he gained great favour with Muhammad Shah. At the instigation of Sawai Jai Singh Abhai Singh instructed his younger brother Bakht Singh to murder their father Ajit Singh. Accordingly on the night of Tuesday Ashadh *sudi* 13 1780 VS (23 June 1724) Bakht Singh murdered Ajit Singh.

Detailed lists of Ajit Singh's *Ranis* and his progeny are given at the end of the *Khyat*.

---

## ओउम्

### अथ राठोडा री वशावली प्रारम्भ

थो जलधरनाथ जी सत्य द्य

अथ राठोडा री वशावली लिख्यत । उत्तन<sup>1</sup>, कूवण देश<sup>2</sup>, गढ कल्याणी<sup>3</sup>

1 उत्तन—उत्तन ( $19^{\circ} 36'$  उ०  $75^{\circ} 47'$  पू०) वतमान याणा जिले मे सालसेट टापू का एक छोटा बदरगाह । वा गे 14, पृ 372, 418 419 ।

2 कूवण देश—काकण देश । दमन गगा नदी से दक्षिण म पश्चिमी धाट और समुद्र तट के बीच का समतल क्षेत्र बौवण देश वहलाता है, जिसमे बम्बई और याणा जिले भी गिन जात है । वा गे, 1 2, पृ IX ।

इस क्षेत्र पर लगभग 810 ई से लकर कोई साडे चार सौ वर्ष तक शिलारा घराने का आधिपत्य रहा था, परंतु ऐ स्थानीय शासक इसा की 10वी सदी मे लगभग अल तक मानवेड अयवा मायखेट के राष्ट्रकूटो के आधीन रहे । वा गे, 1 2, पृ 15 16 22 13 2, पृ 434 435 ।

3 गढ कल्याणी—बीदर जिले म प्राचीन नगर ( $17^{\circ} 53'$  उ०  $76^{\circ} 57'$  पू०) जिसकी स्थापना सोमेश्वर चालुक्य ने इसा की 11वी सदी के मध्य म बी थी । वा ग, 1 2 पृ 215 ।

मायखेट (मालखड) के राष्ट्रकूट राज्य के पतन के बाद भी उस क्षेत्र म राष्ट्रकूट घरानो का महत्व बना रहा । कल्याणी के चालुक्य राज्य के सामता अयवा स्वाधीन शासको के रूप म उनके अनवा उल्लेख मिलते है । कण्ठिक म तव मोदिति के रटठ (राठोड) शासको की विभिन्न शाखाए विशेष रूप से उल्लेखनीय है ।

## परणोटव पद्म वनवज्रे द्वी वभीजिया बहाए ।

- 1 शादनारायण
- 2 यद्या
- 3 मरीच
- 4 वसिष्ठ
- 5 सूरज<sup>१</sup>
- 6 मनु<sup>२</sup>
- 7 ईश्वार
- 8 विकुञ्ज
- 9 पुरजय तिको बावमथ बहाया

1 वनवज्र—वभीज उत्तर प्रदेश मे ऐतिहासिक नगर ( $27^{\circ} 3' \text{ उ} 79^{\circ} 56' \text{ पू}$ ) जो मौर्यरियो तथा हप वे बाद भी वई शतियो तक उत्तरी भारत के विस्तृत साम्राज्य की राजधानी रहा ।

बदायू के राष्ट्रकूट शासक गोपाल ने अक्षय ही सन् 1080 ई मे लगभग वभीज पर शासन किया था परन्तु कुछ समय बाद चाह्देव गाहड़वाल ने सार पचाल देश पर अधिकार कर वभीज को अपनी राजधानी बनाया । यत वभीज पर तदनातर राष्ट्रकूटा (राठोड़ा) का कब भा आधिपत्य नहीं रहा ।

जयचंद गाहड़वाल को भ्रातिकश राठोड मान कर जब वशावलिया म सीहाजी के पिता सेतुराम का जयचंद के वशज के हप म सम्बद्ध कर लिया गया तब राठोड वभीजिया बहलाने लगे ।

2 सूरज—विवरत जिसकी सतान 'सूर्यवशा बहलाई । पार्जिटर ट्रैडिशन पृ 288-289 ।

3 मनु स लेकर (90) राजा वृहदवल तक की यह सारी वशावली पुराणों म दी गई अग्रोध्या के इक्षवाकु राजवश की सूची से ही उढ़त की गई जान पड़ती है । यथन्तत्र एकाध नाम सूट गए हैं अथवा उनका प्रचलित प्राकृत स्वरूप ही यहा दे दिया गया है । पार्जिटर ट्रैडिशन पृ 145 149 ।

10 ग्रनेनस तिके विण<sup>1</sup> कहयो, चकवे<sup>2</sup> हुम्हो

11 अनेनस रो पिरथु मु पिरथु दोय हुम्हो<sup>3</sup> तिको एक तो कुवेर वश हुम्हो ।  
कोई कहै छ पृथ्वी उण पाधरी<sup>4</sup> किंवी, कोई कब छ दण पाधरी किंवी ।  
तिण राजा पिरथु पृथ्वी वर<sup>5</sup> कर घर म राखी आग मरणनू हुम्हो ।  
तर पृथ्वी ने क्यो थे म्हा साये आवो । तर पृथ्वी जाव<sup>6</sup> दियो—

दोहा

केता पडित पढ गया हस हस गया छयल्ल<sup>7</sup> ।  
बीर विचक्षण वह गया आ घर अजै<sup>8</sup> अचल्ल ॥

तर खडग री दिवी नव खण्ड हुम्हो तर पृथ्वी साच कहयो—

॥ श्लोक ॥

नाह कस्य कुले जाता नाह कस्य वरागना ।  
असिधारासमाक्राता बीरभोग्या वसु धरा ॥

पिरथु गाव नगर वसाया । मारग काढिया । ब्रौमा रा प्रमाण बाधिया ।

## 12 विश्वगद

1 विण = वण—ध्रुव वशी चक्रवर्ती राजा बेन । श्री मदभागवत पुराण चतुर्थ स्कन्ध 13 ।

यहा सूय वशी राजा पुरजय काकुम्य के पुत्र, ग्रनेनस (ग्रनेना) तथा ध्रुव वशी राजा ग्राम के पुत्र चक्रवर्ती राजा बेन, को एक ही समझन की भूल हुई है क्योंकि उन दोनों ही के पुत्रों के नाम समान 'पृथु' थे ।

2 चकव—चक्रवर्ती ।

3 पृथु का यह सारा विवरण ध्रुव वशी चक्रवर्ती राजा बेन के पुनर्पृथु का है । सूयवशी राजा अनेनस के पुत्र राजा पृथु का नहीं है ।

कुवेर वश का उल्लेख अतिवश हुम्हा है । ऐसे विसीं वश का वहो कोई उल्लेख नहीं मिलता है ।

4 सीधी की ।

5 पल्नी । पुराणों के अनुसार पृथु की 'दुहिता' होने के कारण ही उसको 'पृथ्वी' कहा गया ।

6 जवाव ।

7 छला, रसिक ।

8 आज तक ।

- 13 चाद<sup>1</sup> तिण सू चाद वस निकलियो ।  
 14 जुवनास्व  
 15 श्रावस्थ तिण श्रावस्थपुरी वसाई ।  
 16 वृहदस्व  
 17 कुबलयास्व, तिण धुंध दत्य नू मारियो तर धुमार कहायो । घबेड  
     कोट करायो । चक्रेश्वरी देवी वर दियो तठ<sup>2</sup> सू चत्र चले तठा सू  
     कहायो ।

कवित धुमार रो —

### छप

एक पदम अगरप<sup>4</sup> पदम दोय हय पाखरिये<sup>5</sup>  
 पदम तीन पायक<sup>6</sup> पदम दोढह गह मुडिये  
 पदम पाच धनुघरण<sup>7</sup> सवह वेधी नर हले  
 पदम अरथ बाजन<sup>8</sup> पदम सात सु दल चले  
 वीरवणो बाराह ज्युसेल<sup>9</sup> पदम हय सचरे<sup>10</sup>  
 धु धमार पयाणो<sup>11</sup> सभले<sup>12</sup> डगे मरे पणपत<sup>13</sup> डरे

- 18 द्रावश्व  
 19 हरिदश्व  
 20 निकुम्भ  
 21 सहिताश्व  
 22 कृसाश्व  
 23 सनत्रित  
 24 राजा जुवनास  
 25 भानधाता चक्वे कहाया चक चल ।

- 1 चद । महाभारत के अनुसार विश्वगद का पुन और जुवनास्व का पिता 'अद्रि  
     प्रथवा आद था ।  
 2 भ्रातिवश यह उल्लेख यहा जाओ दिया गया है । चार्द वश का आदि पुरुष मनु  
     का दोहिता पुरवा एज था । पार्जिटर टेडिशन पृ 84 99 ।  
 3 उसरे ।                          4 अगरक्षक                          5 क्वचित अश्व ।  
 6 पदाति ।                          7 धनुधर ।                          8 वाय यात्र  
 9 जोशील उत्साहशील । 10 गमन करे ।                          11 प्रयाण किया ।  
 12 सुनकर ।                          13 शेप नाग ।

जोषपुर राज्य की स्थात

शब्दत छपें।

तीस ब्रोड दल<sup>2</sup> चले सूरधारक धानखह<sup>3</sup> ।

॥

बीस नील गय गुडे<sup>4</sup> पदम दस हैवर<sup>5</sup> सजे ।

पाच नील वाजिम गहर<sup>6</sup> सुर<sup>7</sup> अवर<sup>8</sup> गजे ॥

धर धुजे डाका<sup>9</sup> वजे<sup>10</sup> सेय नाग फण सक्वे<sup>11</sup> ।

चल चलत भो<sup>12</sup> सका धरे चढ मानधाता चयवे ॥

26 परकुछ

27 विसदशव

28 अनरूप

29 हरिलश्व

30 प्रवण

31 त्रिवधन

32 सत्यवृत तिको प्रिस्कु कहायो

33 हरचाद तिण स्पालकोट करायो सहर वसायो ।

34 राजा रोटित तिण रोहिताश्वगढ कराया ।

35 हरित

36 चम्पू तिण चम्पावती नगरी चसाई ।

37 राजा विजय

38 राजा इश्व

39 राजा विश्वम

40 राजा वाहुक

41 राजा सगर

42 असमजस

43 असुमान

44 राजा इलीर

1 राजस्थानी म छप्पय छर को कवित बहते हैं ।

2 समूह स य दल ।

3 धनुप ।

4 यज गजैन करत हैं ।

5 उनम जाति दे अश्व ।

6 गभीर ।

7 स्वर ।

8 आवाश ।

9 दण्डक ।

10 इच्छिति करे ।

11 शक्ति हूव ।

12 भव ससार ।

- 45 राजा भागीरथ  
 46 राजा थुत  
 47 राजा नाभ  
 48 राजा सिंहुनीप  
 49 राजा श्रयुताजित  
 50 राजा रितुपरण  
 51 राजा मुदास  
 52 राजा मित्रसह  
 53 राजा अममक  
 54 राजा मूलक  
 55 राजा पलविल  
 56 राजा विश्वमह  
 57 राजा दलोप पटाग  
 58 राजा रघु तिण दिविज कियो । रघु रा धाडो इन्द्र लियो । इन्द्र मेरी गुफा माहे छिपियो । नंद्र था जुध करने धोडो रघु प्राणियो<sup>1</sup> । रघु सूरघुवशी बहाया ।  
 59 राजा अज तिण मूर रघुवसी हुमा ।  
 60 राजा दशथ तिको माहाराज हुमो । तिरा र कीन स्थिर्या—कासल्या केकई सुमित्रा । तिरा राजा दसरथ श्रवण मारियो । तर श्रवण र मावाप सराप दियो जु तू पुत्र रा विजोग था<sup>2</sup> मेरे ।  
 61 राजा रामधन्द्र इग्यारह हजार वरस अयोध्या राज कियो । पछ वकुण्ठ वाम दियो । दस हजार वरस ताई<sup>3</sup> पुत्र न हुमो । पछ इग्यारहव हजार वरस लागता पुण लाय हुमा लव कुश ।  
 62 दुस  
 63 अतिथ  
 64 राजा निवध  
 65 राजा नत तिण नरवर गढ़ करायो ।  
 66 राजा नाम  
 67 राजा पुडरीक  
 68 राजा खेमधावा

1 वापस लाया ।

2 तब ।

3 वियोग से ।

4 तक ।

## जोधपुर राज्य की रथात

- 69 राजा देवानिं  
 70 राजा अहिनगृ  
 71 राजा पारजात  
 72 राजा दल  
 73 राजा सल  
 74 राजा ऊनाभ  
 75 राजा बजरमाभ  
 76 राजा शब्दण  
 77 राजा विष्टाशव  
 78 राजा विश्वासह  
 79 राजा हिरण्यनाभ  
 80 राजा पुत्र  
 81 राजा मुभसधि  
 82 राजा सुदरमण  
 83 राजा ध्रगन वरण  
 84 राजा सिघ  
 85 राजा भृत तिको जोगेश्वर हृष्मो  
 86 राजा प्रव्यसुत  
 87 राजा सुमित्र  
 88 राजा सहस्वान  
 89 राजा विश्वतमान  
 90 राजा वृहद्वल तिको धापुर (द्वापर) र भ्रात ने कलजुग र माद<sup>1</sup> हुवो,  
 जरा बौरवा पाडवा र भारथ<sup>2</sup> हुयो । तडे सगला<sup>3</sup> राजावा ने बुलाया ।  
 तर कूकण देश सू वृहद्वल न पिल<sup>5</sup> बुलायो थो । सो कूकण सू  
 कुरुक्षेत्र धावनी था सो बीच म गातम शृंपिश्वर मिनीया । तर गोतम  
 जो नू हनोवत<sup>6</sup> बही-जु ढ्हारे पुन है नही । तर गोतम जो पाणी मर  
 न दियो<sup>7</sup> ने बयो-यारे मानती<sup>8</sup> राणी हुवे जिल न भा पाणी पावजे ।  
 जितरे कलाल दाह<sup>9</sup> ले ने जातो थो सो दाह मगरया भर वृहद्वल

1 आरम्भ काल मे ।

2 जव ।

3 महाभारत मुद्द ।

4 बही समस्त ।

5 भी ।

6 सही बृत्तान ।

7 अभिमत्रित कर जल दिया ।

8 माननीया प्रिया ।

9 भदिरा ।

जोधपुर राज्य की स्थान

दाह पीयो सो दाह पणो ऊगो<sup>१</sup> । तिरु मूँ मदोमत होवो । राजा घर  
प्यास लागी तर भ्रत ने राजा ते गोतम जो रो मनियोडो जल पी  
लियो तिरु मूँ राजा र भाषानउ रहो । तिको वृहदेवल गरभाडियो<sup>२</sup>  
गे मारक म बाम प्रायो । अभेमनु (अभिमनु) र हाय वृहदेवल  
माराणो । वृहदेवल र राठ फाट नेउ तुन बारे बाडियो<sup>३</sup> । तिरु मूँ  
राठोट बहाणो । तिरु बात ते पूण्य<sup>४</sup> पाच हजार वप होया । समय  
1700 मूँ बाट हुया<sup>५</sup> ।

91 वृहदेवल री राठ फाट पुन बाडियो । तिरु रो नाव विश्वमर<sup>६</sup> 10 दियो ।  
रो विश्वमर रो द्वारो नाव बमधज बहायो । रोई ववे थ राष्ट्रसेन देवी  
रो वर<sup>७</sup> हुवो तिरु मूँ राष्ट्रवर बहाया । घक्कर साला प्रबर 3  
गोतम गोत्र यजुर्वेद कुल देवा चक्र इवरी मोगावर महियणो विस्तार  
थ । सत्यंग मे मध्यादेवी<sup>८</sup> तता म राखेवरी द्वापर मे पवणा,  
वलियुग म नामगुणाया देवी राठोला र कुनदेवो है ।

92 राजा ( )

93 राजा वृहदेव<sup>९</sup>

94 राजा पात्र

95 राजा वस्तुविव

96 राजा दिवाकर

97 राजा सहदेव

99 राजा सोमदेव

1 अत्यधिक नामा चरण ।

8 गम ।

4 पृष्ठ भाग को विदीए वर ।

7 पोने ।

9 सवतु 1700 (1643-44 ई०) का यहा उल्लेख इस बात के थोतक है कि  
वह यह उस वप म लिख कर तथार विया गया होया ।

10 वृहदेवल के पुण विश्वमर (क्र 91) तथा गोत्र (क्र 92) का रोई उल्लेख  
पह यह उस वप म लिख कर तथार विया गया होया ।

11 वरदान ।

12 मना देवी मणापुरा देवी ।

13 वृत्तपत्र (क्र 93) से पाने वी मनियो वा रोई निश्चित भाषार नहीं जान  
पढता है । राठोडा वी जो वायावलिया मिरती है उन सबम भिन्न भिन्न भाष

## जोधपुर राज्य की स्थात

- 99 राजा मतरिक्ष  
 100 राजा सुवान  
 101 राजा सुमित्राजित  
 102 राजा इच्छाकुण  
 103 राजा विभीषण राजा  
 104 राजा अश्वसेन  
 105 राजा वारिपेप  
 106 राजा कौति वर्मा  
 107 राजा त्रिपाणुविजय  
 108 राजा बणसन  
 109 राजा काकलदेव  
 110 राजा अग्निवण  
 111 राजा जग्यवदल  
 112 राजा गोपगोविंद सो नव पीढ़ी राजा बहाला  
 113 राणो खेमसेन  
 114 राणो वीरविपुल  
 115 राणो अमुसेन  
 116 राणो वीरणवाज  
 117 राणो बढराज  
 118 राणो बसराज  
 119 राणो वीरदब  
 120 राणो पपुल  
 121 राणो ननपाल तिको करणाटक रो राजा<sup>1</sup> हुयो ,  
 122 राजा सेतुग  
 123 राजा मरथ तिको दिवण सू गयाजी री यामा वरण त्रे चाच्यो ।  
 तर धरती ब्राह्मणा त्रू सबल्प दीधी, आठ गड निया । पद्ध श्रयागमी  
 स्नान बियो । विवेणी स्तुति बिबी । सबत 316<sup>2</sup> काणी विश्वनाथ रा  
 देहरो<sup>3</sup> राजा भरथ करायो । मूरत<sup>4</sup> नवमेवर री थ । पद्ध गया त्र

1 सम्भवत राठोडो की वशावलियो म प्राप्य इयो चल्लेव व आपार पर टाड  
 ने भी राजस्थान (1, ४ 105 2, ४ 930) मे इम घटना का उल्लंघन  
 किया था ।

2 459 ई० (यह सन्-सबत क्षेत्र क्षेत्र क्षिति है) ।

3 देवधर देवगृह ।

4 प्रतिया ।

चायो । सबत् १६<sup>1</sup> रा चत बद ५ गया जो माहे ब्राह्मणा तू दान  
दियो तिथि विगत बीस हजार हाथी मत्त मातग दिया लाख घोरा  
दिया । तुला भार मुवरा और तीन तीन मण साठो दे उमरवा तू  
तुलाव कराई<sup>2</sup> । ना हजार सुवरा सहित गाय दीधी । पचास हजार  
मण धान दियो । अरवेवड<sup>3</sup> नीचे दिन २ रमा । पद्म गगा र उप कठ<sup>4</sup>  
कनोज तू देय कनोज रा धरणी परमार अजेपाल न मार राजा भरय  
कसोज लिवी<sup>5</sup> । जठा सु कनोजिया कहाणा (कानकुज्या कुसम्बला १  
कण कुवज्या २ गाधीपुरी ३ कनोज ४ य च्यार नाम कनोज  
रा है) ।

124 राजा पुज निण तेर परगता मार ते<sup>6</sup> परमारा री तेर वेटिया<sup>7</sup> परणी<sup>8</sup>  
तिका तर ही राणिया र १३ पुत्र हुआ । बारा र ता एकको<sup>9</sup>  
पुत्र हुवो अर एकण र २ पुत्र हुवा । इण ताळ्छ<sup>10</sup> १४ पुत्र हुधा त्यारा  
तर साखा कहाणी—

### कविता<sup>11</sup>

अभेपुरा जैवत सूर बाढ़ल नरेश्वर ।  
अहरराव राठोड ब्रीत कुरहा दानेश्वर ॥  
जलसेडिया कमधज सखल चाढ़ल बीरवर ।  
वरियावरे धुगाल सधर सुरमा निरतर ॥  
पारकरा बीर कपालिया खरौदा जवातवर ।  
श्री धरम बभ श्री पुज सुव तेर साल राठोड हर ॥

1 ४६० ई० । यह सन् भी अविश्वसनीय है ।

2 स्वरुप का तुलादान करवाया ।

3 अक्षयवट । 4 किनारे ।

5 गाहडवाला का आधिपत्य होने से पहिन कनोज पर प्रतिहार राजवंश का  
आधिपत्य था । अत यह सारा बएन विश्वसनीय नहीं है । प्रतिहारो म इस  
नाम का कोई शासक नहीं हुआ ।

6 युद द्वारा विजय कर । 7 तेरह पुत्रिया ।

8 विवाह किया । 9 एक ही ।

10 इस प्रकार ।

11 इस दृष्टिय द्वद म २६) । साठ तेरह शाखाओं के नाम दिय हैं ।

गावनी झटी<sup>१</sup> रा ताक रा डेरा री जादा पाछनी झटी रा लोक रा  
ता । पात्ता<sup>२</sup> जाइनो चात बिहु री एक नोक मडै<sup>३</sup> औ एडाव<sup>४</sup>  
झडा सतहर न होने, बिहु सू दत पात्ता बहादो<sup>५</sup> । राबद्ध यह  
ता बेचन्द राबद्ध यह किंद्रे दिद म जारा राजा दाया । ज्याएं गृष्मीराज  
। राबद्ध यह रा भो काईदा है रमोई बरह जारा जाम राजा प्रावे  
तर सा दरवान<sup>६</sup> री जादा सोना रो गृष्मीराज बराम ने बडायो ।  
जाता म इच्छान्स्वदम्भर होए री रीनि सो राजा बचन्द रे बेटी  
राव<sup>७</sup> ही बिहु न बैचन्द जी जादी<sup>८</sup> करए रो बवाना । तर सजोन्निना  
ता—

### बोहा

के<sup>९</sup> बघे<sup>१०</sup> पिन सकलन<sup>११</sup> दे धघ पित लौन ।  
के बन्दीजन बाप रे वरे सजोगी कौन ॥

भरथ जिको पूरब म पटणे राज करतो सो रहस्य राजो रे सफल हाथा था। सो मगायो सा मोल साटें ही हाथी दियो नहीं। तर चढाई किंवा सो राजा रहस्य ने एक लियो ते बरियावर गढ़ म अमल<sup>1</sup> कर लियो।

धरमवच्छ ने प्रयाग रा परेणनो दिया थो अटक पार सु जवत<sup>2</sup> हाथी खरीण आया ज्या म च्यार सरदार था। बार हुआर लोक थो। तिए सू भग्नो कर पतह किंवी। धरमवच्छ रो कु चर विक्रमादित काम आया।

चाद जिण न कासी रो पराना दियो थो।

### 125 राजा धरमवच्छ<sup>3</sup>

126 राजा अमेच द तिणदु वाप राव वहै बतलायो सो इण सू ले इकबीस पीढी ताई<sup>4</sup> राव कहाया। पछि फर पाढ्या राजा कहाया। अमेच रे बेटा 3 बडा विजेच द। कनौज रो राव हुओ। दूतो<sup>5</sup> कु तसन सो बगलाण धारा नगरी धणी<sup>6</sup> हुओ। तीजो कीरतपाल दिसण म रयो। किरतपाल र बटा 4 हुआ तिके अणकी 1 टणकी 2 सलेर 3 माजेर 4 या च्यारा गढा रा धणी हुआ।

### 127 राजा विजेच<sup>7</sup>

128 राव जच द सू दल पागला<sup>8</sup> कहायो। सवत् 1132 रा माह सुट 15<sup>9</sup> पाठ<sup>10</sup> बटा न सवत् 1181 रा भादवा सुद 11<sup>11</sup> गना ननी म डूब न देह छाडी हिंदवा रे धरम है जिए सू। जचदजी र लसकर<sup>12</sup> धला थो सा कुच

1 मूल्य के बदले म भी कीमत देत हुए भी।

2 अधिकार। 3 यवन।

4 गाहुडवाल शासक विजयचाद के पितामह और पिता क म नाम काल्पनिक ही हैं। सही नाम ऋग्य मदनपाल तथा गाविंदच द्र है।

5 पीढियों तक। 6 द्वितीय।

7 स्वामी राजा। 8 विजयचन्न गाहुडवाल वश वा था।

9 दल पगुल।

10 रविवार जनवरी 24 1076 ई। यह तिथि क्षेत्र क्षिप्त है। सही तिथि है आपाठ शुक्ल 6 1226 वि० (रविवार जून 21 1070 ई०) ए इ 4 पृ 120 121।

11 सिहासन।

12 मगलवार अगस्त 12 1124 ई०। यह तिथि क्षेत्र क्षिप्त है। जयचाद वी पराजय और भूत्यु सन् 1194 ई० म ही हुई थी। कारसी इनिहामकारा क अनुमार जयचाद मुढ़ मे सत रहा था। शिपाठी बनीज पृ 329 330

13 सेना।

## जाधपुर राज्य की स्थापना

होया<sup>1</sup> तर आगली अरणी<sup>2</sup> रा लोक रा डरा री जायगा पाढ़ली घणी रा लोक रा डरा प्राण होता । पागलो<sup>3</sup> मादमी चाल जिए री एवं नीक मठे<sup>4</sup> जूँ पढाव<sup>5</sup> लगता सो भ्रतो लसकर म होतो, जिए सूँ दल पागला वहायो<sup>6</sup> । राजसूँ यज्ञ कियो । राजा जच्छद राजसूँ यज्ञ किया जिण म सारा राजा आया । च्वाण पृथ्वीराज नहीं आयो । राजसूँ यज्ञ रो ओ बाईदो है रसोई बगरह सारा बाम राजा भाव जिके खुद वर सो दरवान<sup>7</sup> री जायगा सोना रो पृथ्वीराज बरणाय ने बठायो । आगला जमाना म इच्छा स्वयम्भर होए री रीति सो राजा जच्छद र बेटी सजोगता नाव<sup>8</sup> ही जिए ने जच्छद जी सादा<sup>9</sup> करण रो बाया । तर सजोगिता जबाब दियो—

दोहा

के<sup>10</sup> व-ध<sup>11</sup> पित सकलन<sup>12</sup> के पघ पित लौन ।  
के व-दीजन वाप र वरे सजागी कौन ॥

(इस दोहे का मायना यह है कि कितनक मर वाप के जलखान म रह हुए और वित्तेक मर वाप का नमक खात है । कितनक मरे वाप का तावेदारी करते हुए एसे विचारे राजावा म स सजोगिता विसी क साथ शादी न करणी ।)

सम्बद्ध 1151 रा चेत वद 3 र अन्नेतवा<sup>13</sup> रे दिन चवाण पृथ्वीराज यज्ञ हुए रे वास्त दिल्ली सूँ कनोज रवाने हुवो । कनोज जाय डरा दिया । पृथ्वीराज पासीदा<sup>14</sup> रयो । जाहिरी म च-द भाट न राखियो । पृथ्वीराज एकला धोड सवार हुवो । कनोज सहर देखण न गया । (उण जमाना म हि दुस्तान म अ-वल दरजा रो शहर कनोज था) । सो जच्छद रा महला नीच आयो सो पृथ्वीराज रो बडारण<sup>15</sup> करणावटी दिल्ली सूँ भाग न कनोज भाष्य रही थी । जिण महला ऊपर सूँ पृथ्वीराज

1 प्रस्थान होता ।

2 सनिक दल ।

4 शिविर ।

3 पुगु ।

4 रखा बनती है ।

6 स याधिक्य से दल पागला विराद प्रचलित हुआ ।

8 नाम का ।

7 दारपाल ।

10 क्विपय ।

9 शादी विवाह ।

12 जबीरा म

11 बदो

14 यह तिथि भी क्वाल क्रिप्त है ।

13 रविवार फरवरी 25 1095 ई० । यह तिथि भी क्वाल क्रिप्त है ।

पृथ्वीराज चौहान का राज्यकाल 1234 वि० स 1249 वि० था ।

14 छिप मेय म भ्रमच्छम रूप म ।

15 दासिया म प्रतिष्ठित दासी ।

न देखियो । तर उण मयोगिता न क्यो— 'ओ पृथ्वीराज छ । सयोगता देत ने पसांद कियो न जाणियो पृथ्वीराज यन मे नहीं आयो जिएन्हु इन ऊपर राजा जचांद नाराज है, सा राजा जच द न क्वाया<sup>1</sup> ता इन न परणावे<sup>2</sup> नहीं । तर उस्सीहो बहूत बरणावटी बढ़ारगा ने भेल<sup>3</sup> पृथ्वीराज न महला भुलायो ब्राह्मण ने बुलाय पृथ्वीराज सू साढ़ी कर लिबी ने पृथ्वीराज र साथे धोडे चढ बहीर<sup>4</sup> हुई । पृथ्वीराज देरा जाय मूच कियो । राजा जचांद न स्वपर हुइ । तर लार<sup>5</sup> कोज विदा किवी सो पृथ्वीराज रा उमराव एक एक दोय दोय रास्ता म ठहरता गया ने जचांद जी री कोज मू लडता गया । दोनू तरफ रा आदमी घणा बाम आया । पृथ्वीराज कृसले दिली पोहतो<sup>6</sup> ।

129 राव बरदाईसिन<sup>7</sup> र बेटा 2 दोय सेतराम । यिरपालदेव 2

130 राव सतराम<sup>8</sup> इष र बेटा छव रामसन 1 सीहा 2 अल्ह 3 सागो 4 गामो 5 रतनसी 6 ।

131 राव सीहो बडो ठाकुर हुवो । मास 6 शिक्षार रमतो<sup>9</sup> न भाई अल्ह कनीज रहता सा सीहाजी एक समय पोहकर<sup>10</sup> याना बरण आया था । तर भीनमाल रा ब्राह्मणा आय पुक्कारिया<sup>11</sup> । कही म्हारा गाव मुकतान र पादशाह लूटियो अर बाद<sup>12</sup> पकड़ी है । जाजियो मागे है अर कहै है एक राह नरो<sup>13</sup> द्वारका मूधी<sup>14</sup> घरती ले नीधी है ने श्री द्वारकानाय री जात<sup>15</sup> कोई करण पावे नहीं घणा ठाकुरा ने तुरक कर काढिया<sup>16</sup> है । समेजा तुरक किया । सारा ही री बेटी

1 कहलवाने पर ।

2 विवाह करे ।

3 भेज कर ।

4 जली गई ।

5 पीछा करने हुए ।

6 सकुशल दिल्ली पहुच गया ।

7 राजा जयचांद गाहड़वान अथवा उसक उत्तराधिकारी पुत्र हरिश्चांद क साथ बरदाई सन के किसी सम्भावित सम्बंध वा कोई विश्वसनीय प्रेमाण उपनाव नहीं है ।

8 सतराम क्वर के पिता का नाम बरदाई सन होने का कही भी बाई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिनता है ।

9 ग्रास्ट ड्रीडा रत रहता था । 10 प्रतिद्ध तीय पुष्कर ।

11 निवन्न रिया पाडितावस्था म विनयपूण शिक्षायत की ।

12 बदी बनाया है ।

13 धर्य धर्मो का रथाग कर इस्लाम धर्म स्वीकार करो ।

14 सहित ।

15 धर्माय यात्रा ।

16 तुर बना निये हैं राध्य कर इस्लाम धर्म भगीकार करवा निया है ।

वर<sup>१</sup> मगावे थे। अनीत<sup>२</sup> घणी पर थे। आ सुग सीहे जी कयो थे चाला हूं  
धार वास बाहर<sup>३</sup> करण साह भावु थु।" आ सुए ब्राह्मण परे ग्रामा। सीहे जी  
साथ भेलो कर<sup>४</sup> चलाया। एक राम हात<sup>५</sup> सब नही। तर पारी यारी फोजा  
घणा<sup>६</sup> मारणा कर कहीर<sup>७</sup> किवी। भीनमाल आय सगली<sup>८</sup> पौजा भेली हुई ग्र  
मीनमाल मारी,<sup>९</sup> सहर लूटियो। वा<sup>१०</sup> छोड़ाई। तठ सीहा जी रो इतरो साथ काम  
ग्रामो। जिएरी विगत—

1 राठोड भटीज खडगमेन 90 आदम्या सहित काम ग्रामो भर 105  
आदमी खडगमेन रा धायल हुमा।

1 राठोड मिवसन 90 आदम्या सहित माराणो,<sup>११</sup> भर 25 भड<sup>१२</sup> धायल  
हुमा।

1 भाई देवसेन 200 भडा सहित माराणो भर 10 भड धायल हुमा।  
1 राठोड भाई काह 50 भडा सहित माराणो भर 80 भड धायल  
हुमा।

1 सरदार 430 आदमिया सहित काम ग्रामा न, यारा<sup>१३</sup> आदमी 220  
धायल हुमा। पातसाही लोक काम ग्रामा। तिण री विगत—

1 भोहवत खा 12000 वारे हजारी<sup>१४</sup>,

1 पाड खा 10000 दस हजारी,

1 दोलत खा 1000 एक हजारी,

1 मुखरव या 3000 तीन हजारी,

1 बीजा 24000 चौकीय हजार आदमी मुलान रा पातसाह रा सेत  
रथा<sup>१५</sup>। पत सीहा जी री हुई।

1 स्वी स्त्रिया।

2 अनीति।

3 तुम्हार पीथे तुम्हारी रक्षाय आ रहा हूं।

5 चल गमन।

4 इकट्ठा कर।

7 रवाना की।

6 कह।

9 अधिकार कर लिया।

8 सब।

11 मारा गया।

10 विदियो को मुक्त विया।

13 इनके।

12 भर योदा।

14 मनसव धादि न सान्म म हजारी आदि श दावला का प्रयोग मुगल काल म  
ही प्रारम्भ हुआ था।

15 रणसेत्र म मारे गए।

'दोहो सापद<sup>1</sup> रो'

भीनमाल लीर्धी भिड सोह सेल बजाय<sup>2</sup> ।

दत दोधो सत सग्रह्यो<sup>3</sup> सी फल कदै न<sup>4</sup> जाय ॥

लाख दल सोह लमाल<sup>5</sup> विप्र तिय<sup>6</sup> वाल<sup>7</sup> छाढा बते<sup>8</sup> ।

किलमा सिर<sup>9</sup> ठहै काज किरमर<sup>10</sup> गहि<sup>11</sup> आयो बमध ॥

भीनमाल री धरती पाढ़ी ब्राह्मणा ने दे कनोज गया । आ बात देमे परदेस  
फूटी<sup>12</sup> सो पाटण रे घणी मूलराा ही आ बात सामली<sup>13</sup> । सोलकी राज ने बीजा<sup>14</sup>  
दूव टोडा रा धणी<sup>15</sup> द्वारका जाता पाटण आया अर चावडा भाण<sup>16</sup> कनामू पाटण  
ले लिवा । राजबीज<sup>17</sup> सोलकी री बात धणी छ पिण अठ सदोप सी लिखी है<sup>18</sup>—

। मूलराज वरस 45

। चादागर 10

। बलहराव पट मास 6

। द्रोणागर वरस 12॥

भीम वरस 21

वरण वरस 40

जयसिंह वरस 49

कवारणाल वरस 24 राज कियो ।

इणताछ<sup>19</sup> सोतकिया री भात

पीनी दोय मौ दोय वरस पाटण

मथे राज कियो ।

॥ कवित ॥

मूल पतालिस वरस दस ही चादागर  
बलहराव अध वरस साढ वारेह द्रोणागर

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 साक्षी वा ।   | 2 शस्त्र सघात कर भालो क प्रहार कर । |
| 3 दान किया ।  | 4 सप्रह किया । 5 कभी भी ।           |
| 6 सिट ।   | 7 हिया । 8 बालक ।                   |
| 9 वर से छुडाने वा ।   | 10 मुसलमानो पर किलमा पहने वासा पर । |
| 11 तलवार ।  | 12 ग्रहण कर धारण कर ।               |
| 13 फली प्रचारित हुई   | 14 मुती 15 अय दूसरे ।               |
| 16 टाङ टोडा क स्वामी राजा ।   | 17 चावडा भाण से पाटण छीन ली ।       |
| 18 राजबीय ।   |                                     |
| 19 गुजरात के सारनी (चौलुक्य) शासको का यह विवरण विज्वमनीय<br>नहीं है । | 20 इस तरह ।                         |

भीम वरस इकवीस अनें<sup>1</sup> चालीस करनह ।  
 श्रेक घाट पचास<sup>2</sup> पुहमि<sup>3</sup> विलसी<sup>4</sup> जैसिगह ॥  
 कवारपाल चौबीस कहि बाचीजे<sup>5</sup> बशावली ।  
 चालका<sup>6</sup> राज अणहलनगर वी सौ वरस वे आगली<sup>7</sup> ॥

मूलराज सोलकी री देटी लाखा फूलाणी री माय<sup>8</sup> तिणु ने कोई परणे  
 नहीं<sup>9</sup> तर सीहाजी ने नातेर<sup>10</sup> मलिया । मूलराज नालेर मलियो<sup>11</sup> । ऊपर करो<sup>12</sup>  
 बनीजा आप ।

॥ दोहा ॥

दुजोडो<sup>13</sup> गहि विरदेत,<sup>14</sup> कनवजघर हुता<sup>15</sup> कमध ।  
 वाका भड वानेत,<sup>16</sup> दल खडिया<sup>17</sup> गुजरात दिस ॥

सीहा जी द्वारका ने हालिया<sup>18</sup> । सग घणो भेलो हूबो । आप आगे हाले सग  
 क्षास 5 तथा 6 लारे था । आगे ठोड ठोड भौमिया आथा सौ लडिया ज्या ने मारिया  
 और आय मिलिया ज्याने साथ लिया । बढ़<sup>19</sup> धिरावाद किवी । बढ़ दूजी साचोर  
 किवी । पीलूडी गाव मारियो । कोली मेघो 301 आदम्या सू लड मूबो । तठा पछ  
 हरदास छोगलो जातरो करतर तिको करडे भावर मारियो । जारावरी करतो जमी  
 री चौथ<sup>20</sup> लतो वहै ।

— — — — —

भाले चम्मर वाधिया हीचे भतवाला है ॥

तठा पत्र भीलडी गाम रा घणी ईडर रा प्रधान आसा डाभी ने मारियो  
 सीहाजी ।

1 और ।

2 उनपचास वर्ष (49 वर्ष)

3 पृथ्वी ।

4 भोग करेगा ।

5 पद्धिय पत्नी जाती है । 6 चोलुव्या ने । 7 अगले दो सौ दो वर्ष ।

8 बागदान सत्कार सम्पन्न क्या ।

9 विवाह नहीं करे ।

10 विवाह हेतु नारियल भेजा बागदान की रस्म विशेष ।

11 गुजरात का मूलराज सोलकी (998-1053 वि) और उच्च का लासा  
 फूलाणी (1320-1344 ई) दोना ही समकालीन नहीं थे ।

12 सहायता करो ।

13 युगल ।

14 वीरतादि का विश्व धारक ।

15 से ।

16 वीरतादि मूरक्ष चि हधारक ।

17 प्रस्थान किया ।

18 प्रयाण किया । 19 लडाई ।

20 आय का चतुर्थशंश ।

द्वाहो सापद रो  
 आसो ईडर आलगे<sup>1</sup> घण भीलाडिये देस ।  
 सरज्या तण सजोगडे<sup>2</sup>, मिलियो सीह महेस ॥

आसा ने मार पाटण आय मूलराज सोलकी सू मिलिया । पाजता रा  
 भौमिया बाधेला काजी यही सातपुरा कावेस्वा बडा मरिया पछ था द्वारका  
 जी र कोट पधारिया ।

### दोहा

पिठ भू भग पडियाह, घणिया सखोवर घर ।  
 अटका<sup>3</sup> भड आडियाह<sup>4</sup> ते आव कनवज तणा ॥  
 सीहो नरा समाद, सेना चतुरगी सभे ।  
 किर<sup>5</sup> उतराधी<sup>6</sup> इद कर प्रारम्भ खडिया कमध ॥ 2 ॥  
 रक हथा<sup>7</sup> राठोड घिन त्या राठोडा घणी ।  
 घार चित खत्र<sup>8</sup> घोड, घर गुजर पठा सधर<sup>10</sup> ॥ 3 ॥

पद्ध द्वारका र कोट लागा । भाटी दलपत सासा रो भाई माराणो । बढ  
 सबली हुई । पोत र मुहुद<sup>11</sup> काम आया त्यारी विगत—

### दोहा

आरभ माल अवीह,<sup>1</sup> परघर कमध पचायण<sup>13</sup> ।  
 सबला ही बलसीह कोटा आमूले कमध ॥

कोट लियो तठ आसामी 6 ने रजपूत 240 वाम आया सीहाजी रा ।  
 1 राठोड दुरासेन ।  
 1 राठोड रामसेन ।  
 1 राठोड रूपसेन ।  
 1 राठोड करमसेन ।  
 1 राठोड बनकसन ।  
 1 प्रोपत जसो

- |    |                         |    |                           |
|----|-------------------------|----|---------------------------|
| 1  | सेवा करता है ।          | 2  | सुयागवशात् ।              |
| 3  | शरार भूमि पर रणभूमि थ । | 5  | मुदादिला दिया ।           |
| 4  | सेना ।                  | 7  | उत्तर दिशा उत्तर धरा ।    |
| 6  | किंवा मानो ।            | 9  | क्षत्रियत्व ।             |
| 8  | हाय म सहग धारण दिय ।    | 11 | द्वार क मुह पर दरवाज गर । |
| 10 | साप गुप्तम्ये ।         | 13 | पचानन सिंह ।              |
| 12 | निर्भीक ।               |    |                           |

भ छव ठाका मारणा । 296 पापत करिया<sup>1</sup> । लेत सीहाजी  
रहाय आयो ।

पद्ध श्री द्वारकानाथ रो दरसण कियो । इतरो श्री ठाकुरा र मेट कियो  
1000 घोडा 1000 खजानो 1000 गहणो<sup>2</sup> । बरस । द्वारकाजी रथ । पापती  
रा भोगिया सर<sup>3</sup> किया । सीहाजी रा बेटा अज री श्रीलाल<sup>4</sup> द्वारका रा सखोधार  
देम<sup>5</sup> माहे है । सीहाजी देवलोक हृषा जा पद्ध अज आय द्वारका वासियो । द्वारका  
मृ सीहाजी पाटण आय मूलराज सोलकी री वेटी परणिया । चावडा रापायत री बहन  
सीहाजी परणिया पद्ध घटकाटे लाखो पूलाणी राज करे । देस विगाडे । तिण कपर  
फोज कर न सीहोजी चलाया सो वढ हृई लाखा पूलाणी तू मारियो । तर काम  
काम आया स ॥ 1209 रा कातो सुद 76 ।

300 सीहा जी रा आदमी काम आया ।  
500 लाखा पूलाणी रा आदमी ।  
300 मूलराज सोलकी रा आदमी ।  
400 चावडा रा आदमी मारणा ।

सात जोगोटी (कवित)

करै दड करमाल,<sup>7</sup> जरद<sup>8</sup> वप कधारी<sup>9</sup> ।  
सीस टोप आपियो मुजस कठमाल समारो ।  
अपसर<sup>10</sup> जुगत अनुप विवह प्रभात भणाणी ।  
वडो बोल फावियो<sup>11</sup> मार लाखा पूलाणी ।  
वेवीया<sup>12</sup> जोग साहुण कमघ धिन वित मे रीत सुधरे ।  
सेतराम तणा अखाड़सिंह<sup>13</sup> ओ सीहो रुद्र अवतरे ।

- 
- 1 पापत होवर युद्ध क्षेत्र म पडने पर उठा लिए गये ।  
2 आभूपल ।  
3 प्राधीन विये विजित विये ।  
4 अज री श्रीलाल मालामण्डल म प्रमुख बाढल राजपूत स्वय को अज के पुन  
वेरावलजी अयवा बाढल की सातान बहते हैं । व० ग० 8 पृष्ठ 110-111  
5 590-591 रेझ० मारवाड 1, पृ० 44 आसोगा०, पृ० 7 ।  
बट टाठू (बट द्वारका) कचड की लाडी म है जो कि मालामण्डल स दा  
मील दूर स्थित है । यहा पर शत नारायण का मंदिर होन क बारण यह  
शखाधार देश नाम स प्रसिद्ध है । व० ग० 8 पृष्ठ 601 ।  
6 सोमवार अवृहवर 6 1152 ई० । तिथि काल्पनिक है ।  
7 तलवार ।  
8 क्वच ।  
9 कधार देश म निर्मित ।  
10 अपरा ।  
11 फवा शोभित हृषा ।  
12 अमुमा ।  
13 रणक्षेत्र वा वीर योद्धा ।

लाखा नू मार क्नीज जाता पाली आय उतरिया जठ पलीबाल ब्राह्मण  
जसोधर आय स्पया 100 000) एक लाख सीहाजी र नजर किया। जसोधर क्यो  
भासिया बलिसा चवाण माहानू दुख दे है।" तर दस पनरे दिन सीहाजी पाली  
रह। बालिसा चवाण मार ब्राह्मणा नू सुखी किया। जसोधर निया जो साथ  
रपिया रो खरच 50 000) पचास हजार स्पया लगाय सीहाजी पाली म सामनाथ  
महादेव रो देहरो करायो।

25,000) पच्चीस हजार स्पया चारण लालस बला नू निया जोगोटो  
तथा दूहा कहा तिण रा।

पाली का डरा सीहोजी बन मे शिकार गया। सीहोजी र वर सूती थी  
तिण नू सुहणो<sup>1</sup> आयो जाण म्हारो पेट फाटा<sup>2</sup> छ। बेलो<sup>3</sup> जाया छ तिण नू नाहर  
लं जाव छ। तर आप ऊठ न बास हुई<sup>4</sup> छोडावण नू। सो बेटा रा पट फाडिया है  
ने आत्रा<sup>5</sup> रुप्या<sup>6</sup> पहाडा सू लागी छ। सो छोडावे सो द्याटे नही ओ सुपनो सोती नू<sup>7</sup>  
आवा छ। जेड सीहोजी आया भर राणी जासी। ने सुपना रा सगला समाचार  
सीहाजी ने बया। तर सीहाजी राणी रे ताजणो<sup>8</sup> री दिवी सो राणी सारी रात  
जागती रही और पिण<sup>9</sup> जागता रया। प्रभात हुवो तर स्पया पच्चीस हजार  
25 000) सीहा जी वर नू निया। वर क्यो किसी रीझ<sup>10</sup> रा दो छो<sup>11</sup> सीहोजी  
कहो— अठ थारा बेटा रा उतन<sup>11</sup> होसी। किली रा कान्तियाडा<sup>12</sup> निसरसी नही  
मारवाड सगले म थारा परवार भाड भाड र गल<sup>13</sup> होय जासी न पहाडा म पिण  
ठोड ठोड थारो परवार होय जासी।

1 स्वप्न।

2 प्रसव हुआ है।

3 जोडे थो बच्चे।

4 सिंह के पीछे।

5 आत्में।

6 वृक्षा के।

7 शयन मे निद्रावस्था मे।

8 चाबुक विशेष।

9 सीहा स्वय भी

10 प्रसन्नता का।

11 बतन।

12 निष्कासित करने पर भी निष्कासित नही हाँग।

13 भाडी क्षपादि की भाति सवन फल जाएगा।

पद्ध पाढ़ा कनौज आया सो गोयदाणे गढ़ राज कियो । अल्ह ने कनौज रा  
टीको नियो । वरस 13 गोयदाणे राज कियो ।<sup>1</sup> श्री गोड ब्राह्मण गुरु किया ।  
40 सासण दिया । सीहो जी धाम पथारिया तर बटा नूं क्यो— ये पाली जाय  
रहजा उठा रा राज याहरे आवसी ।' सीहो जी सोनगरा रा भाणेज था ।

सीहो जी र राजलोक न कबरा री विगत—

1 बहू राजलदे<sup>2</sup> सोलखणी मूलराज री बटी तिण र बटा 2 हुआ

1 आसथान सबत् 1218 रा बाती बद 14 गुरुवार रा जनम<sup>3</sup>

1 अज मबत् 1225 रा आसाढ बद । रो जनम<sup>4</sup>

चावडी सोभागदे तिण र बटा

1 मोनग सबत् 1223 रा पौस बद । रो जनम<sup>5</sup>

1 भीम<sup>6</sup>

1 वेनी रूपवाई ननो थकी मृद्दु<sup>7</sup>

3 बहू चवाण बलराव लाखणोत री वेटी ।

- 1 सीहा का कनौज नोटना तथा राज्य अल्ह को सोपकर गोयदाना तरह वय  
राज्य करना अविश्वसनीय है । सीहा के जीवन काल म कनौज पर मुसन  
मानो का राज्य था तथा सीहा की मृत्यु भी पाली के समीप हो हुई जहा से  
उसका मृत्यु स्मारक लख मिला है । नगण्य में इस बात का उल्लेख नहीं है ।  
सीहा की मृत्यु कार्तिक बदि 12 सोमवार सबत् 1330 वि० (सोमवार,  
अक्टूबर 9 1273 ई) को हुई थी । इ ए 40, पृ 301 ओक्टा,  
जोधपुर 2 पृ 157 ।
- 2 मारवाड़ की स्थापना में सीहा को इस सोलकी राना का नाम राजलदे  
सोलकी लिखा है । विगत 1 पृ 8 कविराजा, 2 पृ 18 । किन्तु सीहा  
को देवली पर के लेख म उसका नाम पारवती दिया है जो बहुत बरके  
उसका पीहर ना नाम होगा । इ ए 40 पृ 301 ।
- 3 गुरुवार अक्टूबर 19 1161 ई । काल्पनिक तिथि ।
- 4 भगवार मई 13, 1169 ई । काल्पनिक तिथि ।
- 5 गुरुवार दिसम्बर 9, 1166 ई । काल्पनिक तिथि ।
- 6 भीम का धणन कविराजा की स्थापन के अतिरिक्त आयत्र वही नहीं मिलता  
है । सम्भवत यचन म ही उसकी मृत्यु हो गई होगी ।
- 7 वाल्पवाल म ही उसकी मृत्यु हो गई ।

## दोहा

अणभग<sup>1</sup> आसिहथान<sup>2</sup> पेड धरा पर सेडिया ।  
 वाजिद<sup>3</sup> भड वरियाम<sup>4</sup> कीधा घसाहर<sup>5</sup> कटक<sup>6</sup> ॥  
 असमर<sup>7</sup> नरा अपाल<sup>8</sup> नव काटा सिर नीवजे ।  
 साभण<sup>9</sup> सानिव<sup>10</sup> साल धीगाडे<sup>11</sup> गोहिल धरा ॥

। सेड सू उठ प्रासथान भीला नू मार ईडर ले ने भाई सोनग नू दीधी ।  
 ईडर रा राजा भील छ सो आदिदराज<sup>12</sup> छ । आदू कामनार नागर ब्राह्मण छ ।  
 बोहरा पिण छ । पिण ठाकुराईरो मुदार<sup>13</sup> सारो नागरा<sup>14</sup> डपर छ । सो कितरायक<sup>15</sup>  
 निना पुठी<sup>16</sup> नागरा र विकाह मडियो । तर भील सगला ही आया । नागरा री  
 बहु बेटी दीठी । तर मा म पाप आसा नागरा नू कहो— याहरी बेटी म्हानू  
 परणावो नहीं ता जोरावरी सू परणस्या । नागरा क्यो— एक महिना ने<sup>17</sup> पर  
 णावसा सा एक महीनो सुस्तावो<sup>18</sup> । आ कही भीला नू सीख दिवी । पछ्य नागरा  
 आय आसथान जी नू हसीरत कई । आसथान जी क्यो— ईडर मानू दिराय  
 दीजो । नागरा क्यो— ईडर म याहरो राज कराय देमा पिण मुरुपदो म्हारे  
 राखजो । आसथानजी क्यो— ठीक है । थे भातर कन<sup>19</sup> सडो<sup>20</sup> बघाय ने राखजो  
 थर नतियार<sup>21</sup> तड ली-जी<sup>22</sup> भीला नू नालर मेत ने जाना बुलाय लीजो । कितरीक  
 ढोलिया करावजो । भू जाई<sup>23</sup> नू सीधो<sup>24</sup> करावजो । महुडा<sup>25</sup> रो दार कडावजो ।  
 लगन र पहिले दिन म्हे पिण आवा छा । आ कहि नागरा नू सीख दिवी । यरा जाय  
 नागरा सगली तयारी बिवी । राठोडा रा साथ सीसोदिया वाघेला बीजा ही<sup>26</sup>  
 घणा रजपूत नागरा से नीवतीयार आया । पचास गामा नालेर भेलिया या सी  
 भीला री जाना घणी भाई । पाच सौ तो बीद<sup>27</sup> आया । अर, जानिया री तो पार

- |                                 |                                    |                 |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 बीर अजित ।                    | 2 आसथान ।                          | 3 अश्व ।        |
| 4 थोळ बीर ।                     | 5 युद्ध ।                          | 6 सेना ।        |
| 7 तनवार ।                       | 8 जो रोके नहीं जा सकते ।           |                 |
| 9 सहार करो ।                    | 10 शत्रुआ ।                        | 11 बलात् ।      |
| 12 आदिकाल से ही वहा का राजा ।   | 13 दारमदार दायित्व भार ।           |                 |
| 14 नागर ब्राह्मणो पर ।          | 15 कतिपय ।                         | 16 बाद म पीछे । |
| 17 एक महीना बाद ।               |                                    |                 |
| 18 धय रखो ।                     | 19 पहाड़ी क समीन ।                 |                 |
| 20 आरातियो को ठहराने का स्थान । | 21 निमत्रिता का ।                  | 22 बुनवा लेना । |
| 23 पक्वान ।                     | 24 आठा दाल घृत आदि भोज्य सामग्री । |                 |
| 25 महुआ                         | 26 अय भी ।                         | 27 दूल्हे ।     |

हो नहीं। लगन री बेला सडे तौरए बाद ने एक चाकर ने एक बींद ले गया। वाकी रा जानिया ने सडा बार राखिया। पांच सो बींद ने 500 चाकर माहि गया, ज्या ने माहि भार नाखिया। भर जानिया ने सडा बार दारु पाय पातिया<sup>1</sup> हैटे<sup>2</sup> सोरे<sup>3</sup> विद्धाय बासते<sup>4</sup> लगाय सगला जानिया ने पातिया माये बाल दिया<sup>5</sup>। सडो सहर सू भोस दोय अलग थो तठ जानिया तू वालिया पछ डोलिया म बठ राठोड गढ ऊपर गया कयो— बींद बीनणी छ डोलिया मे।” यू कहि हजार हजार भादमी गढ ऊपर चढ गया, भर तरवार बजाई<sup>6</sup>। तर चूक जाणियो<sup>7</sup>। इण ताढ़ जुदा जुदा भीला तू मार, ईडर रा गढ राठोड लियो, सी आसथान जी ईडर रो राज सोनग जी ने दियो। नागरा नू सौनग जी प्रधान किया भर गुरुपदो<sup>8</sup> दियो। आसथान जी पांच खेड आया। कई परगना ईडर लार राखिया। ने कई परगना बाधेला बगरह मदत आया था नागुरा रो, ज्याने नागरा बाट दिया। पछ भीला रा बेटा पगा लागा<sup>9</sup> ज्याने चाकर राखिया।

सोनग जी चावडा रा भाणेज।

### दोहा

वाचा छल<sup>10</sup> रखबाल, आस्थान सोनग अज।  
दल पाघर दत्ताल,<sup>11</sup> साझे<sup>12</sup> सोहू नरीद उत ॥  
कनौज्जा उठीया, किण आरभ महावल ।  
गोहिल वस गल हृष,<sup>13</sup> खेड लीधी खाडा बल<sup>14</sup> ॥  
ईडर सखोधार आण बरताई जेती ।  
नव कोटी मुरघरा, साम<sup>15</sup> सग्रही सहेती ॥1॥  
केवाण पाण<sup>16</sup> कमघज करै, जोर जात अबरह<sup>17</sup> रज ।  
उदेवत वस राठोड हर आसथान सोनग अज ॥2॥

। सोनग जी ईडर रया इणा र बस रा ईडरिया राठोड कहाया ।

। भर र साये फौज दे द्वारका जी री तरफ विदा किया, सो उठा रा

1	भोजनाय निर्मित पक्तिया विष्णायते ।	2	नीचे ।
3	बाहूद ।	4	भाग ।
5	जला दिय ।	6	प्रहार किये ।
7	छनापात का भेद प्रकट हुमा ।	8	गुह का पद ।
9	भाविष्यत स्वीकार किया चरण स्पश किये ।	10	वाक्छदम ।
11	बाराह ।	12	मारे
14	तलवार की शक्ति से ।	15	स्वामी ।
16	खड़ग बल से ।	17	अन्य ।

गोमिया चावडा राज करता । सो उठ जतदेवी प्रसन्न होय अज ने सुपना म कही—  
“धरता तोनू दिवा । चावडा बीकमसेन रो मायो वाड ने मोनू चढ़ाव । तर सगत  
रा वर<sup>1</sup> सू बीकमसेन रो मायो वाड ने सगत न चढ़ायो । तिण सू अज रा पेट रा  
बाढ़िल कहाणा । अज द्वारका बसिया ।

आसथान जो पाला खेड आया । इणा रा बस रा सेडचा कहाया । बादशाह  
फिराजगाह भवे जावता पाली लूटी । बद पकड़िया । तर आसथान जो सह सू माय  
झगड़ो कियो । सम्बत 1248 रा बसाव सुर<sup>2</sup> । सात बीसी रामपूता सू काम  
आया पाली रा तलाव ऊपर ।

आसथान जो र राजलाका री विगत—

1 बहू गोरा गहलोत गमेल गजसिंहोत री बटी सती हुई ।

1 बहू उत्तरदे राणी ईश वृडा रो बेटी ।

आसथान जो र क्वरां री विगत—

1 घृहड इदा रा भारेज ।

2 जोपसाव जिणा र बेटा सात—

1 सीधल रा सीधल राठोड कहीज ।

2 जोलू रा जोलू राठोड कहीजे ।

3 जोरा रा जोरा राठोड कहीज ।

4 ऊहड रा ऊहड राठोड कहीज ।

5 राजिं ।

6 मूलू रा मूलू राठोड कहाणा ।

7

— — —

3 धाघल र बटा 3 तीन धाघत र बस रा धाघल राठोड कहीज ।

1 पावू देव हुवो । जायल रा लीची जि दराव सू कजियो<sup>3</sup> कर गाया री  
बाहर<sup>4</sup> म काम आया ।

2 बूढ़ी बूडा र बटो झरडो पावू जी रा वर म जिदराय लीची न मारियो  
पद्ध जोगो हुवो ।

3 ऊल ।

1 वरदान ।

2 बुधवार अप्रैल 29 1192 ई । यह तारीख काल्पनिक ही है । एक अ-य  
स्थात मे मृत्यु सवत् 1348 वि (=1291 ई) किया है जो सम्भवत ठीक  
हा पदानु इस सदभ मंदी गई कथा क्षेत्र कल्पित हा है और  
जोधपुर । पृ 164 165 ।

3 लडाई ।

4 रका ।

धाधल रा वस रा धाधल राठोड कहीज ।

- 4 हिरडक (हरखा) ।
- 5 पाहड र बटा नी 9 ।
- 6 खीपसाव ।
- 7 आसला ।
- 8 चाचिंग र बेटा 6 । चाचिंग र वस रा चाचिंग राठोड कहीज ।

133 राव धूहड सम्बत् 1248 रा जठ सुद 13<sup>1</sup> पाट बठा न करणाटक  
देश सू कुल देवी चक्रेश्वरी री सोना री मूरत लाय ने गाव नागाणे थापन<sup>2</sup> विदी ।  
तिण सू नागाणे ची कहाई, न चहुवाणा सू भगडो हुबो सम्बत् 1285 वारे से पिच-  
यासी म । तठ धूहड जी काम आया<sup>3</sup> ।

धूहड जी र राजलोका री विगत—

- 1 वहु चहुवाण द्रोपदा लिखमसी पदमसीहोत री बटी । तिण र बेटा 7 सात ।
  - 1 रायपाल ।
  - 2 कीतिपाल ।
  - 3 वेहड सू वेहड रा वस रा वेहड राठोड कहीजे ।
  - 4 पेथड । पेथड रा वस रा पेथड राठोड कहीज ।
  - 5 जोगायत ।
  - 6 डालू ।
  - 7 वगड । वेगड रा वेगड राठोड कहीजे ।
- 

134 राव रायपाल महीरेलण<sup>4</sup> कहायो । काल म घगा मिनखा ने  
निभाया<sup>5</sup> । जिण सू ने पवारा रा छिवाणा बाडमेर पाच सौ साठ गावा सू लियो,  
ने जादव बशी राजपूत मागा ने सवश्वाधन दे आप रो भिक्षुक कियो<sup>6</sup> । मागा र  
बेटो चढ़ हुबो । चाद र वस रा रोहिड्या बारहट कहीज ।

रायपाल जी सम्बत् 1301 मे देवलोक हुवा<sup>7</sup> ।<sup>7</sup> रायपाल जी र राजलाका  
कवरा री विगत—

- 1 वहु भटियाणी रामादे वेलण जसलात री बटी । इए र बेटा 6 हुआ—
  - 1 काह ।
- 

- 1 मगलवार मई 26 1192 ई (तिथि अमावास्य) । 2 स्थापित ।
- 3 सन् 1228 ई । यह सवत् कल्पित है । इसका सही सवत् तिरसिंगडी गाव  
के तालाव पर धूहड की देवली के लेख मे स 1366 वि (=1309 ई) है ।  
(इ. ए. 40 पृ 301) ।
- 4 देवराज इ-इ । 5 निर्वाह किया । 6 याचक बनाया ।
- 7 1245 ई । यह मन्द-सवत् अविश्वसनीय है ।

2 बेलण, केलण र थाथी, ने थाथी रो फिटक। फिटक रा वम रा फिटक  
राठौड़ कहीज।

3 सूडो रा सूडा कहीज।  
लाखणसी।

6 डागी।

— — — — —

2 बहु देवडी गोरादे कवलराव जाखण भू मावत री बेटी। तिण र बेटा 2 दोय।

1 मोहण न जेसलमर रो राव पकड़ लं गयो। मागा भाटी ने चारण कियो  
जीं बात रो वर लेण सारु मोहण न कामदारा र परणाया। मोहण रा  
बस रा मोहणोत औसवाल वाजिया।

2 जाभण।

3 बहु बोलोसी कु कमदे रे बटा 4—

1 राजो।

2 जोगो।

3 रादो। तिण रा रादा राठौड़ कहीज।

4 हाथुडियो।

— — — — —

135 राव काह 1291 रो ज म। स 1301 पाट बठा। सबत् 1385  
मे देवलाक हुधा।<sup>1</sup> तिण र राजलोग बहु देवडी किल्याएंदे सालवा री बटी। तिण  
र बेटा 3—

1 भीवकरण।

2 जालणसी।

3 विजयपाल।

1 भीवकरण काक नदी ऊपर काम आयो।

दोहा

आधी घरती भीव, आधी लोदरवै घणी।

काक नदी छ सीव, राठौडा ने भाटिया।।।

भीम निवस गयो।

136 राव जालणसी।

जालणसी एक दिन शिकार गया थो। गाव चादणी तठ रुख एक झमर  
कियो। कयो— इण रुख रो फल पान कोई तोडण पाव नही। पछ साढा गर  
हुक्म<sup>2</sup> इण रुख रो फल तोडियो। जद बटक<sup>3</sup> कर साढा रा डेरा भूटिया। माथ

1 राव काह थी सभी तिथियाँ वयोल कल्पित हैं।

2 आज्ञा उल्लंघन कर।

3 सना सञ्जित कर।

# जोधपुर राज्य की स्थान

दृढ़ विधो ! जैतवार<sup>1</sup> पोतियो<sup>2</sup> लियो ! तथा या बान<sup>3</sup> पोतियो राठोड वाघ ! सोढा  
गढ़ रा धणी गागा कहीज ! थल माहे रहे त्या कन दण्ड तियो ! काहराव, बोहर  
मुध जत्रिहर दीलाहर सतहर, खुडिया पावल तुडियो, कीतल या गामा माथे

दृढ़ घालियो<sup>4</sup> । 1 जालएसी घटो मारियो ! मुल्तान री चौय लिवी ।

1 जालएसी र राजलोका गी विषत ।

1 बहू मुष्पारदे गोहिल गादा री बेटी र बेटा 3—

1 छाडो ।

2 भासरसी ।

3 दूगरसी ।

— — —

2

बहू जमना सिवाणा रा धणी चढ़वाण सातल री बेटी ।

3

बीरादे गहलौतणी नारणी री बेटी ।

137

रावल छाडो गोहिला रो भाणेज । जालए देवलोक हिमो तर छाडा  
देणा बीधा छ । जिके गामा नवा माह बाकी<sup>5</sup> है सी त्रू ले लोज । पद्ध नवा ही  
गामा री बाकी छाडो उगराय लिवो<sup>6</sup> । चौगरणी उगाई लिवी । चौगणा घोडा  
लिया । या नवा ही गामा रा ऊपर मडिया है । जालएसी रा बाकी ही है । रावल  
छाडे जसलमेर भाटिया त्रू कवायो के— थ गढ़ वार गाव वसावो तो मातृ बेटी  
तथा नाल-वधी<sup>7</sup> देजो । या बात भाटियान मानी । तर चढ़ न जसलमेर मारिया ।

गोत

तलबाडा हृत<sup>8</sup> महादल ताण, उतरियो इसावलि आय ।  
जसलमेर तणी जालहणउत, घर ऊधाला सहर घकाय ॥1॥

तग ताण<sup>9</sup> जडि नजडा हथ,<sup>10</sup> धाय भडिचि<sup>11</sup> भोम घडी ।  
रावल सीर आया खड़<sup>12</sup> रावल, प्रगट वखूण<sup>12</sup> भीड़ पडी ॥2॥

1 विजयी ।

2 पगडी ।

3 कानो तर ।

4 मध्यदण्ड वसूल किया ।

5 बाकी (राशि) ।

6 वसूल की ।

7 मवसी कर ।

8 जल स्रोत ।

9 युदाय परम सजा कर ।

10 तलबार प्रहण कर ।

11 सहार कर ।

12 प्रस्थान कर ।

13 जसलमेर दुग का नाम ।

कमधज छाडे कीध कोपिये, माडधरा<sup>1</sup> ऊपर भव्यर” ।

घूहड हरेः<sup>2</sup> घूण खग धारा, सण्टि वलियो<sup>3</sup> सहर ॥ 3 ॥

1 वह दुनणी र बटा 7 सात—

- 1 तीडो ।
- 2 सोरवर रा खोखर राठोड कहीज ।
- 3 बानर ।
- 4 सीमाल ।
- 5 रद्रपाल ।
- 6 खीपसा ।
- 7 बानडदे ।

138 रावल तीडो सम्बत् 1321 रा मिगमर सुन् 7<sup>5</sup> रो ज म । महेवा रो धणी हुवो । साथ चणा । पला भीनमाल कितरायक दिन राज बीधो । तीड सिरोही रा धणी कने दड लीधो । अर जोरावरी सू परसिया । सानगरा कना सू<sup>6</sup> भीनमाल लियो थो । बालीसा कना सू चाकरी कराई । जठ साथ पडियो तठ जाणे तीड पडियो<sup>7</sup> इण वास्त तीडो नाम दिराणो । एक किताब म यू लिखियो है । चणा रो ज म हुग्रो जिण वरभ तीड धणा आयो थो तिण सू तीडो नाम दियो ।

### छप

प्रथम खेत भीनमाल, भिडे सोनगरा भागा ।  
 दल देखे देवडा, माल तस मरण लागा ॥  
 बालीसा बल तज, काट पाघरे चलाया ।  
 बीस दूरणी<sup>8</sup> दस दरक<sup>9</sup>, भेट ले भाटी आया ॥  
 छोडिया वास सालकिया सीहा कु जर<sup>10</sup> सोरिया ।  
 तीडे नरिद्र छाडातण, पाच राव पाघोरिया<sup>11</sup> ॥

1 जसलमेर प्रदेश का प्राचीन नाम ।

2 समव प्रदेश । 3 राव घूहड का वशधर ।

4 बापस लोग ।

5 गुह्वार नवम्बर 27 1264ई० ।

6 सोनिगरा चहुआनो स ।

7 मानो (तीड) निढ़ी दर ने पडाव डाना हो ।

8 चालीस । 9 ऊट ।

10 हाथी । 11 पराजित किये ।

## जोधपुर राज्य की स्थान

तीडो जो सिवाए चहुवाण सातल सोम पातसाह भलाउदीन सू साको कियो  
जठ काम आया सम्बद 1352 रा जेठ सुद 112,

बेटा री विगत—

- 1 त्रिभुमणसी
- 2 काहड
- 3 सालखो

राव तीडा र टीके काहड बठो । सलखो पाघरो सो<sup>२</sup> ठाकुर थो । सिवाणा  
रे गाव गोपडी रहता । गाव लोलेसर रो घणी तोलो सू डो मासियाई थो<sup>३</sup>, सौ तला  
बन सलखो लण गयो सो सुवावड<sup>४</sup> री गाठ पोहचावण तोले एक रजपूत मेलियो ।  
सा नाहर च्चार ने नाहरी एक आदा किरिया । राजपूत सकनी थो<sup>५</sup> । तिण पाढ्य  
जाय तोला ने कयो— याहरा छोहू<sup>६</sup> सलखा रा छोहवा ने दण्ड भरसी । सलखा र  
च्चार बेटा ने एक बेटी हुई । मल्लीनाथ रो जनम गाव गोपडी हुवो ।

139 राव सलखो चहुवाणा रो भारेज ।

1 सलखा जी र राजलोक कवरा री विगत—

- 1 बहू पडिहार राणा हृष्ण री बेटी तिण र बेटा 2 बेटी ।

1 मल्लीनाथ रा माला

2 जतमाल रा जतमालोत नहीज

ने गाव धवाला र धवेवा कहिज ।  
जतमाल जी सोढा ने मारने राडपडा देस रा 48 गाव लिया ।  
जतमाल जी सोढा ने परणाई ।

- 1 बेटी विमली जसलमर रा रावला धडसी ने परणाई ।

1 बहू सोढी उमरकोट री तिण र बेटा 2 दोय । 1 बीरम 2 सोभित

रा सोहड कहीज ।

1 मल्लीनाथ जालोर रा तुरका सू मिल कोज लायो । काहडदव ने मार  
बठो प्रतापिक हुवो । महेवा रो टीको लियो । सिढ जोगी री दवा<sup>७</sup> सू रावल कहायो । मल्लीनाथ जी  
चाकरी मे राखिया । ववर जगमाल न धडसी र साथ मेल तुरका बना सू जेसलमेर  
ले दियो । माला अवतारिक पुरुष थो । सम्बद 1431<sup>८</sup> रा मे महेव खेड पाट थठा ।

1 मई 12 1296 ई० । 'सजाइनुल फुतुह के अनुसार भलाउदीन ने सीवाना  
पर भाक्रमण 1310 ई० मे किया था । फुतुह पृ ३३, खिलजी पृ 135,

2 सरत स्वभाव था ।

3 मोसरा भाई ।

4 सद्य प्रसवा ।

5 शुकुनवता था ।

6 पुत्रादि ।

7 भाशीवर्दि स ।

8 शामित कर ।

9 1374 ई० (?) ।

बीजी<sup>1</sup> धरनी रो विगाड़ करे जमीन भारी पड़ी । बडो जोरावर हुवो । मठावर  
मवाह सिरोही सिंघ रो विगडा करे । तर दिली रो पातसाह भलावुदीन माला ऊपर  
कोज मेली । तिण रा तु गा<sup>2</sup> तर कहीजता । सम्बत 1435<sup>3</sup> म मटेका री हृ<sup>4</sup> म  
बढ हुई । मल्लीनाथ री फतह हुई । पातसाही फौज भागी । तिण री सायद—

तेर तु गा भाजिया भाल सलखाए

जसलमेर रा रावल घडसी मल्लीनाथ जी र खेड आयो थो सो धायन  
हुवो । रावल घडसी र करायोडो जसलमेर मे घडसीसर तानाब है ।

### 1 मल्लीनाथ र बटा 9—

- 1 जगमाल, तिण रा महेचा कहीज ।
- 2 जगपाल ।
- 3 कुपो तिण रा बस रा कोटडिया कहीज ।
- 4 मेहो ।
- 5 चूहराव ।
- 6 अडवाल ।
- 7 उदेसी ।
- 8 अरडकमल र बस रा बाटुडमेरा ।
- 9 हरभू ।

### 1 जतमाल इणा र बस रा जतमालोत कहीजे ने इणा र बेटा 6—

- 1 हापो तिण रा बस रा घवेचा कहीजे ।
- 2 सीवो तिण रा बस रा राढधरे है ।
- 3 जीवो ।
- 4 लूडा ।
- 5 बीजह ।
- 6 खेतसी ।

1 सोभित रिसाय<sup>4</sup> ने सिंघ गयो थो सो गाया री बाहार<sup>5</sup> मे ग्रादमिया  
पच्चीस मूँ काम ग्रायो । इणा रे बस रा साइ कहीजे ।

1 दूसरों के अधिकारों की ।

2 संय समूह ।

3 1378 ई० (?) । तब निली म किरोज तुगला राज नर रहा था ।

4 एट होइर बे ।

5 रदाय ।

33  
140 वीरम - वीरम ने जगमाल मालाकत रे यणी<sup>1</sup> नहीं। जिए सू

सापद रो दोहो  
मालह कियो मनावणा, मागलियाएँ तेड़<sup>2</sup> ।  
आ घर वीरम आपरी, खित<sup>3</sup> वापोती<sup>4</sup> खेड ॥॥॥

मल्लीनाथ जो पाटबो सो भिरडकोट रहता जिए सम बतसाली<sup>5</sup> रा सबव  
मू साहचाणा रो धरणी जोईयो दला गाढा भार धाल<sup>6</sup> टावरा ने त मटेवे मल्लीनाथ  
जी कन आयो। तर इणा न बस रा ने जमी बताई। गाव वधड जठ वसिया, ने  
जोइया रा घोडा पाच से तलवाड धाण<sup>7</sup> रातिया। जोइया म दलो मालक। दला र  
र वीरम जी री ठाकुराणी मागलियाएँ जी रातही<sup>8</sup> बाद भाई कियो। दला र  
छोटा भाई महू र घोटी र बद्धरी आद्धी हुई। समाद नाम दिनो। मल्लीनाथ जी  
दस हजार रुपया दस घोडा ने सिएली गाम आधो धामिया<sup>9</sup> पिण भद्र बद्धरी  
दिवी नहीं। तर क्वर जगमाल गोठ र मिस<sup>10</sup> लोक भेलो कर जोइया ने मारण रो  
ऊपर रुपया। दला ने एक मालण जाप खबर दिवी। तर जगमाल चढने सेड  
लारे गया। भगडो सह हुवो। मल्लीनाथ जी ने सयर हुई तर मल्लीनाथ जी चढन  
लोक स दला र साथ गया सो जोइयावाटी म गाव साहचाण उणा रो ठिकाणो हो,  
जठ पोहचाव पाछा आया सो आवता ने जोईये दले बद्धरी समाद दिवी। पाद्धा  
आवता थल म आसायचा ने मार कितराव गावा सू गाव सेतरावो उरो लियो ने  
भीरम जी खड आया। जगमाल जी वीरम जी ऊपर मटोवर मू तुरका ने बुलाया।  
मो सिवाणे आया। तर वीरम जी ने सबर पढी सी कबीला ने ले नितर गया, सो  
साखली जी न तो पुगल पोहचाता किया, ने वीरमजी लावण, मू मोयल माणकराव  
रा घोडा घोडिया रो धाडो<sup>12</sup> कियो। गाव डावरे मोयल आण पोहता। भगडो हुवा।

1 मेलजोल नहीं रहा।

2 बुलवा कर।

3 भूमि।

4 पृष्ठ।

5 अकाल।

6 बलगाहियो म प्रपना सामान लाद कर।

7 तलवाडा स्थान की सनिक चौकी पर।

8 रास्ती रक्षा मूत्र।

9 देन का प्रस्ताव किया।

10 वहान।

11 स्थगित।

12 स्वय।

13 डाका डाला लूट लिय।

बीरम जी री फतह हुई । उठा सू बहीर हुवो सौ ऊट तीस रोकड रुपया रा सिध  
र पातसाह पेशकशी<sup>1</sup> रा दिली रा पातसाह र मेलिया जिके मारग मे मिल गया  
सो सम्बत 1434° म कोस लिया<sup>2</sup> । भढोवर सू तुरक बाहर चाढ़िया सो बीरम  
जी जागलू ने खड़िया । साखला ऊनू ने खबर हुई सो साखला ऊने ने भीम बीरम  
जी र साभा<sup>3</sup> आयो । बाहर सू झगडो हुवो । तर बीरम जी ने ऊदो जागलू गयो ।  
जागलू ऊपर पातसाह री फौज गई । कई दिन लड़िया । पछ बीरम जी जोइया  
दला न खबर दिज गई सो मढू ने देपालदे घणो (साथ) ले ने जागलू आयो सो  
बीरम जी ने जागलू रा कोट माय सू काढ ने जोयावटी भ ले गया ने बारा गावा  
सू गाव लखवेरी ने गाव ऊचरो आधो ढाणे<sup>5</sup> दियो ने बीरम उठ राखिया । ने घाडो  
कर जिन मे चोरवो<sup>6</sup> धण<sup>7</sup> हुवे सो बीरम जी ने देवे । इतरा खून जोइयि दल बीरम  
जी रा सया<sup>8</sup> । विगत—

। पाजूर खोस आया ।

दला री साढ़िया<sup>9</sup> सात हजार धाढो कर उरी लिवी ।

गाव चोबीस जाइया ने काढ मते<sup>10</sup> वसाय लियो ।

गाव उस (ऊचरा मे) मे दला रा आदमी पनरे जोइया मारिया । बाकी रा  
पड भागा ने बीरम जी आपरा ढाणी<sup>11</sup> बठाण दिया ।

दला रा बनाई भोटल ने मारने गढ खोस लियो ।

भाटी बुकण री बडी बेटी कस्मीरदे तो दला रा भाई देपालदे ने परणाई  
ने छोटी बेटी रानलदे री सगाई बीरम जी सू करी सो बीरम जी परणीज  
ने गया तर भाटी बुकण ने आदमिया समेत मार धन सारो खोस लाया ।

कई थार जोइया बीरम जी ऊपर चढ चढ ने बहीर हुग्रा, सो दल नीठ<sup>12</sup>  
वरज<sup>13</sup> ने राखिया । बीरम जी न ही धणा ही समझाया, पिण मानो नही ।  
दले तो आगला भसान सू गुना सया ने बीरम जी जाए जोइया म्हा सू  
डर छ ।

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1 भेट स्वरूप ।                                 | 2 1377 ई० ।     |
| 3 धोन लिये ।                                   | 4 सम्मुख ।      |
| 5 राहारी पथ कर लगान ।                          | 6 बहुत ।        |
| 7 पशुधन द्रव्य ।                               | 8 सहन किये ।    |
| 9 मादा ऊट ।                                    | 10 स्वच्छा से । |
| 11 कर बसूल करने वाला कमजारी, राह कर लेन वाला । |                 |
| 12 बडी निनता से ।                              | 13 मना कर के ।  |

## जोधपुर राज्य की स्थान

एक दिन बीरम जी क्यों—“मोटो ढोल करावो । सो बाईक जाडा छ से<sup>1</sup> तलास करो । सो जोईया री कबरस्तान म एक फरास रो दख जाडो तम्हो थो सो कबरा पडाय साडो खुदाय ने जडा सू फरास कटाय लियो । कबरस्तान म कवीर हा सो चादिया बिको ने गाव साहवाण जाय किरियाठ बिको । तर देपालदे मद्द वगरह जोईया हजार दस बीरमदे ऊपर चढिया । तर दलो पेर जाय ने भाडो मिरयो । पिण भाया हरगिज मानी नही । तर दले क्यो— गाव ऊपर जाय गेलिया बावसा<sup>2</sup> ने लाय लगावसा<sup>3</sup> । तर बाई मागलियारणी काई जाणसी सो गाव ऊपर तो भत हासो न गाया रो धाडो करो । सो बीरम बाहर चढ ने आवसी । तर मगडो करसा । जोईया जाय गाव सखवेरा री गाया लिको । बीरमदे जी बाहर चढिया । फगडो भाडो हुवो । बीरमदे जी काम आया सम्वत् 1440 रा बाती वद 54 ने जोयो देपालदे बाम आयो । दोनो तरफ रा पणा आदमी बाम आया ।

बीरम जी र राजलोक कबरा री विगत—  
1 वह मागलियारणी रा बेटा री विगत

1 देवराज रा वस रा देवराजोत कहीजे ने देवराज र बेटा धर 6

- 1 राजो
- 2 चाहडदे रा चाहडदेहोत कहीजे
- 3 मोबल
- 4 स्त्रीवकरण
- 5 महेराज
- 6 दुरजणसाल

- 2 जसिंध
- 3 धीजो
- 4 धू ढो जी

—  
वस रा गोगादे राठोड कहीजे । बीरम जी रा वर मे गोगादे जी गाव साहवाण 2 वह भटियाणी जो गाव कु डल रा तिण रो बेटो गोगादे जी तिण र

- 1 मोटे तने वाला वृण ।
- 3 माग लगा देगे ।
- 4 शनिवार अक्तूबर 17, 1383 ई० ।

2 गोलिया चलावेगे ।

1713 वि० (1656 ई०) के शिलालेख मे दी गई है । भोजा जोधपुर 0,  
1 १99-200 ।

जाय ने जाइया दला ने मारियो । दला रा भाई मूँ रो बटा धीरद गाव पूगल परणीजण गयो सो जान मे खबर पाहती । तर उठा सू बीद ने जानी बाहर चढ़िया गाव लघुसर आए पाहया<sup>1</sup> । भगडो हूंवो । गोगादे जी काम आयो । जोया धीरदे ही काम आयो । दोनू तरफ रा घणा आदमी बाम आया ।

3 बहू साखली जागलू रा साखला उदा री बन<sup>2</sup> ।

4 बहू छोटी भटियाणी भाटी बुकण री बेटी ।

- - -

141 राव चू डो धीरम जी जोयावटी मे माराणा तर चू ढा जी री मा मागलियाणी चू ढा जी ने लेन भारवाड मे आई सो थली म गाव कालाऊ चारण आल्हा बारहठ र घरे आय मागलियाणी आप रो आपो<sup>3</sup> छिपाय रही चू डो जी चारण आल्हा र केरडा<sup>4</sup> चरावे । सो केरडा रे अगाडी पछाडिया<sup>5</sup> दे बाध राखे । मूँदा आगे घास नाखे । सा केरण दुवला हुम्मा जिण सू एक टिन चारण इणा र वासे छान गयो सो देखें तो केरडा र अगाडि पछाडि द न चू डो जी सता छ न मूँदा ऊपर तावडो<sup>6</sup> आयो तो कालो सप चू ढा र माथे फण कर रहो छ । आल्ह मागलियाणी ने पूछियो— ये कुण छो । साच कहो । मागलियाणी कहो— म्हे तो मजूर छा<sup>7</sup> । सो आल्हो सायणी<sup>8</sup> थो सा विचारियो शए र माथे छत्र चलसी, ने जाणियो टोगडा<sup>9</sup> ने घोडा बनाय रामत रम<sup>10</sup> सो उणहीज राजवी रो बेटो छ । तर आल्ह घणो हट कर पूछियो । तर क्यो ओ मल्लीनाथ जी रा भतीज छ । तर आल्ह इण ने आद्धा कपडा कराय टिया न क्यो धू घरती रो घणी हृसी<sup>11</sup> ने क्यो रावल माला र प्रधान नाई मोवा छ । तठ हालो । तर मागलियाणी चू ढा ने ले जठे मोवो छो जठ गई । आप ता गाम भ रही ने चू ढा ने मोवा नाई कन मलियो । मोवो कठी ने जावण साह<sup>12</sup> उठियो । तर जूनो मोवा री पगरखी हाथ मे भाल<sup>13</sup> मोवा आगे मेली । मोवे क्यो— मोटियार कुण छ ? तर क्यो— हूं पूँडो धीरमोत छ । मोवो क्यो— तू मारो धणी छ । तोनू रहा आगे पगरखी मेलनी जुगत<sup>14</sup> नही छ ।" चू डो क्यो— म्हे भूमिया छा । मोव क्यो—

1 पहुंचे ।

2 बहिन ।

3 अपनी वास्तविकता ।

4 गायों वे बछडे ।

5 आग पीछे के पर बाधना ।

6 धूप ।

7 मजूर हैं ।

8 शकुनी ।

9 बछडे ।

10 झीडा बरता है ।

11 जान के लिए ।

12 उठावर ।

13 उचिन ।

"परमेश्वर आणा करसो ।" केर क्यो— 'मागलियाणी जी वठे छ ।' चू डे क्यो— घठे गाम मे छ । मोव गाम म जाय मागलियाणी सू मुजरो कियो । अर बीक<sup>1</sup> खची दिराई । मागलियाणी ने पद्ध मोव रावल माला नू वह ने चूडा नू गाम सालोडी थाणे मेलियो । जोगपुर सू सालोडी कोस आठ छ जठा ताई<sup>2</sup> माला री अमलदारी हुती । सालोडी र थाणे आया पूठी<sup>3</sup> चू ना रो दिन वालिया<sup>4</sup> जिका माडे तिवा पावरी आव । ठाकुरी वधी<sup>5</sup> । घोडा रजपूत रो जमाव हुवा । अर चूडा वज-चजियो<sup>6</sup> तर माले मोवा नाई नू ओलम्बा<sup>7</sup> दियो । क्यो— चूडा ने सलोडी र थाणे मलाय त वडी उपाध<sup>8</sup> पैंदा किवी । बीरम फीसादी<sup>9</sup> रा वेटा वधारिया" । मोव क्या— आप आगे कहे छ सो खरीज हुमी<sup>10</sup> । पिण म्हे तो घणो वधियो क्यू ही सुणियो नहीं । यू कहि माव वात टाली । पिण चू डे भूजाई सबली भाडी । गाठे वज वजिया । तर माले सालोडी जावणो विचारियो । तर मोव चूडा न कवाडियो मालो आवे छ । सो तू साद से वस हृय रहीज" । मालो सालोडी अर चूडा रो सादा सो वस दीठो । तर माल क्या— म्हा आगे कही त्या झूठी कही ।" चू डो थी चावडा माता जी री सेवा करे । सा थ्री माता जी प्रसन्न हुई सुपना म कहो— म्ह प्रसन्न हुइ । मढोवर रो राज दियो ।" ने क्यो— सातवें दिन लूए म साना री इटा भरियोडा पोठिया<sup>11</sup> नव 9 आवसी सो तू आदमिया नू मार ईटा उरी लीज । के वारवान एक घोडा गे सिध मू बोपारी लावसी । घाडा 8 लेन थारे पायगा<sup>12</sup> म आवसी सा वाध राखीजे । घोडा रा पगा<sup>13</sup> बोपारी आवसी सो घोडा र रग वदल हृय जावसी ने बोपारी कुठा परा जावसी । इण तर घोडा ने ईटा आई सो चूडा जो र वडी जमीत हुई । तिण समे मढोवर नागोर नाचे था अर तुरफ थाणे रहता न मुलक म इन्दा रजपूत था । तिणा सू खेचल<sup>14</sup> घणी करता । सो इदा ने बुलाय न क्यो— 'धास रा गाढा लावो ।' तर इदा विचारिया अठ तो ना कहणो ठीक नही । तर हाकारो भर न घरे आया न इदा उगमसी रा वेटा रायधबल न उदो अ दोनू सपूत हुता । ज्या क्यो—

1 मामाय सी ।

2 जहा तक ।

3 बान म ।

4 सुदिन लौट आये ।

5 बनी ।

6 परात्रमी हुआ ।

7 उलाहना ।

8 मुमीबत वठिनाई

9 फिसाद करने वाले के ।

10 सत्य होगी ।

11 बालन्त्ये के लद्दू वल ।

12 घुडसाल ।

13 पद चिह्नो वा अनुसरण करते हुए ।

14 घेडखाड ।

जठा सू ह सवार<sup>1</sup> करण लागी सो घटावता घगवता एक मण रो धृत रोज खरच राखियो छ । भीना एवं रो तीन सौ ने तीस मण धृत रो सवार म्ह आप री करी छ । आ सुए चू डे क्यो— त म्हने मरायो । मार माये वर घणा अर त खरच रसोडा रा घटाय राजपूता न काढ दिया । राजपूता हीज जमी दवाई थी । सो जमी ही गमी न म्हने ही मरायो । इसडी<sup>2</sup> सवार तें कीधी । पछ बार आय खूँड जी खबर किवी सो रजपूत सगला ही गया परा । इतर पाडोतिया ने खबर पडीस नागोर सू रजपूत गया परा । चूँडा एकत्र है तर कलष भाटी मुलतान रा पातसाह सलामला नू नागोर माथ ले आयो अर चाहिल मोहिल कलहण ही सलीम खा साथ आया । अ सग माये आया । तर रजपूता चूँडा नू क्यो— य नीसरो, म्ह अठ मरसा । साथ सावठो<sup>3</sup> ऊपर आव छ ने अठ रजपूत घोडा है ।' चू डे क्यो— हमे हू बठीन जाऊ गागू तो लोऊ हमे । चूँडो जी मरणीक हाय रयो । अर कवरा नू क्यो— ये नीसरो । अर रिठमल नू कहया हू तो मरण वास्ते अठ रयो हू । पिण म्हारो जीब ठोड नहीं है । रिठमल कहयो—' राज र मन य है सा कहो । आप कहसो ज्यु ही करसा । चूँडे क्यो माहिलाणी रा वेटा काहा नू राज रो टीको दम रो बचन दो तो मारो जीब सोरो<sup>4</sup> नीसरे । रिठमल क्या— ओ म्हारो बचन है । माहिलाणी रा वेटा बाना ने म्हे टीको देसा ने जठा सूधा<sup>5</sup> काना घरती रो थणी रहै तठा सूधी हू याणी ही पीकू नहीं । आप जीब सोरा करो । पछ कवरा रो साथ नागोर सू निसरियो ने राव चूँडो एक हजार रजपूता सू काम आया । राव चूँडा जी रा कवरा री विगत—

- 1 रिठमल ।
- 2 सता तिग रा सतावत ।
- 3 रिणधीर रा रिणधीरोत ।
- 4 भीब रा भीबोत ।
- 5 अरडकमल रा अरडकमलोत ।
- 6 पूना रा पुनपाल ।
- 7 विजो ।
- 8 काहो रा काहावत ।
- 9 अजो ।
- 10 मिवराज ।
- 11 लुम्जो ।

1 व्यवस्थित ।

2 बड़ी सह्या में ।

3 मासानी से ।

4 जहा तक ।

## जोधपुर राज्य की स्थान

12 रामनेव

13 सहस्रमल रा सहस्रमलोत

14 रावत ।

बेटी 1 हासवाई रिडमल री मगी बहन चित्तोड राणा लाखा ने परणाई  
तेण रो बेटो राणो मोकल ।

सलीम सा राव चूण्डा नू मार ने घजमर री जात नू भायो, ने भाटिया  
ए साध हुतो तिण ने सीख दीनी । भाप थडवडे<sup>1</sup> साध सू खाजेजी री जात नू  
भायो । रिडमल दूडो<sup>2</sup> ढालो बणाय 500 भसवार ले पाला 400 साध दे पचोली  
खीवसी न घजमर मेलियो । सो खीवसी घजमर जाय ने हिडमल सू चूण्ड बर  
सलेम या नू मारियो । सो इण रीझ सू खीवसी ने साहू पटे दिकी । पहला छोट  
चायम सानिया करायो थो पछ पक्को बोट खीवसी करायो खाहू रो ।

पछ राव रिडमल मण्डोवर थाय वाह र टीको बाढ ने रिणमल मण्डोवर  
री परती माहे पाणी ही पियो नही । ने, चित्तोड राणो मोकल घणी हुतो । सो  
रिडमल रो भारणेज हुतो । तर रिडमल गयो ने राणे गाव घणालो 40 तथा 50  
गावा सू पटो दियो । तठ रिडमल रयो ।

राव काहो मण्डोवर राज कर थे । तिण दिना जागलू साखलो राणो  
पुनपाल माएकराव रो राज कर थे । सो इणा र माहो माह घदावत हुई । राव  
काह कटक बरने जागलू ऊपर गयो । सो साखलो सुणियो काहो आव थे । तर  
साखले रिडमल चूण्डावत नू खबर मेलि, क्यो— म्हार ऊपर करो । काहो माहा  
ऊपर आव थे । तर रिडमल भापरो साध ल ने चढियो सो सरु छे भाय उतरियो  
थे । सो साखला सू कानो बढ कर थे । साखला च्याह ही भाया कार भाय वेढ  
थी । सो काना र ने साखला र बढ हुवे थे । सो श्रोठियो<sup>3</sup> ऊपर श्रोठी मैल थे ।  
चढण री तयारी करे थे । सो राठोड जदो त्रिमुवणसीयोत रिडमल नू कहे थे  
चढण री मुसताई<sup>4</sup> करो । आचो<sup>5</sup> मत करो । घ वेहु थारा घर नू कमाव थे । ज  
काना मरे थे तो ही जागलू थाहरे भावे थे । आ बात रिडमल सुण न रिडमल तो  
साहू हीज रहया । काह बढ जीती । साखला माएकराव रा बेटा च्याह ही  
मारिया । कदो । बीजी 2 भवो 3 पुनपाल 4 रो च्याह ही भाषवराव रा  
बेटा काम भाया । ने साखला वरसित भापमलोत नू भाया कहिने कादियो ।

1 बहुत ही कम ।

2 फूठा ।

3 सुतर सवार ।

4 शीघ्रता ।

5 विलम्ब ।

वह यो — आपणे बीजबार ही रहे न थे । तू निसर०<sup>1</sup> तर वरसिह निसरियो । सो काह री फौज म सीधल जतो हाथी माये चढ़ियो ऊभो थो । सो जाता दीठो । तर जतो हाथी मू उतर घोडे चढ़ने वरसिह वासे चालिया सो जाय आ पड़ियो । ने वरसिह ही ऊभो रयो । तर जेतो सीधल वरसिह नू लोह कियो<sup>2</sup> । सा वरसिह टालियो ने जेता नू लोह वरसिह कियो सो फवियो<sup>3</sup> । जता सिधल नू वरसिह मारियो, न वरसिह जातो रह या । ने काह बेड जीती ने आदमी 165 साखला रा काम प्राया । चारण दबी थी करणी जी ने सताया । तर करणी जी सराप दियो सो काहो जिए सू षेट दूख न मूको । पछ राव सतो काना रो भाई कानो र टीके बचो । रिडमल सतो काहो अ तीनू एक माया भाई था गोदखा रा भाणेज ।

सतो दार घणो पीवतो । भाई रणधीर काम चलावतो । पछ सप्ता जी र बेटो मोटो हुको । बाको नाम नरवद थो । सो निपट जोरावर थो अर काल पूछियो<sup>4</sup> हुको सा नरवद र रिणधीर र वणियो नहीं तर मारवाड छोड रणधीर धण ले राव रिडमल बन गयो । रिडमल नू रणधीर कयो — काना कनासू घरती लण री सू सू<sup>5</sup> यानू चूण्डे जी कडायो थो पिण सतो कपर वाढी रो साढ घरती रोकिया बठो । सो कुण थको । हमे थे मडोवर सत्ता बना सू ले लो । आ सुण आप रो साय भेलो बर राणा री फौज साय लेने रिडमल मडोवर आया । सत्ता नू खबर हुई । तर सतो हो निमर गया, न नरवद सामो आय बेड किवी । मण्डोवर सू छोस 2 ऊसी कानी बढ हुई । तठ नरवद धाव पड़ीयो । रिडमल री कते हुई । रिणधीर रिडमल नू कयो — सीसोदिया नू मडोवर मन दिलावो । अठा सू ही सीख दबो । तर राणा जी रा साय मू घणी गुण बीनतो कर रिडमल कयो — हमे सिधावो । सरदार थर राणा जी न म्हारो मुजरो कहजो । राज म्हारो बढो ऊपर कीधो । सीसोदिया कयो — म्हे मडोवर था सीख करसा । तर पणो हठ कर गोठ जिमाय सागीरी भालरी सू तथा नाया सू होज सीसोदिया नू सीख दे दिवी । सीसोदिया मन म घणो बुरो मानियो । पाछा बलता<sup>6</sup> रीसा बलता<sup>7</sup> थका नरवद सत्तावत नू झाली म घास ने चोतोड ले गया । कयो रिडमल र एक ग्रासियो तो राखा । चितोड नरवद र पाना बाघणा सू घाव साभा<sup>8</sup> हुवा । दीवाण नरवद नू चाकर राखियो । तद रालो मोकन पाट न कुम्भा कुवर पद थो । राणो माकल चू ढा जो रो नाहीतरो थो । अर रिडमल रो भागेजो थो । सीसोदिया चाथो

1 प्रहार किया ।

2 ठीव लगा ।

3 बहुत दुष्ट ।

4 शपथ ।

5 लोक्त ।

6 ब्राघ म उवलते हुए ।

7 ग्रच्छे स्वस्य ।

## जोधपुर राज्य की स्थापना

मरो वेह भाई राणा सेता रा वेटा था, पातण करमा रा पेट रा था। मेदनीमल खाती रा दोहीतरा था। बढ़ा अयाथी था। एवं दिन दीवाण कठाईक था आवता सो पे ।<sup>1</sup> माहे एक बोई फाड असेंधो<sup>2</sup> दीठो। विणाही ठाकुर पृथियो, 'दीवाण थे भाड कठियो<sup>3</sup> थे। तर सद भाव<sup>4</sup> सू दीवाण कयो—' भाई जाएता होसी। था मुण चाचो मेरो बने वहता था सो बुरो मानियो। कयो—'म्हारो मा खातण छुती। तिण सू दीवाण म्हान् रुखा री जात पूछे थ। जद कहे थ कि भाई वाक्ब होसी। ए खातण रा वेटा है। लातिया र हुका सू धणो नाम पड़ है सो ये वाक्ब होसी।' इए बात ऊपर गुस्सो वर चाचे मरे राणा मोकल तू सम्बत् 1495<sup>5</sup> त्रुक कर मारियो। ने कुम्भे रिडमल तू यवर मेली तर रिडमल फौज चितोड रा गढ़ म बढ़िया। तर कुम्भे रिडमल तू परवर मेली तर रिडमल नागोर सू तुरत चढ़ियो। चाच मेरे आय चितोड दोलो<sup>6</sup> घेरो दियो। पछ रिडमल फौज लने चितोड भायो तर चाचो मेरो भाज चितोड सू पई रे मगर गया। पर मगरा म पेस हल्लो वर रिडमल चाचा मेरे त्रु मारियो। पर सीसोदिया री बेटी माला री चवरिया<sup>7</sup> वर परणिया। चाचा मेरा र सामल धणा सीसोदिया था ज्या सगला रा कबीला पई रे मगरे था। जिए सू माला री चवरिया वर सीसोदिया री बन वेटिया राठोड परणिया।

चाचा मेरा त्रु मार राणा कुम्भा तू चितोड गाढी वसाणियो। राज री सगली मदार राव रिडमल माथे है ने कुम्भो राणो राज वर थ। सीसोदिया सगला बल जल<sup>8</sup> राख होय रया थ। रिडमल वी मालकी सू दिन दिन वेथ<sup>9</sup> वयतो जाय थ। राव रिडमल चितोड रा गढ़ ऊपर राणा कुम्भा री चौकी देण साह<sup>10</sup> दोडी माथे डोलियो धात ने सूखे थ। कुवर जोधो तलहटी रेव थ। तिण समे सीसोदिय चूण्ड लाखावत ने पमार महिपे राणा कुम्भा तू भसाय<sup>11</sup> ने भूत कियो थ के राठोड भापरो राज लेण रो उपाव म थ। इए ताथ दोपिया<sup>12</sup> रा

1 माग म।

3 विस्त्रा।

5 1438 ई०। परतु यह सम्बद्ध सन् ठीक नहीं है क्योंकि कुम्भा का प्रथम गिलातेस वशाल 1470 वि (=ग्रेग्र 1434 ई०) का मिलता है।

6 चारा श्वेर।

8 ईर्ष्य।

10 के लिए।

12 कुम्भनो के।

2 प्रपरिचित।

4 स्वाभाविकता सदमावना से।

7 विवाह मण्डप।

9 विरोध वर।

11 वहरा वर, भ्रमित कर।

सिखावणा सूराणा ने भ्रम पठियो अर रिडमल ने मारणा रा आलोच<sup>1</sup> करे छ । कुम्भो राणो सम्बत् 1500 रो टाणो<sup>2</sup> छ असाढ माम छ । तद राव रिडमल नीद भरी सूता ऊपर कुम्भा राणे आदमी पछ्चीस 25 घावडियाः<sup>3</sup> मेल लोह करायो । सम्बत् 1500 आपाद<sup>4</sup> म राव रिडमल धणो लोह लागोडो कटारी काढ वाही सो इसो पराक्रम देख सेंग अचम्भे हुआ ।

142 राव रिडमल चूष्टा जी र वर म धणा भाटिया ने मारिया ने इकतासीस बार जसलमेर नारियो । तर भाटिया वेटी देणी कबूल करी । चारण जामन हुआ । भावर वेठ कर कचरो सीधल मारियो । जतारण वेट कर तोगा सिधल ने मारियो । बगडी चरडो सीधल ने मारियो । सोजत नाढो साधल न मार ने लिवी ।

### सायद रो दोहो

सिधल हरा सिधार, सोजत सो सारा मुहें<sup>5</sup> ।  
वाधी विरद पगार, गाढी मडोवर गले<sup>6</sup> ॥1॥

भाटी केल्हण मारिया ने बीबमपुर लूटियो । मवा बना सू जालौर तियो ।  
सम्बत् 1485 म<sup>7</sup> ।

### सायद रो दोहो

सोनागिर<sup>8</sup> स प्रमाण, रुके<sup>9</sup> निरद लियो रयण<sup>10</sup> ।  
घर भाखर कर धाण<sup>11</sup> मारुराव मीया तणा ॥1॥

गया री जापा की । गया रो कर सारा साय नू कीठारा सू दियो ।  
हजार गाया ने हाथी 10 दान किया । दिली रा पातसाह फीरोज मारवाड ऊपर  
फौज करने आयो । तिण सू बढ़ दिवी । रिडमल री फतह हुई । महमन पातसाह

1 विचार ।

2 भवसर समय ।

3 द्यनापात करने वाल आडमणकारी ।

4 जून 1444 ई० । परतु यह सन् सम्बत् टीक नहीं है क्याकि स 1496 वि  
(सन् 1439 ई०) से पहिले ही कुम्भा ने मण्नोर पर अधिकार कर निया था ।  
गोभा जोधपुर ० १ पृ 229 ।

5 जास्त धाराधा स ।

6 बण्ठ ।

7 1428-29 ई० ।

8 स्वएगिरि जालौर ।

9 तलबार से ।

10 रिडमल न ।

11 विश्व शहार ।

## जोधपुर राज्य की स्थापना

राणा मोकल ऊपर आयो । वेठ कियो । पणा हिंदू मुगलमान माराणा । पाद्धा बलवा महेमद ने राव रिडमल सम्बत 1452 गाव हालीवाड बड़ बरते मारियो । कट्टण महरा र हाथ महेमद रटियो ।

साध रो घोहो

रिडमल धल<sup>1</sup> राणाह, आयो महमद ऊपरा ।  
माथे मदगधाह<sup>2</sup>, सीहूक तोड साकलाः<sup>3</sup> ॥

गायुरण रा सीची भचलसिंह ऊपर मालवा रो पातसाह चिलजी आयो<sup>4</sup> । तिए सू बड़ बरण सारु राणो मोकल रा गढ़ सू चिडियो । ईंडरियो सावलदास भाष्य राणा जी सू मिनियो । सीसोनियो चाचो मेहरा ही साप बरण राणा जी साथ आया । सावलदास र चाचा सू भल या । सगली ही बात सावलदास जाए कुम्भा न सावलदास काढियो । राणा न ही क्यो— प्राप्तरो चूक ध । विण, राणे मानी नही । चितोड़ सू तीज मुखाम सम्बत 1495<sup>5</sup> राणा मोकल माराणो । तठ राठोड सावलदास ईंडरियो विण राणा ने बाम आयो । मादमी 70 राणा र मला माराणा । राणा कुम्भा रा बाग<sup>6</sup> आयो तर राव रिडमल चितोड़ गयो

घोहो

मामे सुण रिडमल, मोकल भारण भरण ।  
आया इसा अपाल<sup>7</sup> कासा<sup>8</sup> ऊपर बीज<sup>9</sup> किर<sup>10</sup> ॥ ॥ ॥

इयार सौ चालीस 1140 अगवारा सू रिडमल पहि र मगर गया सौ बाकी रो लोक नाका माथे राव 60 साठ मादमिया सू ऊपरमाले होय महि गया ने, मेरा चाचा ने मारियो । सीसोदिया री पांच सौ 500 वेटिया राठोड परजिया ।

1 युद्ध ।

3 लोह शुल्काए ।

2 हाथिया ।

4 हृषगशाट गारी ने गागरोन की बढाई स 1480 (1423 ई) मे की थी और गागरोन का धरा सितम्बर 13 से सितम्बर 27 1423 ई तक लगा । भचलदास खीचो को बचनिका, भूमिका ४ ७ ९ मूल पाठ ४ २४ ई मालवा ४ ५० ।

5 सन् 1438 ई यह सन् सम्बत सही नही है । सम्बत स 1490 वि (=सन् 1433 ई) म मोकल की मृत्यु हुई होगी ।

6 जो किसी से रोका न जा सके ।

7 कास्य पात्र ।  
9 मानो दिवा ।

8 विजनी ।

### कवरा री विगत—

- 1 राव जोधो ।
- 2 अखराव र बटा दोय ।
- 3 मेहराज न मेहराज र बटो कु पो तिण रा कू पावत कहीज ।
- 4 पचायण तिण र बटो जतो तिण रा जतावत ।
- 5 बाघल रा कौधलौत बीकानेर म ।
- 6 चापो रा चापावत ।
- 7 लाखा तिण रा लंखावत बीकानेर म है ।
- 8 भाखर तिण रो वालो तिण रा वासा कहीजे ।
- 9 छूगरसी रो वसणी भाद्राउण तिण रा वस रा छूगरोत कहीजे ।
- 10 जतमाल र भोजराज उण्ठा वस रा भोजराजोत कही जे । भोजराज न राव जोधो गाव पालासणी टिकी ।
- 11 पालासणी रा तलाव ऊपर जोगी रो आसण भोजराज रो करायोडो है ।
- 12 मडला रा मडला बीकानेर मे । मडला ने रावजोवे साह ढो दियो थो ।
- 13 पाता रा पातावत ।
- 14 रुपा रा रुपावत ।
- 15 वरन रा करणोत । राव जाधे गाव चवा पटे दियो थो ।
- 16 साडा रा साटावत ।
- 17 माडण रा माडणोत । गुडे मागडे उतन न गाव भवर पछ बीकानेर गया ।
- 18 नाथा रा नाथुभोत । बीकानेर मे नाथुसर बगरह गावा मे ।
- 19 ऊपर नानी यतो धएला रा तालाव म दूब मूबो ।
- 20 जगमाल रे देटा सेतसी तिण रा सेतसीहोत उतन नेतडा ।
- 21 सगतो ।

जाधुपुर राज्य की स्थान

23 गोइद नेनो थनो पारी<sup>1</sup> सू मूवो ।  
24 बरमचाद सीतला<sup>2</sup> सू मूवो ।

राणिया नव 9 रिडमल जो रे लार सत वियो ।

143 राव जोधो । रिडमल न चितोट रा गढ म छूक हुवो, तर राव जोधा रो डेरो विला रा बुरज नीचे तलटी थो । सौ रिडमल रा एकण चाहिर मुराणा कु भा रो बढारण खाकती पीवती<sup>3</sup> थी । सौ उगा बुरज ऊपर चडन हैला पाढना<sup>4</sup> सरु विया न क्या—‘पारी रिडमल तम्यारी विवी । पिण राठोड भीव भाज’ । सौ सुरए ने जोधा जी निसरण रो<sup>5</sup> तम्यारी विवी । पिण घो तो दारु सू भचेत चू डावत घणो दारु पी मतवालो थनो सूतो थो । तिण नू पणो ही चाकरा जगायो, पिण जाग नही । तर राव जोधा विडाए<sup>6</sup> जाय जगायो । पिण ने राव जोधो चनियो । हुवाढी थो सौ जागियो नहीं । तर भीव नू सूता हीज मेल ने राव जोधो कद वियो । न भीव चू डावत ने सू तो मल गया । तिण ने पकड लियो । ने, राणे कद वियो । पथ प्रेहित दामा वितरे हीक निन चितोड मायो । घापणे राणा सू भीव छुटावण रो बतकाक<sup>7</sup> वियो तर माये पईसा विया । दामो याय लत<sup>8</sup> लिल दिया ने भीव नू डेरे आए झटा चाढने काढिया । दिन च्यार हुवा तर राणे पईसा मागिया । तर दामा क्यो—‘पईसा तो बोय नही । म्हारो जीव त्यार थ ।’ राणो विचार दीटो । इण इणरो बाम कोयो हिम बामण सू बुराई भीज सौ कवरे । भा विचार दामा ने सीस दिवी । भीव ने राणा बन ढोढायो । जिण चाकरी सू राव जोधो प्रायत दामा ने गाव तिवरी पटे दिवी । सासण दिवी ।

राव जोधो तो चढ गयो ने सीसोदियो चू ढो पणो साथ लने डेरा ऊपर आयो । सौ भीव दारु म अचेत सूता थो । तिण ने पकड ले गया । राव जोधो 700 सात सौ घसवारा सू चितोड थो निसरियो ने राणा रा साथ रा घसवार 10 000 लार जोधा र लागा । सौ चितोड सू दोय बोस ऊपर कपासणी जाता राणा रो साथ भेलो हुवो । भर जोधा सू बढ विवी । तर घसवार दोय से राव जोधा रा माराणा । घर घसवार 500 पाच सौ राव कु भा रा माराणा । सीसोदियो

1 छोटी माता से ।  
3 अनतिक सवध था ।  
5 वहा स निक्षण की ।  
7 बातचीत ।

2 चेचड ।  
4 आवाज देना ।  
6 स्वय ।  
8 चिटठी ।

नगो राणो रो मोटी चाकर माराणो । आ वट घणी भारी हुई । पछ कपामणी सू आगा चलिया सौ समेश्वर र घाट बिच ने चितोड़ बिचे मामला 5 तथा 7 सात हुआ तठ उरलो पलो<sup>1</sup> साथ घगो माराणो । बढ 1 चितोड़ी हुई । 2 बढ दूजी सतख में । 3 बढ तीजो कनौज । बढ चौथी कपासणी हुई । बढ पाचवी बलवे हुई । इए ताढ़ पाच सात बढ हुई । राव जोधा रा भाई च्यार तथा पाच जोधा रे साथ था जिके आद्या लडिया । राठोड वरजाग भीवीत चरहा न घादराव अरडबमत रा बटा राणो पीया राजावत ऊगमढा रो पीतरो रादा और ही बढा बढा रजपूत घाटा ताई सगला असवार 100 सौ सू कुसले आया । सौ असवार 100 ग्र ठाका ठाका सरदार सगला घागा ताई जाधा नू लेने आय गया । तर सीसोदिया जाणियो जोधो घाटे उतर गयो ता आग मारवाड माहे गया पूठी जोधा वगरह राठोड मरसी नही । आ विचार घणो बल मारणे गो कीधा अर राठोडा दीठो रिडमल मारीज गयो अर साथ ही सगलो पाढ़त्री बढ मे बट मूको । जोधो काघल मराया तो म्हारी ठकुराई गई । तर बढा बढा रजपूत था त्या पागडा छाड<sup>2</sup> घाटा आग उतर लडए लागा । सीसोदिया पिण पागडा छाडिया । अठ बही वट हुई । उर पलो घणो साथ माराणो । राठोडा रा तो सगलो साथ मरीज गयो । साता असवारा सू राव जोधो घाटा पार हुवा । सात स असवार जाधा साय या सा घाटा ऊपर हुआ तर साता सवारी सू बाकी रा छ सौ तराणु<sup>3</sup> सवार राठोडा रा मारीज गया । सीसोदिया पिण घणा माराणा । बाकी रा घावे पडिया । सीसादिया घावे धरो कियो<sup>4</sup> रिण सेत सीसोदिया सभालिया सौ राठोड वरजाग भावोत पूर लाहड<sup>5</sup> पडियो रणभूम म । सीसोदिया उपाहने<sup>6</sup> स गया सीसादिया रा भाणेज थो तिण सू राणे कुम्भे मारवाड लण सारू फौज विदा किवी । राठोड रागवनेव सहसम लोत नू सौजत पट दने राणे चाकर राख लिया । मठावर आका सीसादिया थाणे रायिया । अखडो हीगोलो भर रिणयर मूहतो हो मठावर र थाणे रया । इए ताढ़ सीसादिया आका अहाडो हिगोलो मुहतो रिणयर रो तीन राणा रा चाकर मठोवर थाणे रया ।

दोहा

राघवदे नू मेलिया कु भवरण दल चाढ ।  
मठावर वासे वरण जीकी सतत मेवाड ॥ 1 ॥

1 इस घार तथा उस घार दोना पदा वा । 2 मुस्य अशगम्य ।

3 घोडा स उनर कर । 4 छह सौ तिरानवे ।

5 घावा समाप्त कर निया । 6 घावा स परिपूण ।

7 उठावर ।

## जोधपुर राज्य की स्थापना

राव जोधो तो मढोवर री पालती<sup>1</sup> बाट बहत्या<sup>2</sup> निसरियों<sup>3</sup> प्रापरो माणस  
चाकर सगला तेढ़ लिया<sup>4</sup> राव जोधा जागलू तद चाँसिलौं नोपो माडो धणी हुतो ।  
तिणा र राव जोधा परणियो थो । भाटी पिरा पुगल चौकमपुर रा धणी सगा<sup>5</sup>  
हुता । तिण प्रसुग सू बीकानेर था कोस दस 10 बाल्हनी गाव म जोधो जाय रयो ।  
राव रिडमल रो वारियो<sup>6</sup> कोडमदेसर तलाब हुवो छ । राणा र साथ आप सगली  
मारवाड माहने अमल कियो । सीसोदियो आको, आहेडो हिंगला, भाला बीकमाईत  
मीधल हरभम मुहता रिणाभर मढोवर आय थाए रया । चौकडी र थाणे रावन  
राघवदे सहसमल चूडावत ने भाटी बणावीर बीसलदे रो, चहुवाण जसो साचोरा  
और ही धणा साथ राखियो बडा बडा ठिकाणा था तठ सगले ही थाणा राखिया  
था । राठोड नरवद सतावत नू कायलाणो दिया । बसी रहण नू बीजो और ही  
धणो पटो नरवद नू दिया । बीजा ही कितरायक राठोड सरदार राणा रा चाकर  
हाय रया छ । वेई मुकाती<sup>7</sup> होय रया छ । धरती म ठोड ठोड राणा रा थाए वस  
गया<sup>8</sup> पीरोजस्ता रो वेनो ही चौकडी र थाणो रहे छे । काहुनि रहि राव जोधे वरस  
खड पूठी<sup>9</sup> मढोवर सू दोड माडी । बला दोय दाय मढोवर सू मामला कीधा सौ  
पाघरो तिसडो सा नायो । सामो धासण आयो । घोडा आदमी मराया । धाढो  
फवियो नही । पछ कितरायक दिना पूठी मढोवर रो विगाड कर पाढ्यो बलतो जोधो  
किणहीक गाव म एकण जाट र धर आय उतरियो । तर जाटणी सेंगटी धाट सू  
थाली भर जोधा र आगे मेली । सो जोधे उतावले थके समे विचे थाली र हाय  
धानिया क्वो लेण साह<sup>10</sup> । तर जोधा रो हाय बलियो सो देव जाटणी क्यो—  
‘जो चीरा । तू ता इसडो निरबुद्धि दीसे छ, जिसडो राव जोधो निरबुद्धि छ ।’  
आ सुण जोधा नू अचरज हुवो सौ इण कासू कमो । तर राव जोधे जाटणी नू  
पूढियो—‘जोधा किण तर निरबुद्धि छ ।’ जाटणी कयो—‘राव जोधो पालती  
री धरती तो मारे नही न पहल सू ही मढोवर भूमे,<sup>11</sup> सो मढोवर राणा रो धणो  
सोक रह । तिण सू मामलो हुवे तर धाडे तो हाये लाग नही न उलटा घोडा  
आदमी मराय आप रो बुरो करावे । तिण सू तो राव जोधा निरबुद्धि छ । ने, तू  
‘तू निरबुद्धि छै ।’ वे पहलो हीज उनी<sup>12</sup> सेंगटी विचे हाय धाले त्यू पालती री ठाडी

1 पालव से निकट से ।

2 मान चलता हुआ ।

3 बुलवा लिये ।

4 सवधी ।

5 वारियो—भृत पुरुष की मृत्यु के बाद वारहवें दिन का क्रिया क्रम ।

7 स्थापित हो गए ।

6 ठेकदारी पर ।

9 ग्रास लेने के लिए ।

8 पाढ्ये बाद मे ।

11 उधण गम ।

10 आक्रमण करता है ।

11 उधण गम ।

ठाड़ी<sup>1</sup> ने खाय ने पद्ध विचे हाथ धाले तो सेंधटी थाती मा सू नास न छ । <sup>2</sup> आ बात सू राव जोध सीख मत मान लिवी ।

सो, मढोवर दोडणो छोड पारवती रा मुलक म दौड करण लागो । जिण सू लूट रो माल हाय आयो । अर घोडा आदमी री जमियत हुई । इतरे जोधा रा भाई पिण माटा हुआ । दिन वलियो <sup>3</sup> राजपूत पिण शठी उठी रा आय भेता हुआ । वेलणा भाटिया र जोधो परणियो थो । भी केल्हण वेवाया के—'म्हे थारा काम नू तयार छ्या । तर राव जोधे पिण उधम माडियो । पिण कन घोडा घोडा अर खरच पिण कन नहा । धरती माह काल कठ ही आन मिले नही तर राव जोधो उठा सू चढिया भी माढी री बस्ती आया । सो वा बसती राजपूता री हुती । पिण तिण समे धान लाभे नही । तर भोडी मू लवाणी मजीटी <sup>4</sup> री लापसी<sup>5</sup> किवी । बीजे दिन हरभम<sup>6</sup> नू आगा नू खबर सूभती <sup>7</sup> सो हरभम घणा माथ सारु जीमण त्यार वर राखियो छ । पातिया विछाय राखिया छ । अर बाट देखे छ <sup>8</sup> तितर राव जोधो ही आयो सो आवत सबा मू हरभम सगला साथ नू जिमाय दियो । राव जोधो पातिय वेस साथ सहित आछी तरह जीमियो । तर जोधे हरभम नू पूछियो । कयो—म्हानू आवता नू ही साथ सहित पातिये बसाण जिमाया । जीमण पहती त्यार कराय पातियो विछाय थाल पुरस बाजोट ऊपर मेलिया । जड मे आजाण थका आचाचूक<sup>9</sup> रा आया सो आपनू म्हारा आवण री खबर किण तर पडी सो जोधो आवे छ । हरभम कयो—थारा आवण री खबर म्हने अगाड<sup>10</sup> पड गई । जोधा ने पासती रा कयो—'अ हरभम जी पीर छ । या वडी कमाई रा धणी छ । या सू की छानो नही छ । या नू अगम निगम री<sup>11</sup> खबर छ । तर जाधा कयो—वद ही म्हारो ही दिन बलसी । हरभम प्रसन होय कयो—

थारो दिन सदा बलियोडो छ । ये आज चढा माहरा मूग पेट मे थका जितरी ठाड मूवसो,<sup>12</sup> तितरी परती थाहरी होसी । जद घोडा रावजी कन घोडा तर सतावे

1 ठाडी शीतल ।

2 वही भाग कर तो नही जा रही है ।

3 सुदिन लौट आए ।

4 मजीठा (एक प्रकार की लता) की ।

5 भोडी धूली लपसी ।

6 हरभम (हड्डू) साखला जिसकी पाच पीरा म गणना होती है । वह वेहगरी का निवासी था ।

7 भविष्य की घटना की जानकारी हो जाती है ।

8 प्रतीक्षा वर रहा है । 9 अचानक ।

10 अग्रिम ही पहिले ही ।

11 भविष्य तथा परमात्मा की ।

12 आक्रमण करोग ।

रावत लूणा बन गया, ने कहो— ये भाई हो न म्हारे बने रजपूत तो थ, पिछ  
त्रिसा<sup>1</sup> रा सबव मू घोडा मर गया थ, न पारे पायगा में पाखसी पाडा थ। सौ  
एय सो घोडा म्हानू देवो।<sup>2</sup> लूणे कहो— ह राणा गे मरजी मू जमी गाँव थू।  
थान घोडा देऊ हो राणों मारी जमी चोस सेव। सो ह पाडा देगू नही। आ  
मुण जोधा नूणा री थर भटियाणी, जोपा री मासी साग तिण बन राषला में गयो।  
तर मूणा री थर चियो— उदास क्यू? जोध कहो— मैं घोडा मागिया। पिछ  
रावत जो दीधा नही।<sup>3</sup> भटियाणी कहो— पोडा म्हार सिर सपदे<sup>4</sup> बीधा।  
आ वह रावत जी न राषला म बुसाय न कहो— तोसालाना<sup>5</sup> माह पर्वाणी<sup>6</sup> धीज  
मेन दिराबो।<sup>7</sup> सो तोसालानो लोल रावत जी महि चरिया। तर रावत जी री  
ठाकुराणी तोसालाना रो बिवाह सेव कूटो दे कानो दे दियो। न जोधा जी माथे  
प्रापरी छोकरी भेल भादभिया चरवादारां ने बवायो— 'जोधा जी घोडा स जाव।  
जिके सजाया सूधा ले जावण वर देवो' तर टायका<sup>8</sup> घोडा सात धीमी 140  
जाधा जी सेनाया मू थ गया न भापरा राजपूता ने चढ़ाय दिया। न घोहर च्यार  
घडी पर्द्य टकुराणी लूणा जी ने तोस पाना चार बाकिया। सो रावत जी  
ठाकुराणी मू ने बामदारा मू भादभिया मू लहियो ने चरवादारा न दूटिया न  
हाय मसल ऊभा रखा। उण समे रो घोसाणो ज्यू ज्यू कहिया रावत लूणा र्यू  
र्यू लेढ़े<sup>9</sup> घणोरी मूणो।<sup>10</sup> सेनावा सू घोडा लेन जोधोजी चकिया सो सबलो धाणो  
जोडियोत तठ पहला ही भूविया सो काम पापरा आयो<sup>11</sup> रण रो साथ  
सारो रावत रापवदे आद निसरिया। ठरा भार वरतनसूधा हाय आया। पायगा  
रा घोडा सगला हाय आया। भाटी बणबीर राणावत राणो वीसलदे, रावत दूदा  
उड़ात रा बाम आया। राव जोधा रो साथ सारा बुसले रखा। राणा रा साथ  
पणा काम आयो। जटा पछ बोगाणा बगगह रा याणा भारिया ने रावा रो याणा  
मारने भडोवर लियो। इण विय बाधल नेवरे रिहमलोत घणी चाटी काढो<sup>12</sup>  
बामदार रियणायर मु हृता मु<sup>13</sup> थो। सो भावी नाटतो<sup>14</sup> थो। तठ थोमाली मुरार  
केतावत आगे हाय रियणायर न पकड़ायो। सो राव जी धणा पईसा भराय न

1 विपति वे बारण।

2 सदक योषावर।

3 अमूल्य आभूपण बहुमूल्य वम्भारि वस्तुप्रा वा भण्डार।

4 अमुक।

5 चुने हुए।

6 बनिया।

7 सीधा हो गया।

8 चाकरी बी।

9 मुरिया काय वा मुरतार आम था।

10 नकान बमूत करता था, भूमि कर बमूल करता था।

छोड़िया ने सारा देस में अमल बियो । अहाडो हिंगोलो सीसोदिया आको धाराणिया हाजो न घणा साथ सू मारिया । ने टिंगोलिया अहाडा री छत्री बालममद तालाब ऊपर छ । हिंगोला बडो राजपूत छो । चितोड रा गढ ऊपर हिंगोला आहडा रा महल है । राणा कु भा रा महला जेहडा हरभम सिंघल विकमायत भालो ने नागौर रा खान रो बटा ने जसो चहुवाण बीसलदे परमार रो सगला थाणा सू भाग गया, ने राव जाँचे सोजत उरी लिवी । ने रावला<sup>1</sup> सहित सोजत बसिया ।

### कवित्त

गो हरभम सि भल, हीरण जेहि बीडरियो ॥  
 विमुहो<sup>2</sup> विकमाईत, पाण मेले<sup>3</sup> पाटरियो ॥  
 सेख सद् पिण गयो, गयो बीसलदे रेकारो ।  
 गो राधब रिण छाड गयो जसो साचोरो ॥  
 उठिया जोध इच्छा कमी, तुगमल रिणमल तणो ।  
 बिलराक माहि खेरु कियो<sup>4</sup> राणा तणो रहावणा ॥

पछ राणो कुम्भा घणो साथ लेने जोधा जी ऊपर आयो । सो पाली आय ढरा किया । राव जोधा जी ने खबर हुई । तर जोधा जी ही वटक बियो । पिण घोडा दुवला और थोडा जिण सू गाडा हजार 5000 जीताय गाडा माके राठोड हजार 20 000 बसाण बहीर हुआ । पाली राणा रा डेरा था । त्या ऊपर चलाया राणा न खबर हुई के राठोड गाडा वठोडा आवे छ । सो मरण मते<sup>5</sup> होय ने आव छ । और चौबीस हजार आदमी पचास हजार आदमिया ने मार ने मारसी । इतरे राव जोधा रो नगारो नजीक हुवो । और राणा रे साथ सुणियो । तर बीजी बात तो सग भूल गया ने कयो— हा नीसरो । जो नडा<sup>6</sup> आया तो निसरण देसी नही । तर राणो तो नगारो सुए ने पाली सू निसर गयो । नितरोक मेवाड रो साथ डेरो उभा मल जातो रयो । राव जोधो पाली आय राणा रा महलाण था तठ आय उतरियो । ने जोधा री फत हुई तिण समे रो गीत छ 'गवर<sup>7</sup> गाडा देख गया सिंघल जसा रायपुर रो ज्या दिना विगाड करनो था तिण ने सजा दण बासते रायपुर मारिया । और सिंघला रा सगला गाव लूटिया ने राव रिहमल रो बर लण

1 घ त पुर सहित सपरिवार ।

2 मृग की तरह ।

3 चौक वर भाग गया ।

4 विमुख ।

5 हाथ मसलते हुए ।

6 नष्ट किया ।

7 मरने का सख्त करवे ।

8 निकट ।

9 गयवर हाथी ।

साह मेवाड़ ऊपर पौज करने गया । मुलव सारो तु भा राणा रो लूटिया । राणे भाग चितोड़ सू परा गमो,<sup>1</sup> ने राव जोधा जी जाय चितोड़ा रा गढ रा बिला रा किंवाड़ बलिया ।

### बित्त

जैय हुया घर महल, तेथ ऊठे रासोडा ॥  
दैठा जित सारग,<sup>3</sup> तेय बधाता घोडा ॥  
माढी ज्या भढती, बचा ज्या पूरू वाया ॥  
चरता जित चौपदा, वेड<sup>5</sup> तिण वाघ विआया ॥  
अजमेर अने आवू विचे, माणस दीमे चाडिया ।  
कमधज राव कुम्भे तणा जाधे देस उजाडिया ॥<sup>7</sup>

सम्बत् 1552 रा वसान बदी 12<sup>8</sup> चितोड़ रा किंवाड़ बलिया । पछ राणे कुम्भे विस्टालो<sup>9</sup> कराय रिठमल जी रा बर म सौजत दिवी ने आवला बावला सीव विकी<sup>10</sup> आवल राणा रा बावला राव रा ।

पछ मेवाड़ सू पाल्छा आय भडोवर वास कियो । सम्बत् 1515 रा जेठ मुद 11 सने<sup>11</sup> जोधपुर गढ री नीव दिवी । पछ पणा साय सू राव जोधो गया रो जामा फरण नू गयो । तर वनीज रो घणी बडो महाराजा काह थो । सी आगर पतसाह री चाकरी करतो । रावजी रा ही डरा गया जी जाता आगरे रेया । तठ राजा काह मिलण नू आयो । राव जी धणो आदर भाव कियो । पछ काह राव जी नू आपरे ढेरे से गयो । वेट<sup>13</sup> भाई भेला रेया । माहो माह रस<sup>14</sup> रेयो । काह संगला

1 चला गया ।

2 रात उडने लगी है ।

3 हरिए मृग ।

4 उल्नू ।

5 धीहूड, अरथ्य बन ।

6 प्रसव हुआ ।

7 उजाड़ दिये ।

8 सम्बत् अशुद्ध है । यह स 1512 वशाख बदि 12 शुक्रवार, अप्रैल 2 1456 ई हाना चाहिये ।

9 परस्पर दूत भेजकर समझौता किया ।

10 आवल और बावल जहा ऊंग हुए हैं वहा तक सीमा स्थिर की ।

11 शनिवार मई 12 1459 ई ।

12 शिवर चाटा ।

13 दोनों ।

14 परस्पर प्रेम रहा ।

साथ सूराव जी न मिजमानी दिखी। घाडा क्षणों पैसकस किया। राव जी राजा काह नू वयो मै गया जी री यात्रा राव रिढमल रा पिंड सारेण साह<sup>1</sup> जावा छा गया रो दान पातसाह रो घणो लाग छ। किण ही सूल सू<sup>2</sup> छूटे तो शाद्धी बात है राव काह वयो 'छूटणा तो परमेश्वर सारे छ। दूज उपाव तो माललो<sup>3</sup> करसा।' पढ़ काह पातसाह सू मालम किवी क राव जोधो मारवाड रो घणी अठ आयो छ। सो राव जोधो म्हारो भाई छ। बडो रेजपूत छै। इन तरफ जोधो दिगपाल छ। पासाह गुजरात दस लेण री तजेवीज करा छो तो जोधा ने बुलाय ने घणा दिलासा फुरमायो। मारवाड गुजरात रो फलसो<sup>4</sup> छ पातसाह जी गुजरात ने पघारे तो जोधा नू मूळा आगे करो तो, पातसाह जी री घणी गरज सजे। जोधा नू हजरत आपरा कर सोज। पातसाह जाधा जी न कवाया थ आय ने म्हा सू मिलो। तर राव जी राजा काह र साथे जाय पातसाह सू मिलिया। पातसाह वाता किवी। जाधा जी सू पातमाह पुठिया जिके ममाचार जोधा जी कया। पातसाह जोधा जी सू घणो महरवान हुवो। मधाडबर छत्र चमर हाथी देज बाहर दे वीजी ही घणी निवाजस दिकी। तर राव जी कयो— गया रो दाण<sup>5</sup> घणो लाग छ। सो सगलो ही गया रो दाण छोड दियो चाहीज। पातमाह कयो ठीक है।' आ कहि पातसाह गया रो दाण छोड दियो। इन तर राव जोधे गया रो दाण छोडायो। तिए रा पृथ्वी म घणा जस हुवो। पातसाह कयो— मारग म दो गढिया भोमिया रा है सो ये गया जाता वे दोनू गन्या ये तोड नो।' आ कहि घणी खातर कर गया रा कर दाण लागतो सो सगलो माफ कर दियो। अर जोधा जी ने सीख किवी सो गया जी गया। जोधा जी गया जी जाता तो वे गढिया भोमिया री तोडी नही। अर पाद्या चलता व दानू गढिया भोमियो री जाधो जी ताडी। पातसाह राव जी रो घणो आदर कियो। दाण छूटो तिए सू गया मुगती बरण रो राव जाधा नू विरद कहीज छ।

### जोधापण (काथ्य) री साल

तीरथ रा कहाइया, माह पहलू रणी दस्सी।  
 विश्वनाथ परसियो, वले जाय वाणारस्सी ॥७  
 ब्रह्म जोन नीसरे एक कीधी अघकाई।  
 गया पिंड उधरे<sup>6</sup> दीन अस वडसाई ॥

1 पिंडदान के निमित।

2 रीति स।

3 बहुतेरा।

4 प्रवेश द्वार।

5 कर राहनारी।

6 स्पग किया दशन

7 वाराणसी।

8 उदार किया।

द्वारका चक्र चलाया, संवेद<sup>1</sup>, विनेश<sup>2</sup> भवस<sup>3</sup> समारिया ॥

गढ़ निवारण<sup>4</sup> जोधे किया, अर पित मारा<sup>5</sup> मारिया ॥

वहलोतखान दिली रो पातसाह फौज सेन मारखाड़ माथे मायो । तिण सू जोधो जी लडाई किवी । तर भाग पातसाह दिली ययो । दिली रा पातसाह वहलोतखा रा बेटो मुलतान सिकदर ।

राव जाधा रो जनम स 1472 रा बसाख बद 14<sup>6</sup> रा ने, सम्बद्ध 1515<sup>7</sup> दीके बेठा न सम्बद्ध 1515 रा जेठ सुद 11, सन<sup>8</sup> चिडिया दूब भाखर रे झपर गढरी नीव दिराई, न सहर जोधपुर वसायो ने सम्बद्ध 1545<sup>9</sup> रा बात किये ।

राजलोक कवरा री विगत—

1 हाढो जसमदी हाढा देवीदास जेत मालोत री बेटी तिण र बेटा 3 वीन-

1 सातल

2 सूजो

3 नीबो

2 भटियाणी पूरा भाटी वरसर चाधावत री, केल्हण तिण र बेटा 7 बेटा सात री विगत—

1 वरमसी

2 रायपाल

3 घणवीर

4 जसूत

5 कूपो

6 चादराव

7 "

3 साखली नोरगदे साखला माढा जताथत री । तिण रा बेटा

1 धीको

2 धीदो

4 हुलणी जमना धीरभाण भोजावत री । तिण र बेटा—

1 जोगो ।

1 कथ पर बहत हैं ।

2 दोनो ।

3 लोक, परलोक ।

4 जलाशय ।

5 पिता वो मारने वालो को ।

6 शनिवार, माच 28, 1416 ई

7 1458-59 ई

8 शनिवार, मई 12 1459

9 1489

2 भारमल रा भरमलोत कहीजे ।

— — —

5 सोनगरा चापा खीमा सतावत री बेटी रा तिण रा बेटा—

1 दूदो तिण र बस रा मढतिया । बेटो बीरम रे चा दा तिण रा चादावत  
कहीजे—

2 बरसिह

— — —

6 वाघली बीना उरजन भोजराजोत री तिण रे बेटा

1 सावतमी

2 शिवराज

हाड़ी जी ने राणीपदो थो जिणा रा करायडो राणीसर तनाव ने माली  
वेरी छ । राव सातल 1545<sup>1</sup> मे जोधा जी रे पाट बठो पोहकरण सू बोस 2 दो  
उपर कोट करायो तिण रो नाव सातलमेर दियो । बरसिह जोधावत मडता सू जाय  
न साभर मारी<sup>2</sup> तर अजमेर सोबायत मनू खा सिरिया खा ने भीर धुडलो माडव रा  
पातसाह रा चाकर था सो मेडता ऊपर आया तर बरसिह ने दूदो दोना भाई भाग  
न राव सातल कन जोधपुर आया ने लारे कीजा आई जोधपुर री धरती लूटी ।  
पीपाढ सू तीजणिया (गाव की कायाएं) पकडी । ने कोसाए जाय डरा किया ने  
जोधपुर सू राव सातल दूने बरसिह जोधावत बरजाग भीवात बाहर<sup>3</sup> चढिया ।  
सो कोसाए जाय राती बासी<sup>4</sup> टिया । भारी भगडा हुवा । दूने सिरियाबान रे  
अणी<sup>5</sup> गयो । हाथी लूटिया बरजाग उडना वेगिणिया<sup>6</sup> हजार तीन थी तिणा सू बढ  
किवी सातल घडूला ने मारिया । घडूला र बटा छोइरिया उडना वगणिया घणी थी ।  
त्यारा माथा मूड ने पछे द्योही । तीजणिया घटूला र छाडाद तीजणिया घुडलो बाढियो<sup>7</sup>  
जितरा धाव घटूला रे लागा था उतरा वेजका<sup>8</sup> घुडला रे किया । राव सातल इण वेड  
भ काम आयो मम्बत् 1548 रा चेत सुन<sup>9</sup> कोसाणा रा तलाव भ सातल ने दाग  
टियो । जठे लजडा नोचे सानन रो चातरो छ । खेत दूदा बरसिह र हाथ रयो ।

1 1489 ई

2 आक्रमण कर उस पर अधिकार दर लिया ।

3 रक्षाथ पीछा किया ।

4 रात्रि म ही आक्रमण करना ।

5 सत्य पक्ष पर ।

6 लश्वर की सनिक ग्रोरते ।

7 पट्टना के प्रनीर क रूप भ मिट्टी का बनाकर उमका प्रदेशन किया । यह भी  
मारवाड म घटूला की मृति मे मिट्टी क घडे के अनेक छिद्र कर कायाएं  
मासूहिर रूप म पद तुल्य मनाती हैं ।

8 छिं

9 गुर्खार, माच । 1492 ई ।

दूदा रो गीत

बीजन भेटिया मह मोल विएजिया, बलह<sup>1</sup> दूरत इम कीथा ।

गोरी राव तणा गेमता<sup>2</sup>, लागू<sup>3</sup> दूदे लीधा ॥1॥

तस्वर होय न दूको ठाडे, जूओ महागज जैता ।

जडलग<sup>4</sup> पाड लिया जोधावत, सरियामान सहेता ॥2॥

साडा घोसरा घट धारा, घडिया सूडाहन<sup>5</sup> सपलाणा<sup>6</sup> ।

दूदे गज लीधा दताला<sup>7</sup>, भलख-हरे सुरताणा ॥3॥

कु कु काजल गात न तन वाढे, रोवतडी सुर रहिया ।

गोरी घोरा<sup>8</sup> धाते गोधम, वरसीह दूदे वहिया ॥4॥

सातल र वरा मात थो से मातो ही सातल र थाम ततिपा हुई । वहु  
भटियाणी र खोने<sup>9</sup> सूजो थो तिका पूला वरम । पथ वली । पूला रा करायोढो  
फूलेलाव तस्वाव द्ये ।

वहु हरए धाई विकु पुरी वसी । तिका नागलेज्या भेली पूजेजी । सातल र  
सतान नही थी । तिण सू भाई सूजा न टीके वठाणियो । सूजा न राव जोधे भोजत  
दिवी थी, ने साजत थका तुरका सू बढ़ कीधी तठ सूजा रे धाव लागा । तिण सू  
तठा था योडी सी बसर थी । कोमाणा री बेढ मे सूजो सामल थो, सो धावा पहियो  
थो सोजत सू बुलाय न टीको दियो नाशो जोधावत बडो भोनाड<sup>10</sup> रजपूत थो ।  
मीधल जसा पालो गो वित<sup>11</sup> लियो । तिण वक्त नीबो जोधावत भोजत रा जोड<sup>12</sup>  
माह सिकार रमतो थो । तठे खबर धाई नरे बाहर चकियो, सो डोबूरा (दो भूरा ?)  
बड़ द्ये जठे जाय भेली हुओ भर बेढ रर सिधल जसा नू मारियो ।

वित छुडायो । इण लडाई म नावा र तीर लागा था सो एक बार तो धाव  
साजा<sup>13</sup> हुआ पा पद राव जोधे जीवताईज मास नू धाव फाट सुबो नीबो भञ्जत<sup>14</sup>  
गयो बास<sup>15</sup> कोई नही सोजत कोट नीवारो बरायडो भर हाडी जसमदी रो  
परायादो हैं राव बीबो जोधावत भातला माडा रो दोहीतो । नोरा दे सालली  
हणची रो बेटो । समवत् 1497<sup>16</sup> रो जाम बडो दातार बडो जुभार हुबो ।

1 युद्ध

2 हाथी ।

3 शत्रु ।

4 तलवार ।

5 हाथी ।

6 प्राण सहित, कटहने सहित ।

7 दत वाने ।

8 बग्रिस्तान पर ।

9 गाद ।

10 महान परायमी निवध, किसी के आग न भुकते वाला ।

11 पशुधन ।

12 रमित चरामाह ।

13 ठीक हो गये थे ।

14 नि मतान ।

15 पीछे ।

16 1440-41 ई ।

राव जोधो जोधपुर राज कर द्य । तिण समे जांगलू साखलो नापो राज दरे सो बलोच जाट जागल नू राह हुव लागो द्ये । सारी धरती मार सूनी<sup>1</sup> किवो द्य । सो जागलू रो देस गोदारा जाट गहलोत हुग्रा द्य । इणा रो घणो कारण द्य<sup>2</sup> । तद गोदारा महि निकोदर गोदारो वेटो माणस द्य । तिण ने साखले नापे भेले होय धरती राखण री विचार किधो । जठू वलोब सासती<sup>3</sup> धरती मारे ने आपा थी धरती रहण री नही । बोई उपाव कीजे । ओ विचार कर दोलू जना ठहराई के आज राठोडा रो बडो प्रताप द्य । सो एक वेटो राव जोधा रो अठे लाय देस रो जावतो करावा । आ विचार साखलो नापो माणकराव रो ने गोदारो निकोदर जोधपुर रा राव जोधा करे आया । ने विनती किवी क एक वेटो आपरा वेटा ते म्हारो घणी कर राखसा । तर बीका न साखला रो भारेज जाण राव जोधे जागलू मेलियो । ने बीदो जोधावत बीका रा भाई, न बाका काधल रिडमलोत ने रजपूत साथे कर मेलिया । ऐ जागलू आया । तर नरसिंह जाट आय जागलू री धरती मारी । बीको बीदो काधल नापो, निकादर सेंग भेला हुय वाहर चटिया । कोत 50 परे जाता आपडिया । वेढ हुई । नरसिंह नू आदमिया 140 सू कूट मारिया बीका नू बडो काम पाधरो आयो<sup>5</sup> । पछ बीके हमार कोट द्य तठे कोट करावण री विचार कियो । सो सम्बद्ध 1541 रा माह सुद 95 कोट री राग<sup>6</sup> माढी । सो बल्हण कोट करण दे नही । तिण समे इण मडल री रजूआयत नागोर रा खान था । सो बीदा नू तो नागोर रा खान कने चाकरी में मेलियो । ने भाटिया बीच इदो राजधर लखो परदान मेलिया । अ उठ जाय भाटिया सू बात थापी । आदमी 20 एक राठोड थाहरा ही आवे सरदार न आदमी 20 म्हारा ही सरदार आवे । पछ सीव थापी<sup>7</sup> उणा र ही आ बात दाय आई<sup>8</sup> जिका सेहट<sup>9</sup> वाघी हुई तठ उणरा ही आदमी आय उभा रया द्य ।

तर इदे लखे राजधर पहली विचार कियो थो, सो उठ जाय जाजम कने दूट पडिया तरवारा मिल वेलणा नू मार नाखिया । केई बीका जी रा ही माराणा । केई धायल हुआ । पिण वेलणा रा बीस ही सरदार मार नाखिया । विकु पुर पूगल खबर पहुची । भाटी आलोच<sup>10</sup> करण लाया । जठ बीका जी कोट कराय लियो ।

1 उजड जनरहित । 2 प्रभाव मान सम्मान । 3 निरतर ।

4 अनुकूल हुग्रा । 5 सोमवार जनवरी 24 1485 ई ।

6 बुनियाद दी नीव लगाई । 7 सीमा स्थिर कर ।

8 पसद आयी ।

9 निश्चित स्थान ।

10 विचार चिता ।

सम्बद्ध 1545 रा वेसाख मुद 3 सनीवार<sup>1</sup> रोहणी नवमि सिद्ध जोग बीकानेर रोकोट तेयार हुयो । बीकानेर वसिया, पूठी एक बार जेसलमेर रो रावल देईदास पूगल रा घणी राव सरवा री मदत बीकानेर उपर आयो । बीको निसरिमो । रावल देईदास बीकानेर रा किवाड वरसलपुर रा दरवाजा र चाडिया, सो अजेस<sup>2</sup> वरसलपुर हो, न टक्साल रा भाटा<sup>3</sup> जेसलमेर ले गयो । इण दावा म दाव लूणकरण बी कावत जेसलमेर री घरती भारी ।

करमसी राव जोधावत लूणकरण र पास जाय रयो । बीकानर लूणकरण थीकरदत नारनोल उपर गयो । तर उठा भासिया सू वेढ हुई । उठ राव लूणकरण ने लूणकरण रो कुवर प्रतापसी काम भाया । तठ करमसी जोधावत ही काम आयो । करमसी रा करमसोत । रायपाल —

बणवीर जोधावत अक्तु गयो । वासे वई नही । बणवीर रो करायोडो बणवीर सर तलाव है । खीवस म बणवीर सिरोही परणियो थो सो उठे वाहर हुई । तर धाडविया ने धापड काम भायो ।

जोगो जोधावत भारमलोत रो सगो बढा भाई राव जोधा पछ टीको जोगानू देता हुआ सो सांपडिया हुतो<sup>4</sup> अर कया कि म्हारो लिलाड सूक्षण दा । तर सगला ही क्यो इण ने टीको न दीजे<sup>5</sup> । तर टीको सातल ने दियो । जोगा रो वसणो गाव खारिय भारसल जोधावत रो वसणा गाव काढणे । भारमलजी राव जोधा जी रा फूल गगा जी धालिया ने गया किवी । इणारा वस रा भारमलोत कहीजे । बीलाडा राव जाये इण र पटे दिया थो । दूदो 1 वरसिह 2 जोधावत राव जोये भाई वेटा ने घरती बाट दी थी । तर वरसिह ने दूदा न मेडतो दियो । मेडतो मानधाता रो वसायोडो सहर । मा मेडता रा खडो सूनो<sup>6</sup> थो घरती माहे सगले ही साखला था । सा वरसिह न दूदे आय खेडा वसाया वरसिह मेडते टीको वेठो । (दूदा रो धणो परवार छ) । दूदा ने राहण दीथी । दूदा रो ठाकराई राहण हुइ । वरसिह पछ हुनी मेडते बठो । दूदा रा धणो परवार छ । सिरिया खान अजमेर रा सोवायत नु दूदे मडता रे चढिये अजमेर था नजीक जाय मारिया । वरसिह मूवो, वरसिह रो वेटो सीहा टीक बठो । सो दारु धणो पीवतो । घरती रुखवाली जे नही । तर दूदा ने पाट वेठाणिया । सावतसी जोधावत इणानू राव जोये खेरको दियो थो । सावतसी निरवस गया वेटी 1 हुई<sup>7</sup> । निण रो नार्म खतुवाई थो । शिवराज जोधवत इण ने राव जोये गाव दुनाडा दिया थो । दिण पार पडियो नही वरजाग वरसल विजो हीन

1 शनिवार अप्रैल 4 1489 ई ।

2 अध्यावधि ।

3 पत्थर ।

4 स्नान किया हुया था ।

5 निजन ।

6 सम्हाल नही सका ।

बेटा भीव चू ढावत रा । राठोड वरजाग भीवात बडो रंजपूत । एक पासर लाख पासर परणी बेड जीतो । राव रिडमल जोधा सता री वार माहे घणो कारण हुवो । असल प्रवाढा जतवादी<sup>1</sup> हुवो । सालावास नादवाण सरगुडो सोगडो मावी लावो भूडली रा गाव पटे वरजाग रे था । वरजाग वर वराह<sup>2</sup> पर भोम पचायग<sup>3</sup> हुवो ।

राव रिडमल चित्तीड बाम आयो । तर जोधा नू ले निसरियो । तर जीलवाढा र घाटे मामलो<sup>4</sup> हुवा जोधा मू । तठ लाहडे पहियो<sup>5</sup> । सीसाटिया रो भाणेज थो तिण मू सीसोदिया मारने वरजाग र गले न किवी<sup>6</sup> । उपाठने<sup>7</sup> सीसोदिया राणा कन ले ग्या । उठ रोक<sup>8</sup> माहे कियो । राणा पाटा वधाया तठ एक चाकर नाई ने एक चारण बने था । सो पाटा वाघण र मिस सासती पछेवडी नाप गज 12 बार आण सू सासती सावटता जाता<sup>9</sup> ने चाकर री मूरखी<sup>10</sup> वेच ने एक पोठियो<sup>11</sup> लिया । खरब कन बयू ही न हुतो । पछ चितोड रा बागरा सू पछवडी वाघ ने पहुला चाकर उतरियो पछ आप उतरियो, सो भारवाड रो भारग जाणने किटो<sup>12</sup> कियो जु जाणियो अठी वाहर हुसी कहे छ । गागुरण रे भारग पीठिय चढ निसरियो सो डानी वाधी हुती ने लूगडा<sup>13</sup> पिला मेला हुता । पोठिय चढिये हुता सो जाते आवते किण ही जाण्यो नही वरजाग छ । तरा वाहर च्याह दिसा चडी हुती । सो फिर आई ने कागल<sup>14</sup> च्याह दिस राणे मेलिय था । वरजाग इसड सहनाण<sup>15</sup> वेस पोठिये चढियो निसरियो छे । कठ ही लाभे तो म्हारो बडो दुश्मण छे । भात न<sup>16</sup> उरो मनज्यो । सा वरजाग गागुरण जाय तलाव पिणगड हळ री भली छाह देखन वेठा । डेरो कियो छ । सो गागुरण घणी खीची अचलदास र बटी पाच सात छे सो तिणहीज दिना सगली रा विहाव छ । सो एक बेटी नू वर जुडायो न छ । सा राव री छोकरिया<sup>17</sup> रामकलस भरण आई छ । सो, वाता वरे छ । बीती सगली वाया नू वर जुडिया ने म्हारी वाई नू वर जुडियो नहा सो

1 विजयकर्ता ।

2 वर शोधन म वराह तुल्य ।

3 सिह पचानन ।

4 युद्ध ।

5 शस्त्राधाता से घायल होकर गिर पडा ।

7 उठाकर । 8 वधन ।

6 गलकटी नदी बी मारा नहा ।

10 स्वण के मर्दाने वण भूपण ।

9 एकत्रित करते, सामरते रहते ।

12 त्याग किया ।

11 लद्दू बल ।

14 कागज पन ।

13 वस्त्र (जागान वस्त्र) ।

16 पद्डकर ।

15 सनान, निशान ।

## जोधपुर राज्य की रथात

महारी धणियाणी<sup>1</sup> परणी सचीती<sup>2</sup> थे। सारी वाता घोकरिया नू बरता राव वरजाग मुग्गी। तर वरजाग कयो म्हानू परणावो<sup>3</sup> तो हु परणू। तर घोकरिया मुणी सो वरजाग मेला लुगडा देख ढाढ़ी वधी देख वरजाग ढील रो<sup>4</sup> पिण सावलो हुतो<sup>5</sup> सो देखने घोकरिया कयो तो वावरी<sup>6</sup> नू वय नही परणावे। सो, घोकरिया हसती हसती राज माहे गई। सो बीजो वात कान हुई। तर खीची वाई नू तो भलो वर जुडतो हुतो। सो आ वात ता उलो ऐतो कोई कहे नही। जु म्हानू गागुरण रा अचलदास जाएियो आ वात ता उलो ऐतो माले निन म्हानू राणे जी कहाडियो पणी री बटी परणावो। सो विचार दीठो माले निन म्हानू नू निसरियो थे। सो उठे आय हुतो जु राक्षीढ वरजाग इसडे सेनाए बस पठा मू निसरियो थे। सो उठे आय अचलदास जाएियो सो जो आ वात कहे। आ विचार रे आप वाहर आयो। राजपूता ठाकुरा नू पूछिया थे कठे ही वरजाग निसरसी सो खबर करजो। सो बीजो तो इसडो न जाएियो सो जो आ वात कहे। आ विचार रे आप वाहर आयो। राजपूता ठाकुर दीठो हुतो तठा वहु<sup>7</sup> ठाकुरा ने जोवणे रे वास्ते तु दीठो नही। तर किलक ठाकुर दीठो हुतो तठा वहु<sup>7</sup> ठाकुरा ने जोवणे रे वास्ते मलिया। ए ठाकुर तलाव गया जाय वरजाग मू मिलिया। वातचीत किवी। समाचार पूछिया। पद सीख करने खीची अचलदास तीर<sup>8</sup> आया। वात कही वरजाग जी थ। पद याहारे विचार आव सा करो। पद गागुरण र पणी प्रोहित साथे नालेर देने वरजाग जी तीरे मलिया कयो— महारी बेटी परणीजे। तर वरजाग जी कयो— आज म्हारे धोडा नही कपडा नही खरच नही। हु किसे सूल परणीजू। भी तीर सूल सराजाम वय ही नही। तर प्रोहित कह ये सूल सराजाम नू बासू थे। राज ठाकुर थे। सूल सराजाम मै सगलो ही करस्या। तर वरजाग नालर नीठ से भालिया<sup>9</sup>। ने प्रोहित ने कह या हु सगला पहली तोरण वार्तीत। तर प्रोहित कयो आ वात राकोई जाए थे। तारण पहली राज हीज बादसो। इण वात महि बासु बहण थे। जान रो कपडा री खरच री सगली खीची अचलदास भोजावत किवी। पदे गागुरण रो पणी रा साथ सनो 10 वरजाग हुतो तठ गयो। उठाहीज या वागा पहर ने जान वर ने सगला पहली आय तोरण वादियो ने परणिया। निन 5 सात 7 सासरे रया। पदे अचलदास नू कहाडियो। मानू सीख दो। महारी घरती माहे बिलो<sup>11</sup> थ। उठ जोयो एकेलो थ। जद दायजा<sup>12</sup> दीया।

1 स्वामिनी।

2 चितातुर।

3 विवाह करो।

4 शरीर स।

5 श्यामल था, काला था।

6 वावरी, जाति विशेष।

7 दोना।

8 पास।

9 कठिना से ग्रहण किया।

10 पथ कोई समस्त।

11 विपत्ति है।

12 दहव।

तर वयू हीक वरजाग साथ मानियो । जद कितरे हीक भाय खीची अचलदास न्यो । न वरजाग जी वहू खीचण नू गागुरण राखी न आप साथै लन अचलनास जी वा सीख करन मारवाड ने चढ़िया । सो चोकड़ी री पाखती राणा रो याणा हृता सो किणहीक थारो आय झू विया<sup>1</sup> । सा कहे थे अठ राणा जी रो साथ घणां काम आयो । थाणो मार ने वरजाग राव जोधो हृतो तठ गयो । विवा माह घणी चाटी नी<sup>2</sup> । पछ बितरेक दिने राव जोधे मडोवर लियो राठोड वरजाग नू राहिट पटे दी । रोहिट आय वसियो, तठा पछ बितराक दिना मू राणा कुमा री फोज रावत राधवदे सहगमुलोत राठोड न बीजा घणा सीसोदिया फोज ले न वरजाग उपर रोहिट आया तठ वरजाग तिपट सररो<sup>3</sup> वेढ बिकी । वरजाग जी रो नमरो मटको<sup>4</sup> लागो, नग वटी कांधो घणा वियो<sup>5</sup> । काम वरजाग नू पाघरो आयो राणा जी री फोज भागी । साथ भागो । वरजाग जी र गावड<sup>6</sup> रो भटको<sup>7</sup> सबला लागो तिरा या गावड रो हाड बियो<sup>8</sup> तिको आपरे भाय वरजाग जी र पाटा वाघा । हाड बिड़िया हृतो तिए रो ठोड कर रा<sup>9</sup> खीली<sup>10</sup> घड न घाती । पाटा वाघा । वरजाग जी समाधियामाजा हुआ<sup>11</sup> । सो ओ कर आजेम ताई रोहिट माहे भीवाता र पुजी नी छ । राठोड वरसल ने वरजाग मीवोत रे धोडिया घणी हृती । सज वरसल रा न्ति था । राठोड था जोड माहे धोडिया मुकेरे<sup>12</sup> द्युमी हृती सो रूनी<sup>13</sup> गई । सो तलवाड महेव पोहती । रावल रा कु वर दारु पीव ने तलावा माहे झूतता था<sup>14</sup> । सो धोडिया भलाडिया वासे पाडव<sup>15</sup> करता बोला चाली हुई । तर कु वरा वरजाग रा पाडव आया हुता । त्यानू वयो— भलाय न लोली<sup>16</sup> दियो । तर पाडव वयो— म्हा तीरे लाली निरावो छा पिए म्हरे वासे वरजाग भीवोत छ । तर कवरा वयो— एक हाय माथे दो एक वासे दो आ वात वहि धोडिया न न्यी । तर पाडवा आय सारी हृकीकत वरजाग नू वही । वरजाग नू पण बाल खारा लागो । मन माह घणो गुस्सो रासियो । आपरा भाई वरसल ने बीजो त्या नू तेडाय ने साथ भेलो वरते आछडे<sup>17</sup> महेवा नू दोडिया । तर महेवे रावल बीदा घणी थो । जाय तरवारो मारियो जिणे कु वरे धोडिया ली हृती ने पाडवा तीरा लोली दिराई

- |  |                      |                    |
|--|----------------------|--------------------|
| 1 मार काट थी धावा मारा ।                         | 2 चाकरी थी ।         | 3 खब अच्छी ।       |
| 4 गदन पर प्रवल प्रहार हुमा गदन पर गभीर चोट लगी । |                      |                    |
| 5 कथा के गहरा धाव लगा ।                          | 6 गदन ।              | 7 प्रचण्ड प्रहार । |
| 8 कट गया ।                                       | 9 कर वुन की ।        | 10 खील ।           |
| 11 ठीक हुए ।                                     | 12 खुली स्वच्छता ।   |                    |
| 13 देपन दधर उधर चत्ती गई ।                       | 14 स्नान कर रहे थे । |                    |
| 15 सईस चरवादार ।                                 |                      |                    |
| 16 मस्ती से मिर हिताकर—प्रवहेलता थी ।            | 17 अचानक गोपनीयता ।  |                    |

हुता, तिए माहला धणा कु वर मारिया । सबलो राहचक<sup>1</sup> हुम्हो । महबचा सात बीस<sup>2</sup> सरदार हृण वेद मे काम आया तलवाडो मारखूट ने पास्ता घालिया । तिए दिन बीदा महव धणी थो । सो, बीदा नू सबर हुई । तर पाखती रा गावा रो साथ लेन बीदो बाहर चढियो । सा तिए दिन रावत बीदा युड वहल<sup>3</sup> चढिया था । सा ज्यू साथ आवतो गयो त्यू साथ न बीदे हलवारियो । वह्यो 'सो आपडा'" सो भीवोता रो दिन पाधरो न महचा रो दिन बाका । सा ज्यू त्यू साथ यानु जाय पाहतो त्यू त्यू भीवोत वेड किवी उच्छेजणा ताता आपडता गया त्यू भीवोत मारिया । सो महचा रो साथ धणो काम आयो । पद्देस जाता रावत र पिण ढालो हुवो । रावल र धुडवहल कोई<sup>4</sup> डाही<sup>5</sup> रजपूत बैठो हुतो । सो उणा जाणियो आज बहल आपणा बो तो धणी मारियो जाय से अर धणो सरे नही । तर बहल बाठ रावण<sup>6</sup> चढन ऊ ची नाखी । तठ बहल री धुरी भागी<sup>7</sup> । अठ रावल उभो रयो । साथ पिण रावत तीर हीज रयो भीवात वेड जीतने परा घर आया । भीवोता सू काम निपट पादरो आयो । पिण धोडी बात रे बास्ते बुरो धणो बधारियो । गोनवदम<sup>8</sup> धणो कियो । इण बड वरजाग र चढण रो बडो धोडो गगाजल काम आया । न कलो मागलियो बडो डीत सो परधान भलो रजपूत हुतो तिको काम आयो । ने इण कला मागलिया रो बसायोडो कालाणो हम कल्याणपुर कहावे थ । तठ पद्द कितरेक दिने राव जोथे बात कियो । राव सातल पाट वेठी । तिए समे मुगला रो कटक आयो । तिए कटक पीपाड रो पाखती रा गाव धणा मारिया । धणी बादकी मारखाड बो । तर आ सबर राव सातल नू जोधपुर आई । तिए दिन ठाकुराई रा मठ<sup>9</sup> भीवाता रे मापे हुती । सो वरजाग नू राव सातल तड ने पूछियो 'जो आपे वेड मुगला सू किए भात वरसा' सो, वरजाग जी मुहडे बोले नही तर राव जी कामदारा नू पूछियो-'जु वरजाग वयु नह बोले' तर कामदारा क्यो-वरजाग सदा भावी री परज करतो सुणीज थे । भावी मागसी । तर राव जी भावी रो पटो लिल न दियो वरजाग गाढो सुमना<sup>10</sup> हुवो । न वरजाग राव जी नू धणा चल बधायो । राव जी चढिया । वरजाग साथ चन्दियो, सो मुगला रो कटक गाव कोसाणे तठ माय उत्तरिया थो । तर राव वरजाग राव जी नू कोसाण था कोस । एक उरे<sup>11</sup> उभा राव न कयो मोनु हुक्म करी तो हू एकरसा कटक<sup>12</sup> री पाखती जाय न जोव आऊ<sup>13</sup> । राव अठ उतरा । तर राव जी उत्तरिया तर वरजाग

1 युड ।

2 एक सौ चालीस ।

3 धोडी बहली धोडा गाडी ।

4 सारथी, बहलवान ।

5 प्रबीण चालाक ।

6 जगल म छोटे थूपों पर चढा कर ।

7 धुरी दूट गइ ।

8 गोत्रनाश कुटुम्ब विनाश ।

9 दायित्व ।

10 प्रसन्न । 11 इस ओर ।

12 एक बार ।

13 देख आऊ ।

नी पोत एक पहर पत एवं आढ़ पोतिया<sup>1</sup> एक माथे बांध ने माथे भारा<sup>2</sup> एक पास रा कर ने बचण नू बटक<sup>3</sup> जोबण<sup>4</sup> रे बास्ते गया। सो फिर फिर न सारो ही बटक जोयो आपण हूबो<sup>5</sup>। तर बटक माहे था वार आयने भारो छपरो नाखिया। राव जी उत्तरिया हुता तठ आयो। राव जी नू बात कही। दीहा भूबण<sup>6</sup> रो काम नही साथ घणो आये रातीबासो देसा<sup>7</sup>। तर राव जी क्या— जु थारे विचार आव त्यू करो। सो रात पाहर एक तथा डेढ गई तर रातीबासो देण रो विचार कियो। तर एक नगारो वितराईक साथ देन दिलए दिस बटक था क्यो हुतो ये नेढा<sup>8</sup> आय ने नगारा बजाबजो। ने बीजा अणी<sup>9</sup> जीए अणी माह राव जी न बरजांग हुता तिको अणी उत्तर दिसे आय नगारो बजायो। सो इण अणी रो साथ हुता तिक। मुगला माथे तूट पड़ीया। न बीजो अणी दखिण दिस था तिए अणी रा नगारो अति बाबियो तर मुगलाजाणियो बठक अठी आयो छ। सो बईक मुगल अठी दोडिया। बड सबला हुई। मुगला रो साव घणो काम आयो। त राव जी रे साथ ने घणो सो भार कोई नाया<sup>10</sup>। न मुगल भाग। मुगला री फोज माहे कहै छ सरदार ग्यासुदीन ने घड्को हुतो सो ग्यासुदीन घड्को दोनू काम आया। मारवाड री बथ बथ छूटी। राव जी बेढ जीती। बरजांग रा घणा भलो हुमो।

पछ राव सूजो जोधपुर राज करे। तर बरजांग बीका नू कहाडियो— तू आव तोनू जोधपुर ले देस्या। तर बीको 500 पाच सा धोडा जाषडी<sup>11</sup> लने दाडियो। तर राठोड माना रूपावत नू चाड माहे खबर हुई। तर सादो ऊट री के चढने दोडियो सा लबणा पोल ऐसे आय चडियो गढ। न बीको बीज फलसे<sup>12</sup> आयो। सो पथे आया सो सादे आय ने गढ री पाला खबर दिवी। क्यो— पोला मत उघाडो। तर पोला खोली नही। तर बीको फीटो<sup>13</sup> पडने पादो जाय न मडोबर उत्तरियो। तर बरजांग री बात जाएी। तर सको ठाकुरा बरजांग नू बयो तू कामू करे छ। तर बरजांग कहो जोधा रा कूबरिया गुजरावा छ्ये<sup>14</sup>।'

राव रिडमल सत्ता कना सू मडोबर लियो। तद राव सत्ता रो बेटा नरबद धावा पडियो थो, सो आखिया तो जिनावरा बाढ लिवी न राणा जी री फोज

1 सापा पगडी विशेष।

2 गठनर।

3 फी।

4 देवने।

5 सूर्यास्त वेता हुई।

6 आत्मण।

7 रात्रि आत्मण करेगे।

8 तिकट।

9 सेना की पक्ति।

10 नही आया।

11 ऊट।

12 प्रवेश द्वार।

13 लजिजत होबर।

14 राव जोया वे जावर कुत्ते गुर्जा रहे हैं (हीन मम्बोधन)

## जोधपुर राज्य की रथात

मायला उमराव नरवद ने रिणखेत माह सू उठाय ने ले गया। सो राणा जी रो अमल मढोवर माह हुवो। तर राणे कु भे पणा गावा सू कायलाणो नरवद ने पटे दियो था। नरवद राणा रो चाकर यन्हो कायलाणे रहे। तिण सम सीधल खीदो बण्डीरोत जतारण राणा करे। सिंघला री बड़ी चार थे। खीदा रो बेटो नरसिंह सामला री रुण सालली सुप्पारदे नरसिंह कना सू पीहर जावण री सीध माणी। तर नरसिंह कही नरवद आधलो बडो श्रावायी कुबुदि थ। सो, त्रे आरती करण न जाव तो जावण देऊ। तर सुप्पारी नरसिंह रो सुस काढियो।

“ने क्यो— हूं आरती करन नही।” तर सीख दिवी ने नरसिंह एक नाई ने आने<sup>1</sup> मेलियो निगे लावण वास्ते<sup>2</sup>। सो नरवद तोरण माये गयो, जिण बखत दीवी<sup>3</sup> लने जाय कभी रथो। ने नरवद क्यो—सुप्पारदे आरती करे तो चबरी मे हालू। सो सुप्पारदे रा कपडा पहराय द्वाजी लुगाईया ने मेली। पिण आधो कहनो कियो—आ मुप्पारा नही। न विना परणिया तोरण सू पाढो वहीर होवण लागो। तर पर रा घणो हठ कर न माडाणी<sup>4</sup> सुप्पारदे ने आरती करण मेली। सो सुप्पारदे क्यो करण आई तर नरसिंह नाई ने जासूस मेलियो थो तिण सुप्पारी री साढी रे तेल रा छाटा लगाय दिया। ने पाढे जाय नरसिंह न हकीकत कही। पछ सुप्पारदे पाढी धाई। तर नरसिंह पूछियो— ते आरती दिवी के नही? तर सुप्पारदे क्यो म दिवी नही। तर सुप्पारदे री पोसाल मगाय ने देखी। सो साढी रे तेल रा छाटा लागा निसरिया। तिण सू नरसिंह सुप्पारी ने दुख दणो मुख कियो। जद मुप्पारी नरवद न क्वायो पारे वास्ते मने इतरो दुख देवे थे। सो द्वू रजपूत हैं तो मने लगा। तर नरवद घुडवहल वहस छडवहा<sup>5</sup> साथ सू चढियो। सो जतारण री बाढिया जाय उतरियो। ने सुप्पारी ने खबर दिवी। तर सुप्पारी साभ रे बखत बडारण रो बेस पहर ने नीसरी। कोई कहै थे मरदी भेस? कर दरीखाने जाय खीदा नरसिंह सू जुहारडा कर नरवद उनरिया थो तड गई। नरवद सुप्पारी ने घुडवेहल मे बठाण ने खडिया कर नरवद उनरियो थो। पोहर दो पोहर पछ खबर पडी के इतरे किणहीक क्यो भ्राज नरवद वाढिया उतरियो थो। जद खबर पडी जहर नरवद ले गयो थ। तर पोहर च्यार पडी बरा बावडिया<sup>6</sup> जोवता लागी। आपडियो नही। गाव पालासणी ताई भ्राय पाढो बलियो। पालासणी रा तालाव

1 शपथ निकालती।

3 साव भूट की खबर करने के लिये।

4 दीपक चिराग।

6 छटे हैं चुनिदा।

8 दृष्ट वापिश।

2 गुप्त रूप से।

5 बलात् हृष्पूवक।

7 मरदाना कपडे धारण कर।

9 फालता भ्रतर।

माह घोड़ा पाया । पणिहारिया आपस में बात बिचो । किणी निवला आदमी री  
लुगाई<sup>1</sup> जावे । पिण इसा सरदार जोरावर री लुगाई किहू गइ । आ बाता सुण ने  
बड़ रा डाला नीचे घोडे चढियो ऊभो थो । सो बड़ री साल भेल घोडा ने राना म  
पकड उठाय ने घोडा समेत हीडा लिया । तिए समे रो हूहो द्ये —

बडा बडारी घण गई<sup>2</sup> तिरसिंगा तिरसिंग<sup>3</sup> ।  
राना तुरो हिडालिया सोदा रे नरसिंह ॥१॥

पद्म मास 4 आडा धाल<sup>4</sup> सिधल कायलाणा ऊपर आया सो नरबद तो  
राणा कने छो ने नरबद रो भाई आसकरण सत्तावत पालकानी सिकार रमतो थो ।  
आसकरण ऊपर सिधल गया । सौ आसकरण नू मार सि घला कायलाणो लूटियो ।  
नरबद री काटडी भाखर ऊपर थी । सो मिली नहीं<sup>5</sup> बीजा लोक नीचे बसता  
त्यान पकड सीधल ल गया । सीधल नरसिंह कायलाणा री तलहटी बड हूतो तठ  
बड री डाल भाल न घोड चढियोडो ऊभो थो । कोटडी म वेरा<sup>6</sup> थो । त्या सुप्यारी  
नू क्यो—थारो भरतार बिसो द्ये ? सुप्यारी नरसिंह साभो ऊभो थो तिण साभो  
हाय कर क्यो ऊ म्हारा घणी द्ये<sup>7</sup> । तर वेरा क्यो— इसडो फूटरो<sup>8</sup> जवान  
मद भरतार छोड इण आधा रे घर म पठी सा काई जाण न पेढी । पण लुगाई  
मह एडी लारे हुवे<sup>9</sup>—आ ससार री कहावत द्य । सा साची द्य । पद्मकायलाण सू वेरा  
पकड गाडा म बहता म वेसाण सीधल जतारण ले गया । अर चाकरी नू सगला  
वरा नरसिंह देण लागो । तर बीदे वयो नरबद तो आधो हैं ने हिया फूट है<sup>10</sup> ।  
पिण तू तो आधो नही है । राठोडा री वरा चाकरा चरवादारा रा घर म घलावे  
है<sup>11</sup> । सा आ बात बुरी है । आ कहि सगली लुगाईया रे वस<sup>12</sup> कराय सजवाला  
म वसाण<sup>13</sup> खीदे । सगली लुगाईया ने पाच्छी कायलाणे पूगतो वराय दिको ।

आसकरण नू मार नरबद रा घोडा सिधला कायलाणा सू लिया था जिवे  
घोडा चितोड रागा क्न मेलिया । रागा जी पोडा माहे लने नरबद नू देखाया ।

1 स्त्री ।

2 पाया, स्त्री ।

3 प्रवल शक्तिशाली ।

4 विलम्ब कर, समया तर स ।

5 घावा मारने पर नूटी नहा जा सकी ।

6 स्त्रिया ।

7 स्वामी पति ।

8 खुबसूरत ।

9 स्त्री की बुदि एडी के पीछे हाती है । (यह मुहावरा है और स्त्री के प्रति लोक  
मायता प्रवट करता है) ।

10 मति हीन हैं ।

11 परवास करवाता है ।

12 पोशावरे

13 रथ बहलानि मे बठा कर ।

नरवद नू कयो— सेवागरा रा धोडा है, सो मोल लेवा छा । ये देखो” । आ मुण्ड  
नरवद धोडा उपर हाथ फेर ने कयो— ए तो धोडा म्हारा है । जाणीजे छे  
आसकरण नू मार ने सीधला मारा धोडा लने घठ मेलिया छे ।

नरवद सत्तावत एकरसा रागा री साथ लेने कोटमदेसर राव जोधा उपर  
भायो विला माहे सा नजीब भायो —तर जोधा त्रै खबर हूई । अर नरवद पिण  
खबर दिवो । तर मुनाई थाढ ने जोधो परो गया<sup>4</sup> ।

144 (राव मूजा) —राव मूजा सम्बद्ध 1496 रा भाद्रवा वद 8<sup>2</sup> रो  
जनम ने सम्बद्ध 1548<sup>3</sup> म पाट बठो ने सम्बद्ध 1572 रे बाती वद 9<sup>4</sup> ने धाम  
पघारिया । राजलाका री विगत —। वहु भटियाणी लिलमी दूजो नाम सारगदे  
भाटी जोवा उरजनोत री बटी जेसलमर रे साथ पीहर सू पोहबरणा ब्राह्मण ने  
वाहिया घरा भाया । खतपाल जेसलमेर रा गोरा री मुरत राणी लिलमी साथे  
लाई थी, तिको कोठारा नीचे भूहरा<sup>5</sup> माहे पूजी जे छे । तिण रे वेटा 2—

1 वाधो ।  
2 नरो ।

2 वहु चहुवाण प्रियमराव तेजसीहोत री वेटी तिणरो वेटा 2  
1 सेखा ।  
2 राव मूजा री दीयाढी पीपाढ पटे ।

— — —  
3 मागलियाएरी, सरवग दे राणा पान्ह री वेटी तिण रे वेटा 3  
1 ऊदो राव मूजा री जेतारण देने विदा किया । तर जेतारण भाय  
बासिया । घरती माहे तिघल या त्या ने परा काढिया ।  
2 प्राण ने जेतारण रो गाव देवली दियो थो ।

4 सालली वहु सहादरा तिण रे वेटा 2—  
1 पिरयुराव ।  
2 नापो ।

### 145 (वाधा)

1 माग गया ।  
3 1481-82 ई ।  
5 तलपर भ्रमरा म ।

2 रविवार अगस्त 2 1439 ई ।  
4 मगनवार, असून्हवर 2, 1515 ई

राव वाधा<sup>1</sup> सम्बत् 1524 रा वसाव वद 7<sup>2</sup> रो जनम न सम्बत् 1571 रा भाद्रवा मुद 14<sup>3</sup> देवलोक हुआ। कवरपदे वाधा जी रे चारण घरमा रो बेटी अमरो पिडियो परघान थो। सी जिए ही राजपूत सू वाधो जी रीसावता<sup>4</sup>। तिण ऊपरे अमरा ने विदा करता। सा ठिकाए खाली कराय देस वार काढतो।

मुछ माथ हाथ द तिण नु मार नारणा। खेंकारी, कर तिण नु मार नाखणो। सह दीठा घोडा खडगा नही घर स्त्री सू पहलो भीटणा नही। दातण रो फाडी ऊ दी पड़ तो जीबणा नही। घोला बेस आया जीबणो नही। पेंतीस बरस आगे जीबणो नही। इए ताछ चाईस आखड़ी अमरा चारणरे थी।

अमरा रो बचन लेने अमरा री बहन क्या—‘बीरा पाच बरस महन काचली रा दे। तर अमरे क्या—ठीक है—बाई पाच बरस महारा तन निया। हमें हू तीस बरस आगे जीबसू नही। बन क्या—हू थने चालीस बरस जीबणो रेव रो<sup>5</sup> कहु छू। अमरे क्या—त बरस दीया कठे त ता म्हा कने मागिया थे। सो म्ह दीया।’ भाटिया री राज मतोडा हृतो न मतोडो भाटी छोड नही। तर राव वाधे कुवरगामा चोईसा सू मतोडो अमरा ने पट लिख दियो। तर भाटिया ने मार मतोडा वार काढ दिया, ते अमरे मतोडे राज कियो।

### साल

चारण वट<sup>6</sup> छोडी चारणिये, देसोता<sup>7</sup> परदोड।

रावा छ्ल<sup>8</sup> सगली घर राखे, माले कवर मताड ॥॥॥

अमरा रो खिलायोडो<sup>9</sup> मतोडे अमरसर वरो<sup>10</sup> है। मताड भाटिया सू लडाई हुई तर अमरा रा भाणज न हेटा<sup>11</sup> पटक एकण भाटी दाव लियो। तिण ऊपर अमरा री तरवार बूही सा ऊपर पडिया थको भाटी कट ने अमरा रो भाणज ही कट ने भर गयो। तिण दिन सू अमरे तरवार राखणी छोड निवी। कोरडो राखता। अमरा रे स तान नही थी। तिण सू गाव कावलिया मे तीजी पाती

1 बाधा राव सूजा के जीवन काल मे ही मर गया था। अत यहा राव शंद का प्रयोग अनुपयुक्त है।

2 शुद्रवार अप्रैल 15 1468 ई। 3 रविवार सितम्बर 3 1514 ई।

4 कुपित हाते।

5 कहने का।

6 चारणत्व याचक धम।

7 दशपति राजा।

8 के लिए।

9 खुदवाया हुआ।

10 कुम्रा जिसके भीतर जाने के लिए पडिया नही हा।

11 नीचे।

## जोधपुर राज्य की स्थापत्य

अमरा री थी, सो गूजरगोड चाहृणा ने मुण्डाय करे दिवी। अमरा रे हाथ सू भाण्ड मारियो गयो। तिण रो प्रायश्चित्त चाहृणा नु पूछियो। तर चाहृणा क्यो—पीपल मे बलिया तथा गोत रे हाथ मुआ थो पाप उतरे।' गोत रे हाथ मरणो विचार खराडी गाव देण लागो। एक दिन गाव खराडी वाला रो जमाई खराडी वाला र भेलो बाहर चढ़िया थो। तिण र मोरा मे अमरे कोरडा री दी जिण सू जमाई मर गया। जिण दिन सू कारडो ही राखणो छोड दियो। पछ खराडी वाला र हाथ अमरो मारियो गयो।

वाधा जी रे राजलोका री ने कुवरा री विगत—

1 वहु दवडी रग दे कणा वघ (?) देवडा री वेटी राणी पदो पायो।

तिण रा वेटो। एक

1 वीरमदे

2 वहु चहुवाण ऊदावाई रे वेटा 2 दोय—

1 गागो।

2 सीधल ननी यको मूझो।

3 वहु भटियाणी र बटा 2—

1 भीव।

2 खतसी।

भीव दशोर (?) कोट बरायो ने क्यो जोधपुर सू विवणा<sup>1</sup> गाव 2888

दासोर (?) पांच घातसू। तर गाग भीव नु विप दे मारियो।

4 वहु चहुवाण पोहपावाई र वेटा 1 ने वेटिया सात हुई।

1 कु बर प्रतापसी पातसाह र चाकर रह्यो ने काम आयो।

7 वेटिया सात 7 री विगत—

1 वेटी 1 अमरसर रा कछवहा सूजा जी ने परणाई तिण रो वेटो रायमल

1 वटी केलहण भाटी पचायए जतसिहेत ने परणाई (तिण रो वटो रायमल)

3 वेटिया 3 तीन तो राणा सामा ने परणाई। घनदाई रो वेटा राणो रत्नसिंह हुवा।

1 वेटी लाडबाई। तोडा रा सोलकी सूरसेन ने परणाई।

1 वेटी एक गगावाई ननी यकी मुई।

सावन्तसी जौदावत री वेटी खेतुवाई वाधा जी रा काका री वेटी बहन तिका हाडा राव नरायणदास ने परणाई। तिण र वेटा सुरजमल हाडो हूबो।

1 दुगना।

राणो रत्नसिंह ने हाडो मुरजमल अ दौनु आपस मे भूझ मूझा । वाघे कुवर मरत राव सूजा नू क्या म्हारो जीव सारो नीसर<sup>1</sup> जो थाहरो टीको म्हारा वेटा नू दो तो । तर सूजा जी कुवर सेखा नू पूछ ने बोल दियो, ने क्या— म्हा मूवा पूठि थाहरा वेटा बीरमदे नू टीका देसा ।

राव सूजा जी असमाधिया<sup>2</sup> गाढा तर ठाकुर सको आया था । राठोड पचायण असराजात राठोड सगतो चापावत बीजा ही सको ठाकुर था । सो ठाकुरे बीरमदे री मा नू कहाडियो— म्हानू जीमण मलियो । तर दबडी जी कहाडियो ‘हू थाहरी राधण<sup>3</sup> नही जा हम आधी रात रा जामण करू । तर राव गागा जी री मा चहुवाण छोकरिया साथे उहो<sup>4</sup> पाणी तल मलियो न कहाडिये राज जीमण तप्पार छ पछ्ये जीमण ही तुरत आयो । ठाकुरे जीमने माहे कहाडिये— राज म्हं गागा जी रो रजपूत छा । गागा जी नू राज लिखा सो बेगा आवे । तिए ऊपर लिखियो । गागा जी तुरत आया । राव गागा जी आया तर कुवरपदा रा मालिया<sup>5</sup> माहे उतारिया । सो बीरमद तलहटी ऊतर—तर कहे हू गागा हटे<sup>6</sup> हुय नही नीसर । पछ भरणा ऊपर चावड भुरज आगे लिडकी वराय उठ हाय उतरतो । पछ देवडी ठाकुराँ न कहडे— गागा नू परि सीस दा । गढ था उतारो’ तर ठाकुर कहे रावा री असमाध ऊर समाध<sup>7</sup> पूछण आयो छे । सो यू म्हारा सू कयू उतारियो आय । यू करता राव राम क्या<sup>8</sup> । टीको देण लागो । तरे बीरमदे नू क्यो— टीको पाट दीजे किना पाट दीजे ये लला काठडी हालो । उठे टीको देसा । यू कह बीरमदे नू गढ सू उतारन टीको राव गागा नू दियो । ते बीरमदे नू क्यो— य साजत जावा । पछ बीरमदे सोजत आयो गागा जी र टीको जते जी आपरा हाय सू कियो जद सू राजा पाट वसे जिए र बगडी रो सरदार तिलक करे न तरवार बधावे छ ।

देवीदास राव सूजा रो वटो सेखा रो भाई । सेखो सेवकी रो वेढ म माराणो तर रजपूत देवीदास ने काडियो । क्यो— सखो तो निकल गया छे । य क्यू मरो छो’ । तर देवीदास निसरियो । पछ गुजरात रो पातमाह बहादुर साह राणा विक्रमान्तिय उपर प्रायो । चित्ताड रा गङ्ग भलिया तठ देवीदास जाय ने नाम आयो ।

1 सुख से प्राण छूठे सुख स निकले ।

2 अस्वस्य ।

3 भाजन बनाने व ली सेविका ।

4 गम जल आदि ।

5 महूल म ।

6 नीचे स ।

7 स्वास्थ्य लाभ की सुशी के समाचार ।

8 देह त्याग किया ।

राव सूजा र बेटों नरो । राव सूजा रो मतियोडो गुजरात रा पातसाह नू घोलकरो<sup>1</sup> सो उठा सू पाढ़ो मायो । तर एक दिन उदा सूजावत सू बोलियो ऊदा जी न बाब राही<sup>2</sup> तर राव सूजे नरा नू फलोधी द न युदो कियो । नरा ने राव सातल र खोते लियो थो । सो नरे मापरी मा लिखियो राणी रा बहणा सू आपरा पिता सूजा जी नू जोधपुर गादी वेसाणिया था । नरो रो मन फलोधी टिके नही । जिका दिना पोहकरण राठोड़ खीवा वरजागोत, जगमाल मातावत रो घोवा र थी । सा सूजा जी रा बहणा सू पाहकरण नरे लिकी । नरोफलोधी रहतो, सो पोहकरण नू हेरा लगायाः<sup>3</sup> । सो एक दिन सीवो गाव उगरावास गोठ जीमण नू गयो थो । पोल र अजाएचक<sup>4</sup> रो घोते दिन पोहकरण रा बोट म उरठ नै<sup>5</sup> पेत गयो । पोहकरण चिवाड न था । पछ सीवो लूको नीलव गयो । नरे राव सातल र नाम पोहकरण गु कोत । भास्तरी ऊपर उत्तर बोए माहे धोटीसीक ठोड़ लीकी । नरो वास मापडियो । नानियाई रे ऊनाम<sup>6</sup> मे भगडो हुवा । जठ राव उठ राजस्थान<sup>7</sup> वाधियो । सीवे न सीवा र बट पणा विगाड़ किया । सहर री गाया नरो बाम आयो । नरा रो मरण सूजे उदास हुवो । अर पिंडा चढ़ ते नरा रा बेटा गोवद नू पोहकरण दिकी ने नरा रा दूजा बेटा हनीर ने फलोधी दिकी खीवा वरजागोत रा बेटा धणा दिन दाइया न विगाड़ किया । तर उणा नू ठरदा रा गाव साकडो । सनावहो बगरह दिया ।

146 (राव गागा) राव गागो बडो दातार जोधार प्रतापीक समझनार हुवो । सम्वत् 1540 रा वेसाल सुद 118 रो जम ने सम्वत् 1572 रा मिसर सुद 3 गुरुवार<sup>8</sup> पाट बठो । सम्वत् 1588<sup>10</sup> रा देवलोक हुवो । एकण विताव म लिखिया है—राव गागा जी ने मालदेव जी चूक किवी<sup>11</sup> । भरोखा में वेठा था । अमल घणो लता सो फेर<sup>12</sup> माई थी । सो भरोखा माय सू गुडाय दिया ।

राव गाग सखा सूजावत न गोठ किवी । भरए माहे भूलता था, सो साय बटने पाणी रो छाटा सू लडिया । बाले बोल भारी हुवो । रजपूता विचे पडन द्वार किया । सखो रिसाय न आपरो पीपाड़ गयो । पछे सेष मापरा भाई देवीदास न

1 पहिचानता था ।

2 बेट की चोट की बेट मारी ।

3 गुप्तवर भेज कर वहा की स्थिति का जान प्राप्त किया ।

4 प्रचानक ।

5 साहसपूवक, बलाद् ।

6 राजधानी ।

7 सीमात स्त ।

8 गुरुवार मई 6 1484 ई ।

9 गुरुवार नवम्बर 8 1515 ई ।

10 1532 ई ।

11 छल, पात स मरा था ।

12 प्रभीम के नथे से निदा सी मा गई थी ।

नागोर मेल दालतियारान ने बुलायो सो कटव करने आयो दोलतिया रो न सखा  
रा डेरा गाव सेवकी हुआ : राव गागो साथ भेलो कर सामो गयो । गागाएंगी डेरा  
हुआ । सेखा कने विसठालू<sup>1</sup> मेलिया । जमी धामी पिण सखा र ऊहड हरदास  
मोक्लोत परधान थो । तिण बात बणवा दिवी नहीं ।

### दोहा

एक वचन हरदास, ऊहड मन आए नहीं ।  
गामे मगलो ग्रास, के सेखा रै सावठो ॥ 1 ॥

तिण समे राव जतसी बीकानर सू जात<sup>2</sup> करण नागाए आयो थो । सो  
बढ हुई सेवकी रा तलाब कन । तिण बकत राव मागा र सामल हुआ<sup>3</sup> दोलतिया  
री फोज र आगे हाथिया री लेन थी । ने सगला हाथिया रे आगे दरियाजोस नावे  
हाथी थो । तिण रा कपोल म गागा रा हाथी रो तीर लागो । जिण सू दरियाजास  
हाथी पाढ़ो फिर गयो । न उणी समचे<sup>4</sup> राव गागा री फोज रा घोडा उठिया सो  
हाथी सगला पाढ़ा किर गया । आगे हाथी ने पाढ़ घोडा दोलतिया री फाज म  
पड़िया । तिण सू फोज भाग गई । ने राव गागा री फत हुई । हाथी पड़ाऊ 40  
हाथ आया । सम्वत् 1596 रा मिगसर मुद<sup>5</sup> आ राड हुई । दालतिया रो लोक  
घणो माराणो । आदमी 18 सू सेखो मूजावत ने सुखा रो वेटो अखेराज काम  
आयो । राठोड अमरो मठगावत काम आया । राठोड चौहथ बाधोत अडवाल रो  
पोतरो काम ने पठावा ठावा पनास काम आया । राव गागा री तरफ विसनो  
चम्पावत पूरे लोहड पड़ियो । राव जी छुनाडा पटे दिया । सा दिन 15 पछे विसनो  
काल बियो । राजपूत पाच 5 काम आया ।

इण प्रवाडा<sup>6</sup> रो गीत—

### गीत

जल पियो जु महमद घडा जोधपुर,  
निहस अकस धर<sup>7</sup> खेघ<sup>8</sup> निग्राय ।<sup>10</sup>

1 सदेशवाहक दूत ।

2 बहुत अधिक समस्त ।

3 तीथ यात्रा ।

4 राव जतसी को गोगा ने सद्यताय कुलवाया या नणसी 3 पृ 90

5 उसी समय ।

6 मगलवार नवम्बर 11, 1539 ई ।

7 विजय प्रशस्ति का बणन ।

8 वर ।

9 युद्ध ।

10 'याय ही, उचित ही ।

गज पग हय खल रो रोपि गागे,  
रत<sup>१</sup> काढियो जडाली<sup>२</sup> राय ॥ १ ॥  
पीघो नोर घडा<sup>३</sup> पतिसाही,  
मडोवर घर धाती मन ।  
वहड विहड<sup>४</sup> असिहू<sup>५</sup> वाधावत,  
विहड<sup>६</sup> काढियो सिन्दूर वरन<sup>७</sup> ॥ २ ॥  
काटियो अफरी जुपियो किलमे,  
पाणी मडल अधायो पाण ।  
जुडि कमधज अरि श्रोणि जडाली,  
कु जर नर पिडार केकाण<sup>८</sup> ॥ ३ ॥  
निज ग्रासिये सेन नागीरे,  
पायो उदक<sup>९</sup> मुरघरा पार ।  
पटहथ<sup>१०</sup> प्रिसणा<sup>११</sup> पवग<sup>१२</sup> धाई पह<sup>१३</sup>

धर छल सूर हरे संग धार ॥ ४ ॥  
सेवा जो रो परधान ऊहड हरिदास इण बठ म बाम मायो । दोलतिया री  
दोज रो हाथी दरियाजोस नामे इण राठ माह सू भागो सो मेडते गयो । सा राठोड  
बीरमदे हूतावत हाथी ने पकड़ायो । सा हाथी ढील रो मोटो परणो जिण सू पोल  
माहे मावे नही । तर पोल नीचा सू खोदने हाथी माहे लिया । सुगन्धा विचास्तियो ।  
इण हाथी रा पा । सू बीरमदे री धरती जाती । कु वर मालदे हाथी र लार मेडते  
गयो । पिण बीरमदे हाथी परो दियो सो इण वात सू कु वर मालदे र ने बीरमदे  
दृढावत रे विरोप पड़ियो ।

बीरमदे वाधावत सोजत राज करे ।

बोहा

इल वाटे<sup>१४</sup> अण भग<sup>१५</sup>, बहसी धाती वधवै ।  
गढ जोधाए गग, बीरमदे सोजत बसै ॥ १ ॥

1 रक ।

3 शनु सेना का रुधिर हपी जल ।

5 ततवार स ।

7 लाल रग रुधिर ।

9 जल लाहू ।

11 पिणुन, सनु ।

14 भूमि का बटवारा किया ।

2 तलवार, बटारी ।

4 गज सना का नाश कर ।

6 युद कर ।

8 धोडे ।

10 हाथी ।

12 पाडे ।

15 बीर ।

13 राजा ।

राव बीरमदे काला सो ठाकुर<sup>1</sup> हुता । ठाकुराई री मदार सारी मुहता रायमल सेतावत ऊपर हुती । सो राव गागा बना सू अर कु वर मालदे बनामू धणा दिन सोजत रखवाली कू पा महराजोत, उरजन पचायणोत वले भला भला रजपूत हुता । जिके बीरमदे रा पडतो किन<sup>2</sup> देखने सगला आय गागा जी रा चाकर हुआ । सम्बत् 1588 रा चेत्र बुद 1<sup>3</sup> मुहता रायमल सेतवत सोजत सू चन्दियो । सो गाव धालरे राव गागा जी रो पायगा थी । तठ भूविया तर राठोड भाला रुपावत ने साहणी रायसल बीकावत सागा साहणी गे काका काम आया गागा जी री तरफ रा । मूहता रायमल र हाय धाडा आया नही । न पग ढूट गया<sup>4</sup> । सम्बत् 1588 रा चेत्र सुद 11<sup>5</sup> राव गागो ने कु वर मालदे फोज ल सोजत माये गया । मुहतो राय मल बाजार म साहमो आय काम आयो तठ रायमल री छतरी है । बीरमदे ने ढोलिया सूधो उपाड<sup>6</sup> खरब मेल आया । सोजत म गागा जी रो अमन हुमो । सोजत रा कोट लियो तठ ठाकुर दोय काम आया । राठोड वेणो वर्दासिषोत सहसो तेज सिहात । बीरमदे री भदत करण साए राणो सागे सोजत उपर आयो<sup>7</sup> । गाव सारण डेरा किया । गागा जी फोज ले सामा गया । गागा जी बन साथ साचला हुता<sup>8</sup> ।<sup>9</sup> तिण मू राणो सागो सारण था पाथो कूच कर गयो । तिण खमे रो गीत—

घट हसत म दाख म वाघ बीरथट, ढाल म वाय म<sup>10</sup> बस गज ढाल ।

मालव कटक नही भेवाडा, मडोवर रीझी रिडभाल ॥ 1 ॥

सागा मवर<sup>11</sup> सनाह सिधुरा,<sup>12</sup> डर डाकर आहाडा छम्वर ।

बीहे<sup>13</sup> जिके तीके घर बीजा,<sup>14</sup> राणा अं राठोड हर ॥ 2 ॥

सागा गागा राव सरीखा, राणा अबली बात मरोड ।

लेसी अबे लोहारी लाहण, लेसी अठे न बोजी भोड ॥ 3 ॥

1 बिना समझ बूझ का भाली प्रहृति का ।

2 बुरे दिन विपत्ति के दिन । (मुहावरा)

3 बुधवार, फरवरी 21 1532 ई ।

4 भगदड मव गई । (मुहावरा)

5 रविवार माच 17 1532 ई ।

6 पलग सहित उठाकर ।

7 राणा सागा की मृत्यु 1528 ई (स 1584) म ही हो गई थी । यह सवत् 1588 (1532 ई) म उसवा बीरम की सहायताय आना स्पष्टतया गलत है । यह उल्लेख शात्मशलाधा वश ही किया गया है ।

8 मरन मारने वाले ।

9 मत ।

10 मत वर ।

11 हाथिया अं बचित ।

12 डरने वाले ।

13 दूसर ही ।

मिलिया नपर राण ता मिलते, आहण<sup>1</sup> ते भागा असुर ।

बगाली न हुवे वाण लय, जोधा अ जोधपुर ॥ 4 ॥

गढ जोधाएं गू जियो गागो, वाध समी भ्रम<sup>2</sup> वाध पर ॥

सारण आय समझ सोसोदो, घाटो लाधे गये धर ॥ 5 ॥

गुजराते रे पातसाह मुजफ्फरसाह राठोडा कना सू इडर ले लिवी । जद राले सागे वागडिया डू गरसी बालावत नू जोधपुर गागा जी बने मिलियो । सो मास 6 जावपुर रहि न डगरमी राव गागा नू ले ययो तर राणो सागो ने राव गागो ए दोनू भेजा ही ईडर धोवण<sup>3</sup> सारु गया । सो शहमदनगर मुजफ्फरसाह सू बेढ हुई । तिए बेढ म पातसाह मुजप्पर भागा । अर सागा गागा री फर्ने हुई । इडर तुरका बना सू छाडाय पाछो राठोडा ने लियो ।

### दोहा

गागा गोत गुशल,<sup>4</sup> ईडर उग्रहिया<sup>5</sup> पातणो ।

सोहे तो सुखपाल, बडो प्रवाढो वाधउत ॥ 1 ॥

राव गागा र राजतोका कवरा री विगत-

1 बहू सायली गगादे ।

2 बहू सीकान्धी उत्तमदे, राणा सागा री बेटो राणा उदमिह री बहन पदमावती पीहर पी, मा उठ राव जी री सुणावणी गई<sup>6</sup> तर पाव पोहा ताई बलण सारु हठ लियो पिण बाली नही । पद्र चित्तोड अकबर लियो । जद चित्तोड रा चूहर<sup>7</sup> म बस बल वई । इण पदमावाई रो करायोडो पदमसर तनाव है । पीहर रा नाम पदमावती ने सासरा रो नाम उत्तमद जा ।

3 बहू देवडी माणकदे जी पीहर रा नाम पदमावाई थो । सिराही रा राव जगमाल री बेटी तिए र बेटा 3 ने बेटी 1 एव—

1 मालदे, मुराव मालदे विला में हूनो, जद तुरका सू मिलियो ने सोजन चसियो ।

2 मानमिध काकाणी पट ।

3 बरमल अ तीन बेटा

1 बटा 1 एव सोनवाई जेमसमेर रावल लूणवरण नू परणाई ।

1 शुद ।

2 बाधा का पुत्र ।

3 जीतने ।

4 गोत्र रक्षक ।

5 उदार लिया ।

6 निधन वा समाधार पढ़चा ।

7 जोहर म ।

राव बीरमदे कालो सो ठाकुर<sup>1</sup> हुतो । ठाकुराई री मनार सारी मुहता रायमल खेतावत ऊपर हुती । सा राव गागा कना सू अर कु वर मालदे कनासू घणा दिन सोजत रखवाली कू पा महराजोत उरजन पचायणोत वले भला भला रजपूत हुता । जिके बीरमदे रा पडतो टिन<sup>2</sup> देखन सगला आय गागा जी रा चाकर हुआ । सम्बत् 1588 रा चेत्र बुद 13 मुहतो रायमल खेतावत सोजत सू चढ़िया । सा गाव धोलरे राव गागा जी रो पायगा थी । तठ झूवियो तर राठोड मालो रूपावत, ने साहणी रायसल बीकावत सागा साहणी गो काका काम आया गागा जी री तरफ रा । मूहता रायमल र हाय धोडा आया नहीं । ने पग छट गया<sup>4</sup> । सम्बत् 1588 रा चेत्र मुद 11<sup>5</sup> राव गागो ने कु वर मालदे फौज ल साजत माये गया । मुहतो राय मल बाजार म साहमो आय काम आयो तठ रायमल री छनरी है । बीरमदे ने ढालिया सूधो उपाड<sup>6</sup> खरवे मेल आया । सोजत म गागा जी रो अमल हुयो । सोजत रो बोट लियो तठ ठाकुर दोय काम आया । राठोड वेणो वरसिधोत सहसो तेज सिहात । बीरमने री मदत बरण साह राणो सागे साजत ऊपर आयो ।<sup>7</sup> गाव सारण डेरा किया । गागा जी फौज ले सामा गया । गागा जी बन साथ साचलो हुतो ।<sup>8</sup> तिण सू राणो सागो सारण था पाढो बूच कर गया । तिण समे रो गीत—

घड हसत म दाख म वाघ बीरधट, ढोल म वाय म<sup>9</sup> कस गज ढाल ।

मालव कटक नही मेवाडा, मडोवर रीझी रिडमाल ॥ 1 ॥

सागा मवर<sup>10</sup> सनाह सिंधुरा,<sup>11</sup> डर डाकर आहाडा डम्बर ।

बीहे<sup>1</sup> जिके तीके घर बीजा,<sup>13</sup> राणा अ राठोड हर ॥ 2 ॥

सागा गागा राव सरीखा, राणा अवली बात मरोड ।

लेसी अवे लाहारी लाहण, लेसी अठ न बीजी लोड ॥ 3 ॥

1 बिना समझ वृक्ष का भोली प्रकृति का ।

2 बुरे टिन विपत्ति के दिन । (मुहावरा)

3 बुधवार फरवरी 21 1532 ई ।

4 भगदड मच गई । (मुहावरा)

5 रविवार माच 17 1532 ई ।

6 पलग सहित उठाकर ।

7 राणा सागा की मृत्यु 1528 ई (म 1584) म ही हो गई थी । अत सबत् 1588 (1532 ई) म उसका बीरम की सहायताथ आना स्पष्टतया गलत है । यह उल्लेख आत्मशनाथा वश ही किया गया है ।

8 मरने मारन वाले । 9 मत ।

10 मत कर । 11 हाथिया क व्यवसित ।

12 डरने वाले । 13 दूमरे ही ।

मिलिया नपर राण तो मिलते, आहण<sup>1</sup> ते भागा असुर ।

बगाली न हुवे वाण लख, जोधा ये जोधपुर ॥ 4 ॥

गढ जोधाणे गू जियो गांगो, वाध समी अम<sup>2</sup> वाध पर ॥

सारण आय समझ सीसोदो, घाटो लाधे गये घर ॥ 5 ॥

गुजरात रे पातसाह मुजफ्फरमाह राठोडा बना सू ईडर ले लिवी । जद राणे साग वागडिया डू गरसी बालावत नू जोधपुर गागा जी कनै मिलियो । सो मास 6 जोधपुर रहि ने डू गरसी राव गागा नू ले गयो तरै राणो सागो ने राव गागा ए दीनू भेला ही ईडर घोवण<sup>3</sup> सारु गया । सो अहमदनगर मुजफ्फरसाह सू वेट हुई । तिण वेढ मे पातसाह मुजफ्फर भागो । अर सागा गागा री फत हुई । ईडर तुरका बना सू छोडाय पाछी राठोडा ने दिची ।

### दोहा

गागा गोत गुशल,<sup>4</sup> ईडर उप्रहिया<sup>5</sup> पातसा ।

सोहे तो सुखपाल, बडो प्रवाडो वाधउत ॥ 1 ॥

राव गागा र राजलोका कवरा री विगत-

1 बहु साखली गगादे ।

2 बहु सीसादणी उत्तमदे राणा सागा री वेटी राणा उदयसिंह री बहन पदमावनी पीहर थी सो उठ राव जी री सुणावणी गई<sup>6</sup> तर पाच पोहर ताई बलण सारु हठ कियो पिण बाली नही । पछ चित्तीड अक्कवर लियो । जद चित्तीड रा जूहर<sup>7</sup> मे वस बल बई । इण पदमावाई रो करायोडो पदमसर तलाव हैं । पीहर रो नाम पदमावती न सासरा रो नाम उत्तमदे जी ।

3 बहु देवडी माणकदे जी पीहर रो नाम पदमावाई थो । सिरोही रा राव जगमाल री वेटी तिण र वेटा 3 ने वेटी 1 एक—

1 मालदे मुराव मालदे विखा म हुतो, जद तुरका सू मिलियो ने सोजत वसियो ।

2 मानसिंघ कावाणी पट ।

3 वैरसल अ तीन वेटा

1 चटी 1 एक सोनवाई जैसलमेर रावल लूणशरण नू परणाई ।

1 युद ।

2 वाधा का पुत्र ।

3 जीतते ।

4 गोत्र रक्षक ।

5 उदार किया ।

6 निधन का समाचार पहुचा ।

7 जोहर म ।

- 4 वहू भटियाणी फूलावाई राणी थी, सो बली । ने यारे बेटी एक । राजकुवरवाई थी से राणा विक्रमादित्य नू परणाई चित्तोड़ ।
- 5 वहू भटियाणी लाहवाई, तिण रो बटो । एवं किशनसिंह ।
- 6 वहू कछवाई चद्रावलबाई साथे बली ।
- 7 वहू सोनगिरि साढ़ीरा बाई साथे बली । यारे बेटी । चापावाई थी सो सिरोही देवडा रायसिंह ने परणाई । ।
- 8 वहू देवडी जवता इणर वेटा 2—
  - 1 सादूल ।
  - 2 बाहू र पटे गाव मारणकलाव ।
  - 9 वहू भाली प्रेमदे साथे बली ।

खवासा पातरया बार 12 हुती त्या म 9 राव जी साथे बली ।

### 147 (राव मालदेव)

राव मालदे सम्बत् 1568 रा पोष वद 1<sup>1</sup> रो जाम न सम्बत् 1588 रा आवण सुद 15<sup>2</sup> पाठ बेठा । ने सम्बत् 1619 रा बाती सुद 12<sup>3</sup> देवलोक हुआ जोधपुर म ।

राव मालदे र 80 000 घोडा री ठकु राई हुती । ने हिंदुस्तान रो पातसाह कहायो पहली धरती भाई बाटे बठियेडी थी, सो पातसाही मालदे वणाई । बीरमने सूजावत बनासू सोजत से राव गागे सलामत थका मालदे सोजत गादी बेटा था । सम्बत् 1588<sup>4</sup> म बीरा सिंधल ने मारने भादराजण लिवी न कु बर रतनसिंह ने पटे दीवी । सम्बत् 1592 रा माहा व<sup>5</sup> 2<sup>6</sup> राव मालदे नागारी खाँ<sup>7</sup> न मारन नागार लियो । कू पो महराजोत फौज मुसायब थो । बीरम मागलिया ने नागोर हाक्म राखियो ।

1 शुद्धवार दिसम्बर 5 1511 ई ।

2 शनिवार जुलाई 29 1531 ई बविराजा (2 पृ 51) मे भी यही तिथि दी है । नएसी बे अनुसार—गागा बी मृत्यु ज्येष्ठ वदि 1 1588 वि (तद नुसार अप्रैल 20 1532 ई) का हुई और मालदेव ज्येष्ठ शुदि 4 1588 वि (तद नुसार बुधवार मई 8, 1532 ई) का गही पर बठा । विगत 1 पृ 42) ।

3 नवम्बर 7 1562 ई ।

4 1532 ई ।

5 सोमवार जनवरी 10 1536 ई ।

6 दीतत खा उसका नाम था ।

सम्बत् 1590<sup>1</sup> रा मे राठोड़ हूं पो जी राठोड़ जता जी बीजो ही राव मालदे जी साथ मतियो थो । राणा उदयसिंह रो मदद सीसोदिया बणवीर परो काढन राणा उदयसिंह द्वे चित्ताड बसागियो । टीको दियो । तर रागे उदयसिंह राव मालदे जी तू हाथी बसतराय ने च्यार लास विरोजिया पेसकसी रा मेतिया ।

सम्बत् 1594 रा प्रसाद वट 8<sup>2</sup> सिवाणो गढ़ राठोड़ हूं गरसी जैतमालोत कनामूल लिया । मागलिया देवा भादावत तू किनेदार रातिया ।

राव मालदे जी भाला जतसिंह री बटी सरपदे परणिया था । सो भाली र राव जी बस था न जता ने खर्को पटे दियो था । न सरपदे सू मरजी थी सं पछ एक बार राव जी सरवे भाला र पावणा पधारिया था । ने सरपदे भाली ने बीजो ही राजलोड़ साथे था । सो भाल मिजमानी किची । तर भारोगण न पधारिया ने भाली सरपदे र थोटी बहिन एक फर थी । सो निपट सरपवान थी सो हूंज राज लोका राव जी ने क्या— सरपदे र थोटी बहन थे सो निपट सरपवान थे ने क्वारी थ । तर राव जी भाला ने क्यो— ‘धार बहन थोटी थ सो म्हाने परणाइ ज है इण वात रो घणो हट हुवा । राव जी क्या ह माडाणी परणीज सू । तर सरपदे भापरा वाप ने भाला उजर दियो ने क्यो— म्ह तो राज न आगे परणाइ ज है इण वात रो घणो ने समभाया हमार आ किसा बाई करो । तर भाले झुठा थका बयो— हमार नो म्हा सू उभा माव ध्याव हूं नही ।’ तर साबो<sup>3</sup> जोवायो । सो साबो मास दोय ने छहराय न राव जी जोधपुर पधारिया । ने बास भाला राणा उदेसिष्य सामावत सू पहाव कियो । न सरवा छानिया सो गुडे गया । उदपुर राणो उदेसिष्य आयो न सरपदे र थोटी बहन ही सो परणियो । तिण ठोड़ एक वट थ सो भाली री वट धनेस वहीजे थ । पछ राणा उदेसिष्य ने राव जी मालदे जी जोर दियो । पछ सम्बत् 1597<sup>4</sup> रा राव जी रा धाणा बठा, नाडोल जोजावर, बीसलपुर । राठोड़ पचारण उदसिधोत राठोड़ बीदो भारमलात बालावत धोर धणो साथ था । सो निसरणिया माड ने गढ़ ऊपर चडिया था सो मायला साथ द्वे खवर होय गई । तर गढ़ हाथ धायो नही । धोर बालीसो सूजो सावतोत एक बार राणा उदयसिष्य सूर रिसाय न

1 1533 ई । यह सम्बत् सही नही है । वस्तुत उदयसिंह और बणवीर के मध्य युद्ध स 1597 वि ('540 ई) म हमा था ।

2 फिरोजिया-तत्कालीन एक थोटा सिक्का ।

3 उधवार जून 19 1538 ई ।

4 मुहूत ।

5 1540-41 ई ।

- 4 बहू भटियाएँ पूलावाई राणी थीं सो बली । ने, यारे बेटी एक । राजकु बरबाई थीं, से राणा विक्रमादित्य नू परणाई चित्तोड़ ।
  - 5 बहू भटियाएँ लालवाई तिण रो बेटो । एक किशनसिंह ।
  - 6 बहू कछवाई च द्रावलवाई साथ बली ।
  - 7 बहू सोनगिरि साबीरा वाई, साथ बली । यारे बेटी । चापावाई थीं सो चिरोही देवडा रायसिंह ने परणाई । ।
  - 8 बहू देवडी जवता, इण्ठर बेटा 2—  
    - 1 साहूल ।
    - 2 काह र पटे गाव मालदलाव ।
  - 9 बहू भाली प्रेमदे साथ बली ।
- रावासा पातरया बार 12 हुती त्या मे 9 राव जी साथ बली ।

#### 147 (राव मालदे)

राव मालदे सम्बत् 1568 रा पोप बद 1<sup>1</sup> रो ज म न सम्बत् 1588 रा आवण सुद 15<sup>2</sup> पाट बेठा । ने सम्बत् 1619 रा काती सुद 12<sup>3</sup> देवलोक हुआ जोधपुर मे ।

राव मालदे र 80 000 घोडा री ठकु राई हुती । ने हिंदुस्तान रा पातसाहि बहायो पहली घरती भाई बाटे बठियेडी थीं सो पातसाही मालद बणाई । बीरमदेव मूजायत कनामू सोजत ले राव गागे सलामत यका मालदे सोजत गादी बेटो था । सम्बत् 1588<sup>4</sup> मे थीरा सिंधल ने मारने भादराजण लिकी ने कु बर रतनसिंह ने पटे दीवी । सम्बत् 1592 रा माहा बद 2<sup>5</sup> राव मालदे नागारी खा<sup>6</sup> ने मारने नागोर लियो । हू पो महराजोत फौज मुसायव था । बीरम मागनिया न नागोर हाकम राखियो ।

- 1 धुक्कवार दिसम्बर 5 1511 ई ।
- 2 शनिवार जुलाई 29 1531 ई बविराजा (2 पृ 51) म भी यही तिथि दी है । नएसी के अनुसार—गामा की गृह्यु ज्येष्ठ बदि 1 1588 वि (तद तुमार अप्रैल 20 1532 ई) का हूई और मालदे ज्येष्ठ शुदि 4 1588 वि (तदनुसार बुधवार मई 8, 1532 ई) का गही पर बठा । विगत 1 पृ 42) ।
- 3 त्रिवार 7 1562 ई ।
- 4 1532 ई ।
- 5 सोमवार जनवरी 10 1536 ई ।
- 6 दोस्त खा उसका नाम था ।

सम्बद्ध 1590<sup>1</sup> रा म राठोड़ कू पा जी राठोड़ जतो जी बीजो ही राव मालदे जो साथ मलियो थो । राणा उदयसिंह री मदद सीसादिया बणकीर परो काढने राणा उदयसिंह तू चितोड़ बसागियो । टीरो दियो । तर राणी उदयसिंह राव मालदे जी तू हाथी बसन्तराय ने च्यार लास पिरोजिया<sup>2</sup> वेसकमी रा मेलिया ।

सम्बद्ध 1594 रा भसाद वड 8<sup>3</sup> सिवाएंग गढ़ राठोड़ डूगरसो जतमालतोत कनासू तियो । माणलिया देवा भादावत त्रू किनेनार राखियो ।

राव मालदे जी भाना जतसिंह री बेटी सरूपदे परणिया था । सो भाली रे राव जी बस था ने जता ने खरबो पट दियो थो । न सरूपदे सू मरजो थी स पथ एक बार राव जी खरबे भाला र पावए पधारिया था । ने सरूपदे भाली ने बीजो ही राजलोक साथे था । सो भाल मिजमानी किवी । तर भारोगण न पधारिया ने भाली सरूपदे र छोटी बहिन एक फेर थी । सो निपट सरूपवान थ ने कवारी लोका राव जी ने क्यो— सरूपदे र छोटी बहन छोटी थ सो म्हाने परणाइज है इण बात रो घणो थ<sup>4</sup> । तर राव जी भाला ने क्यो— थार बहन छोटी थ सो म्हाने परणाइज है इण बात रो घणो हट हुवो । राव जी क्यो है माडाएंग परणीज सू । तर भाल भूठा थका क्यो— ‘हमार तो भाला उजर कियो ने क्यो— म्ह तो राज न आगे परणाइज सू । तर सरूपदे ग्रापरा वाप ने भाया ने समझाया हमार थो किसो काई करो । तर भाल भूठा थका क्यो— ‘हमार तो म्हा सू उभा माव व्याव हृव नही ।’ तर साबो<sup>5</sup> जोवायो । सो साबो मास दोय ने ठहराय न राव जी जोधपुर पधारिया । ने बास भाला राणा उदेसिध सागवत सू सरूपदे र छोटी बहन ही सो परणियो । तिए ठीड़ एक वड थ सो भाली रो वड प्रजेत कहीजे थ । पथ राणा उदेसिध ने राव जी मालदे जी जोर दियो । पथ 1597<sup>6</sup> रा राव जी रा याणा बठा नाडोल जोजावर, बीसलपुर । पथ सम्बद्ध गोन्वाड म राव जी कुम्भलमर लण न साथ असवार मलिया । राठोड़ पचारण कर्मसिंधोत राठोड़ बीदो भारमलोन बालावत थोर घणो साथ थो । सो निसरणिया माड ने गढ़ ऊपर चडिया था सो मायला साथ तू खबर होय गई । तर गढ़ हाथ थायो नही । और वासीसो सूजो सावतोत एक बार राणा उदयसिध सू रिसाय न

<sup>1</sup> 1533 ई । यह सरावत सही नही है । वस्तुत उदयसिंह और बणकीर के मध्य युद्ध स 1597 वि ('540 ई) म हुआ था ।

<sup>2</sup> पिरोजिया-तत्कालीन एक छोटा सिवका ।

<sup>3</sup> बुधवार जून 19 1538 ई ।

<sup>4</sup> मुहत ।

<sup>5</sup> 1540-41 ई ।

जाधपुर राव मालद जी कन आयी था । सो राव जी घणो आदर कियो ने खेरवो पटे दियो । ने राव जी निपट मया करने वात विगत पूछे, ने उगा समे राव नी ने राणा जी अणवगत घणी थो । सो राव जी राणा जी री फौज बधी किंवी ने बालिमा सूजा ने पिणा हुवम हुवो । य ही फौज सामल विना हुवो । तर सूजे पाच सात वार अरज किंवी म्हे मवाड रा चाकर हा, सो आप र हजार ही काम छे, जठ म्हानू विदा करावो पिण सित्रमत म्हानू माफ करावा । इण तर मावली भरज करी । पिण राव जी हट पहिया सा भाने नहीं । तर सूजे कू ठीक छ म्हानू आगे सीख दिरावो । सो फौज आवे जितर हू तयारी करू । सो विदा होय ने खरवे आयो । सो अठे पायती चापावता रा गाव या तिणा सू सूना रे खटो थो<sup>1</sup> । सो खरवे आय न दिन दोय मे छाडाणा री तयारी करी । ने गाव दाय चापावता रा जावतो मारतो गयो । फेर मारवाड रा रजपूत बीस मारतो गयो ।

मारो समाचार राव जी सू मालम हुवा सो घणो हुख पाया । ने सूने राणा जी कन आपरो परधान मेलिया ने गाडा मवाड री धरती मे छाडिया । ने परधान राणा जी सू सारी हड्कीत मालम विकी । तर राणी उदेसिंघ जी राजी हुमा ने सूजा कने आपरा आदमी तुरत मलिया । सिरपाव घोडो दे ने । सा सिरपाव घोडो निनामा दे न सूजा न से आया । ने राणा जी बालेसा रो पटो आगे थो सा दियो न बधारा मे गाढवाड रो गाव नाडोल दियो । ने नाडोल उगा ने राखिया । ने अठे राव मानदे जी सूजा रो दरद मन मे घणो राखे । पछ राठोड विजो नगो घना मारमलोत ने बानात जिणा दिना बडा रजपूत हुता । सो राव जी नगा ने रकत तेड ने फुरमाया मारा पट मे सूजा रो घणो दरन है सो सूजा ने नाडोल जाय ने हर भात कर मारो । नर ऐ विदा होयने घरे आया ने राठोड दासो पातलोत ने अहङ्क जमन नू समाचार खरवे मनिया म्हारा चा काम छ । ये सिताव आवारो । तर अे पिण आया । ने सारो साथ मेनो होय ने असवार 500 ने पाला पान सा सू लेने नाडोन आया ने अधकोस उर ऊभा रया ।

न असवार पचीस न जाय ने नाडोन रे कलस पिणहारिया रा घटा वेवडा फा<sup>2</sup> ने उछरतो चापा घरे लोजो<sup>3</sup> सो वे बाहर चासी । तर आपा मारलेसा । सा असवारा जाय न उण तर ही कियो । तर गाव भ कूक पडी । तर भाई वेटा सूजा रा चढिया न सूजे बूझिया आ वात किण तरह है । तर सारा लोका क्यो— असवार 25 पचीस आपगा पिणगट रा घडा फोड चापो घेरियो है । तर सूजे

1 खटपट थी ।

2 एकात म बुलाकर ।

3 प्रात काल जगल म चरने जाता हुआ पगु धन घेर लेना ।

कयो—“आपणा गाव मे माय है सो तुरत बुलावो पच्चीस 25 असवारा सू नाडोल  
रा चापा लेवे। जिसा छाती रे रु<sup>1</sup> दिणी र नहो। जो काई बोतक है!” तर  
सारा भेला हाय ने सूजो बगरह सारी साथ आदमी हजार दोय तथा दोड हजार  
असवार पालो लन वासे सडिया। सो तीजा पाहुरा कास जाय आपडिया सा बाला  
घनो अबत उभा रया ने बेढ हुई। आदमी एक सो चालीस 140 राठोड बीजो नगो  
मारमलात थे दोनु भाई काम आया ने राठोड नगो भारमलोत र हलवासा तोहा  
लाया<sup>2</sup> ने धीडो चडण रो काम आयो ने खेत सूजा रे हाथ रयो। ने राठोड दासो  
पातलान ने झहड जमल बगरह और साथ निसरियो। सो गाव बाहड आया उतरिया।  
न नगा घाव लागोडो आरण<sup>3</sup> म बठो था तर रजपूत किणी आय न नगा न बयो  
परो नीसर कोई बरी थने ही भारसी। विजो घनो काम आया है ने तू मूझो तो  
बालावता री ठाकुराइ पूरी हुसी।<sup>4</sup> तर नग थणा हट दिया विजा, घना काम आया  
तर हू कठ जाऊ न फेर मारे घोड़ी पिण बढण ने नही। तर रजपूत कोई दूजा रो  
घाडो फोरासाक घाव<sup>5</sup> लागोडो उभा थो। सो ले आयो ने रजपूत गोडलिया<sup>6</sup> हुवा  
न आपरे माये पग दिराय ने नगा ने घोडा माये चढायो। तर जठा ताई तो बालेसा  
देखिया नही थे। ने नगो चढने पावडा चालीसेक गयो तर सूजा र भाई भतीजा  
भाणजा उभा था सा सजा न बया ‘असवार एक रिण माय सू निसरियो जाय द्ये  
सो ओ कुण थे।’ तर सूजे वही आ कोई जावतो हुमी जावण देवो। तर इणा  
घणो हट करने पूछिया रान तो घणा मारवाड म बसिया छो। सो जारा न आलखा  
छा। सा मानू केवा ओ कुण द्ये। सूजे वही ‘ओ नगो भारमलोत थे।’ तर भाई  
एक ने भतीजा दोय सादूरो तिलोक रो बोलिया म्हे नगा ने जावण देवा नही।<sup>7</sup>  
तर सूजे घणा बरजिया न क्यो ‘आपणे इण सू हाड वर नही थे। थ वासे मती  
जावा आ इसडो रजपूत नही थे सो नीसरे पिण दिणी भाई बध चाकर माडाणी  
बादियो थे। ओ बही बलाय द्ये।<sup>8</sup> इणग नाम मनी लेवो।’ इण तर भाकला  
बरजियो। पिण मानी नही ने असवार पाव तथा नव नगा र वासे किया। सो नगा  
रे नजीब गया। तरे नगे ही धोडो पाल्हो बालियो, सो साभो आवता ने ही धोडो  
मुरी करन एकण र छाती भ बरद्धी री दिवी। सो छाती माहे लाग ने घोडा री  
भीवडी फाड न घोडा रा पावाला माय नीसरी।<sup>9</sup> पछ बरद्धी पाल्ही काढ ने इसी

1 छाती पर रोमावती, ताकत। (मुहावरा)

2 हल्वी सी चोट लगी। 3 अरण।

4 साधारण से घाव।

5 घुन्ना के बल।

6 बही भयकर आपदा।

7 भण्डकोश के पार निकली।

जोधपुर राव मालदे जी कन आया था । सो राव जी धणे आदर कियो ने खेरवो पटे दियो । न राव जी निपट मया करने वात किंतु पूछे, ने उण समे राव जी ने राणा जी अगवाणत परणी थो । सो राव जी राणा जी री फौज बधी किंवी ने वालिसा सूजा न पिण हुकम हुवो । थे ही फौज सामल विना हुवा । तर सूजे पाच सात बार अरज किंवी म्हेमेवाड रा चाकर हा, सो आप र हजार ही काम थे, जठ म्हानू विदा करावा पिण लिजमत म्हानू माप करावो । इण तर मोक्ली अरज करी । पिण राव जी हट पडिया सा मान नहीं । तर सूजे वही ढीक घ म्हानू प्राग सीख टिरावा । सा फौा आवे जितर हू तयारी करु । सा विदा होय ने खरवे आयो । सो अठे पायती चापावता रा गाव था तिणा सू सूजा रे खटो थो<sup>1</sup> । सो खरवे आय ने दिन दोप म छाडाणा री तपारी करी । ने गाव दोप चापावता रा जावतो मारता गयो । फेर मारवाड रा रजपूा बीस मारतो गयो ।

सारो समाचार राव जी सू मालम हुवा सो घणो दुख पायो । ने सूने राणा जी बने आपरो परधान मेलिया, ने गाडा मवाड री घरती म छान्या । ने परधान राणा जी सू सारी हकीकत मालम किंवी । तर राणो उदेसिध जी राजी हुग्रो ने सूना कने आपरा आउमी तुरत मेलिया । सिरपाव घोडो दे ने । सो सिरपाव घोडो दिलासा दे न सूजा ने ले आया । ने राणा जी वालेसा री पटो आगे थो सो दिया ने बधारा म गाढवाड रो गाव नानोल दिया । ने नाडोल उगा ने राखियो । न अठे राव मालदे जी सूजा रो दरद मन मे पणो राने । पछ राठौ<sup>2</sup> विजो नगो घनो मारमलात ने वालात जिणा दिना वेडा रजपूत हुता । सो राव जी नगा ने एकत तेड ने फुरमयो भारा पेट म सूना रो घणो दरर है, सो सूजा ने नाडोल जाय ने हर भात कर मारो । तर ए विना हायने घरे आया ने राठौढ दासो पातलोत ने ऊहड जमल तू समाचार खेरवे मेलिया म्हारो थो काम थ । थे सिताव आवजा । तरे थे पिण आया । ने सारो साथ मेला हाय ने असवार 500 ने पाला पान सो सू लेने नाडोल आया ने अधबोस उर ऊभा रया ।

न असवार पचीस न क्या थे जाय ने नाडोल रे फलसे पिणहासिया रा घडा वेवडा कोड ने उद्धरतो चापो घरे लीजो<sup>3</sup> सो थे बाहर चृसी । तर आप मारलेसा । सा असवारा जाय ने उण तर ही कियो । तर गाव म बूक पडी । तर भाई वेटा सूजा रा चान्या, न सूजे दूकियो आ वात किण तरह है । तर सारा तोका क्या— असवार 25 पचीस आपला पिणगट रा घडा फोड चापो घेरियो है । तर सूजे

1 खटपन थी ।

2 एकात म बुनाकर ।

3 प्रात बाल जगल म चरने जाता हुमा पण घन धेर लेना ।

कयो—‘आपणा गाव मे साथ है सो तुरत बुलावो पच्चीस 25 असवारा सू नाड़ाल रा चापो सेदे। जिसा छाती र रु<sup>1</sup> किएंगी र नही। जा बोई बोतक है।’ तर सारा भेला हाय न सूजो बगरह सारा साथ आदमी हजार दाय तथा दोड हजार असवार पाला लने वास खड़िया। सो तीजा पाहुरा कोस जाय आपडिया सा बालो धना अबल उभा रथा ने बढ हुई। आदमी एक सो चालीस 140 राठोड बीजो नगो मारमलोत औ दोनू भाई काम आया ने राठोड नगो भारमलोत र हलवासा लोहा लागा<sup>2</sup> ने धोडो चढण रो बाम आयो ने खत सूजा र हाथ रथो। ने राठोड दासो पातलोत ने झहड जमल बगरह और साथ निसरियो। सो गाव वाहेड आया उतरिया। ने नगो घाव लायोडो ओरेण<sup>3</sup> म बेठो था तर रजपूत किएंगी आय न नगा ने कयो

परो नीसर बोई बरी धने ही मारसी। विजो धना काम आया है ने दू मूझा तो बालावता री ठाकुराई पूरी हुसी। तर नगे धणो हट कियो विजो, धनो बाम आया तर हू कठ जाऊ ने फेर मारे घाडी पिण चढण न नही। तर रजपूत कोई दूजा रा घाडो कोरासाक घाव<sup>4</sup> लागोडो ऊभा था। सो ल आयो ने रजपूत गोडलियाँ<sup>5</sup> हुवो ने आपरे माथे पग दिराय ने नगा न घोडा माये चढायो। तर जठा ताई तो बालेसा देखिया नही छ। न नगो चदन पावडा चालीसेक गया तर सूजा र भाई भतीजा भाएजा ऊभा था सो सूजा ने क्यो असवार एक रिण माय सू निसरियो जाय द्ये सो आ कुण छ। तर मूजे कही आ बोई जावतो हुसी जावण देवा। तर इणा धणो हट करने पूछियो राज तो धणा मारवाड म वसिया छो। सो सारा ने ओलखा छो। सो मानू केवो आ कुण द्ये। सूजे कही ‘आ नगो भारमलोत छ। तर भाई एक ने भतीजा दोय साढूला तिलोक रो बोलिया ‘म्हे नगा ने जावण देवा नही।’ तर सूजे धणा वरजिया ने क्यो ‘आपणे इण सू हाड वेर नही छ। ये वास मती जावा ओ इसडा रजपूत नही छ सा नीसरे विण किएंगी भाई वध चाकर माडाणी काढियो द्ये। आ बडी बलाय द्ये।<sup>6</sup> इणरा नाम मती लेवा।’ इण तर मोकला वरजियो। पिण मानी नही ने असवार पाच तथा नव नगा र वास किया। सो नगा रे नजीक गया। तर नगे ही घोडो पाढो वालियो, सो साभो आवता ने ही घाडा खुरी करन एकण र छाती मे वरछो री दिवी। सो छाती महे लाग ने घोडा री भीवडी पाढ ने घोडा रा पोनवाला माय नीसरी।<sup>7</sup> पछ वरछो पाढ़ी काढ ने इसी

1 छाती पर रामावली ताकत। (मुहावरा)

2 हकी सी चोर लगी।

3 अरण्य।

4 साधारण से घाव।

5 घुटनो के बल।

6 बडी भयवर आपदा।

7 अण्डकोश के पार निकली।

हाक किवी तिए सू बाकी रा आदमी था सो अवेत हृय पड़िया । सो माम छव ताई खोलिया नहीं । माचा म पड़ाया रया । नगो इतरो बाम करने दासा जेमल मलो आय उतरियो । ने राठोड सारा ने सबर उण बेना आई । सो पातल नू तो अलीसेर जालोर र मारिया । राठोड बीजो घनो भारमलोत बालावता सो सूजा री विगाड कोई कियो सुएण्यो नहा । ओ झगडो तो सम्वत् 1612<sup>1</sup> रा बरस हुवो ।

दरियाजोस हाथी बाबत बीरमदे द्रुदावत मू राव मालदे र ईरखा<sup>2</sup> हुती । ने सम्वत् 1598<sup>3</sup> अजमेर मुगलाणो थाएणो थो सा किणी सबब सू अजमेर सूनो छोड मुगल जाता रया । तर बीरमदे अजमेर मे अमल कर लियो । जब राव मालदे बीरमदे ने बहाडियो अजमेर म्हाने दो पिण बीरमदे दीधो नहीं । तिए उपर फोज मेलने बीरमदे ने मेडता बार काढ दियो । मेडता भ राव रो अमल हुयो । बीरमदे अजमेर गयो ने सासते<sup>4</sup> मडता रो विगाड कर । सहसो तेजसीहोत वरसिहोत राव र आय वसिया । राव जी सहसा ने रीया पटे दिवी । कूपो म्हेराजोत राणो असेराजोत भदो पचायणोत रिड याले रहे । सहसा सू बीरमदे घणी कुमया<sup>5</sup> कर सो मेडतिया सासता पास एक दिन अजाणचक रो बीरमदे एक हाँवार 1000 आदमिया सू रीया ऊपर आया । कूपो म्हेराजोत राणो असेराजोत भदो पचायणोत रीया आय सहसा र सामल हुआ । अठ बडी लडाई हुई । तिए री घणी बात है । इण रीया री वेन मे बीरमदे रा आदमो 500 माराणा । रावन भोजो जेतमालात काम आयो । बीरमदे द्रुदावत इण लडाई मे घणो भलो हुवो । पिण बढ़ राव जी र साथ जीती । बीरमदे नू मेडतिया ले निसरिया काक<sup>6</sup> आलाडा पिण निसर गई किवी? । पछ राव री फोज अजमेर गई । जद अजमेर ही धूटा । तर बीरमदे बोली गयो । उठा स ही बाडिये । पढ़े चाटसू गयो । उठ बीरमजी मरण आगमियो<sup>7</sup> । वयो म्हे हमै मरसा तर जते कयो बीरमदे नू मारीजे नहीं । बीरमदे बडा रजपूत थे । आपणो ही मरण सुधारसी । वया ही बानू आण<sup>8</sup> ने तर जाए दिया । कटक पाछा आया । पछ बीरमदे माडव रा पातसाह कन गयो । सो पातसाह स्वरची

1 1555-56 ई ।

2 ईर्ष्या ।

3 1541-42 ई तब आमेर पर मुगल अधिकार नहीं था क्योंकि गुजरात के शासक बहादुरशाह ने सन् 1533 ई म अजमेर पर अधिकार कर लिया था और उसी के अधिकारी शमशेर उल मुल्क को पराजित कर बीरमदे न अजमेर पर अधिकार कर लिया ।

4 अनवरत । 5 कोप नाराजगी ।

6 कुच एक ।

7 पितृ जाने के लिए उपेक्षा भाव बरता ।

8 लङ्कर मरना तय किया ।

9 दिनारा काट कर अन्तेया कर ।

## जोधपुर राज्य री स्पात

दिवी । सो ले उठा सू पूरव माहे सूर पातसाह क्न गयो । मालदे री ठाकुराई जोरे घडी । पातसी रा गढ सारा लिया ।

सम्बद्ध 1598<sup>1</sup> मालदे जी री फोजा वीकानेर ऊपर गई । कू पो म्हेराजोत सरदार थो । वीकानेर रो राव जतसी सामो आप लडियो । घोडा सू उतर काम आयो । चेत वट 5° तठे इतरा सरदार काम आया राठोड रायमल राठोड जगमाल, दुजणसलोत माडण रिहमलोत रा पोतरा चेत वट 123 राव जी आप वीकानेर पधारिया । कू पा जी ने फतहुर जुफाण वधारा म<sup>2</sup> दियो । साभर लिवी । मालपुरो पवार मालदे वसायो । सो लिया । डीडवाणो कू पा जी ने पटे दियो । अजमर हृषीकेश घटसीहोत ने पटे दियो । वीकानेर रा राव जतसी रो देटो बल्याणमल, पवार मालदे द्वावत र मेलो होय सूर पातसाह क्न दिली गयाँ<sup>3</sup> । सो पहली तो पातसाह सू मिलण रो उपाव लायो नही । पछ मिलिया अर घरी भरजा कर मारवाढ ऊपर ले आया । वीरमदे तो आपरा बेटा जमल ने पातसाही श्रोतु<sup>4</sup> म पूर्ण यियो । पातसाह आगरा सू चढिया । तिण री सबर डीडवाणे कू पा जी र पट थो सो पहला कू पा जी ने हुई<sup>5</sup> । तर कू पा जी जोधपुर खबरमेलीत सूर पातसाह त्रै लेने वीरमदे ने बल्याणमल मारवाढ ऊपर आये । आ खबर लेने आयो तिणभादमी वितरायक उमरावा सोना री जीभा घडाय दिवी । अर चितरा ही सरदारा कडा वयाही<sup>6</sup> पाग माला बधी दीधी । इण ताढ तमाम राजपूता पाली रा तालाब म खबर लेने आयो तिण ने । पाली रो घरी अखराज सोनगरो पाली रा तालाब म फूलतो थो तिण ने कू पा जी आपरो राई<sup>7</sup> मेल सूर पातसाह रा आवण री खबर दिराई<sup>8</sup> । तर गठार सो लुप्तिया री पुणचिया<sup>9</sup> आपरा हाय म हती, जिके अखराज जी उण राई<sup>10</sup> का ने वयाही री दीधी । राव जी अस्सी हजार 80000 घोडा सू चढने पातसाह रे सामा गया । अजमेर देरो विचो ने वसी सिरोही मेली । सिरोही राव जी रो नानेरो थो तिण सू । तर पातसाह घणो घवराणो । तर वीरमदे पातसाह

1 1542 ई० ।

2 सोमवार माच 6 1542 ई० । राव जतसी स्मारक छत्री के लेख के अनुसार उसकी मृत्यु फाल्गुन मुन्ही-11, स 1598 वि (फरवरी 26 1542 ई०)

3 को हुई थी । (ओझा, वीकानेर 01 षु 136) ।

4 हृषि म ।

5 सोमवार माच 13 1542 ई० । शेरशाह तब आगरा म था । जयसोम इत कम्बद्वालोत्तीतनक वाव्यम के अनुसार राव जतसिंह ने अपने मत्री नगगज को शेरशाह के पास भेजा था ।

(ओझा निवाच 2 षु 266-68) ।

6 प्रतिभूति मे जमानत रूप म ।

7 उघ लोगो ने ।



## जाधपुर राज्य री स्थान

83

वाका री कौज मते मते नीसरी । न बोस हजार असवार रया जिणा राड निवो ।  
एक बार जतो कूपो पातसाह री कौज डाहन<sup>1</sup> कुशल सू कौज रे पार होय गया ।  
गे समल री नदी आय अमल गाल मनवारा ले होका पीयउ घटा वणाय<sup>2</sup> पोडा  
चढ़ पाढ़ा पातसाह री कौज म बडिया । सा वाम आया । तिण री विगत राठोड  
जती पचायतणोत ।

रा० कूपो महराजोत ।  
राठोड उदयसिंह जतावत ।  
रा० जतसी उदावत ।  
रा० पचायण करमसीयोत ।  
रा० खीबो उदावत जतारया रो ।  
रा० जोगो रावल प्रखेराजोत ।  
रा० सुरताण गागावत ।  
रा० पतो कानावत हाथी रे दात चडिया ।  
रा० वरसी राणावत ।  
रा० भोजराज पचायगात अखराजोत ।  
रा० भीबोत कलो उरजनोत ।  
रा० बीदा भारमलोत बाला ।  
रा० रायमल प्रखेराजोत रिणमल ।  
रा० हामा सीहावत ।  
रा० भदो पचायणोत ।  
रा० नीबो अणदोत ।  
रा० भानोदास सुरो अखराजोत ।  
रा० जमल बीदा परवतीत ।  
रा० जतसी राधाऊत ।  
रा० भोजो पचाईणात ।  
रा० हरदास खगारोत ।  
रा० महेस देदावत ।  
सोनगरो भोजराज अखराजोत ।  
रा० हरपल जोधावत ।  
भाटी भरी अचनावत ।  
सानगरो अपराज रणधीरोत ।

1 मध्यन कर।

2 मध्य घटा तुन्य सजे हूए से ।

भा वेल्हला आपमल हमीरोत ।  
 भाटी पचायण जोधावत ।  
 भा सूरो पतावत ।  
 भा गगो बरजागोत ।  
 भा सूरो परबतोत ।  
 भा हमीर लालावत ।  
 सोहो नायो देदावत ।  
 भा भाघोदास राघोदासोत ।  
 ऊहड बीरो लाखावत ।  
 भा नीबो पतावत ।  
 साखलो ढू गरसी धामावत ।  
 देवडो अखराज बनावत ।  
 मागलियो हेमो नीवावत ।  
 ऊहड सुरजन नरहरदासोत ।  
 चारण भानो खेतावत घघवाडिया ।  
 साखला धनराज धामावत ।  
 जमल बीदावत हु गरोत ।  
 ईदो किसनो ।  
 रा भारमल बाजावत ।  
 पठाए अलंदादखा ।  
 रा खीबो ऊदावत रो चाकर ।

सूर पातसाह री फोज मारवाड ऊपर आई सो पातसाह रा डेरा गाव समेल  
 था—ने राव मालदेजी रा डेरा गिररी था सो पातसाह बीरम ने क्यो— राव री  
 फोज थणी तर बीरमदे क्यो 'हू एक तोत बह छू' । मालदे जी कन जता जी  
 झूपो जी खीयो जी बगरह उमराव बढा था । जिणा र नावे पातसाहा रुका लिखने  
 दस पनरे भारी ढाला बेचण ने बापारी बणाय ने भलिया । ने समझाय ने क्यो  
 जिण सरदार न ढाल बचो जिण रा नाम रो रुको ढाल री गादी भ आसते सेक<sup>1</sup>  
 याज दीजो । सो पनरे चीस ढाला बेची ने रुका धाल दिया ने सरदारा न खबर  
 पड़ो नहीं । इण तरे रो तात किया पछ । बीरमदे दूदावत एक चारण न मल न  
 राव जी ने बेवायो म्हे तो हरामखोर दुश्मण हा । पिण आपरा सारा सरदार  
 पातसाह गु मिस गया ह सो आपरा ढीला रा जावतो राखजो न ढाला री गाँविया

1 आसतेसेक = आहिस्ते (विना पता चले ही) ।

## जोधपुर राज्य की स्थापना

गल लियो ने मारो नाव जारायत<sup>1</sup> म मती लीजो । इए तर तोत सू चायो । राव मालदे जी चौल बरता दाला सभाली सो रका दीठा ने भरम पड़ियो । राठोड जेता, दू पा खीया ने पूछियो नहीं न परधान चापावत जसा भक दासोत ने लेने निकलिया । सो सरदारा घणो ही हठ कियो ने कहणो कियो—“माप बयु निकलो हो । जो कई फूठो तोत है । पिए होणहार सो मानी नहीं । राव जी निसरिया । तर फौज सारी चढ़ नीसरी । न हूँ पो जेतो खीयो उदावत पचायण वरमसोत कगेरह वाचा अणी पाणी रा धणी हजार बोस भसवारा सू रया । सो सारा ही ठाकुरा पातसाह ऊपर रातीवासो देण ने चलाया से देवयोग सू दिया भूला होय गया । रात रा पातसाह रो लश्कर लाधो नहीं । दिन री उगला” झगड़ो हुवो । राठोडा आद्यी तरवार बजाई पातसाह पणी तारीफ किवी । काम आया तिए री विगत ऊपर लिखी है ।

राव जी री फौज रा भसवार हजार दोय 2000 काम आया । पातसाही लोक घणो माराए । राठोडा भली तरवार बजाई । ने पातसा राठोडा री घणी तारीफ किवी । राव जी निसरिया सो पीपलोद रा भाखरा गया । अतरा ठाकुर राव जी र साथ निसरिया राठोड जसो भद्रदासोत चापावत, जलाल जलूका रो घोडो ले आयो पातसाह रा भूदा आगा सू ।

राठोड महश घडसीहोत ।

राठोड जतसी वाधावत ।

राम राव फलोधी री घणी ।  
जतमाल पोहबरण री घणी ।

पद्ध सूर पातसाह मेडत आयो । पछे वीरमदे नू मडतो दिया । राव बल्याएमल त्रू वीकानेर दियो । पद्ध पातसाह जोधपुर आयो । राठोड वीरमदे हूँदावत त्रू पिए साथे ले आयो । शेरशाह जोधपुर आयो गढ़ मिलियो । तर मालदे जी रा उमराव राजपूत चाकर काम आया त्यारी विगत 5

1 एको जमल तिण री छनी गढ़ ऊपर ।

1 रा तिलोकसी बरजागोत री छनी गढ़ ऊपर है ।

भगा मालो जोधावत रामा रो भाई समेल री लडाई म धायल हुवो । इए र उठे लोहडा लागा या । सो चाकर उठाय जोधपुर ले आयो । सो अठे गढ़ मिलता आद्यी तरह लड़ बाम आयो । अचलो शिवराजोत राठोड ममारख ला दू मार काम आयो । तिगा री छनी गढ़ ऊपर है ।

2 सूर्योदय होते ।

भाटी साकर सूरावत री छ्याँ गढ़ ऊपर द्य । ओ पहला अजमेर रा गढ़ म  
थो । अजमेर रो गढ़ इण र हवाले थो । सो उठा सू चाकर दण न काटियो । तर  
जोधपुर काम आयो ।

भाटी भोजो जोधावत ।  
भाटी नाथू मालावत ।  
राठोड़ सीधण खेतसिहोत ।  
राठोड़ राणो बीरमोत गढ़ री पाज काम आयो ।  
नायक जाभण विनायक र देहुर साभो काम आयो ।  
साहूड भरव भीवराज सोहावत रो ।  
उदावत सावर जतसीयात ।  
दो दो सेखो धगराजात ।  
नायक भीनू ।

गढ़ भिलिया, पातसाह रो अमल हुओ । पातसाह बरस एक गत ऊपर रथो ।  
सम्बद्ध 1601 रा पीप वद 5<sup>1</sup> देहरो पाड़ ने मसीत कराई । पछ गोबल निसा पाज  
धधाई । तलाव री राण भराई । किलाहीक काम वासते पातसाह भडावर रा बाग  
माह सू आत्रा बटाया था । तर चारण दूहो क्या —

कायक कायक काव<sup>2</sup> माल बढाई मेडत ।  
उण अहणसे<sup>3</sup> आव<sup>4</sup>, बीरमदे व बढाडिया<sup>5</sup> ॥1॥

पातसाह जोधपुर सू जाथ कालिजर रो गत घेरिया । पछ हल्लो नियो ।  
तिग म सरसाह सोर<sup>6</sup> सू बल भूयो । पातसाह जोधपुर सू जावतो भागेसर थाएँ  
पाच हजार असवारा रो रास गया थो । पछ राव जी धरती माहे आया । तर  
थारा रा साथ या बड़ कर थारण उठाया । तलाव साव कितराक रप्या आवता था  
सा लिया । भागेसर पाच हजार घाडो थो । सरणाह रो तिग नू काढियो । तठ  
भागेसर जतरा काम थाया । तिग री विगत — राठोड़ ऊगो वरसिहोत माणस  
च्यार सो मू खेत रथो । रावल हापा रो सगो भाई सा इण रा बस रा ऊगा वाजे  
है कतिपाता<sup>7</sup> रा । राठोड़ मेहो जगहथात<sup>8</sup> ।

1 गुरुवार निम्बर 4 1544ई । 2 नीव ।

3 पतली टहनिया । 4 वदले भ ।

5 आम दृश्य । 6 बटवाये । 7 बाशद ।

8 'विनाला (बीरतपाल हाना चाहिय) । कविराजा 0 2 पृ 56

9 राठोड़ महो जगनाथोत (रेक्त 2 पृ 659)

भाटी बीसो बण्वीरोत ।

राठोड जेसो भेष दास चापावत ।

रावल हापो वरसिहोत महवेचो घाव पडियो । हापो ऊगा माणस 800,  
असवार ओठी<sup>1</sup> पाला ले महवा था आया था ।

अभियड भीवोत देवराजोत पातो ।

भाटी किसनो रामावत ।

भाटी तेजसी बण्वीरात ।

खेत राव जी र हाथ आयो । पला रा पग छूटा<sup>2</sup> । पठाण, सेयद घणाहीज  
काम आया । खजाना पानो पडिया<sup>3</sup> । राव जी जोधपुर पधारिया सम्वत् 1602<sup>4</sup>  
रा । सूर पातसाह रो अमल मारवाड मे 524 दिन रथा । राव मालदे  
जी पचोली नतसी दीवाण न कोज दे जसलमेर ऊपर मेलियो, सम्वत् 1609 रा  
सावण सुद 15<sup>5</sup> चढिया । ने काती वद 9 जेतसमुद्र<sup>6</sup> डेरा हुआ जसलमेर रो वाडिया  
बाढी । घणो बिगाड कियो । पिण रावल गढ रा बिंवाड झड वेस रयो । पेसकसी  
लिवी । राठोड प्रध्वीराज जेतावत 1 राठोड तू पो उदेसिहोत 2 प्रीयत रायमल  
3 पचोली नतसी दीवाण रो जसलमर सू पेसकसी ले पाढा आया ।

बीरमदे मेडता रो धणी काल कियो । न पद्ध जमल जी टीकं बठा । पछे  
जमल जी नू राव जी चाकरी नू बुलावे, न जेमल जी न आव । तर राव जी कोज  
से ऊपर गया । तठे लडाई नू जायगा कु डल भहि जोवता था । प्रधीराज जी ने साय  
जेमल जी रो ऊपर आयगो । तर लडाई हुई ।

जेमल जी री मदद श्री ठाकुर जी थी चुनमुज जी आया । तर प्रधीराज जी  
जेतावत काम आया । सवत् 1610 रा वेसाख सुद 2<sup>7</sup> मदत वद हुई । तर राव  
मालदे जी रा काम आया त्यारी विगत —

रा प्रधीराज जेतावत ।

रा नगो भारमलात बालावत ।

रा जगमाल उदेकरणोत खीवसर रा ।

रा रामा भरुदासात चापावत ।

1 ऊट सवार

2 भगदड हुई (मुहावरा) ।

3 हाथ लगा ।

4 1545 है ।

5 गुरुवार भगस्त 4, 1552 है । 6 बुधवार भवतूबर 12 1552 है ।

7 बुधवार भप्रल 4 15<sup>8</sup> 4 है । विगत (01 पृ 59) म वशाख वदि 2 (बुधवार  
माघ 21 1554 है) दी है ।

सौधल ढू गरसी ।  
 ऊहड़ प्रथीराज ।  
 पीपाड़ो होगलो ।  
 रा घनराज भारमलोत बालो ।  
 राठोड़ सूजी जतसीयोत ।  
 रा राधादे वेरसल ऊदावत ।  
 पीपाड़ो रामो ।  
 पचोली अभो भास्कावत ।  
 पचोली रतो अभा रो वेटो ।  
 चा मेघो ।  
 चोहाण शाहू ल ।  
 इतरा ठाकुर काम आया ।  
 खेत जमल जी र हाथ आयो ।  
 जमलजी जपियो जप मालो ।  
 भागो राव मडोवर बालो ॥1॥  
 जमल जी रा काम आया तिण री विगत—  
 जतमालोत अखराज भदावत ।  
 जतमाल सागा भदावत ।  
 जेतमाल चंदराज जोधावत ।  
 इतरा काम आया—  
 राव मालदेजी री गीत  
 नव कोटि नाथ कनौजा नायक, दुजडे<sup>1</sup> मोटा सुपह<sup>2</sup> दहै ।  
 अजसै<sup>3</sup> मन जमल की आण, वासे जिण मालदे वहै<sup>4</sup> ॥1॥  
 वेहर भूले नही काकरो<sup>5</sup>, अहि<sup>6</sup> भूले खेली किम आल<sup>7</sup> ।  
 मेले नही जमला माल, पसे ज सातमे पयाल ॥2॥  
 जीय ऊवार सके तो जमल, नेस<sup>8</sup> ग्रास<sup>9</sup> सह मेले नास ।  
 गिलसी<sup>10</sup> गग तणा गजवेहर, वाघा रा वेहा विश्वास ॥3॥

1 तलवार से ।

2 योदा ।

3 गव करे ।

4 पीथ पढा हुआ है ।

5 ऊहड़ तर ।

6 सर्वे ।

7 घड़द्याद ।

8 निवास स्थान ।

9 जीविरा, घपने विभाग की भूमि । 10 निगल जाएगा ।

फलोधी झपरा भाटी रावत जौसो पाहवरण मूँ आयो । तरं इतरा काम  
आया—

भाटी किसनो नीवावत ।  
भाटी आवो मालावत ।  
भाटी जगमाल पचाईग ।  
भाटी घनो आसावत ।  
जोधावत ।  
राठोड चाचि बाहुड ।

सम्बत् 1607<sup>1</sup> रा राव मालदे पोहकरण लिवी । राव जगमाल गोयद रा  
बेटा नरा रा पता काना मूँ ।

सम्बत् 1613 रा कागण वद 9<sup>2</sup> रिव बाढ़त पाहर दिन थे शाय ने राणा  
उदयसिंह हाजी खान हरमाडे थो तठ बेड किवी । हाजी खान री मदद राव मालदे  
जी, राठोड दबीदास जतावत राठोड जगमाल जी बीरमदेवान, रावत मधराज  
राठोड, जेमल जैसावत राठोड प्रथीराज कू पावत राठोड, महस घडसीयोत  
राठोड लमण मनावत राठोड सिंह जेतसिंहात, रावजी रो बीजा ही साथ घगो  
या । राव जी जैतारण था । हाजी खा मूँ बड़ दृता राणा उदसिंह भागो । तर राणा  
रा साथ म बाली सो मूजो राठोड जैतसी डू गरमीयोत, राठोड देइदास जेतावत रा  
हाय मूँ माराणा । बीजा ही घणा राजपूत माराणा । राव जी रा साथ री हाजरी  
हुई । हाजी खा मूँ राणे बड़ किवा । तर राणा उदयसिंह री भीट<sup>3</sup> राव करण्यमन  
बीकानर रा घगो राठोड जेमल बीरमदेवान मेडता रो खणी मदद आया था ।  
राणे भागता भ ही भागा । राठोड जेमल बीरमदेवोत नास<sup>4</sup> मडता गयो बामे फोजा  
राव जी री गई । ने जैमल कागण वद 12<sup>5</sup> मडता छोडिया पोहर दिन पाढ़ला  
घरा । राव मालदे जी पथार प्रवेश कियो । मडता लियो । मेडतो शहर थो तठे  
मूला बावाया । सहर उर कुण्डल कन ऊपर बसायो ।

सम्बत् 1613 रा कागण वद 9<sup>6</sup> रूपनगर कन गांव हरमाडे राणे उदेसिंह  
बीकानेर मूँ परणीज ने पाढ़ो जावतो थो सो हरमाडे राणा मूँ हाजी खा बेड  
किवी । न हाजी खान र मदद राव जी मालदे जी देवादास जतावत न मलिया थो ।

1 1550 ई० ।

2 रविवार जनवरी 24 1557 ई० ।

3 सहायताय ।

4 भाग कर ।

5 मुथवार, जनवरा 27, 1557 ई० ।

6 रविवार जनवरी 24 1557 ई० ।

सो इण वेड म राठोड देवीदास जेतावत बालीसा सूजा ने बकारने कयो—‘सूजा हुसियार हुय । आज राठोड विजो धना बालावत माग छ । सूजा ने देईदास मार लियो । राठोड देवीदास जतावत बरस 15 पनरे मे थो । सो सूर पातसाह सू समेल वैर हुई तठ घावा पडयो थो । सो खेत माह सू सामी उठाय ने लेय गयो ने जावतो घणो कियो । सो घाव साजा हुय गया ने उणा र घरे जता जी न देईदास दोनू ही बाप ने बटा काम आया मुशिया दोनू ही लुगाया सासू ने बहू दोनू ही जाणिया । चूडा नाख ने लोकायत किवी<sup>1</sup> । देवीदास सुएं तर देखी हमे जाय ने किसो मूँढो निखाड । अतीता माह हीज माला फेर सू पछे बरस 5 पाच 7 सात ने जमात सिरोही गई सो जमात मे देईदास ही थो । ने सिरोही रो राव जता जी री बेटी देवीदास री बहन परणियो थो । सो जमात ने सिरोही र राव नेतो” सा जीमण ने आया । सो देवीदास अतीत र भेंख थो । सो दिन यणा हुआ सो ओलखियो नही । ने देवीदास कने ढाल ने तलवार मारी थी । सो राव र देव ने लेवणा री मन मे पेठो । सो मैणा जणा सात ने बुलाय ने राव कयो फलाण अतीत कन ढाल ने तलवार छे । सो ले आवो तो इनाम देऊ । तर मैणा रात रे छान ऊमा तकता था सो देईदास र ढास ने तलवार तो मूटा आगे पडी थी । ने माला हाथ मे थी सो अधरात म मैणा ढाल मे तलवार लेणा ने लागा । हाथ धालियो के देईदास तरवार काढ न उठियो सो मणा तीना ने मार नालिया । न च्यार जणा नाठा<sup>2</sup> न देईदास मार मार करने लार दोडियो । सो नजीक बालो थो<sup>3</sup> सो मैणा तो ढाक गया ने देईदास र पग रे नाह<sup>4</sup> मे तरवार लागी थी । सो पग खुडावतो<sup>5</sup> मूँ डकीजियो तो नही<sup>6</sup> ने कयो ठाकुरा जता जी री आण जाण देवू नही । इण तरे कया । ने मैणा च्यार जीवता रथा सो राव ने जाय ने सारी हकाकत कही । तर राव देखी जता जी रो आण काढी सी कदास<sup>7</sup> देवीदास हुवे । तर ए समाचार राव जाय ने रावला म बहू ने कया । यारो भार्द हुवे तो आलखो । तर दूजे दिन अतीता ने केर रावला माय सू नतिया । सो जीमण नू आया । तर देवीदास री बेन जाली माय सू देखने ओलखियो ने राव ने कवायो सागे ही<sup>8</sup> देवीदास है । तर अतीत चतूर करन उठिया । तर राव जी देवादास

1 सौभाग्य सूचक चूडा का त्याग कर धध्यक वश घारण किया तथा मृतको के पीछे शोकादि वा स्त्रोकाचार किया ।

2 भोजन के लिए योता निया । 3 भागे ।

4 बरसाती नाला था । 5 पर की शिरा ।

6 लगडाता था ।

7 निससे (नाला पर से) छूट नहीं सकता था ।

8 कदाचित । 9 सप्रत्यक्ष ही ।

ने पट्ट न बठ गया ने हूजा भरीगा ने क्या— मान पधारो । तर देवीदास क्यों  
 'क्षू बावा हू तो भरीत हू । तर राव जो क्यों मान विराजिया रवो ।'

माप ने रहे भोलिया । सरबता जावण देवू नहीं । हमें साच बोता थे  
 कुण थो ? हट तो मोड़लो कियो । पिण साच बोलिया ने सामो रा भेल नस्तायै न  
 सिरपाव गहरो पहरायो ने बटो उत्सव कियो । न नोवता बाजी । गालिया गीत  
 गाया । ने नवो विवाह कियो । न भेता घरोगिया । न ऐ समाचार राव मालदे जो  
 मुलिया । तर यला राजी हुमा । न क्यों देवीदास जीवतो रया । हमी म्हारी  
 तपस्या पाढ़ी पिरी । पातसाह सू ने मडतिया सू फेर समझ लसा । इह बहन  
 पालखी भोडा ठठ लोग बाग न कवर चाँदसेण जी न लवण न सिरोही मालया ।  
 सो जोधपुर साधा । ने जालोर कपर कौज लेने विदा कियो सो देवीदास जाय न  
 काईम कियो । पथ मालकोट री विलदारी देवीदास जतावत ने दीवी ।

सम्वत् 1614 रा चेत्र वद 9<sup>o</sup> जेतारण कपर भवर पातसाह री कोज  
 आई । राजा भारमल न जगमाल प्रथीराज बधवाहा, न राठोड जमल न ईसर  
 बीरमले भीत हासम कासम रे भेला या । राव मालदे मदद न दिवी । तर इतरा  
 मान माया तिणरी विगत—

राठोड रत्नसिंह खीवावत  
 राठोड भानीदास खीवावत  
 राठोड विसनदास जतसी  
 राठोड गोयदग्नास जतसीयोत  
 राठोड कुम्भो जमलोत  
 राव बान जेतसीयोत  
 राव रायमल सौंधिलोत  
 रा साकर जसिहोत  
 रा मानसिंह नागराजोत  
 राठोड नारायण सागावत  
 रा जोधो भीवोत  
 रा नगराज गागावत  
 गीड भसो

- 1 साधु का भेप उतारकर ।
- 2 रविवार माच 13 1558 ई० ।

डेडरियो रणधीर  
 डेडरियो पानो  
 डडरियो रत्तो  
 हेडरियो दूदो  
 डडरियो जेमल  
 हेडरियो माडण  
 आसायच हिंगोल  
 स्थीची बीदो  
 इंदो काघल  
 देवढो सातल  
 साखलो दूदो  
 पवार सुरताण  
 मागलियो सहसो  
 राठीड खतो  
 देवडा अचला  
 पचोली चतुरा  
 नाई माडण (ओर) दुरगो  
 भाण जेसो ।

सम्वत् 1616 रा आसाढ वद 5<sup>1</sup> अकबर पातसाह रा उमराथ बीर मुहम्मन आय ने मेडता रा गावा पनरे रा बाद पकड पाल्छो अजमेर गयो । मुगला रा डर सू जतारण सूनी<sup>2</sup> हुई । अपम खा नागोर आया । तिए री डर थी घरती उजड हुई ।

सम्वत् 1618 रा फागण वद 7<sup>3</sup> भाम राठीड जमल बीरमदेवात अकबर पातसाह री फौज लायो । तिण म भीरजहा सरदार थो । सो आय ने मालकाट धेरियो चत सुद 2<sup>4</sup> तर राव जी र साथ कोट बार निसरने बढ़ किवी । तठ इतरा भाम आया । तिए री विगत—

1 गुरुवार, जून 13 1560 ई० ।

2 निजन ।

3 मगलबार जनवरी 27, 1562 ई० अ ना अ अ 0 2 पृ 249 50 ।

4 शनिवार माच 7 1562 ई० । विगत (2 पृ 66) ओर बाकीदास (पृ 17 बात स 161) के अनुमार चत सुदि 15 (माच 20 1562 ई०) म यह युद्ध हुमा ।

राठोड देवीदास जतावत ।  
 राठोड महेस घडसीहोत  
 रा जगमाल वीरमदेशोत  
 रा महेश पचाईणोत  
 मागलिया वीरम  
 रा पूरणमल प्रथीराजोत  
 राठोड सहसो उरजनोत  
 रा ईमरदास राणावत  
 राठोड गोइन्द राणावत  
 रा पतो कू पावत  
 राठोड अमरो राणावत  
 रा अमरो आसावत  
 रा भाण भोजराजोत  
 रा सहसो रामावत  
 रा नेतसी सीहावत  
 रा जतमाल जेतसिहोत  
 रा रामो भरवदासोत  
 रा भाखरसी ढू गरसीयोत  
 रा अचलो भाणोत  
 रा सागो रिणधीरोत  
 रा जमल पचायणोत  
 रा रिणधीर रायमलोत  
 रा राजसिंह घडसीयोत  
 रा ईसर घडसीयोत  
 रा वीरम  
 रा राणा जगद्धायोत  
 साखलो तेजसी  
 भाटी पीराग भारमलोत  
 भाटी तिलोकसी  
 हमजो  
 भाटी पीयो  
 मागलियो देदो  
 सूयहार भानीदास

बारठ जीवो  
बारठ जालप  
बारठ चोलो  
बीठू मेहो

भादमी 120 एक सो बीस राव जो रा काम आया । ने बाबी रा  
साथ जोधपुर आयो । मेडतो राठोड जमल जी लियो ।

सम्वत् 1595<sup>1</sup> रा बोदा भारमलोत नू फोज दूर मरियो । सो जानीर  
लिखी विहारिया कतासू ।

राव मातदे जी रो इतरा परगना म ग्रमल थो—

मोजत  
सेमर  
मेडतो  
नागोर  
खात्त  
वथनौर  
लाडण  
रायपुर  
सिवाणो  
लोहण  
भाद्राजग  
बीकानेर  
टूक  
तोडो  
रेवासो  
भारपुरा  
चाटमू  
जालौर  
भीनमाल  
पोहकरण

1 सन् 1538 9 (बोदा भारमलोत बानावत राठोड और जोधपुर ० १ ।  
पृ 291)

# जोधपुर रास्य की स्थात

बाहडमेर  
 बाशली  
 जोजावर  
 बोली मलारणे  
 नाडूल  
 पलोधी हमीर  
 साचोर  
 दीडवाणे  
 पोहवरणा नारावत लीबी  
 अमरसर  
 समईगाव  
 फतेपुर  
 वणवीरपुर  
 भजमेर  
 सावड (सालड ?)  
 उदेपुर पवारा रो  
 सावर  
 साजपुर  
 जिहाजपुर  
 केकडी  
 जतारण  
 जोधपुर  
 पुर माण्डल

राव मालदे जो इतरा कोट कराया। जोधपुर र गढ रो कोट भरणा रो  
 कोट, रणीसर रो कोट, सहर दोलो कोट करायो। सम्वद 1598 तथा 991 रा म  
 इणा कमठा ने नवलाख पदिया लागा। तिके सेंभर रा हासल<sup>2</sup> रा आया था।  
 पाहवरण रा काट री आगली नीव ऊपर नवो काट कराया, सातलमेर रो कोट  
 पाढ उठा रो कवाढो आण ने सम्वत् 1608<sup>3</sup> रा मे। मढत सम्वत् 1614<sup>4</sup> म  
 तुण्डल ऊपर मालकोट करायो। तिण ने टका 180000 लागा। सोनत पहली  
 योत थी सो पाढ ने ऊपर कोट करायो। गोदवाड इलाके रो रायपुर सिधला ने मार

1 1541-3 ₹० ।

3 1551-2 ₹० ।

2 लगान ।

4 1557-8 ₹० ।

ने लियो ने भाखर ऊपर मालगढ़ कराया। पीपलोट भाखर ऊपरे सिवाणा री पासती कोट करायो सो मालकोट कहीजे थे। गूदोच री कोटडी कराई। भाद्राजल कोट करायो गाव दोलो। रोया भेन्ता री तठे कोटडी कराई। सिवाणे गाव दोलो कोट क्यायो। पीपाड़ री काटडी नवी कराई महेस घडसीहोत र पटे थी। नाडलू गाव दाला कोट करायो रासा रा मुलक माहे। कुण्डल कोट करायो। सिवाणा री पासती फसोधी आगली नीव ऊपर कोट करायो। समवत् 1545<sup>1</sup> मे धूनाड कोटडी कराई। नागोर रो कोट फेर सबरायो<sup>2</sup>। अजमेर बीटली उपरा नूब समा दिनि। कोट चुरज करायो। गढ़ उपरा पाणी बढण नूब अरहट माडियो थो। चादसरो कोट करायो।

**राव मालदे** सूर पातसाह सू किवी जद जोधपुर भाटी जमल रूपसी थाणे रहतो सो काम आयो। गढ़ ऊपरा छनी इण आफरी जीवना कराय काढो ने आप पछ बाम आयो।

### गीत

जसवास<sup>3</sup> जर<sup>4</sup> जुग चार न जावे, द्वूदें<sup>5</sup> जिम देसाण दुमाल<sup>6</sup>।  
जादव नग हेम<sup>7</sup> सू जडाणो, जोध नभग माथ जमाल ॥1॥  
नरवद हरो धिया निकलता कोट रास्त गल हार किर।  
जग मे भलो कराणा जमल, सहित कनक जाधाण सिर ॥2॥  
रूपसिंह रो चाड<sup>8</sup> राठीडा मछर<sup>9</sup> दास जमाल मुओ।  
भुरजा कमधा रे राव भाटी हिरण<sup>10</sup> बठोर जडाव हुआ ॥3॥

बवरा री विगत—

राजलोका रा क्वर—

1 राम	2 रायपाल	3 चद्रसेन
4 रायमल	5 माण	6 रतनसी
7 भोजराज	8 विङ्गमाईत	9 प्रधीराज
10 आसवरण	11 गोपाल	

1 1488-9 ई०।

3 बीति।

5 दूना भाटी के समान ही।

7 स्वरुपजटित नगीनो स।

9 गवपूदा।

2 भरम्मत करवाई।

4 अटल स्थिर।

6 दुधप बोर।

8 सदायता।

10 हिरण्य स्वण।

पद्धार्दित्या रा—

- |   |                      |   |                  |
|---|----------------------|---|------------------|
| 1 | तिलोकसी राजपूताणी रा | 2 | दुर्गरसी पातर रो |
| 3 | जमल                  | 4 | निसमीदास         |
| 5 | रूपसी                | 6 | तजसी             |
| 7 | ठाकुरसी              | 8 | इसरदास           |
| 9 | नेतसी                |   |                  |

राजलोका री विगत—

1 बढ़ी वह सीसोदणी ज़्यावत पारवता ने सासरा रो नाव पोहपावती पीहर गई तठे मूई।

2 वह उमादे भटियाणी रावल लूणकरण री वेटी सम्बत 1593 रा वेसाल वद 41 जैसलमेर परणिया ने सम्बत 1595<sup>३</sup> रा अजमेर म घसणो हुबो न सम्बत 1604<sup>३</sup> दु वर राम नू देसोटो हुबो<sup>४</sup> तरे साये गई। सम्बत 1619 रा बाती मुद 155 वेलवे राव जी री मुणावणी<sup>५</sup> आई तठे बली। वेलवे उमादे री धशी थे। उमादे कली तिए वक्त राम रहो नहीं, टीका नू दोडियो जोधपुर नू। तर उमादे भटियाणी सराप दियो। 'ह' धारी मू घसणो कर आई छू। मिए बीजो कोई मत आवजो सोङ रा<sup>६</sup> वेटा लार।

3 वहु काली भरथा मेरा मूजावत री, सासरा रो नाव नवरगदे। जिला रे वेटिया 9 नव हुई—

1 राजकवर बाई दू दी हाडा मूरजण नू परणाई थी। पथ राव जी भापरी राली हाडी मारी। तरे हाडे बाई नू मारी। पथ परण

2 बाई पोहपावती दुर्गरपुर रावल आसकरण नू परणाई थी। सो

रावल साथ बली।

3 हासबाई धमरतर क्षवाहा लूणकरण नू परणाई तिए रो मनोहर राव वेटो।

1 शुडवार, माच 30 1537 ई०।

2 1538-9 ई०।

3 1547-8 ई०।

4 देश निष्ठासन।

5 मगलवार नवम्बर 10 1562 ई०।

6 मृत्यु समाचार।

7 सीत के।

8 शादी विवाह सम्बन्ध वद हुए।

- 4 सजनावाई जमलमर रावल हरराज नू परणाई । तिण रो रावल भीम ।  
 5 भानमती बाई बाधूगढ रा बाधेला बीरभद्र ने परणाई ।  
     4 बाया 4 नानी थकी मूई ।
- 4 झाली हीरादे हलोद रा माना झाला री वेटी तिण रो वेटी । एक ने वटी 1 एक ।
- 1 रायमल  
 1 बाई इद्रावती ग्वालेर राजा आसवरण नू परणाई ।
- 5 राणी सहपदे भाली, राजा सूजावत री वेटी । खेरद परणिया । डोला आयो थो । इणा भाली जी रो करायोडो सहप सागर तलाब बागा सू पर मठोवर जाता डाव हाथ भालवर री गाल म ढें ।<sup>1</sup> सो वहू जी रो तलाब बाज ढ । राव जी साथ बली । इण रे वेटा दोय हुआ ।
- 1 चद्रसेन  
 2 उदसिंह
- 6 चहुवाण इना बाई राव दलपत री वेटी । इणा रे वेटी दुरगावती बाई कछवाहा राजा भगवाननास नू परणाई ।
- 7 जादम राज बाई राव नवधण री वटी मडलीक री बहन बली । जिण र वेटा 1 आसवरण ननो थको वरस 5 पात्र म हुय मूझो सम्बत् 1608 रा बाती वद 1- रो जायोडो<sup>2</sup>
- 8 बाधेली पोहपावती बाई हाथी री बहन पीहर हीज मूई ।
- 9 जोमा काठियाणी बालो बाला जगमाल सूरावत री वेटी पोहतीबर जी जाय मूई । सम्बत् 1664<sup>3</sup> म ।
- 10 रतना भटियाणी महरावण री वेटी मधुरा जाय मूई ।
- 11 किसनावती भटियागी कलहण थरी ।
- 12 जसहड भटियाणी भडत पर रीया बली ।
- 13 पूरा मानमरी पाली रा घानी सानगरा अमराज रिणधारोत री वेटी मू बली ।
- 14 दमा सोनगरी राव जो जीदना मूई जिल रो वेटो । गोपानदास थो । सो राव जी या रिताय न ईन्हर गया थो । उठे चावडो मारियो । तिण रा वर म माटा राजा उन्यसिंह परलियो थो ।

1 घटी म ।

2 गुरुवार मवनूबर 15 1551 ई ।

3 जन्मा हुआ ।

4 16078 ई ।

- 15 लाड बाई सोनपरी पहेला भूई जिणे रो वटो । प्रथीराज ।
- 16 ताठनद क्षद्रवाही सेलावत अमरसर संसाधा मानवत बाला उक्करण जीवण भीहात री वटो तिग देसव राम कान्धा तिए रो वेटो । राम ।
- 17 सहोदरा क्षद्रवाही राजा भीव प्रथीराज चाढ़मनात री वटा तिग र राव जी सू घचन थो या बासे जगत म रहु नहि । ने जो रहु तो धान साऊ नही । अराणा लर पीहर थी । सत करण न घणो हठ कियो । पिण पीहरिया बत्तगा दिवी नही । तर धान छोड दिया । ने छांध पीवती सा तीजे महीन मरी ।
- 18 बमूया सोडी उमरक्षाठ री पातल गाणावत री वेटी मढावर ढोलो लाय परणाई । सो बली ।
- 19 लाहडी<sup>1</sup> सोडी, सो विवा माहे सिवाए मूई । वेटो । सम्बद् 1612<sup>2</sup> जाई थी सो कवारी मूई ।
- 20 लाल्हा महाडी रो दुजा नाव रतनाद, दूगरपुर री प्रथीराज गाणावत री<sup>3</sup> वेटी बनी । इए रे बना 2 दोय हुणा ।
- 1 रतनभी म 1589 रा आसोज मुद 8<sup>4</sup> रो जाम ।  
2. भोजराज ।
- 21 द्राष्टा हाडी सासरा रो नाव रम्भावती सूरजमल री वेटी कूदी री, राव जी मू सामी बोली, तरे मारी, जिणे रो वटा । एक विहमानीत ।
- 22 धार वार्द बीकूपुरिया बेलहण भाटी प्रथीराज दुरजगासालात री वटी । सम्बद् 16 56<sup>5</sup> त मूई । वेटो । भाल । 1 वटा मीरा बाई बागड परणाई ।
- 23 जमनारे टाक बीका विसनावत री वेटी बली । जिणे र वटो । बाल्हबाई थी, सा उमरकोट सोडा रायसल नू परणाई । पद्धे जोग्यपुर आय र (ही) तरे गाव । सावतकुवो पटे थो सम्बद् 1660<sup>6</sup> से मूई ।
- 24 दूरा चान्नावत राव अचला री वेटी ।
- 25 लिखमी सीसादणी राला उदयसिंह री वेटी ।  
पात्रा माले राव र त्यारी विगत—  
1 टीपू राव जी साथे बली । तिरां र वटा । न वेटिया 3 ।  
2 वेटो दूगरसो, इए री बहन परणाई पी । तिग प्रसग सू पातसाह

1 खोनी ।

2 1555-56 ई ।

3 रावत गाणा के पुत्र रावल उदयसिंह का पुत्र पृथ्वीराज ।

4 रविवार पक्ष्मूवार 6, 1532 ई । 5 1599 1600 ई ।

6 1603-4 ई ।

र चाकर रहो, ने आरणा भसा<sup>1</sup> री लडाई में पग भागो ।<sup>2</sup> तिण मूर्छो ।

1 रुखमावती बाई पातसाह अकबर ने परणाई ।

2 बलावती बाई भाटी अखेराज नू परणाई ।

3 गागाबाई देवडा भेरा ने परणाई ।

2 जीऊ रावजी साथ बली ।

3 चढ़कला बली ।

4 मदनबला बली ।

5 जस मजरी बली ।

6 रुप मजरी बली ।

7 नेणवला ।

8 रतनमाल ।

ओलगणिया री विगत—

1 पावा वरस 10 ने राव जी माहे राखी, सा सम्बत् 1658<sup>3</sup> मे जोधपुर मूर्झ ।  
जिण र वेटा 5 ने बेटी 1 हुई ।

5 वेटा 5 री विगत

1 रूपसी ।

2 इसरदास ।

3 जतसी ।

4 ठाकुरसी ।

5 नतसी ।

1 बेटी । भोगोतीबाई क्वारी मूर्झ ।

2 विलिह ।

1 बेटो तिलोकसी । इण ने माटे राजा गाव जाजीवाल साकरा री ।  
रोयलो 2 पटे ट्रिया था । सम्बत् 1657<sup>4</sup> म राम क्यो 1 बेटी गामती ।

3 मुदर गूमा राजपूत तिण री बेटी फूटरी धणी<sup>5</sup> थी । गाव वह सामेलो लने  
थाई । तठ दीठी तर पड़दे धाली<sup>6</sup> सो बली ।

1 जगली भसा ।

2 पर टृट थया था ।

3 1601 2 ई ।

4 1600 1 ई ।

5 प्रथमन्त्र मुदर थी ।

6 पर्निशीन थी ।

तिण रो बेटो । महेशदास १ इण ने माटे राजा गाव बासेसर रो  
बास २ तोसेसर ऊटावर ३ मुराएँ पटे दिया था । सम्बत् १६७५<sup>१</sup> र  
राम क्यो ।

- ४ सदां सोजत रायसिहू नू हूई, जद सोजत गई, सम्बत् १६७५<sup>२</sup> मरी । जिण  
रो बेटो लियमीदास ने माटे राजा सोगडास गाव पट दिया थो ।
- ५ बनकावती वली । वटी । रभावती भाटिया ने परणाई । तिण रो पूरणमल  
हूमो । ने पूरणमल रो बेटा हीरो राव चाढ़मेन रो थाय भाई । इण हीरा  
र वस रा भाटी भिजाय रहे थे ।
- ६ रायक्कवर वली ।
- ७ लाठ्की वली ।
- ८ दीवाघरो विका भाहे मूर्ई ।
- ९ सामता स १६६१<sup>३</sup> म मूर्ई ।
- १० पदारथी स १६६२<sup>४</sup> म मूर्ई ।
- ११ फरमतो वली ।
- १२ रामतवाई ।
- १३ लिखमी ।

सम्बत् १६०४<sup>५</sup> राव मालदे जी र पगार बाला हुवा था । मास च्यार  
डालिया सू उत्तर सकिया नही । तिण समं पाटबो क्वर राम वरस तेरे रा उमर भ  
थो । सो राव जी रा राजीपी<sup>६</sup> भाली सरूपदे जी ऊपर पणा थो । सो भाली जी रा  
क्वर उद्देसिध जी चाढ़सेण जी री इख्ला<sup>७</sup> सू क्वर राम राव जी ने बेद क्वर आप  
गाढ़ी वेसण रो विचार किया । ने पिरयीराज जेतावत न बमो थे म्हारे सामल  
खो । सो पिरयीराज बमो हु इसा अधरम रा काम मे सामल रेमू नही । पछे  
क्वर राम मढ़ोवर गाठ कियो । जठ थो ने पिरयीराज राव जी रा प्रधान जसा  
भहदासोत ने बाक्वद कियो । सो जसे राव जी भू मालम कियो । तर राव जी  
पिरयीराज री घणी जातर कियी । ने पिरयी राज ने हृकम दियो—‘साथ लेने  
गढ़ रो पोला जाव वसे सो राम न गढ़ माथ आवण दीजो मती । ने राम री  
मा कद्यवाही लाद्युदे ने दोढ़ी पालखी भल क्वायो थे हमार रा हमार तलटी  
जावा परा । तरे कद्यवाही पाल्छी अरज कराई । ‘माम कामु खून पडियो’ तर  
राव जी कैवायो ‘खून रो हकीकत पारा वटा राम नू पूछ लीजो ।’ कद्यवाही जी  
तलहूनी गया ।

१ १६१८ १९ ई ।

२ १६१८ १९ ई ।

३ १६०४ ५ ई ।

४ १६०५ ६ ई ।

५ १५४७ ८ ई ।

६ विशेष अनुप्रह ।

७ ईर्ष्या ।

कबर राम मटावर सू भायो स गढ़ रा पाला बरज दिया । तरे राम राव जी सू घरन बराई मने कोई हुक्म थे । तरे राव जी पाला कवायो— यान देस निराला थे । याला माला म लत गूदोब जावो । भटियाली ऊमादे जसलमर रा रावन लण्डरा थी बने सम्बद् 1593<sup>1</sup> राय जा परलिया था, ने उमारे र राव जी सू हसगा थो । न राम कबर उमारे र खोल हा, मा उमादे पिंग कबर राम र साथ गया । राम न कबर वैद्यि दिन गूदोब रया, न पछे राणा उभेसिप जी कन गयो । कबर राम राणा उभेसिप री बटी परलिया थो । सो राणु पगा गावो सू बेलवा दिया सा बलदे रेव । न जाधपुर भाली सधपदे रा कथन बधियो न इण्ठा र बहो बटा उभेसिप जी था न उभेसिपजी री परकत आकरी हुती । सा यूं जी सू मिनतो ही महा बेराजी रहता । सा भाली सधपद्जी र गढ़ ऊपर महल नबो हुता था सो उभेसिप जी र महन रा माज पहना तयार हुवो । तर बहू जा उभेसिप जी न बेकायो । यारो महल तयार हुय गयो थे से माने दिराया ने माहरा महल रा गोपडा हम तयार हुमी, घटूरा बाम थे प्रा यारे तयार हुम जासी । तर कबर उभेसिप जी कवाया तू ता जाधपुर रा धणी री पटराणी थे । यो रा हुक्म थे । मारे बने भस काई माग ? तरे बहू जो कुरा मानियो ने राव जी सू घरज दिवी मारे बटा चाढ़सेण होज पाटबी थे । चाढ़सेण ने दिवाईत बराईज । तरे चाढ़सेण न टीकायत यापिया न उभेसिप जी दूर बरगे फ़नाधी दिवी । गा उभेसिप जी फ़नाधी गया । हमै राव जी न बहू सधपद्जी सारो मुदार कबर चासल ऊपर सिवाए मनिया ने राव मालरे जी सम्बद् 1619 रा काती सु<sup>2</sup> 12<sup>3</sup> रात रा देवलाल हुया । ने चाढ़सेण जी न समाचार मलिया सा सिवाग सू सुद 13<sup>4</sup> दिन ऊगा भाय गया ने भाली सधपदे जी मत किया न चाढ़सेण जी निकनएदे नही । क्यो मन ने भाया न समझाय न जावा । सो दिन द्यव तार्द बहू जी पगा ऊपर कैभा रया ने सारा कबरा न सरदार भाय भेना हुवा तिला ने भाली जी समझाय ने टीका चासेण जी दिरायो ने भाली मटावर जाय मिगसर बद 2<sup>5</sup> न बतिया । काती सुद 15<sup>6</sup> केलव लवर पूरी । सो कबर राम रावला म क्यो नही । ने बावडी सपाडा बर परदारे<sup>7</sup> ही<sup>8</sup> राणा जी कन गयो ने पछे रावला मे खबर हुई तर उमादे

1 1536-37 है ।

2 तेज प्रहृति थी ब्राधी था ।

3 शनिवार नवम्बर 7 1562 है ।

4 रविवार नवम्बर 8 1562 है ।

5 शुक्रवार नवम्बर 13 1562 है ।

6 मग्नवार नवम्बर 10 1562 है ।

7 शुद्धिस्तान करक ।

8 बादा बाना ही, पर बाहर ।

## जोधपुर राज्य की स्थापना

जी सत कियो ने क्यो— है वलू जिते ही राम ऊंठे रहा नहीं भागा सूर कोई बुगाई घर रा धणी सूर रुमलो घर सोके रा बेटा लारे जावजो मती<sup>1</sup>। पद्ध राम राणा उद्देशिय री मदत के गव धणलो मारियो। तर राव चढ़सेण रा साथ गये, सो धणला सूर नाडोलाई ताई दृष्ट कानियो। पद्ध राम पातसाह अबवर री पौज लाय जोधपुर खेरो निराय चढ़सेण बन सोनत लियो। सम्वद 1620<sup>2</sup> सोलह सो बीस रा आसाठ म राव राम सोजत जाय रहो। केइ तिना पद्ध साजत या सिसियारी ठाकुराई हुई। सम्वद 1630 रा जेठ सुद 3<sup>3</sup> राव राम बाल कियो।

राम रे बडो बेटा करन थो। सो टीको र दिन करण पोणाल करने पाठ बठण आवतो थो। सो महेश द्रूपावत, आसकरण देवीदासात वाष पिरथीराजोत, भागेज रूपमी जतमालात रामदास ऊनवत भोजत देवीदासोत सारा ठाकुर बठा या। सो सूरजमल पिरथीराजोत ने करन र साथे आवता देखन महेस जी आसवरण जी ने क्यो —

अठ तो सूरजमल ने हीज परे थापियो थे दीसे थे ! तरे आसवरण जी क्यो बता ने टीको देसा ! पद्ध इणा दोन ठाकुर करण न क्यो— पातसाह अजमेर आयो थ थ सो थ ने बलो अजमेर हालो। टीको पातसाही देसी जिण रे रहसी ! सूर बहने मारथ माझ्कब कियो ! ने सारा पातसाह बने अजमेर गया। तरे महेस जी ने प्रूछियो— 'बडो बेटा कुण थ' ! तर या ठाकुर क्यो बडो करन थ पिण म्हे पाच रजपूत थो कलारा चाकर था ! तर पातसाह बकवर गुजरात म मुनकरणाह सूर बढ किवी गावा सूर करन ने दिराई ! पातसाह अबवर गुजरात री चाकरी म थो सो सोकरी माह एक तठ करन काम आया। राव बलो पातसाह री चाकरी म थो सो सोकरी माह एक पातसाही हुरम छाने राव बला र डेरे आई तिण री खबर बलो सीख कर थे आयो। जठा पद्ध पातसाह जी न ठा पढी, सो बला ने याद करमाया। पिण बलो जावे नहीं। तरे पातसाही फोगा आई सम्वद 1632 रा माह सुद 8<sup>4</sup> महेस जी बाय प्राया ने बलो हाथ आयो नहीं। पद्ध सम्वद 1634<sup>5</sup> रा फागण म सेव दुरहन नाडाल गोडवाड म गव थाण थो तिण विश्वास दे राव बला ने नाडाल उलायो सो निसरणी चढता ने चूक कर मरायो। तठे इतरा काय आया।

1 राठोड साठूल रायसनात।  
2 राठोड साठूल रायसनात।

- 
- 1 मई-जून 1564 ई ।
  - 2 रविवार मई 23 1574 ई ।
  - 3 सोमवार जनवरी 9 1576 ई ।
  - 4 करवरी 1578 ई ।

3 धाय भाई चौखो ।  
4 ढोली ऊदारो बेटो ।

केसोदास<sup>1</sup> राम रा बेटो राणा उदेसिंघ रो भाणेज थो से उग्रसेण आसवरण  
चाद्रसेणोत माराणा । तठ राणे उदेसिंघ राठीड ठाकुरा ने कहायो— टीको  
केसोदास ने दो' । ने राणा जी पाप आवण सागा । तर राठीड सादूल महेसोत  
आसकरण देईदासोत इणा घणा साय रा घणिया क्यो— टीको देणो राणे जी रे  
सारे नहीं थे । टीको म्हारे तुलसी<sup>2</sup> जिण ने देसा । पछे रायसेण चाद्रसेणोत ने  
तेडाय ने टीको दियो । तर रायसेण केसोदास ने सिरियारी बार काढ दियो । सो  
पातसाह बने चाकरी मेरयो । सो पातसाह चौली महेसर पटे दियो । उठ बड़ी  
ठाकुराई हुई । केसोदास निरवस गयो । केसोदास र खोले जगन्नाथ तिण ने पातसाह  
मालवा रो आवभरो ने अजमेरा रो मसूदो ने वधनोर पट दिया । पूरणमल रामोत  
मोनगरा रो भाणेज सम्बद्ध 1609 रा आसाढ बद 8<sup>3</sup> सन रो जाम । भोपत रामोत  
सोनगरा रो भाणेज सम्बद्ध 1612 रा फागण सुद 9 बुधवार<sup>4</sup> रो जाम । सम्बद्ध  
1640<sup>5</sup> मोटे राजा नवसरा रो पटे दिये थो । ने अकबर पातसाह आधी आसोप  
राधोदास जी ने किबो ।

नारणदास रामोत ।

राधोदास रामोत न पातसाह रो नियोडी आधी आसोप भोपत जी भेली  
पटे थी ।

महेसदास रामोत ।

निशनदास रामोत याढवाढ रा राजपूता सू बेढ हुई, तठे माराणो ।  
अे नव बटा राव राम रा ।

(राव चाद्रसेन)

राव चाद्रसेण सम्बद्ध 1598 रा सावण सुद 8<sup>6</sup> रो जाम सम्बद्ध 1619 रा  
पोर सुर 6 गुरुवार<sup>7</sup> ने राव मालदे र पाट बेठा । राव मालदे रे पाटवी बेटो राम  
थो । तिण ने राव जी बेराजी हाय परो काढियो । सो बेलवे गाव जाय रयो । ने  
राव सू छोटो बेटो उदेसिंह था तिण ने राव मालदे फलोधी निवी सो फलोधी  
जाय रह थो । ने उदेसिंह सू छोटो बेटो चाद्रसन थो । तिण ने राव जी पाटवी नर

1 जहागीर ने उस भ्रातिवज्ञ राम बल्ला का पुत्र निखा है । जहागीर पृ 250 ।

2 उचित नगणा । 3 शनिवार जून 3, 1553 ई ।

4 बुधवार फरवरी 19 1556 ई । 5 1583-84 ई ।

6 शनिवार जुलाई 30 1541 ई ।

7 गुरुवार निसम्बर 31 1562 ई ।

राखिया थो । सो राव मालदेव देखलाक हुमा पधे चाद्रसन पाट बेठो । एकण चाकर मूँ चाद्रसेण रिसाणो । तरे चाकर नास बागे राठोड जेतमल जेसावत रा ढेरा हुता, तठ गमा । तर राव जतमाल रा ढेरा माम मूँ पचडाय मगाया जब जतमाल आपरा परघान नूँ राव जो कन मल भरज कराई । हमरको<sup>1</sup> मुनो मोनू बगसाइने । भर इण चाकर नूँ जोवा नहीं मारीजे । राव जो क्यो—जेतमाल जी राजी हासी ज्यू करत्या । आ कहि जेतमाल रा प्रधान ने सीस दे लारा मूँ रात रा उण चाकर नु गरदन मरायो । निशु भू जेतमाल धणा बुरो मानियो । तद राठोड प्रधीराज कूँ पावत ने घोर ही जोधपुर राठोड हुता, निणा सगला मिल एका किया<sup>2</sup> । क्यो—‘इण राव मूँ आपणे पूरी पडसी नहीं’ । आ विचार राव मालदे रा क्वर रायमल नूँ, राम नूँ उदेसिह नूँ बागद भनिया । थ बठा बासू करो थ्यो । तर राम तो बेतवा मूँ दाड सोजत रो विगाह किया, भर रायमल दुनाड भू दिया । उदेसिह गाधारणी<sup>3</sup> कन गाव लागड मारी । तर राम ने रायमल चाद्रसेन फौज भेल हटाया । ने उदेसिह र बात चाद्रसेन पिढा चढियो सो गाव लाहावट जावता बेड हुई । तठ उदेसिह रा हाथ रो<sup>4</sup> चाद्रसेन र लागी न रावत मधराज रा हाथ रो बरछी उदेसिह रे खवारें<sup>5</sup> लागो सो उदेसिह जी घोडा मूँ पड गमा । सो साहाणी हृद खींची आपर पोडे चड उदेसिह जी नूँ काढिया ने उदेसिह जी रो इतरो साथ काम आयो—

- 1 राठोड जोगो सदावत मादणोन ।
- 2 राठोड ईसरदास प्रभरावत मडलो ।
- 3 राठोड हीगला नेतावत पातो ।
- 4 राठोड कन्याणदाम महसौत बरमसीहात ।
- 5 भाटी बेरमल भाकरोत ।
- 6 नाटी जमल निलोकमी परवतोत ।
- 7 भाटी साकर दुरजणसलोन केलटण राजा उदेसिह रो सानो ।
- 8 मोबल गगानासोन गागरियो राठोड ।
- 9 राठोड खीवराज रायमनोत गागरियो राठोड ।
- 10 राठोड पचाहण टोहाउत गागरिया राठोड ।
- 11 खींची हृदो बेलहणोत ।
- 12 सहारी करमा जसिह रा नादा रो नाई ।
- 13 राठोड गापालदास प्रधीराजात धावा पडियो ।

राव चाद्रसेन री तरफ मूँ काम आया—राठोड लम्यण भीकोत घरडकमर नूँ दावत रो पातरो । पद्ध राव जी जोधपुर पाढ़ा आया । उदेसिह फ्लोधो जाय

1 इस बार चा तो ।

2 एक मत हुये ।

3 गगाणो ।

4 हाथ (के भस्त्र प्रहार) को ।

5 क्यो यह ।

कोटि सजियो । राव चांद्रसेन फेर फलोधी ऊपर चल्नियो सो जसूत ढूगरसीयोत राठोड रावल मेघराज राठोड, जतमाल जसवत राठोड पतो नागावत सानगरो मानसिंह राठोड प्रथीराज कूपावत श्री ठाकुर चांद्रसेन न पाढ़ा ल आया । रामा नू उमरावा सिखाय ने अकबर पातसाह भेजियो । सो अकबर री फौजा ले आयो । स० 1620 रा जेठ सुद 12<sup>1</sup> जोधपुर घेरो दियो । सो दिन 17 फौज रही । उमरावा विस्टालो<sup>2</sup> कर ने राम ने सोजत दिराई । कटक पाढ़ा गया । राव राम सोजत जाय बेठो । कई दिन साजत राज कियो । राव राम रो करायोडो सोजत रामलाव तलाव है । सम्वत् 1620 रा फागण वद 13<sup>3</sup> फेर अकबर पातसाह री फौजा आई । तर राव चांद्रसेण हसनकुली सू वात कर पिरोजिया लाख च्यार पेसकसी रा कबूल कर फोजा पाढ़ी फेरो । ओल म<sup>4</sup> सू पिया पचाली भारा अधावत । पचाली भारा तो नामीर रा कोट माह सू भाग ने उरो आयो । बाबी रा केद म मूझा ।

सम्वत् 1621<sup>5</sup> मे अकबर पातसाह री फौजा फेर आई । हसनकुली सरदार था । नायक दाऊद अजावकस रा बेटो फूल रो भाई चहुवाण मुसलमान गाव पाचनडे सामो जाय दोढ हजार तोपधी ल हसन कुली की फाज सू लडाई कियी । चालीस 40 भाई बधा सू काम आयो । ने तीस सो (?) तरकस वाघ हसन कुली रा मारिया । चेत सुद 12<sup>6</sup> हसन कुली जोधपुर घेरियो सोनगरो जसवत मानसिंहोत राठोड प्रथीराज कूपावत, राठोड पतो नागावत राठोड जतमाल जसावत राठोड चांदो बीरमदेवोत बीजो ही घणो साथ स राव चांद्रसेण कसारा री पोल कर्ने बैठ कियी । तुरका री फौज जोरे दीठी ।

तर पाढ़ा हठ ने गट भालियो । वेसाल वद 10<sup>7</sup> राम पोल निसरता पाच सान मारिया । तठ राव जी रा नायक खेतसी काम आयो । वेसाल वद दी तुरका हल्लो कियो । तठ दासा जी धावे पड़िया । मुगल 50 मारिया । राव जी ने सगरा ठाकुर छोड गढ म आय रखा । वेसाल भुट 4<sup>8</sup> मुगला हल्लो बियो । तठे गढ माहे घोडा 2 गोला मू मारिया । जठ सुर 3<sup>9</sup> राणीसर तलाव रा काट ऊपर मुगला हल्लो कियो । तठ राठोड किंशनदास दुजगासलोन काम आयो । गढ माहे सचो तूठो

1 सोमवार मई 22 1564 ई ।

2 समझौता किया ।

3 जनवरी 17 1565 ई ।

4 जमानत म ।

5 1564-5 ए डी ।

6 मगलवार माच 13 1565 ई ।

7 मगलवार माच 27 1565 ई ।

8 दुष्पवार, प्रप्रेल 4 1565 ई ।

9 दुष्पवार मई 2, 1565 ई ।

पाणी नहीं<sup>1</sup>। तर सम्वत् 1622 रा मिगसर सु<sup>2</sup> 10<sup>3</sup> रात घड़ी आठ गया राव चांद्रसंत जोधपुर रो गढ़ छोड़िया। ने भाद्राजण गयो। हसनकुनी गढ़ ऊपर चढ़ियो तर इतरा ठाकुर गढ़ र हाथो दे काम आयो<sup>4</sup>—

- 1 भाटी गागो नीवावत ।
- 2 भाटी जमल आसावत ।
- 3 भाटी आसो जोधावत ।
- 4 राठोड बरसल पातलात ।
- 5 राठो बीरमोत ।
- 6 राठो सूरो गागावत ।
- 7 राठोड विजो बीरराजोत अडवा रो नोतरो ।
- 8 इदो रासो जोगावत ।
- 9 इदो रिणधीर मेहेनावत ।
- 10 इदो सूजो बरजागोत ।
- 11 भाटी जागो आसावत ।

गढ़ मे अबदर पातसाह रो अमल हुपो। पछे जोधपुर बीकानेर राजा रायमिह न पातसाह जी लिख नियो सम्वत् 1629<sup>5</sup> रा वरस म।

राव चांद्रसंत भाद्राजण सू सम्वत् 1625 रा फागुण सुद 5<sup>6</sup> हाडा मूरजन री वेटी परणीजण ने छडाईस<sup>7</sup> रिणथभोर गया। न परणीजिया ने घोडा पतरे 15 पाद्रह ने हाथी गहणा सूधो न रुपया 105000/- एक लाख पाच हजार दायजो दियो ने पाढ़ा पघारिया। ने मुलव भ घणा बदा बजिया<sup>8</sup> किया। ने भाद्राजूण र चढ़िया सा जोधपुर आया। ने जाधपुर सहर मारियो ने लूटियो ने सहर मे बिकानेर राव रायसिप जी रो साथ रो जावतो हो सो सारा नास ने गढ़ म चढ़ गया। ने चांद्रसेण जो पाढ़ा भाद्राजूण गया।

सम्वत् 1626 रा मिगसर सुद 3<sup>9</sup> राणो उद्देसिह गाव नवमरा माहे होय ने जेसलमेर परणीजण नू गयो थो। राव चांद्रसंत साथे जानी हुवा था। जेसलमेर गया ने रावल हरराज गढ़ री पोला जडाय ने क्यो— विगर बुलाया आया सो म्हे

- 1 दृग म सचित मामझो तथा जल का अभाव हो गया।
- 2 रविवार दिमव्वर 2 1565 ई ।
- 3 पञ्च के निगान चिह्नत बर बीर गनि को प्राप्त हुए।
- 4 1572 ई 5 सामवार फरवरी 21 1569 ई ।
- 6 बिना बरान सज्जाये प्रदेने ही। 7 विश्रोह—नडाई।
- 8 शुक्रवार नवम्बर 11 1569 ई ।

परणावा नहीं । तर राणो उदेसिह विगर परणियो पाढ़ो आयो पोस वद 8<sup>1</sup> तर राव चाद्रसेण प्रापरी बेटी करमेती पोस सुद 1<sup>2</sup> परणाय ने विदा दिया ।

पातसाह अकवर अजमेर स्वाजे जो री जात करण नू आयो । उठा सू नागोर सम्बत् 1627<sup>3</sup> मे आयो । तर उदेसिह जी फलोधी सू नागोर गया ।

राव चाद्रसेण भाद्रजूण सू नागोर आयो । राव चाद्रसेण रो रूप देल ने पातसाह जी क्यो— मोनू मिलियो हे ज्यू काला खा सू मत मिले । तरे राव चाद्रसेण डेर आय ने चढ गया । सो भाद्रजूण गया न चाद्रसेण रो बेटो रायसिह पातसाह क्मे रया । उदेसिह मालदेप्रोत रायमल मालदेप्रोत रायसिह चाद्रसेण त सम्बत् 1627 रा सावण सुद 15<sup>4</sup> सू पातसाही चाकर हुबो । पछे उदेसिह जी नू पातसाह जी फरमायो समावली गूजरा<sup>5</sup> रो ठिकाणो है सा खाली कराय लेबो । थाने इनायत किया । समावली मे उदेसिह जी अमन कियो । तर इतरा काम आया—

1 गहलडो अचलो धरमावत ।

2 व्यास भोजराज तेजावत ।

3 पूर्यो वस जामणी भाण कपूरचाद्रोत देवसन रो भाई ।

उदेसिह जी राजलोका सहित जाय रया । सिकदार सोभा नू क्यो ।

सम्बत् 1627 रा फागण वद 30<sup>6</sup> राव चाद्रसेण कला खा सू बात कर भाद्राजण छोडा न नव साख पीरोजिया जिणा रा सेरसाही टका लाख दस हुबा तिणा देणा करने पातसाही फोजा पाढ़ी फरी । तिणा टका माहि पचोली सारण नतावत भडारी धानो ढावरात आल सू पिया वयो टका देन छोडावसा सो बई दिन आल मे रया । पछे बला खा मूग्हो तरे छ्वान ने आया ।

सम्बत् 1627 रा फागण वद 30<sup>7</sup> बात कर भाद्राजण सू पी ने रावजी सिवाए गया । पछे राव जी र रजपूत दास पातलोत गाव महली कला खा सू बढ़ किवी । जठ मुगल घणा मारणा ।

पोहकरण राव चाद्रसेण रा साथ था । भाटिया आया लिवी । तरे बाहर चढिया था सो इतरा काम आया—

1 गुरुवार दिसम्बर 1 1569 ई ।

3 1570 ई ।

2 शुक्रवार दिसम्बर 9 1569 ई ।

4 सोमवार जुनाई 17 1570 ई ।

5 समावती परगना तब आगरा सूद की खानियर सरकार मे (प्रद विदोर तहसील मे) था । तब उसकी आमदनी 20 01 344 दाम थी । आईन० (अ० अ०) पृ 198 ।

6 शनिवार फरवरी 24 1571 ई ।

- 1 चौहाण रामो ।
- 2 पचोली नराण ।
- 3 राठोड़ राजधर ।
- 4 राठोड़ रतनसी ।
- 5 घडसी ।
- 6 सोहड़ ।

सम्वद 1631 पातसाह जी जोधपुर बीकानेर रो पर्णी रायसिंह ने लिख दियो । सो वरस दोडेक रयो । बीकानेर रो दलपत गढ़ ऊपर बाच मेल रा गोखा सू पटिया, सा धूमो तो नहीं, पिण अजगास पूरो हुयो ।

सम्वद 1632<sup>2</sup> रा बाती मे जसलमर रा रावल हरराज भादमी सात हजार 7000 ले पोहवरण रो कोट घेरियो । रावल री फौज म क्वर भीव भाटी लतसीह मालदेमोत मुख्यार या पोहवरण रा कोट म राव चांडसेण रो साप थो । तिण मुख्यार पचाली भरणा थो । मास च्यार घेरो रयो । राव चांडसेण ने रावल हरराज फदिया लाल दिया । न क्यो लाल फदिया<sup>3</sup> यार जोधपुर हुवे तर थे म्हान्न उतार दीजो । म्हे यारी पोहवरण याने पांधी परी देसा । लाल फदिया माहे जाए अडाणी है । राव लिला म हुतो सा जाणियो घरती सगली छूटी । पोहवरण राखी जासी नहीं । तुरत लाल फदिया धावे थे सो उरा लीजे । जोधपुर जाय वेसता तरे भाटिया कने म्हारी पोहवरण रहसी नहीं । उरी लसा । मा विचार मागल्यो भोज पोहवरण मेलियो । बेवायो— रावल हरराज ने कोट सूप दीज्यो । सूप 5 हजार फदिया तो भोजराज आप राविया ने बीस हजार फदिया कोट म रावजी रा रजपूत या तिणा ने बाट दिया । ने कोट माहे धान धृत सोर सीसो<sup>4</sup> बगेरह माल थो तिण रा करने 12000 फदिया राव जी ने मेलिया कागण बद 14<sup>5</sup> रात पोहर गया ।

भाटी कोट म पेढा । मागलियो भोजराज रावल हरराज रा साप त्रू मेंतीस हजार फदिया रावल हरराज मागल्यो भोज त्रू सुक रा दिया<sup>6</sup> । तिण माय रावजी रा रजपूत या तिणा ने बाट दिया । ने कोट माहे धान धृत सोर सीसो<sup>7</sup> बगेरह माल थो तिण रा करने 12000 फदिया राव जी ने मेलिया कागण बद

- 
- 1 सं 1629 (तदनुसार सन् 1572 ई) होना चाहिये । बनायुनी (अ०प०)
  - 2 २ ए 144 ।
  - 3 अक्तूबर 1575 ई ।
  - 4 मुमावजा ।
  - 5 फदिया—एक सिक्का विशेष ।
  - 6 बाल्द, शीशा भादि युद की सामग्री ।
  - 7 1575 ई ।

गई । बीकानेर रो राव रायसिंघ ही पातसाही फोज साथे थे । राव चांसेण पीपलोद रा भासरा गयो न गत मे राठोड पातो नगावत रथा । सा वितराक दिन लड़िया । पछ्य अबवर पातसाह रा उमराव सहेवाज सों सू बात बर सिवाण रो शर सौंप पतो राव जी बन आयो । रावजी पीपलाड रा भासरा गया भासता दगा किया । पछ्य मगरा म काशुज आय रथा । तिला दिना राठोड रतनसिंघ बीका ऊवावत रो बेटो तुरका सू मिल + भासरलाई रथा या सा इणा ने चांसेण जी बनायो— गाव सूना बर बसा भगरे राय थ मा बन आवा । तर इणा केवायो— हमार मास च्यार 4 तो मासू था बने अबीज नही । तर राव जी बुरो मानियो । मैं तो टुक फोडा इतरा ऊदावता रा राह करने देखा सो राठोड कल्याणदास गोपालदास, नरहरदास राम रो बसी भासरलाई थी तिल ऊपर राव चांसेण जी पिंडा चढ़िया सो भासरलाई मारी । तिण सू रज्यपूत ऊदावत ऊदास हुवा ने उणहोज सम जोधपुर रा बाणिया बन किहुक मारिया । दुरा दिया तरे सूकड, सतवन्चा मुहता भडसाली भ मुगला सू मिलिया न बीकानेरिया ने मेडतिया भागे मुगला भेला था हीज न ऊदावत जोधपुर रा बाणिया री मारफत मुगला सू एमवेट छिवी । न सारा भेला होय ने मुगला री फोज रावजी ऊपर लाया । सो, बें हई । न राठोड ठाकुरसी रिणधीरोत ने और साथ बाम आया ने गुडो लूटाणो । देरासरी तिलोरसी काम आयो । ने इण समे रावत पचाइग मर घला हीडा किया । पछ दाशुजा सू भडाड गया । भडाड या सिरोटी । बरस दोडेक तिरोही धरती म रथा । पछ कबीला बगरह बसी तो सिरोही धरती म राती ने चांसेण जी हूगरपुर गया । रावत भासा फन सो तुरका न राव रायसिंघजी ने लबर हुई चांसेणजी री बसी भिराही धरती भाहे एकली छ । सो भ फैज बरने गया स पहना लबर हुप मई जिरामू राजनोह बगर+ तो भाष्वरा चढ़िया ने राठोड पनो नगावत राठोड भानीआम देईमोत चापावत मरण ने ल्यार हुवा । तर बीरवाई जोमवाई राव भानदे जी गे राणिया बयो ये मुप्रा तो म्हाने भील पहडमी । सो इसो बहाल गू ठाकुर भागर चढ़िया । फोज भाई सो बसी गे धगदाव लूटियो । पछ राजतोर बगरह गारा जगा हूगरपुर री धरती म गया ।

रावन भासा रो बगे समझ जाय राणा परताप सू मिलियो ने च्यार हत्तार ममूरी<sup>1</sup> देणी छिवी । राव जी नू हूगरपुर माय गू परा काड न महानू बगदासा । तर गरममन साथ राला जी भापरा साथ दने लाड या विदा दिया मा रावन आय बगो बार शाढ़ियो । पारवनीवाई राव जी नू लवाहियो— हई स्त्रा मालम मनज्जो । गा मानू स नीमरे । जहांगे भार मदाय है' । तर राव चांसेण जी दबानी मुखागा नू मनिया । र रावन भासा रा लाल आया मह बोट

<sup>1</sup> ममूरी=मिला रिशेर ।

## जोगरपुर राज्य की स्थान

भालियो है। राव वेगा भाय भेला हुई जो। पथ राव चांदसेण जी चढ़िया सो डु गरपुर भाया, सो रावत कोट छोड़ परा निसरियो न क्ले दरवाजा म हृय ने गव चांदसेण जी कोट म गया। भाय क्यो रावत ता निसरियो न पले दरवाज सहसमल राणा जी रो साय लने आय लागे। सा राणा जी रे साय सहसमल त्रू पूछियो—  
 त्रू कह तो रावत जी कोट छोटन गया, तो भ दमामा माय किए रा बाजे। तर भ उठ तर चबर मगाई सो खबर माई। रावत निसरियो न राव चांदसेण है। तर भ उठ हीज उतरिया न राव जी ने क्वाडिया—‘राज डु गरपुर छोड़ो।’ रावत निसरियो है म्हान्न राणा जी हृकम ध सहसमल त्रू गादी वेसाणी। तर राव जी क्वाडियो म्ह तो हमे भाया बिहु नीसरा थार भापो जोईज तो भावे। तर उणा पणो ही क्वाडियो—भेकरसा सहसमल ने गादी वसाणा ने च्यार हजार म्हमू दी म्हाने क्वी ही है—सा मिल जाय पथ बले थे—जाणो जिहु कीजो। पिण राव जी डु गरपुर धाडियो नही। रावत भासा त्रू खबर हुई, राव जी म्हता माहे ध। तर राव जी त्रू क्वाडियो—राज म्हे जाणियो थ नही पधारो ने राणा जी सू म्हारे तोडिया नही बण। तर म्हे निसरिया। ने राणा जी र साय राणा जी त्रू खबर मेलि रावत निसरियो पिण राव चांदसेण नही नीसरे। तर राणा जी क्वाडियो राव चांदसेण माय है—ता थ उरा भावनो। पछ राणा रो साय न सहसमल परा गया। रावत भासो ने पोहपावतीवाई बल महला म भाया ने राव जी ने बडा जस भायो। पथ तर राव चांदसेण जी डु गरपुर धोड ने वासवाढ गया। उठ रावत परताप हीडा बिया। गाव तीन तथा च्यार धोडा वाघण ने दिया। कोटडे गाव राव जी भाय रया, सो वरस । एक तथा ॥। दोड राणा जी भाया। राणा जी त्रू राव जी मिजगानी दिवी। मारवाढ मे राव कता ने नाडाल चूक हुवो। सोजत पातसाह खालसे बिकी, ने सईदा रो याणो रामियो। लार राव राम कलो मर दुटा तरे राठोड साढूल महसोत कू पायत न भासकरण देईदासोत जतावत वगरह सारा सरदारा मिलन विचार कियो—राव चांदसेण जी त्रू बुलावा तो धरती दवे। तर चांदसेण जी ने कागद मेलिया। तर चांदसेण जी भाया न गाव सवराड (सीरवाड) पातसाह रो याणा थो से बाट न धमत कियो। सम्वत् 1636 रा सावण वद ॥। इयारह न राव चांदसेण सोजत ही उरी लिवी।  
 सम्वत् 1636 रा सावण वद ॥। गाव सवराड म तुरका रो याणो थो।  
 सो नार भमल कियो। तर इतरा काम भाया—  
 1 ऊहड जमल नवसिंहोत।  
 2 ऊहड जतमाल जमलोत।

1 रविवार, 19 जुलाई 1579 ई। 2 उपरात।

- 3 राठोड विशनदास जागावत ।
- 4 रा रायसिंह भानीदासोत ।
- 5 राठोड बरमसो मालावत ।
- 6 रा दूगरसो मालावत ।
- 7 रा सागा उरजनोत ।
- 8 साखलो दूदा ।
- 9 भाटी भगवान धोरमदेशोत ।
- 10 भाटी सुरताण उदावत ।
- 11 इदो बरो ।
- 12 भाटी महेशदास ।
- 13 रा कसादास जागावत ।
- 14 रा जसवत जागावत ।
- 15 मुहतो अबलो भूजावत ।
- 16 देवढा बीजा जो रा रजपूत 2 सानगरा ।
- 17 जणा ।

रजपूत 80 घायल हुआ, राव जी कसी पिण बीआपुर या मारणे री गाल म आएगा । अठे रया न कितराक दिना पछ राठोड ठाकुर सको आया ने उठे सिचियाई र भाऊर सिचियाई री गाल मे तठ राव जी आय रया । सो राठोड वरसल उदेसिघ कू पावत दूषोड माय भूकाती वरसल नही आव । तर वरसल ऊपर राव चढिया सो दूदोड मू नेहा आया सो वरसल रा भाई राठोड सको आगा नही आव । कईक बहू मारा पट दूसे न कडक एहै मारो धाढो असमादियो । तर राव जी दोठो राठोड तो वरसल ऊपर नही आवे तर भासकरण देवीदासोत राव जी नू बयो भो कोय नही थारे वरसल मारियो जोईजे ता बहा जिझ माह । पिण थारे रजपूत थे । ये पाछा पधारो हू वरसल नू स आईस । न वरसल नू बयो— नू मती जाए मानू काई नही थारे । हू तानू मारीस । नू नहीं तो उरो आव । पथ राव जी पाछा पधारिया ने वरसल नू ही आणियो । पछ वरसल बयो— हू राव जी थारे बीह<sup>1</sup> मोने वसाम नहीं आव । रावजी मार भरागे<sup>2</sup> ता मारो जीव हडो हूव । पछे रावजी नू मिजमानी दिवी । उठ राव जी जीमन बसी में आया न तुरत देवलाक हुमा । सो जहर हुवा बह थे । गाव मरणे रे ऊलीकानी गाव साचियाप है निग रा मगरा री गाल म चार्सेण जी देवलोर हुमा । इला र वस रा भरमेरा म भिणाय बगरह है सो चार्सेणोत जोघा वाजे थे । राव राम र सव वस रा रामान

1 डरता हू ।

2 मर यहां दावत जीम ।

जोधा मानवा में है, ने मारवाड़ में जोड़वाड़ रा परणना में गाव पाव द्ये, ने मातवा में आबजरो ठीकाए है। सम्वत् 1637 रा माह सुद 7<sup>1</sup> गाव सिचियावरी गान में राव चाढ़सण काल किया। राव चाढ़सण रा राजलोक, कवरा री विगत--

- 1 बही बहु चहुवाण कल्पाणदे हमीर बीबावत री बेटी राव जी जीवता भूई। तिग रो बेटी । उप्रसेन सम्वत् 1616 रा भाद्रवा वद 14<sup>2</sup> जनमियो। बटी । जामवता दवडा बीजाजी न परणाई थी सो बीजा जी साये बली ।
  - 2 बहु बद्धवाही मुहागद नरकी पीहर गाव फागी, बद्धवाहा बीरा री बटी । तिण रा बना 1 रायमिह सम्वत् 1614<sup>3</sup> जनमिया बटी । प्रासकवर राजा मानसिंह ने परणाई ।
  - 3 भटियाणी कनकादे सासरा रो नाम सोभगदे जेसलमर रा रावल हुरराज री बटी, राव जी माथ बली । जिण र बेटी 1 कर्मेतीवाई विष्वा भाहे भाद्राजूण रहता तठे गणा उदमिह नू परणाई ।
  - 4 मीसोदणी चदावार्दि, सामरा रो नाव सूरजदे राणा उदेसिंह री बटी सम्वत् 1616 रा चसात् वद 13<sup>5</sup> चित्तोड जाप परणिया । सम्वत् 1641<sup>6</sup> मयुरा जी वाम कियो, सम्वत् 1670<sup>7</sup> मयुरा जी म चतिया । जिणा र बटा । प्रासकरण सम्वत् 1627 रा मानसिंह वद 1<sup>8</sup> जनमिया ।
  - 5 बहु कद्धवाही कुकमने जोगी बद्धवाहा री बेटी ।
  - 6 बहु दबडी महाकारदव राव मान री बटी । सम्वत् 1624 रा आमग, वद 12<sup>9</sup> सिरोही जाप परणिया था । सम्वत् 1659<sup>10</sup> मयुरा जी मे राम क्यो । तिणा र बटिया 2 थी मो उदमिह जी परणाई ।
- 1 बाई कमलावती बद्धवाहा गोरघन राजा प्रासकरण न परणाई ।
  - 2 बाई रायकवर कद्धवाहा मवलसिंह राजा मानसिंह रा बेटा ने परणाई थी सो बली ।

1 बुधवार जनवरी 11, 1581 ई ।

2 सीबोयाई (विगत 0 पृ 469) यह मोत बिले म सारन के निकट स्थित है ।

3 बुधवार अगस्त 2 1559 ई ।

4 1557-8 ई ।

5 मगलवार अप्रैल, 23, 1560 ई ।

6 1584-85 ई ।

7 1613-14 ई ।

8 मोतवार जून 19, 1570 ई ।

9 मगलवार जून 22 1568 ई ।

10 1602-3 ई ।

- 7 वहू भटियाएँ सहोदरा, ससरा रा नाव हरखमदे कलहण राम पचाइणोत री बटी राजा उदेसिह जी री दिवा। गाव गोपालसणी पटे थो । तठे मुई सम्बत् 1697 रा पोप म<sup>1</sup> ।
- 8 वहू भटियाएँ प्रमलदे बीकूपुरी राव डुगरसी री बटी सम्बत् 1683<sup>2</sup> म मुई ।
- 9 वहू भटियाएँ जगीसावाई महारेजसोहोत री बनी राव जी साथे दती ।
- 10 वह सोढी मेघा उमरबोट री राव जी साथ बली ।
- 11 वहू चौहाण पुरवपी राव जी साथ बली ।
- 2 ओलगण दाय
- 1 फूलमला राव जी साथे बनी ।
- 2 सुरताएँ सम्बत् 1701 रा आसोज वद 6<sup>3</sup> गत उपर मुई ।
- 4 वाहरती ओलगण ।
- 1 पदमा ।
- 2 रामगरी ।
- 3 हारा ।
- 4 इखमणी ।

पछे राठोड जतमाल जसावत मू खानी । जतमाल कितराव धान रा खोड़ा<sup>4</sup> राव चाढ़सण ने विला म देन घर मे धाली ।

राव चाढ़सण देवलाक हुओ तर पाटवी बेटा रायसिह ता अबवर पातसाह कन थो । ने रायसिह मू छोटो उग्रसन बू दी थो । न आमकरण न चाढ़सण र टीक वसागियो । गाव सारण मे आसकरण दईदासात राम रतनसीयात सदूल मृत्सोत भोपत दईदासोत इणा ठाकुरा आसकरण न टीको निया । राव च द्रमण रो मरण सुण उग्रसन आय, मंडत तुरक था त्या मू मित्या । तरा आमकरण रा उमरावा परधाना विचारियो उग्रसेण माटियार छ । तुरका मू मित्या छ । घरती माह तुरक आएसी । विला होसी<sup>5</sup> । आ विचार आधी घरतो दग्धा कर उग्रसन ने गाव सारण आएयो<sup>6</sup> । सम्बत् 1638 रा चेत मुद 2<sup>7</sup> गाव सारण म उग्रसण ने

1 नवम्बर दिसम्बर 1640 ई । 2 1626-27 ई ।

3 शुक्लवार सितम्बर 13 1644 ई ।

4 भूमिनल म सुराजित भान भण्डार ।

5 विषम स्थिति होगी । 6 त आय ।

7 रविवार माच 25 1582 ई ।

आसवरण मही<sup>1</sup> म चौपड रमता था । सो उग्रसेण छूब<sup>2</sup> कर राव आसवरण ने बटारी मू मारियो । तट राव आसवरण रो अभूत राठोड सखो साकरोत ऊभा था तिण उग्रसेण रा हाथ माह मू बाहाज<sup>3</sup> बटारी खास<sup>4</sup> उग्रसेण नू मारियो । उग्रसेण रा जीव तो पहला निसरियो, ने आसवरण रो जीव घडी आधी पथे निसरियो । राठोड महरावण अचना सिवराजात रा आसवरण जी नू मारियो, तिण बलत मड़ा था नीचो उत्तर ने बाम गया था । सो पाथो आयो तरे राठोड साढूल महसान मसकरी रूपी बात कह गया 'ये कठे था' महरावण क्या— हाजर न थो आ वह न शोरा<sup>5</sup> ऊपर चढ़ न घणी मारी बरदिय कभी कियाडी थी तिणा ऊपर कूद पडिय ने भूमो ।

### सेला सावरोत रो गीत

ग्रह न सकें<sup>6</sup> ग्रहे उग्रहे प्रहिया<sup>7</sup>, दाख चद दूडद<sup>8</sup> दुवे ।

सेखडा साम सनाह<sup>9</sup> सरीखो, हेक काहै जो भीच<sup>10</sup> हुवे ॥1॥

अपड गिले किम मुतण<sup>11</sup> आयरणा, कह किरणपत सोम बधा ।

(एकाध पत जिसा उदावन), हेक हुवे जो खडग हथा<sup>12</sup> ॥2॥

राह गिले<sup>13</sup> किम कह माम रवि, मुहे असुर ग्रह<sup>14</sup> तेम मुडे ।

मुभट विया रिणमाल सरीखो, जुडन हार जो इसो जुडे ॥3॥

समीहर कहै सपष्टा<sup>15</sup> सूरज, अधड करै इभ ग्रहण अनेक ।

मूर कलह<sup>16</sup> मिलर<sup>17</sup> सरीमा, आया गिहु<sup>18</sup> न मिलियो एक ॥4॥

राव चाँदसन विलो मुगतियो धरती मारी गई पिण पातसाह रो चाझर हुवा नहीं तिण साधद रो गीत —

1 दुमजिल पर का कच्छा बमरा ।

2 वही ।

3 छीनकर ।

4 कच्छा कमरा ।

5 बनी नहीं बना सकते ।

6 बधन ग्रम्त दो बधन मुत्त करे ।

7 मूय ।

8 स्वामी वा कवच रथन ।

9 योद्धा ।

10 मु ज्ञर तन ।

11 योद्धा वद्गधर ।

12 राहु प्रसिन करे ।

13 नमन राहु ।

14 दबा ।

15 युद ।

16 गीत नायर वा नाम है ।

17 दोनों के ।

अणादगिया तुरी उजला असमर<sup>1</sup>, चाकर रहण न डिगियो चीत ।  
 सारा हीद्वाकार तण सिर, पातल<sup>2</sup> ने चढ़सेण प्रवीत<sup>3</sup> ॥1॥  
 तुरिये विगस खत्रीवट<sup>4</sup> त्रिजडे, असपत दत रहिया अगिण ।  
 कलक बिना कु भेण कुलोधर<sup>5</sup>, बाध कुलोधर<sup>6</sup> कलक विए ॥2॥  
 पवग<sup>7</sup> अगद सुजसा पडियालग, खरहड<sup>8</sup> तणी न लागी खेह<sup>9</sup> ।  
 राण उदसिह तणो निरेहण<sup>10</sup>, रायमाल तणो अणारेह<sup>11</sup> ॥3॥

आसकरण उप्रसेन दोनूँ इण तरह आपम म मारीज गया । तर चढ़सेण रा उमरावा रायसिह ने कासीद<sup>12</sup> मेलिया । निखियो—आसकरण उप्रसेन दोनूँ इण तरह मारीज गया है । हम, य आय ने थारी धरती समावो । सा रायसिह अकबर पातसाह री चाकरी मे काबुल ऊपर मुहम<sup>13</sup> जातो थो । सो घटक ऊपर ढरा था । तठ कागद पूणी । तरे रायसिह सीख री पातसाह मूँ मालम कराई । तर पातसाह सोजत दिवी । राव पदवी दिवी न सीख दिवी सो सोजत आय चढ़सेण र टीवे वठो । सम्वत् 1639<sup>14</sup> भ पातसाह जी काबुल फतह कर पांचा आया । फतेपुर तठ रायसिह जी पछो चाकरी म आय हाजर हुयो ।

अकबर पातसाह राणा उदेमिह रा वेटा जगमाल सीसोदिया ने ग्राषी सिराही पठ लिख दिवी । सो राव सुरताण अमल दियो नहीं । तर जगमाल री मन्त्र सिरोही ऊपर फौज मेली न रायसिह जी न मेलिया । सा सिरोही इलाका र गाव दत्तागी राव सुरताण साम आय वेढ किवी । राव सुरताण री फते हुई । राव रायसिह जी सीसोदिया जगमाल काम आया सम्वत् 1640 रा काती सु<sup>15</sup> ॥15॥

राव रायसिह रा इतरा काम आया ।

1 रा गोपालदास जोधा ।

2 राठीड़ पुरणमल माण्णात ।

1 तलवार ।

2 राणा प्रतापसिह मेवाड़ ।

3 पवित्र निष्कलक ।

4 थात्रयध तलवार ।

5 राणा कु भा कुलोत्पन्न प्रतापसिह ।

6 राव बाधा का वशधर चढ़सेन ।

8 मुसलमाना की ।

7 घोडा ।

10 निष्कलक ।

9 रजी धूलि ।

12 दूत स देशवाहक ।

11 निष्कलक ।

14 1582-3 ई ।

13 चढ़ाई ।

15 गुरुवार अक्टूबर 17, 1583 ई ।

## जोधपुर राज्य की स्थात

- 3 राठोड लूणकरण मुरताण गागावत रो ।
- 4 राठोड बेसोदास ईसरदास कलावत रो ।
- 5 करणोत गोपाल बीदावत ।
- 6 राठोड साढ़ुल म्हसोत ।
- 7 चवाण सेखो लाडणोत ।
- 8 सहलोत बालो ।
- 9 पचोली भाण प्रभावत ।
- 10 धाघु खेतसी ।
- 11 भाटी देवो ऊदावत ।
- 12 पडिहार गोरो राधावत ।
- 13 बारट ईसर ।
- 14 भाटी रतनसी भासा जोधावत रा ।
- 15 भाटी कान्ह प्रभावत ।
- 16 मागलियो गोपाल भोजावत ।
- 17 इदो मनोहर ।
- 18 मागलियो जमल ।
- 19 मागलियो विसनो ।
- 20 मागलियो राजसी राधावत ।
- 21 रामो बला रो खवास ।
- 22 राठोड ऊदो ।
- 23 जलेबदार दीलतिया ।
- 24 इदो खेतो ।
- 25 असायच विसनो गोपालदासोत ।
- 26 ऊहड हीगोलो करघल देवसी रो पातरा ।
- 27 राठोड खीबो ।
- 28 पीयो विसनावत ।
- 29 राठोड रामसिंह ।
- 30 भाटी नेतसी ।
- 31 पवार साईदास पडवो ।
- 32 प्राहाडा कचरो ।

1 चरवादार सईस ।

सीसादिया जगमाल रा आदमी 25 वाम आया । दातीबाडा रो कोलीमिह  
आदमी 15 पनरे सू बाम आयो ।

दतानी रा भगडा रा राव सुरताण रो गीत—

राव रायसिह चाद्रसेणत री बसी सोजत थी तठ सम्बत् 1640 मिशनर  
वद 2<sup>1</sup> खबर आई तरे रायसिह री बरा तीन सती हुई बाघेलाव तलाव ऊपर ।

1 कछवाही राजा आसकरण री बटी ।

2 सोनगरी भाण री बेटी ।

3 वहू ।

उग्रसेण चाद्रसेणोत र बरा बेटा री विगत—

1 हाडी पूरा राव सुरजन री बेटी ।

बेटा री विगत—

1 करमसन ।

2 कल्याणनास ।

3 बाह ।

आसकरण चाद्रसेणोत र बरा री विगत—

1 बहू गोपालदे चाहडी सम्बत् 1636<sup>2</sup> मे जोधपुर मूई ।

148 (राजा उदयसिह)

राजा उदेमिह जी सम्बत् 1594 रा माह सुद 13<sup>3</sup> रविवार घडी 21  
पुल 32 निन चढता जाम । सम्बत् 1640 रा भाद्रवा वन् 12<sup>4</sup> जोधपुर पधारिया ।

सम्बत् 1651 रा असार सुन् 14<sup>5</sup> लाहार माहे देवलोक हुया ।

राव मालदे जी थका फलोधी निवी थी सो फलोधी जाय रया था । राव  
चाद्रसेण सू सम्बत् 1619<sup>6</sup> म गाव लोहावट पली विके खेत किंवी ।

सिध थटा रो मारग बीकूपुर माहे होय ने । बवावसा ने केर्क गाव बाकूपुर  
रा फलोधी लारे घालिया चाव जिए वास्त भाटी रायचाद जोधाकर आय न पतोधी  
सू बेल्हण भाटी सू गाया निवी तर लारे बाव चढिया । भगडो हुवो । तठ इतर  
काम आया—

1 मगलबार अक्तूबर 22 1583 ई ।

2 1579-80 ई ।

3 रविवार जनवरी 13 1538 ई । विगत 3 पृ 333 विगत 1 पृ  
77 मे जाम सवद् 1584 वि है जो स्पष्टतया मूल पाठ का पन्ने म  
या प्रतिलिपिकार की भूत है । वहा भी सही सवद् 1594 वि ही होता ।

4 रविवार अगस्त 4 1583 ई ।

5 शुक्रवार जुलाई 11 1595 ई । 6 1562-3 ई ।

- 1 भाटी सूरजमल किसनावत ।
- 2 भाटी हमीर साकरोत ।
- 3 भाटी सुरताण दुरजणसलोत बेलहण राव जी रो सालो ।
- 4 राठोड रायसल दुरजणसलोत माडणोत ।
- 5 राठोड नीबो दुरजणसलोत ।

पछे सिध रो साथ बतार परधी<sup>1</sup> आवती थी । तथा सामो उद्देसिध चढ़ियो ने परा था भाटी आया । भाटी भानीदास दुरजणसलात माणस 1000 सू आयो, न उद्देसिह जी कभ अस्वार 25 था, सो जाय ने वेढ किवी । तठे भाटिया रो साथ निसरियो भाटी भानीदास सरदार थो सो काम आया । तथा पछ भाटी ढूगरसी दुरजणसलोत साथ भेलो कर उद्देसिध ऊपर आयो । कु ढल बन वेढ हुई । उठे उद्देसिध रा काम आया ।

- 1 चपावत वरो जेसावत ।
- 2 राठोड हिंगोला वेरमलोत ।
- 3 रुपावत हिंगोला वेरसलोत ।
- 4 रुपावत जागीदास भागात ।
- 5 भाटी हमीर आसावत ।
- 6 भाटी रतनो पाथावत ।
- 7 भाटी रायचान्द जाधावत ।
- 8 साहणी नतसी जैसिहात ।

जमल भाणेत लाहे लाग निमरियो । राव भाडा वरसलपुर रो धणी काम आयो । भाटी का ह किसनावत पूर लोहडे पडिय पल उपाडियो पछे ऊठा थी लाया । राव ढूगरसी रा ।

सम्बत् 1627 वैसाख वद 30° फलोधी मे महाराज सूरजसिंहजी रो जनम हुवो । सम्बत् 1627<sup>3</sup> पातमाह अक्तुबर नागार आया । तर उद्देसिध जी पातसाह

- 1 लदे हुए ऊटो का समूह उधर स (उस आर से) आ रहा था ।
- 2 भगलवार अप्रैल 24 1571 ई । अमावस्या मूचक 'एस (श्रवणग्रह) का भ्रमवश 6 पढ़वर सूरजसिंह का जाम टिन विगत (1 पृ 92) मे वसाख वदि 6 घण्डवा दिया है । विगत (3 पृ 333) मे जाम कु ढली दी है जिसके अनुसार राजा सूरजसिंह का जाम वशाख वदि 30 उदयात 50/32 पर हुआ । अत सही ईसवी बार तारीख बुधवार अप्रैल 25, 1571 ई ही हांगा ।
- 3 नवम्बर 1570 ई ।



मिंगसर<sup>1</sup> माहे गुजरात नू चढ़िया । मुहता मुहणोत पचोती सिंगी नडारी विखा म गले कोठ था, जिके जोधपुर आया । सम्बत् 1640 रा पोप वद गाव राजपीपले<sup>2</sup> मुजफ्फर शाह गुजराती सू वेढ किवी । मुजफ्फर खा भागा खानवाना री न माटा राजा री फत हुई । तिण मे भाटी गोपालदास राणावत ख्यसिंहोत काम आया । भाटी साउल मानावत गोइ ददास जी रा भाई सोर माहे वलिया ।

सम्बत् 1640 रा जेठ<sup>3</sup> माहे माटे राजा जोधपुर रा गढ ऊपर भाद्राजूण रा मैणा हरराजिया ने सोल जणा सहित मारिया ।<sup>4</sup> मेणी हरराजिया मारियो तठ राठोड खीवावत रे गोडा रे बटारी लागी ।

सम्बत् 1641<sup>5</sup> जलौर सू नवाव खानखाना रा चाकर जामवेग नू साथ लने मोटा राजा उदसिंह सिरोही राव सुरताण ऊपर गया । सो दा लाख पीरोजी सुरताण ऊपर पेसकसी री धाली अर धाढा 13 लिया । पीराजिया पेट देवडा सावतसी न तो मारियो राठोड बाई विसना ने ओल दीवी । अर देवडा सामदास सूजावत प्रथोराज रा भाई न ओल लियो । या दोनु ही ओला न राठोड भोपात पतावत ऊहड गोपालदास साथे जोधपुर दूगता किया ।

सम्बत् 1643<sup>6</sup> क्वर भगवानदास भोपत दलपत जेतसिंध ए च्यार क्वर मोटा राजा रा, सिधला<sup>7</sup> ऊपर गया । अर सिधला रा गाव लूटिया तठे साथ माराणो । तिण री विगत ऊहड राम जमलोत फलसा माथे मोडो नाख फलसो भाग माहे बडता काम आयो ।

सम्बत् 1644<sup>8</sup> लाहोर म पातसाह अकबर, क्वर सूरसिंध नू बद्धवाहा । दुरजणसाल री वेटी राणी सोभागदे परणाई । सम्बत् 1644<sup>9</sup> साहजादा साह सलम जहांगीर नू मोटा राजा री वेटी मानीबाई परणाई ।

1 अकबूर नवम्बर 1583 ई ।

2 नवम्बर 1583 ई । विगत (1 पृ 77, 89) म भी इस युद्ध की तिथि पोस वदि 9 1640 (बुधवार, नवम्बर 27 1583 ई) दी है । परन्तु यह गलत है । नादोद राजपीपला का युद सोम माच 9 1584 ई का हुया । (अ ना, अ अ 3, पृ 642 643) ।

3 अप्रैल मई 1584 ई ।

4 सोलह व्यक्तिया सहित मारा ।

5 1584 85 ई । 6 1586 87 ई ।

7 मुखदार का दरवाजा गिराकर । 8 1587 8 ई ।

9 1587 ई । मानीबाई अथवा मानमती, जगत गुसाई नाम स सुनात हुई थी । 10 खानाजगी=प्राप्त की लडाई ।

## राजा उदसिंघजी र राजलोका कवरा री विगत—

- 1 बड़ी बहू सोलखणी कनकादे सासरा रो नाम उछरगदे सावतसी रायमलोत री बेटी सोलकिया सू वर भायो तर परणिया । सम्बत् 1646<sup>1</sup> जोधपुर चलिया<sup>2</sup> राजाजी सिरोही या जन् ।
  - 1 बेटो नरहरदास सम्बत् 1613 रा भाह वद 1<sup>3</sup> जन् ।
  - 2 बेटी 2 दोय ।
    - 1 रभावतीबाई भाटी लेतसी मलदग्रात नू परणाई थी ।
    - 2 रायकवरबाई खालेर राजा रायसिंध नू परणाई थी ।
- 2 दूजी बहू गपूरखदे सोलोदणी राम उदसिंघोत री बेटी सम्बत् 1653<sup>4</sup> मूई ।
  - 2 बेटा दोय
    - 1 भगवानदास सम्बत् 1614 रा आसोज वद 14<sup>5</sup> जनमियो ।
    - 2 भोपतसिंध सम्बत् 1615 रा काती सु<sup>6</sup> 6<sup>6</sup> जन् ।
- 1 बेटी । चाद्रमती हुई सो मुह ।
- 3 बहू बद्धवाही सेलावत पूरबाई ससरा रो नाम भहकारदे मातसिंध तेजसिंघोत री बटी फलोधी थका मूई । राजाजी घणों दु ख कियो । इरणा र मसाण ऊपर आय 2 वसता । ये देवा महि पूजीजे छे । बेटो । अबेराज समावली थका खीचीबाढा मे काम आयो ।

जोधपुर राज्य की स्थान

125

- 1 जतसिंघ ।
- 2 माधोसिंह ।
- 3 मोहणदास ।
- 4 कीरतसिंघ ।
- 3 वेटिया सीन—

1 जसोदा वाई क्ष्यवाहा सूरसिंह राजा भगवानदास रे वेटा त्र पररणाई ।

2 कमलावतीबाई मऊ रा खीची राव गोपालदास ने पररणाई ।

3 पेमावतीबाई मुज रा राव भारा त्र पररणाई ।

6 वह क्ष्यवाही राजावत सीताबाई राजा जी जीवता जाधपुर मूर्ई ।

7 वेटो 1 हुयो थो, से जरएताईंज मूमो॒ ।

वह चहुवारा कनकाबाई सासरा रो नाम अजायवदे महकरण रो वेटो सम्बद् 1674<sup>३</sup> मूर्ई । वेटा दोय हुमा ।

1 दलपत सम्बद् 1625 रा सावण वद 93 जनमिया ।

2 घोरी निसर ने मूमा॑ ।

एक वेटी किसनावती क्ष्यवाहा रूपसी वेराणी रा वेटा तिलोवसी त्र पररणाई से बली ।

वह भटियाणी क्षुररे बेलहण भाटी कमा गोयदोत री वेटो रो वेटो एन सकतसिंघ सम्बद् 1624 रा पोय मुद 14<sup>०</sup> जनमियो ।

वह भटियाणी सतोखदे, दुजो नाव सजनाबाई जेसलमर री, सूरजमल लूणकरण री वेटी सम्बद् 1677<sup>४</sup> रा म मूर्ई । तिए रे वेटो 2 दोय ।

1 राजकवरबाई सीसोदिया भाए संगताऊत त्र पररणाई ।

2 सतभामाबाई हजोद चांदसेरा फ़ाला ने पररणाई ।

10 वह क्ष्यवाही राणी मनरगदे राजावत गवालेर राजा भासकरण री वेटी राजाजी जीवता सम्बद् 1649 रा जठ मुद 17 एक लाहोर राम कह यो ।

1 जम हाते ही मर गया ।

2 1617 इ ।

3 रविवार जुलाई 81 1568 इ ।

4 थोटी चेचक भी बीमारी से मृत्यु हई ।

5 सोमवार दिसम्बर 15 1567 इ ।

6 1620-1 इ ।

7 सोमवार मई 21, 1593 इ ।

६ वेटा छव हुआ ।

- १ जसवंतसिंघ जी नेना थका समाया ।
- २ भूरसिंह जी ।
- ३ पूरणमल जी नना थका समाया ।
- ४ किशनसिंघ जी ।
- ५ वेसोदास जी नेना थका समाया ।
- ६ रामसिंह जी नेना थका समाया<sup>१</sup> ।

४ वेटिया—

- १ मानीबाई दूओ नाव जोधवाई सम्बत् 1629 रा जेठ सुद 12<sup>२</sup> रो जनम । साहजादा साह सलेम जहांगीर ने परणाई इणारो नाम पातसाह ताज बीबी नियो थो । आगरा म इणारे माथ ताजगञ्ज बणायो । इणारो वेटो पातसाह शाहजहां हुप्रो ।
- २ प्राणमतीबाई डू गरपुर रा घणी रावल सहसमल रा वेटा वरमसी नू परणाई थी स सम्बत् 1697 रा भाद्रवा सुद 3<sup>३</sup> जोधपुर म समाई ।
- ३ रामकवर बाई नानी थकी समाई ।
- ४ सीलावती बाई नाहनी थकी समाई ।
- ११ बहू सोनगरी जसोदा भाग अखेराजोत री वेटी सो थी राजाजी री पाघ जोधपुर आई तर बली मडोवर जायने ।
- १२ बहू भटियागी पोहपावती बीकूतुरी केतहण वरसिधाल री वेटी जोधपुर पहुचता पहलाहीज मूई ।
- १३ बहू पुरवणी चहुवाण सहाग<sup>४</sup> बसदुढण जी री वेटी देवसगा री भतीजी । सम्बत् 1641<sup>५</sup> ईन्हर परणिया था सो सम्बत् 1656<sup>६</sup> जोधपुर राम कह थो । इणार वेटी । गागाबाई कछवाहा रामचंद्र नू

जोधपुर राज्य की व्याप्ति

127

15 वह चावडी सिंगारदे, भ्राता री बेटी गोपालदास मालदेमोत रा वर  
मे स 16411 परणिया था, सो सम्बत 1675<sup>१</sup> मूई।

1 बटी रखमावतीवाई बछवाहा राजा महासिंघ तू परणाई सम्बत  
1655 मियसर सुन 93 जोधपुर जान आई। रखमावती राजा  
महासिंघ साथे सती हुई।

16 वह देवडी राणीवाई राष्ट्र बला री बटी सम्बत 1646<sup>२</sup> परणिया।  
राणी मनरागदे पूठी<sup>३</sup> इण तू सुहागणा बिचो थी। लाहोर म राजाजी  
साथ बली।

17 वह चहवाण तारामती जीवारी बेटी राजाजी साथे बली।  
भोलगणा दोय

हरबोला राजाजी साथे लाहोर म बली। कवर मुरसिंघजी  
हरबोला र गोद था, सो टीके बठा पथ हरबोला रे नावे बाल  
समद र पाढोर<sup>४</sup> मे बावडी कराई जिका हरबोला बाव बाज  
थ।

2 राणीवाई जीवा पवार री वर फ्लोधी यका जीवा ने मराय ने  
पड़े धाली थी सम्बत 1674<sup>५</sup> मूई।  
पातरा तीन 3।

1 फूलमाला राजाजी साथ बली।  
2 गुणसागर राजाजी साथे बली।  
3 रूप भाला।

छोकरी मनोहर दासी राणीजी साथ बली।

सम्बत 1651 रा आसाठ सुद 15 पडिवा<sup>६</sup> री रात घडी च्यार पाढ़ली<sup>७</sup>  
थी तरे लाहोर मे मोटे राजा राम क्यो। सवारो ही दाग दियो। तर अकवर  
पातसाठ नाव बस ने सतिया जोवण भ्रायो। तडा पहिली लापो<sup>८</sup> दियो थो। पथ

1 1584-5 ₹०।

3 रविवार नवम्बर 26 1598 ₹०।

4 1589-90 ₹०।

6 तालाब के आसपास की भूमि।

7 कहलाती है।

8 1617 ₹०।

10 शनिवार युलाई 12 1595 ₹०।

11 चिता में लगाई जाने वाली भूमि।

9 प्रथमा तिथि।

10 शनिवार युलाई 12 1595 ₹०।

11 चिता में लगाई जाने वाली भूमि।

2 1618-9 ₹०।

5 वाद म।

आम क्वर सूर्तिष्ठजी री बीजा ही री दिलासा वरी ने कहो— थाहरे काज करणो हुव, सो वर्ने माहरी हजूर आवजो । ' मोटा राजा र कवरा री विगत—

- 1 सूर्तिष्ठजी जोधपुर गादी वठा ।
- 2 अखराज समावली थका खीचीवाडा म काम आया ।
- 3 भगवानदास सम्बत् 1614 रा असाढ वद 14<sup>1</sup> रो ज म न सम्बत् 1651 रा काती वद 12<sup>2</sup> चलिया तिण रे वेटो गोय दास हुवा, तिण रा वस रा गोयदासोत जोधा वहीजे । सरवे गोयदासात है । पीसागण कने गोयदगड इणा रो वसायोंनो है । गोयदास र वर्ण रिणछोडदास तिण नु माहाराज जमवत्सिष्ठजी भाई ज्यु रावता, स दिली काम आयो ।
- 4 नरहरदास ।
- 5 सकतसिंघ सम्बत् 1624 रा पोस वद 14<sup>3</sup> रो जनम । इणा ने राजा जी जुदा किया । तर पटे हृण गाव निया थो, न इतरो जुदरा<sup>4</sup> म दिया था । घाडा 50 पचास घोडिया 10 छोकरिया 20 बीस, रप्या 1001) कितरोयक गहणा पिण दिया थो अतरा साथ दिया था — धाय भाई गहसोत, भीटो मूहणात व्यास गोयद भडारी बला भीबोत । सगतसिंह न सपूत दीठा तरे राजा जी पातसाह जी बने ल गया । चाकर रखायो । मनसव पच सदी रा पाया । नएवाय न खजजडली पटे पाई । आगरे हायिया सू मामला किया । साहजादा री हजूर हाथी र च्यार ही पगा रे न माथा र कटारी लगाई । साहजार पातसाह जी सू लडाई (रो) तारीफ मालम किवी । तर तीन हजार रा मनसव दिया । (रावाई रा<sup>5</sup> खिताक निया) हाथो । घाडा 1 साकर<sup>6</sup> सूधो ने सिरपाव नियो । रवाई रा खिनाव दिया । साजत फूलियो बकडी पटे दिया बाकी रोकड पावता । सोजत वरस एक रही, पछे बली । पाढ़ी राजा सूर्तिष्ठजी ने दी थो न सोजत र बदल सगतसिंह ने जतारण दिवी । सा पातसाह र धणो मनीजता हो । पातसाह ने बेटी परणाई थी । जोधपुर लियावण री हर<sup>7</sup> राखतो, जिए सू भाटी गोयनदास मानावत जहर

1 मगलबार, सितम्बर 21, 1557 ई० ।

2 मगलबार 1 अक्टूबर 1594 ई० ।

3 शनिवार नवम्बर 29, 1567 ई० ।

4 जुरेरा = हथलेका जुदा करत समय । 5 रावाई = राव का खिताव ।

6 साज सामान ।

7 इच्छा रतता था ।

मूर मारियो । लाल किता र लारे आगे सगतसिंह रा धोडो ऊभो थो  
सा काठी<sup>1</sup> रा हाना रे छान कामडी सू जहर लगाय दियो । सो  
सगतसिंप हानो भाल असबार हुवा सा हाय र जहर लागणा सू  
डील काट मुझा । सगतसिंह रे वस रा अजमेर र गाव रेख हैं ।

- 6 भोपत सम्बत 1625 रा काती सुद 6<sup>2</sup> रा जम । इण्डा ने पातसाह  
जतारण रो गाव व वराटियो निया, पट दिया थो । पछे पवार साढ़ूल  
सू बेढ हुई तड सम्बत 1663 रा मिगमर सुन<sup>3</sup> 153 काम आयो ।  
सा महाराज मूरतसिंह जी पवारा र परलीज ने भोपत रो बर  
भागिया ।
- 7 दलपत, सम्बत् 1625 रा सावण वद 9<sup>4</sup> रो जम । दलपत र बेटो  
महेशदास सो साहजादा सुरम र चाकर थो । पछे राजा जी र चाकर  
रथो, तर कुडकी रा पटा निया । पछ सम्बत 1684 रा माहार<sup>5</sup> मे  
मोहबत सा र चाकर रखो । दिखण माहे माहबत खान र आगे पूर्ण  
पावे धदिया थो<sup>6</sup> । पछे माहबतखा मुझा । तरे पातसाह जी चाकर  
राखियो<sup>7</sup> । जिहाजपुर पटे दिया पछे जालोर गढ़ दिया था । सम्बत  
1703 लाहोर राम कह्या<sup>8</sup> । महेशदास रे बेटा 6 छव—

1 रतन ।

2 कल्याणदास ।

3 फतेसिंह ।

4 रायसल ।

5 रामचन्द्र ।

6 मूरजमल ।

1 चारजामा ।

2 मगलबार, अष्टवर 26, 1568 ई० ।

3 हृहस्पतिवार, 4 दिसम्बर, 1608 ई० ।

4 रविवार जुलाई 18 1568 ई० ।

5 जनवरी-फरवरी, 1628 ई० ।

6 बुरी तरह धायत हुया था ।

7 मगलबार जनवरी 13, 1625 ई० महेशदास को शाही भनसव मिला ।  
पा ना ? ब, पृ 68 ।

8 महेशदास को मृत्यु फाल्पुन मुदि 11 स० 1703 बि० रविवार, भाज 7  
1647 ई० को लाहोर में हुई थी । पा० ना०, 2 पृ 635 ।

सो रतन ने पातसाह जालोर दियो । सम्बत 1714 महाराजा जसनतसिंह जी साथे उजीरण काम आया<sup>1</sup> । इए रतनसिंह जा रा वसायोडो मालवा में रतलाम सहर है ।

- 8 जतसिंह र वेटो हरीसिंह ने हरीसिंह रो वेटो रतनसिंह रतनसिंह र वस रा रतनोत जोधा दे । दुगानी रमनोत जोधा दे ।
- 9 किशनसिंह अजमेर म सठोराव<sup>2</sup> गाव हो ने तलाव हो जठे सहर किशनगढ़ वसायो सम्बत् 1666<sup>3</sup> रा । ..  
किशनसिंह जी सम्बत् 1639 रा जेठ वद 2<sup>4</sup> रो जनम सम्बत् 1651<sup>5</sup> मे मोटे राजा आसोप पटे दिवी थी सो सम्बत् 1656<sup>6</sup> पातसाह जी सोजत सगतसिध उदेसिधोत तू दिवी तर किशनसिंह जी ने दूदोड र वदले सूरसिंह जी पाली दिवी । सम्बत् 1657<sup>7</sup> सोजत पाच्छी सूरसिंह जी र हुई तर किशनसिंह जी दूदोड मारी सो न दिवी । पछे भाटी गोय ददास किशनसिंह जी तू काढ दिया, सो सम्बत् 1659<sup>8</sup> साहजादा साह सलेम ने मानोबाई बने पिराग जी गया ने चाकर रया । पछ साहजादो पातसाह हुवो । तर दरजा बघायो । पछ सम्बत् 1671 रा जेठ सुद 8<sup>9</sup> अजमेर मे गोय ददास भाटा ने किशनसिंह जी मारियो । ने किशनसिंह जी ने महाराज सूरसिंह जी रा राजपूता भारियो ।
- 10 जसबत सगला स् वडो घो से नेनो घको समायो ।
- 11 किसारदास ।
- 12 रामदास ।
- 13 पूरणभल ।
- 14 माधोदास र केमरसिंह ने सुजागरसिंह इण रे वस रा जूनिया पीसागण दे

1 रतनसिंह धर्माट के युद्ध म शुक्रवार वशात् वदि 9 (अप्रैल 16 1658 ई) को काम आया था । (आ ना पृ 62 64) ।

2 सेठालाव । आईन अ अ , 2(2 स) पृ 278 ।

3 1610-11 ई

4 रविवार अप्रैल 28 1583 ई ।

5 1594-5 ई ।

6 1599-1600 ई ।

7 1600-1 ई ।

8 1601-2 ई ।

9 गुरवार मई 25 1615 ई ।

- 15 गोहणदास मम्बत 1628<sup>1</sup> - -रो जाम। सम्बत 1677<sup>2</sup> कठारी याय  
न मूँझो। इण रे वस रा भेड़ता रे गाव रामपुरिये थे।
- 16 किरतसिंह।
- 17 देटो। बालव घडो मूँझो।  
मोटो राजा उद्देशिंह जी दोड हजारी दोड हजार असवार देव लोक हुमा  
जितरे हुम्रो<sup>3</sup>।

दाम	रुपया	परगना
58,85,000	147125	कसबो जोधपुर ता 14
40,00,000	10000	प्रगनो सोजत
39 40,287	98500)111	परगने जंतारण गाव 61
15,00,000	37500	परगने निवाणे
5 75,000	14375	परगनो सातलमेर
27,00 000	67500	परगना कलोधी
—	—	परगनो चमारियो दिखण म
—	—	बघनोर

## 149 (राजा सूर्यसिंह)

सवाई राजा सूर्यसिंहजी सम्बत 1627 रा वेमात वद 30<sup>4</sup> घडी 17 रात  
गया रो जाम। सम्बत 1652 रा सावण वद 12<sup>5</sup> अक्षवर पातसाह लाहोर म टीको  
दियो। ऐय हजारी जात सवा हजार असवार मनसव दियो। तठा पछे पाच हजारी  
जात पाच हजार सवार<sup>6</sup> मनसव दियो। देवलोक हुमा जठा ताई पाच हजारी  
मनसव रयो न इतरा परगना रया था—

दाम	रुपया	परगना	गाव
6885000	272125)	कसबे जोधपुर	1096

1 1571-2 ई ।

2 1620-21 ई ।

3 मोरा राजा उद्देशिंह का मनसव प्राईन, अ अ, (स 2) । पृ 474  
के अनुसार एक हजार सवार का था, परन्तु तवकात अ अ, 2, पृ  
671 के अनुसार देढ हजार सवार का था।

4 बुधवार अप्रैल 25,1571 ई ।

5 बुधवार जुलाई 23,1595 ई ।

6 5000/3000 सवार होना चाहिये (जहागीर पृ 356, विगत 1  
पृ 95)।

4526540	122913  )	खिरालू गुजरात म	110
7700000	192500)	परगनो महतो	381
2766000	59150	बड़नगर गुजरात म	12
5000000	125000	परगनो साजत	239
2700000	67500	फलोधी	82
3940297	985071= )	परगनो जेतारण	240
4000000	100000	रतलाम भालवा म	1
1500000	37500	परगनो सिवाणो	140
800000	20000	पिसागण रा अजमेर रा गाव	9
15510827	387770  =	जानीर	421
120000	3000)	गाव समल अजमरा रा	1
2566673	64166।   -।	साचोर	119
64000	800	गाव नाड अजमरा रा	1
560000	14000	पोहकरण	1
350550	8763   )	मारवाडा	12
2181000	54525	तरवाडा	14
—	—	गाव भडवासी अजमेर	1
—	—	गाव भडवासी अजमरा रा	1
1938000	48450	गाव 3 दिवण रा	3
		रुपया 1 दाम 1 गांव	
	30000	12 00 000 भालाद	
	18000	7 20 000 बार गाव	
	450	18 000 बार गाव लुरद	
		— — — —	
		48 540 19 38 000	

दिवण री मूम् म सवाई राजा रो खिठाव पातसाह इनायत कियो । सम्बत् 6251 सूरसिंघ जी ने फोज री मुसायबी दे लाहार मू अहमदावाद विदा किया । जी हसण दीवान अवदुनलाह बल्णी ने साथ मिलिया । सम्बत् 1654<sup>2</sup> पातसाह हुदुर साह गुजराती साप लेकर अमदावाद री धरती म खलल कियो—धवलक लेलवे) धाधुक (धधुके) राजा सूरसिंघ जी अहमदावाद मू आप लहाई कियो ।

1 पीप वरि 8 (रविवार दिसम्बर 14, 1595 ई) वा सूरसिंह की विदा दी गई । अ ना (प) 3, पृ 1043 ।

2 1597 ई ।

बाहदरता नास गयो । राजा जी गुजरात माहे प्रथमी तरह धमत जमायो । पछे दिलेण म भवर वहू उठायो । तर महाराज न निवण जावणे रो हृष्म आधा<sup>1</sup> सो गुजरात सू दिलेण गया । खानखाना रा बटो एवं सरदार था । राजा सूरभिष जी होल था । महाराज कने घोडा एक हजार पर न निवलिया रा घोडा 12 बार हजार था जामे भवर चपू सरदार थो फरहद खा खुदावद खा वगरह और ही धण सरदार था । अहमदनगर र किनारे किसियो थ तठ वेड हृई<sup>2</sup> सम्बत् 1658 रा जेठ वद 11<sup>3</sup> दिलेणी भागा । पातसाही घोज री फन हृई । दिलेणीया रा घोडा हाथी लूट मे आया, निसाल डरा लूट मे आया । महाराज रा इतरा सरदार काम आया भाटी वरसी र बाण लायो राठोड भाल बठवासिया तोकची नायन । पात साह जी राजी हाय मेडता आधो इनायत कियो, राठोड जगनाथ गोपालदासोत सू बपत वरन । जगनाथ रो हु—

### बोहो

ईडुणी-सी पागडी, तूली जिमडा हाथ ।

भला गमाया मेडतो, दुवलिया जगनाथ ॥ 1 ॥

मढता आधो तो जगनाथ गोपालदासात सुखालोत र थो ने आधो राठोड रनीदास र था । सा जगनाथ सू तागीर कर आधा मढता सूरभिष जी न दिया ।

सम्बत् 1655<sup>4</sup> राजाजी अहमदावाद से विदा हुया, तरे जाता सोजत म ढील कियो । तर अब भवर पातसाह रिसाय ने राठोड सकतसिध उदमिष्योत नू सोजत लिल निवो । भण्डारी मानो साजत था सा साजत सकतसिध न सोय न जोधपुर आयो । साजत वरस एक सकतसिध नू र्ही । सकतसिध माजत वेस ने राव कहादिया । पातसाह जी चुरनानपुर था । भानी गायदास मानावत राठोड राम रतनसिंहोत पातसाह जी कने सोजत लिखाय लायो । मकतसिंह न सोजत माह सू परो कादिया । सोजत पातसाह जा कने लिखाय लाया तठा पहला राजा जी र साय साजत रो बोट देतिया था । पछे सकतसिंह र साय राठोड किशननास बल्याण नासोत रो मोरचो था निए उपरे रानी बाहा दिया, "विसनदास पग र्हा । रजपूत काम आण—सूजा भहवरणे राठोड 1, चवमुज 2 कोठारी मारो चाला रो 3, जत्त-माल मधुरादास सागावत 4, ।

1 जून 1599 ई म दक्षिण के सूबदार शाहजादा दानियाल की सहायता सूरभिष वो गुजरात से दक्षिण भेजा गया । भ ना (भ), 3 पृ 1132, 1154 ।

2 यह मुद्र अहमदनगर से कोई दा मील पृथ म नादेड (19°99' च 77° 20', पू) क पास हुआ । चौथरी मतिक यस्वर पृ 35 ।

3 गुफवार मई 7, 1602 ई ।

4 1599 ई ।

5 रात्रि मे मात्रमण किया ।

भाटी गोयदास मानावत पातसाह अकबर सू अरज किंवी ने महाराज नू दरगा बुलाया।<sup>1</sup> सो निखण में आणो राज महाराज पातमाह बने आया। देस री सीख रो हृकम हुवो। भाटी गोयदास भण्डारी मन्जो खूमपोसा मे मुरट<sup>2</sup> घाल पातसाह जी री नजर गुजरायो। अरज किंवी—' मारवाट मे ओ धान नीपजे हे सो न्यपा एक रो मण दस बेचा<sup>3</sup> छा, ने रूपमा 1 रा चावल सेर सात रा भाव रा लेने सावा छा ने आपरी बांगी करा छा। तर पातसाह जी महरवान होय जेतारण इनायत किंवी, ने मेडतो आधो तो पहला दियो थो ने आधो केर दियो। राठोड़ कनीदास मू तागीर करने।<sup>4</sup> सम्बत 1661 रा आसाढ बद 8<sup>5</sup> जोधपुर पधारिया। भण्डारी माना न मन अमल कराया।

सम्बत 1662 रा काती सुद 14<sup>6</sup> पातसाह अकबर फौत हुवो। जिण मू गुजरात मे फिसाद उठियो। तर पातमाह जहानीर महाराज मूरसिंह जी ने अहमदा वाद रो सूदो इनायत कर गुजरात मेलिया।<sup>7</sup> सो लाल मीया<sup>8</sup> ऊपर माडव<sup>9</sup> गया। राजा जी घाटी ऊपर चनिया ऊभा रया फौज आधी गई सो माडवो ले लियो। माडवो लेने पाछा किरिया तरे घाटी माहे लाल मीया आय बढ़ दिवी। तर राजा जी रो इतरो बाम आयो—

1 मार्च 1603 ई के उत्तराद्व म ही यह आदेश गया था। अ ना (अ अ) 3, पृ 1229 30 ई।

2 एक प्रकार का घास जिसका पौधा गहू के पौधे के समान होता है, इसके बीजों की भी रोटी बनाते हैं।

3 कनीदास—का हास केशोदास जमलोत मेहतिया का पुत्र स 1658 वि मेर गया। उसवा उत्तराधिकारी पुत्र इन्द्रभाग बादशाह को माय नहीं हुआ एव मेडता का बाह्दास वाला भाग उस नहीं मिला। कविराजा 02 पृ 178 विगत 2 पृ 73।

4 गुरुवार मई, 30 1605 ई।

5 मग्नवार अक्टूबर 15 1605 ई।

6 गुजरात मे उपद्वियों को दवाने के लिए भेज गय शाही सेनानायको मूरसिंह भी पा किंतु उसे तब कोई भी पद विशेष नहीं दिया गया था। तब वह ग्रासाढ सुदि 15 1662 वि (=गुरुवार जुलाई 9 1606 ई) को अहमदावार पहुचा था, और पौष सुनि 15 1663 वि (=शनिवार जनवरी 3 1607 ई) को वहां स वापस जोधपुर के लिये रवाना हुआ। मीरात (अ अ) पृ 163 विगत 1 पृ 97 98।

7 लाल मीया विद्रोही कोली लाल (?) विगत 0 1, पृ 90।

8 माझवो (21° 58 अ 73 29 पू) नमदा क उत्तरी सट पर उत्तर क्षेत्र के जमीदार का मूल्य स्थान। वर्ष 1880 पृ 142 162।

- 1 राठोड सूरजमल जतमालोत चापावत ।
- 2 राठोड गोपालदास माडेणोत चापावत ।
- 3 राठोड जसिंध ।
- 4 राठोड हरिदास चापावत ।
- 5 राठोड गोपालदास ईडरियो ।
- 6 राठोड राघवदास गोपालदासोत ।
- 7 पिडिहार पाचो नादावत ।
- 8 खीची वाधो ।
- 9 साहणी रामदास ठाकुरसीहोत ।
- 10 सीधल भद्रो ।
- 11 मागलिया माघवदास ।
- 12 चुहाण कु भा गोपदासोत ।
- 13 मागलियो भोपत मानसिंधोत ।
- 14 राठोड ईसरदास नीवावत ।
- 15 सीधल रामदास चापावत ।
- 16 राठोड सावलदास राणावत ।
- 17 राठोड रामसिंह जेसावत ।
- 18 राठोड जसवात कलावत ।
- 19 भाटी पतो राणावत ।
- 20 भाटी किशनदास महोजलोत ।
- 21 भाटी भाणा कलावत ।
- 22 राठोड तिलोकसी महेसोत ।
- 23 राठोड बचरो शिवराजोत ।
- 24 राठोड रायसिंध ईमरदासात ।
- 25 राठोड भोपत हीगोलावत ।

सम्वत् 1663 रा फाग्न मुद 7<sup>1</sup> महाराज पाढ़ा जोधपुर पघारिया ।

पातसाह जहानीर आप आगर था, ने राणा अमरसिंध ऊपरे सम्वत् 1663<sup>2</sup> र वरस थी<sup>3</sup> मोहम (मुहिम) सूर झी । सीसोदिया सगर राणा उदसिंध रा वेटा नू

1 सोमवार फरवरी 23, 1607 ई । विगत 1, पृ 98 ।

2 1606 ई ।

3 स ।

राणा पट्टवी<sup>1</sup> देने हुक्म कियो । पातसाही फौजा राणा अमर ऊपरे दोड, तठे भोमियो थका आग राणो सगर हुवा । सम्बत 1665 रे वर्ग पातसाह जी राणा (अमरसिंह) ऊपर माहवत खा ने विदा कियो । पातसाही फौजा मोर्नी थी तठ माहवत खान ने विदा कियो । आय ने पुछियो राणा रे गाव रो लाक नास ने कठ गयो ।<sup>2</sup> तरे कितराक क्यो राणा री वर लोक सगलो नास ने राजा सूरसिंह जी री घरती म छिप रखा छ । तर मोहब्बत खा रिसाय ने राठोड वरमसेन उप्रम एोत नू सात दी ने क्यो — राणा रो लाक घरती म आयो छ तिण री तू तहकीक वरने भाने लिख । सम्बत 1665 रा वसाख वद 23 राठोड करमसन सोजत आय अमल कियो ।

महाराज सूरसिंह जी न आगरा थी पातसाह जी दिल्ली नू विदा किया था<sup>3</sup> । पठ चलिया जाता था तठे खबर आई माहवत खा ने करमसेन तू सोजत दिवी । तर भाटी गोयदास जी राजा जी री हजूर था सो मोहब्बत खा कने गाव मोही आया । मोहब्बत खा सू रद बदल घणी किंवी पिण मोहब्बत खा मानी नही । तरे भाटी गोयदास जी कवर जी गजमिध जी मटते था तठे आया । सम्बद 1665 र वरस<sup>4</sup> मोहब्बत खा थी सूबो उतरियो । अबदुल्ला खा ने सूबो हुवो । अबदुल्ला खा मोही आय ने कवर जी भाटी गोयदास नी ने बुलाया जोधपुर थी, तर कवर जी गोयदास जी मोही गया । तरे अबदुल्ला खा क्यो — राजा श्री सूरसिंह जी आपरा मनसब रो साब लिया दक्षिण लीजमन करे । ने देम मथा कने साथ छे तिण लिया थ नाडूल रो याणा क्वाउ करो तर सोजत दू । तरे थी कवर जी क्वाउ वरने रठोड वरमसेन नू सोजत वार परो काटियो । मास छव वरमसेन नू सोजत रहो । सोजत लेने सम्बत 1667 रा आसोज सुद (5)<sup>5</sup> नाडूल रे आणे

1 जहागीर (पृ 53) वे अनुसार सगर को राणा को पदवी मक्कर ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पहिल दी थी ।

2 1608 09 ई । जहागीर (पृ 217) वे अनुसार सावन वदि 11 1665 वि (==मगतवार जून 28 1608) को महावतखा को विदा दी गई ।

3 मगलवार अप्रैल 11 1609 ई ।

4 जहागीर (पृ 223) के अनुसार सूरसिंह को मगसिर वदि 2 1665 वि (==रविवार नवम्बर 13, 1608) को दक्षिण ने लिये विदा दी गई ।

5 1609 ई । जहागीर (पृ 225 6) के अनुसार आसाढ वदि 5 1665 वि (==सामवार जून 12 1609 ई) वा महावत राँ के स्थान पर अबदुल्ला खा को नियुक्त विया गया था ।

6 बुधवार सितम्बर 12 1610 ई ।

## जोधपुर राज्य की स्थापना

आय रहा। दम लाल रघुपति रा जागीरदार नाडून माह रहता गजनी वा सरीमा  
तिके<sup>१</sup> सो अबदुल खा कन गव माही रहा। सम्बद्ध 1668 रा वेसाख सुद<sup>२</sup>  
श्री कवर जी नाडूल वा रामपुरे परणीजण पधारिया ने भाटी गोयदास जी  
गूदवच (गुदाज) आय रहा। नाडूल राठौड जतसिंध राजा उदसिंहोन दो, भाटी  
ईसरदार हृदासोत, पचोली चतुमुज ए थाए राजिया, असवार 2400 तोपची  
200 थाए राजिया। कवर जी, गोयदास जी जोधपुर भेड़ते, जेतारण सोजत  
रहता। पछे सम्बद्ध 1669 रा माह वद<sup>३</sup> श्री कवर जी जेसलमेर परणीजण  
पधारिया। भाटी गोयदासजी साये था।

जहांगीर पातसाह ग्रन्तमर आय बढ़ा ने साहजादा खुरम जी ने राणा उपरे  
विंश किंवद्दि<sup>४</sup> सो उदयपुर जाय बढ़ा। श्री राजाजी दिलखण वा सो बुलाया सो  
गुजरात मे हृष्ट ने सम्बद्ध 1669 रा जेठ सुद 12<sup>५</sup> जोधपुर पधारिया। श्री कवरजी  
भाटी गोयदासजी श्री राजाजी रे पगा सीरोही रे गव पाडीब जाय लागा।

पछे सम्बद्ध 1670 रा मिगतर<sup>६</sup> म श्री राजाजी पातसाह जी र पाव ग्रन्तमेर  
जाय लागा। तर श्री राजा जी ने श्री साहजादा जी री हत्तूर उदपुर भेलिया। श्री  
साहजादा जी याणा तो च्यार तथा फुरमाया, रिण थाए। सादडी<sup>७</sup> भवारी थे  
तठे फुरमायो। तठे पाणी लागे थे। पछे श्री कवर जी भाटी गोयदास जी सादडी  
जाय मास एक रहा। उदेपुर आय रहा। श्री राजा जी री हत्तूर बढ़ा उमराव था  
तिके सादडी रहा। थाए श्री साहजादा जी फुरमायो 'नाडूल थाए' थे तिको  
साय तीने थाए रालो नाडूल, साई ने राणपुर तरे तीन थाए राजिया। पछे राणा  
उत हुई। घोषूदे तस्त बगायो थो तठे आय मिलियो सम्बद्ध 1671 रा फागण

१ इस बारण।

२ गुरुवार, अप्रैल 24, 1612 ई।

३ गुरुवार, जनवरी 1, 1613 ई।

४ जहांगीर<sup>८</sup> (पृ 324) के ग्रन्तुसार पीप सुदि 15 (=गुरुवार, दिसम्बर 17  
1613 ई) को खुरम मेवाड पर चढाई के रिये भेजा गया।

५ गुरुवार मई 21 1613 ई। विगत<sup>९</sup> (1 पृ 99) मे उदेठ बदि 11  
(गुरुवार, मई 5 1613 ई) लिखा है।

६ ग्रन्तुसर-नवम्बर 1613 ई। तदनंतर पीप मु० 15 (=गुरुवार दिसम्बर  
17 1613 ई) मो खुरमह को गुरुम की सदायताप भेजा गया।  
पा०ना०, 1 पृ 166।

७ ग्रासाड 1670 विं (=जून 1614 ई) के लगभग मूर्त्तिह वा सान्दी  
पान पर भेजा गया। पा०ना०, 1-पृ 171।

मुद 2 रविवार<sup>1</sup>। तस्त ऊपरे श्री शहजादा जी बठा, तठ राणाजी आय तिन सिसाम किंवि। तरे श्री शहजादा जी तस्त ऊपरे बठा यका ऊचरे सा<sup>२</sup> होय पाव सगाया। था शहजादा जी बसगा रो इतरा नू हुरम कियो बीजा ऊभा रया—

राणो अमरसिंघ जी ।

राजा मूरसिंघजी ।

मवदुरुलाह खा ।

राणा जी मिल बोम दोय डरो थो तठ गया। बवर करण आया श्री शहजादे र पावा लागो। श्री शहजादा जी साथ लेने अजमर थी पातसाहजी र पावे लागा<sup>३</sup>। पछ्य राणा सगला उठिया। वरस 9 राणा नू विखो रयो।

सम्बत् 1668 रा पोप सुद 11<sup>४</sup> सीसोटिया भीब गाव ईसाली मारने निकलियो। तर राठोड लियमण नारायणोन राठोड अमरो सावलासोत बाहर आपड न बाम आया। सम्बत् 1668<sup>५</sup> थी बवर जी जोधपुर या भाटी गोयदासजी नाढुल बानी था तर राणा रा साथ दोय हजार असवार अहमदावाद थी क्तार आगर जावती थी तिण रो हेरो वर<sup>६</sup> दोडिया। दुनाडा ताइ राणा री पाज आई। क्तार अठा पहली निकली। राणा रो साथ खाली पडियो। पाछा किरता नू गाव मूलवा मालगढ भाद्राजण बन याड बाहर भाटी गोयदासजी आपडिया। च्यार सो अस्वार तीन हजार पाला भाटी गोयदासजी बन था त्या बन दाय हजार राणा रा भागा। श्री महाराज री फते हुई। राणा रा इतरा सरदार था—सीसादियो सेलो राणो प्रतापसिंघ रो सीसादिया बाघ अमरा रा भाला छवसाल सालकी बीरमदे राठोड किशनदास गोपालदासोत राठोड हरीदास बलूमोत सीसोदिया भाधवंसिंघ साढून राणा उन्यसिंहात सीसोदिया सहसो राणा प्रतापोत सीधल बीदा सीधल सावलदास बीदावत सीसोदिया उरजन अमरावत सीसादियो माधवसिंघ राणा उद्देसिंघ रा, राठोड भीब करणात माला रा, देवडो पतो बलावत सीधल अमरो भाडावत सीधन तापा भाडावत सोनगरो केसान्तास भाणोत सानगरा सावतसी नारणदासात। 6 राणा रा रजपूत छव बाम आया। राणो अमरसिंघ

1 रविवार फरवरी 19 1615 ई। सही तिथि—कागुन वदि 2 1671 वि (=रविवार फरवरी 5, 1615 ई)। जहागीर, पृ 343-344।

2 थोड़े ऊपर उठ कर।

3 जहागीर (पृ 344-345) के अनुसार कु वर कण फाल्गुन सुदि 2 1671 वि। (रविवार फरवरी 19 1615 ई) का शाही दरबार म गया था।

4 शनिवार जनवरी 4 1612 ई। 5 1612 ई।

6 तलाश करक।

आम्बावि<sup>1</sup> रे भासर थो उठा सू कुवर अरजुन ने घोड़ा दे कतार ऊपर मेलियो थो । इण मामला री बादगी सू भाटी आसकरण रा बटा गापालदास ने गढ जोधपुर रा गाव खेजडलो इनायत हुवो मारफत भाटी गोयदास री । उरजनोत भाटी जद सू जोधपुर चाकर है ।

सम्बत् 1671<sup>2</sup> श्री शाहजादा जी कन उदपुर श्री राजा जी था । श्री कवर जी भाटी गोयदास जी साथ लेन सिराही राव सूर्यसिंह कन पेसवशी लिवी तर शाहजादे जो बुरो मानी ।

सम्बत् 1670<sup>3</sup> प्रोयत करण नाडूल थी सायपुर जातो था । राणपुर कने अबदुल्ला खा उतरियो थो तरे क्या 'बुण द्ये', तरे कह या करण द्ये' तरे कवर करण सीसोदियो जाणा मारियो । देहुरा वारे जणा 13 तरह सू काम आया ।

कुवर श्री गजसिंह जी सम्बत् 1667 रा आसोज सुद 5<sup>4</sup> नाडूल रो थाणे लियो तर इतरा रजपूत नाडूल थाणे राखिया —

भाटी गोयदास मानावते ।  
राठोड जेतसिंह राजा उदेसिंह जी रो ।  
राठोड महेशदास सूरजमलाते ।

— — — — —

रा० माडूल रत्नसिंहोत ।  
राठाड माधवदास पूरणमलात ।  
रा० भगवानदास वाधोत ।  
रा० बलभद्र अचलदासोत ।  
रा० जगनाथ कर्त्याणदासोत ।  
रा० हरदाम महेमोत ।  
रा० जसवत भाणोत ।  
रा० अमरा आसकरणात ।  
रा० करण मानसिंहोत ।  
रा० सिंह भाणात ।  
भाटी ईसरदास हरदासोत ।  
रा० गायदाम कानात ।

1 अदाव/नणसी 1 पृ 8 212।

2 1614-15 ई ।

3 1613-14 ई ।

4 बुधवार, सितम्बर 12 1610 ई ।

मुद 2 रविवार<sup>1</sup> । तस्त ऊरे श्री शहजादा जी बेठा तद राणाजी आय तिन  
सिलाम कियो । तरे श्री शाहजान जी तस्त ऊपरे बठा थका ऊचेर सा<sup>2</sup> होय पाव  
सगाया । श्री शाहजादा जी वसगा रो इतरा नू हृष्म कियो, थीजा ऊभा रपा—

राणो भमरसिध जी ।

राजा मूरसिधजी ।

भवदुल्लाह खां ।

राणा जी मिल थोग दोय ढरो थो तठ गया । कबर करण आया श्री  
शाहजादे र पावा लागो । श्री शाहजादा जी साथ लेने भजमर श्री पातसाहजी र पावे  
सागा<sup>3</sup> । पथे थाणा सगला उठिया । वरस 9 राणा नू विसो रयो ।

सम्बत् 1668 रा पोय मुद 11<sup>4</sup> सीसोळिया भीव गाव ईसाली मारन  
निकलियो । तर राठोड तिलमण नारायणोत राठोड भ्रमरो सावलनासोत बाहर  
आपड ने बाम आया । सम्बत् 1668<sup>5</sup> श्री कबर जी जोधपुर था भाटी गोयदासजी  
नाडूल बानी था तर राणा रा साथ दोय हजार असवार घहमदावाद थी कतार  
आगरे जावती थी तिण रो हेरा कर<sup>6</sup> दोहिया । दुनाडा ताइ राणा री फोज आई ।  
कतार भठा पहली निकली । राणा रा साथ खाली पहियो । पाछा फिरता नू गाव  
मूलवा मालगढ भाद्राजण बने आड बाहर भाटी गोयदासजी आपडिया । च्यार  
सा अस्वार तीन हजार पाला भानी गोयदासजी कन था त्या कन दोय हजार  
राणा रा भागा । श्री महाराज री पत हुई । राणा रा इतरा सेरदार था—सीसोदियो  
सखो राणा प्रतापसिध रो सीसोदियो बाघ अमरा रा भालो छब्रसाल सालवी  
बीरमे राठोड किशननास गोपालदासोत राठोड हरीदास बलूमोत, सीसादिया  
माधवसिध सादून राणा उद्यसिहात सीसोदिया सहमो राणा प्रतापोत सीधल  
राणा उद्देसिध रो, राठोड भीव करणात माला रो, देवडो पता क्लावत सोधल  
अमरा भाडावत सीधल तोणा भाडावत सोनगरो कसोदास भाणात सोनगरो  
सावतसी नारणदासात । 6 राणा रा रजपूत छव बाम आया । राणो भमरसिध

1 रविवार फरवरी 19 1615 है । सही तिथि—काल्गुन वदि 2 1671 वि  
(=रविवार फरवरी 5, 1615 है) । जहांगीर पृ 343-344 ।

2 थोडे ऊपर उठ कर ।

3 जहांगीर (पृ 344-345) के अनुसार कु वर कण काल्गुन मुदि 2 1671  
वि० (रविवार फरवरी 19 1615 है) को शाही दरबार म गया था ।

4 शनिवार जनवरी 4 1612 है । 5 1612 है ।

6 तलाश करवे ।

व्रम्मवाकि<sup>1</sup> रे भाव्यर थो उठा सू कु बर भरजुन ने धोडा दे कतार ऊपर मेलियो थो । इण मामता री बदगी सू भाटी आसकरण रा वेटा गोपालदाम न गढ जोधपुर रा गाव सेजडला इतायत हुवो भारपव भाटी गोपदास री । उरजनीत भाटी जद सू जोधपुर चाकर है ।

सम्बद्ध 1671<sup>2</sup> श्री शाहजादा जी कन उदयपुर श्री राजा जी था । श्री कबर जी भाटी गोपन्दाम जी साथ लेने सिराही राव सूरजसिंह कन पमवशी रिकी तर शाहजादे जो बुरा मानी ।

सम्बद्ध 1670<sup>3</sup> प्रोत वरण नाडूल थी जोधपुर जातो था । राणपुर कन अवदुल्ला सा उतरियो थो तर वयो कुण थे , तर वह्यो वरण थे<sup>4</sup> तर बवर करण सीसाइयो जाण मारियो । देहरा बारे जणा 13 तरह सू बाम आया ।

कु बर थो गजसिंह जो सम्बद्ध 1667 रा आसान मुद 3<sup>4</sup> नाडूल रा थाणे लिया तरै इतरा रेजपूत नाडूल थाएं रानिया —

भाटी गोपदाम मानावत ।  
राठोड जर्मिय राजा उदैसिय जी ॥ ।  
राठोड महेशदास सूरजमलोत ।

— — — — —  
रा० नाडूल रतनसिंहोत ।  
राठोड भावदवदाम पूरणमलात ।  
रा० भगवानशास बाघोत ।  
रा० बनभद्र अचलदामोत ।  
रा० जगप्राप बल्यालुदासोत ।  
रा० हरणम भहसात ।  
रा० जगवन भाणुत ।  
रा० अमरा आसकरणोत ।  
रा० करण मानसिंहोत ।  
रा० सिंह भाणोत ।  
भाटी ईसरदास हरदामोत ।  
रा० गावदाम करनोत ।

1 अदाव/नणसी 1 पु 8 212 ;

2 1614-15 ई ।

3 1613-14 ई ।

4 बुधवार, सितम्बर 12 1610 ई ।

रा० सतसी गोपालदासोत ।  
 रा० भोपत गोपालदासात ।  
 ऊहड माडण गापालदासोत ।  
 रा० लक्ष्मण नारायणोत ।  
 रा० लूणो सीघात ।  
 रा० राजसिंह विशनदासोत ।  
 देवढो अमरो बीजावत ।  
 रा० लूणो दासावत ।  
 देवढो आस्करण क्लावत ।  
 देवढो जसवात बीजावत ।  
 भाटी सिध रूपसीयोत ।  
 देवढो महेसदासात क्लावत ।  
 रा० जैसिध चादावत ।  
 वाहडमरा भनाहरदास भेरु दासात ।  
 रा० खगार चादावत ।  
 रा० घमरो चादावत ।  
 रा० जसवात भादावत ।  
 रा० सूरजमल गोगावत ।  
 सानगरो राधवदास भीवात ।  
 रा० भचलदास भापनात ।  
 सीनगरा बणीर पूरणमलात ।  
 सानगरो दईदास सूरजमलोत ।  
 रा० सीधल लक्ष्मणात ।  
 रा० शबरदाम भाणात ।  
 रा० जेमा लक्ष्मणात ।  
 रा० कल्याणदास रतनमिधात ।  
 रा० राधवनाम बीरावत ।  
 रा० हिंसोतनास रतनमिहोत ।  
 रा० कल्याणदाम पिरागात ।  
 रा० सामदास गोपालदामात ।  
 रा० नरहरदास मानसिंहात ।  
 रा० प्रधाराज बानात ।  
 सानखा पूरणमल थेतसीदृगात ।  
 रा० भगवानदास गुरताणात ।

जोधपुर राज्य की स्थान

राठोड मूरजमलोत वाघ सू लड मुग्रा ।  
 सोनगरो जसो गोदावत ।  
 सीधल तोगे जतमालोत ।  
 चुवाण पचायण हमीरोत ।  
 हुल पतो भदावत ।  
 सानगरो चढो पीयावत ।  
 चुहाण धनो ।  
 राठोड नरहरदास ठाकुरसिंहोत मडलो ।  
 भाटी बाह ।

पाणे साथ असवार 600 तोभची 500, पाला रजपूत 900, साई र द  
 मम्बत 1670 रे वरस<sup>1</sup> रहता ।

रा० ईसरदास हरराजात ।  
 राठोड अमरा आसकरणोत ।  
 राठोड साहुल रतनसिंहात ।  
 राठोड जसवत भाणोत ।  
 राठोड मनोहरदास भापतोत ।  
 कङ्हड माडण गोपालदासोत ।  
 सोनगरो सूरजमल उदसिंहात ।  
 राठोड बीतो भानीदासोत ।  
 राठोड क्लो भानीदासोत ।  
 चाहाण धनो ।  
 राठोड भगवानदास वाघोत ।  
 राठोड नरसिंपदास जगमालोत ।  
 राठोड सिंध भाणोत ।  
 राठोड मनोहरदास भाणोत ।  
 राठोड भोजराज कानोत ।  
 सोनगरो दईदास सूरजमलोत ।  
 राठोड करण मानसिंहोत ।  
 राठोड जसो लखमणोत ।  
 कङ्हड भरवदास ।  
 राठोड 5 मडला ।

दयालदाम ।  
 पूरणमन हेमराजोत ।  
 नाथो रामदासोत ।  
 केसादास रतनसिंहोत ।  
 माधवनास रतनसिंहोत ।

—  
 भायल 5 जणा पाच —  
 रतनो ।  
 अमरो ।  
 जमल ।

— ।  
 मानो ।

विगत अस्वार 300 तोपची 100  
 राणपुर र थाणे सम्बद् 1670

राठोड कत्यादास वरसलात मुखीयो ।  
 सोनगरा जसो गोदावत ।  
 सोनगरो भोपत केसादासोत ।  
 राठोड सावलदासात भाणोत ।  
 राठोड आसवरण प्रथीराजोत ।  
 सानगरा सूरजमल गागावत ।  
 सोनगरा माधवनास भीवा ।

विगत अस्वार 100, तापची 60 नाडूल थाणे । साय भेला कीजे तर  
 इतरा पाला भेला हुवे । नाडूल सू माव चतरा बोसा सू —

आदमी	गाव	कोस
400 राठोड करमसिंह	मवरी	15
500 राठोईदास बानोत	भाद्रजल	7
500 भणो गोइन्ह कनो	धदला बडो	16
200 सीघल तामा जतमालात	गोपन्ननाव	15
60 राठोड गोइदास कलावत	तामावाम	8
100 सालमी चादो पीयावत	गाव	7
200 प्रमरा आमवरलोत	गाव इमाली	9
400 राठोड सवरदास भाणोत	सहेली	12
500 सोलमी जसा गोनावत	गाव कुलयामो	15

100	चौहाण पचाईण हमीरात	राहण	15
100	भाटी प्रथीराज कानोत	बला	14
100	बोराणे मूरजमल गागावत	नावी	9
500	राठीड बल्याणदास पिरामोत	गाव	—
400	सोलखी पूरणमल सतसीयात	सीरीयारी	10

4360

राणा भ्रमरसिंह जी री घरतो रा इतरा गाव गजा जी मूरसिंघ जी न पातभाह निया था, भाटी गायन्दास लिखाय लायो था 14 गाव चावलाद रा।

1	चावलाद देवढा आसवरण बलावत २ ।		
1	कीरवा देवढा आसवरण ।		
1	सावडो सोलखी जसा ।		
1	चागवा देवढा आसवरण २ ।		
1	नावी		
1	देवढो आसवरण ।	चाहाण करण	
1	बीठोडो		
1	मानखी माधवनास ।	देवढो आसवरण	
1	मूदेलाल	देवढा आसवरण २ ।	
1	चापोद्रा	देवढा आसवरण रे ।	
1	भालूदो	देवढा आसवरण रे ।	
1	ढासा रा गाव ५=	देवढा आसवरण रे ।	
1	बहगाव	देवढा आसवरण रे ।	
1	बालनाई	सोलखी देवीदास ।	
1	बावा गाव	देवढा आसवरण ।	
1	पाचवो	देवढा आसवरण ।	

14

84 खोड ग गाव

1	खोड 4000} पालस ।		
1	डीघाई राठीड प्रासवरण साहुलोत ।		
1	टायवाली बडी राठीड नारायणदास ।		
1	टायवाली युरद राठीड	अचलदास	
1	सोडावास देवीदास रे		
1	सापूनी राठीड जमल	1 ठाकुरनास ।	

१	नीवाडा भावणा	१	बुसी 200) सालसे
१	अहलाणा।	१	इङ्गवाडो राठोड जसवत
१	भाईलाऊ	१	सपेटावास
१	खूपुरो बाभण	१	हिरण्यखुरी
१	सालसिया	१	जवातिया 1500 सालमे
१	नादणो	१	दासाणी।
१	अडाकास बाभण	३	रावडियो
१	देवली	१	दूठाडियो रेख 800
१	सावलो	१	राठोड गोपालदास मानसिंहटेन
१	राईपुरियो बाभण		
१	खारडो	१	पालबणी बाभण
१	रुघडी।	१	करेली बाभण।
१	बणदार बाभण।	३	नीपरड।
१	विसनंदी बाभण।	१	सीटवास।
१	बोरटी।	१	महेवी बाभण।
१	विहन या।	१	आखल।
१	सीवाडो रेख 3000)।	१	मोहनी।
१	विहरी।	१	पनानो।
१	जोजावर थाणे	१	मु० केसा रो चाकर।
१	वासोर।		
१	कोलर।	३	सभ्यडो।
१	केसुली।	१	काईसवाडो।
१	जीकाद।	३	कोट।
१	तुडलाई करहट।	१	सोमेसर।
१	ग्रानो।	३	डाईलाणो।
१	छाडवो।	१	सवेनी।
१	जापी।	१	वाघोल अरहट।
१	घटालिया।	१	सोनाण।।
१	डेलडी।	१	देसुरी।
१	सोभावो।	१	धाणेराव।
१	कोटडी।	१	करणवो।
१	गोराली।	१	डालोप।
१	राजपुरो।	१	चाडावास।
१	सादडी।	१	सरगबास।

१	भादो ।	१	भू टाणो ।
१	सोदरडी ।	१	जीभा ।
१	उदरथल ।	१	दलवाडियो ।
१	दादाई ।	१	माडीकर ।
१	बीजबी ।	१	सरथूल ।
१	बींधरला ।	१	बडाद ।
<hr/>		१	राणीकाव ।

84

सम्बत् 1669 रा जेठ मुद 7<sup>2</sup> नानोर रो गाव भावडा भाटी सुरताण मानावत राणा मगर रो चावर था तिण ऊपर इतरो साथ प्रायो-राठोड गापालदास भगवानदासोत 3 राठोड रामदास चापावत रा बेटा सर्वर्सिंह सूरसिंह मुदरदास, राठोड नरसिंघदास बल्याणदासोत साथ ले आया । तर भाटी सुरताण गाव बार साभो माय लड काम आयो । जणा 53 मूँ काम आयो । जोधपुर खबर आई राजा सूरसिंह जी था तर भाटी गोपदास भरज करने कबर गजसिंह जी ने क्यो—‘भाटी सुरताण मारियो तिण रो कपर कीजे । तरे जोधपुर थी चढने जेठ मुद (?) नै गाव तीलिया कने राठोड गापालदास भगवानदासोत नृ मारिया । भाटी सुरताण रा इतरा काम आया—

- १ माखला ढूगर ।
- २ नेतो पाहु ।
- ३ चाचिंग पीधो ।
- ४ सीधल राणो ।
- ५ नेलोत गानो ।
- ६ रेवारी सेखो नागा रो ।
- ७ साखलो रायमल ।
- ८ राठोड दिरागदास मानधातर रा ।

महाराज श्री सूरसिंह जी अहमदाबाद सू पाद्धा पवारता, महाराज वंवर था गजसिंह जी भाटी गोपदास जी सामा गया था । तर सिरोही सारो ही माथ नेलो हूबो ने श्री राजा जी कबर जी भाटी गोपदास मानावत कूपावत खीया माडणोत । सिरोही रो राव सूरसिंह देवडो प्रथीराज थो बेटो भेटदाम चारण भाको । दुरसो, इणा सका भेला होय ने राव रायसिंह जी मालदेवोत रो वर भागिमा, ने आ परठ<sup>3</sup> किकी सम्बत् 1669 रा जेठ मुद 9<sup>4</sup> मुकाम सिराही ।

१ रविवार मई 16, 1631 ई ।

२ मई 1613 ई के तीसरे सप्ताह में ।

३ लिखावट ।

४ मगलवार मई 18, 1613 ई ।

महाराज श्री सूरसिंघ जी नहाराज कवार श्री गजसिंघ जी बचनात् सिरोही सूरसिंघ जी रो वेर थो सा भागा । राव सूरसिंघ सारणेश्वर विचे द कवरजी मे परणावण न बीजा 29 राजपूता न नालेर भत्ताया । दत्पाणी मूझा ज्यारा भाई तथा वेटा मे नालेर भलाया । ज्या गुणतीस राजपूता ने कवर गजसिंघ जी परणीजसी तिण सावा पर परणाय देणा । और वाहडमेरी जी रो गहणो बीजा ही हाथी घोड पेसकसी रा ज्यु राव सुरताण कबुलिया छ मोटा राजा ने सु देशी पठ वार<sup>1</sup> (आढा) दूरसा ने जोमी कत्याण हसत राव सूरसिंघ किंषि छे । तिण परवाण हालसी । सम्बत् 1668 रा फागण वद 6<sup>o</sup> मत । देवडा प्रथीराज भेरवदास । वाजोट । रूपा रो राव सूरताण थका रो हे से देसी । सम्बत् 1669 रा जठ सुद 9<sup>3</sup> ।

इतरा नालर देमी  
राव रायसिंघ रे वेर  
थी राजा जी

श्री कवरजी

राठोड साढुल महेसोत र वर राठोड जसवात साढुलोत नू देसी कला मूरावत री वटी ।

राठोड पूरणमल माडणोत र वर—राठोड धीवा जी रा वेटा नू ता कला मूरावत री वेटी ।

राठोड माधवास पूरणमलोत नू देवडा आसारी वेटी ।

राठोड वाध तिलोकसीयोत र वर राठोड जसवात वाधोत रा वेटा नू दसी देवडा वरजाग कु भावत री वेटा ।

राठोड गोपालदास किसननासोत रे वर राठोड भोपत गोपालदासोत नू देवडा भाण सदरावत री वरी ।

राठोड ईसरणास कला प्रतापसिंघ रे वर राठोड भोपत कलावत रा वेटा अचलदास नू देवडा मडला अचलदासोत री वटी ।

1 साक्षी कर्ता ।

2 बुधवार फरवरी 12 1612 ई । स्थात० मं यहो निय स 1668 वि वा श्रीमा (जोधपुर 1 पृ 384) न यथावत स्वीकार किया है । परतु रामकण यासोपा (सधिष्ठ पृ 338) और रेझ (मारवाड 1 पृ 189) न यहा स 1669 वि माना है जो अधिक सही जान पड़ता है तदनुसार रविवार जनवरी 31 1613 ई ।

3 मगलवार, मई 18 1613 ई ।

भाटी बाहु धावोवत र येर बाहु रा बटा नू बासीगा भरमगी री बेटी ।  
भाटी भाला रायमलोत र बर भाटी अमरा भालात नू देवहा अजसी  
री बेटी

भाटी बला थोलावत रे बर बाजा रा बेटा नू दवडा अजसी री बेटी ।

राठोड लूणपरण मूरतालोत र बर राठोड बरणा मानसिधोन नू देवहा  
सोबनास रायमलोत री बेटी ।

राठोड गोपालदाम बीदावत र बर राठोड धासा नीदावत नू दवडा बभा  
रायमलोत री बेटी ।

चोहाण सरवा र बर चोहाण अमरा नू गठोड देदा नरमिहात री बेटी  
परणावसी ।

राठोड पीथा बनावत र घर राठोड ढाकुरसी पीथावत रा नू दवडा मुरजा  
देवीगामा री बेटी ।

पीथाडो बिमना दूदावत र बर पीथाडा अमर बिमनावत नू राजमिष्य  
मगलोत री बेटी ।

राठोड पीथा राजमिष्य बिमनावत र घर राठोड नया बलावत रा बेटा न  
देवहा सीवा री बेटी ।

पचोली भालु अमावत रे रुप्या 500) जी रोड ऐसी ।

बारठ ईसर र बर बारठ ईसर रा बटा नू आगिया दला री बरी परणावसी ।

धाधू खेतमा र बर धाधू ईसर परणामी ।

बाना महनात ।

मूढो राजसी ।

चोहाण भीव माचारा ।

मारनियो गोपालो ।

पडव सार्दिस ।

भारी नेतमी ।

आहुश बचरो ।

मागलियो जमन ।

शीतो ।

धायभाई रामो ।

~~~

आइ दुर्गा ने जोसी बल्यालादास हसत परठ इए मुळव दिवी "ओ"  
महाराजधिराज महाराजा थी मूर्तिष्य जी महाराज क्वार था मजसिध जी बचनात  
निरोदी मू राव रायमिष्य मालदेवीत रा बर हृतो सा बर राव जी श्री सूर्गसिध जी

मूँ वेर भागो । तरे इतरो परठ बी, जरे थी पातसाह जी री खिदमत करसी । दबाईथी<sup>1</sup> लेन सिराही री धरती माहे अमरा रो छोकरो निसरण पाव नही । थाले श्री कवर जीरो साथ रहसी । तठ राव सूरसिंघ रो साथ पिण रहसी । पिरथीराज वे मुखया माहलो एक ढोल रहसी वे यारा बेटा रहसी जितरा विवाह घोडा श्री महाराजा जी मूँ राव सुरताण जी कबूलिया था सो देसी । ने श्री कवरजी नू परणीजण नू लगन नालेर मेलसी । तर उणहीज साव श्री कवरजी ने जिके राजपूता नू नालेर दिया छे, त्या सूधा परणीब्रगासी । इए बात रा भाटी गोयदास जी रो वाल छे । श्री महादेव जी विचे टिया छ । श्री कवरजी परणीजसी । तठा पछे श्री पातमाह जी बुलावसी, तरे राव सूरसिंघ नू साथे लने पातसाह र पावा लगायसी । न जितर श्री पातसाह जी कवर जी ने नही तेडे तठा तार्द देवडो प्रधीराज देवडा रामी भेरवदासोत श्री कवरजी र कने रहसी थाण भाटी गोय गासजी सिरोही जाय राव मूँ प्रधीराज मूँ मिल कवरजी कन लावसी । तरे भाला सत्रसाल वालो हाथी ने जडाव रो कटारा<sup>2</sup> देवडा विजा वालो साथे आण न कवर जी ने नजर करसी । ने कवरजी परणीसी तरे गहणो आछो तरह डायजे<sup>3</sup> दिराजसी ।

राव श्री रायमिध जी रे देरासर री सामग्री सालगराम जी दाहणा वर सख बीजी ही सामग्री संवा री और शस्त्र सिल नगारो और रायमिध जी रा रज्यपूत भाराणा ज्यारा शस्त्र सरवेत<sup>4</sup> देसी । नही हुवे तिण री सुसर्व<sup>5</sup> करसी । सम्बत 1668 रा फागुण बद 6<sup>6</sup> इतरी परठ भाटी गोयदास राठोड रामसिंघ इसलात कवरजी मूँ बीनती करने आवता था पछे मतू गढवा दुरसे जी जोसी कल्याण ॥ ॥ ॥

महाराज श्री सूरसिंघ जी रे जालार लिखाणी जद भाटी गोयदास आसावत<sup>7</sup> ने हाकम मेलियो थो ।

सिरोही राव रायमिध सुरताणोत ने देवड प्रधीराज धरती माहे मूँ काट दियो । तर दयालदास गोयदासोत राजा जी रो साथ ले जाय राव रायमिध न पाढो सिरोही गादी वसाणियो । तरे सासोदिया परवतसिंघ रुद्रसिंधोत देवडो रामा भरवोत चीबो ढूदा महरोत वागडियो गोपालदास सोनवी आसो आढो दुरमा महावत सहा तजपाल या आय बात कर इतरा गाव तिरोही रा महाराजा जी सूरसिंघ जी ने राव रायमिध सुरताणोत पसकसी रा दिया । तिण री विगत —

1 इजाजत ।

2 बडी कटारा ।

3 दहज म ।

4 समस्त ।

5 शपथ ।

6 बुधवार, करवरी 12 1612 ई ।

7 सही नाम भाटी गोपालदास आसावत । रामकरण संक्षिप्त पृ 45-346 न९सी०, 2 पृ 382, 384 ।

|            |                |
|------------|----------------|
| 1 बाटो ।   | 2 कालदरी ।     |
| 3 वालडी ।  | 4 नारायणा ।    |
| 5 बतामरी । | 6 भादाली ।     |
| 7 रायपुर । | 8 बहमणो ।      |
| 9 विलाटा । | 10 वाडीवारास । |
| 11 माचाल । | 12 रावाडा ।    |
| 13 नावी ।  | 14 सेलवाडा ।   |

मेरे चबद गवारी मास अग्रण लट गई थी<sup>1</sup> और माल रा नव हजार पौराजी न तर हजार मास गहर हङ्कूर न दिया । महाराज थी मूरमिधजी बवर श्री मजसिध जी राठाड वीरम बतायत र बासत जाप श्री द्ववसाल जी भाटिया लाल जी महूर न दियो बीरमदे ने महेवा देसी । रावल वीरम<sup>2</sup> कहामी तजसी नहीं कहावसी, जु रावल मेघराज दस परदेस री चावरी करता, तथ् करमी जितर असवार रावल मधराज देस माहे ब्राप्य हीडा करता नितर असवार बीरमदे हीडा करसी । जिर मुहूर माहे हीडा करती तितर युहम हीडा करसी । श्री राजाजी श्री कवर जी या दिमुख हुसी ता थी परमशक्तरजी था बमुख । रावल माली विके छै<sup>3</sup> । इतरा पेसकसी 20,000) महमूरी थाडा 20 धणा मलवरा<sup>4</sup> थी राजा जी होय बरन<sup>5</sup> चुण न स तिके थाडा देसी । त्या माह जापसाही (महमूरी) दस हजार ने थाडा 10 ता पहली पमकम बरसी ने "म हजार जाममाहो (महमूरी) दस थोडा महेवा माट प्राय एक मास रिया पद्धे देसी ।

सम्बद् 1670 रा मिनमर सुद 2<sup>6</sup> मुकाम मनोहनड भाटी गाम-नास जी रा हङ्कूर लिखिया । भाटी गाय-दासजी नू भाटिय लाल जी परठ लिख दीधी छे । विहाव एव रावल वीरम<sup>2</sup> देसी । जिग नू गोपदासजी भाई भतीज नू कहसी तिए नू परणावसी । सम्बद् 1670 रा मिनसर सुद 2<sup>6</sup> मुकाम मनोहनड ।

भाटी गोपदास मानावत महाराज सूरसिध जी थागे खुद मुह यार मुसायव था । गोपदास ने परधानगी दिकी थी । गोपदास सारा मुल्ह रो परवध बाधिया । दीवारण, द्वारशी, हाकम कारकूर पातालार घाकरमदस, घावमासा घाटदवस्तही

1 नगान बसूल हो गया था ।

2 लालजी वो भेजकर कहा ।

3 रावल महलीनाथ साढ़ी स्वरूप हैं ।

4 उनम जाति के, गच्छी नम्ल के ।

5 इच्छा बर के ।

6 गुरुवार नवम्बर 4 1613 ई ।

वगरह ओधादार मुकरर किया । राव रिडमल जी जोधा जी सूजा जी मालदे जी, उद्देसिध जी रा बस रा काका बाबा भाया रो गना<sup>1</sup> पाटबौ सू राखता सो सारा ने उमराव बणाया । ने कुरब बाधियो डाकी जावणी मिसल बाधी । रिडमलजी र बस रा डाकी मिसल म राखिया जीवणी मिसल मे सिरोही आउवा रा चापावता ने दिया । उमरावा मुसदिया री लुगाया जनाना भ जावती सो मोक्ख राखी<sup>2</sup> । खवास पासवान थामिया । जामे खीकी तरखार राख धाघल चबर राख इण तरे कटकणा बाधिया । आगे भोमीचारा री पादरमली रीत ही सो पातसाह री रीत बाधी ।

### सायद री निसाएँ

गोयदासजी गरजिया मरहदेवार<sup>3</sup> । के थापे के ऊथपे मैवासा भारे ।

सम्बत् 1669 रा जेठ सुद 7 लवेरा रा भाटी सुरताण मानावत गोयदास रा भाई ऊपर राठोड सुदरदास मुरसिध रामसिधोत ने राठोड नरसिधदास कल्याणदासोत ने राठोड गोपानदास भगवानदासोत भाया ने मुरताण ने मारियो । बेसरीसिधोत जाधा सूरसिध तो उठे हीज भाटी सुरताण र हाथ मारिज ययो ने राठोड गोपालदास भगवानदासोत धायल हुवोडो निमरियो सो बबरजी थी गजसिध जी ने भाटी गाय दास लार चढ़िया । सो मडता रो गाव खाखड़की कने जाय पूगा न गोपालदास न मारिया ।

पातसाह जटानीर अजमेर नायो तरे महाराज सूरसिधजी बबर गजसिध जी पातसाह री हजूर अजमर गया । किशनगढ़ का राजा किशनसिध जी राठोड बरमसेण उग्रसणोत राठोड सगतसिध उद्देसिधोत इणा मेना होय न पातसाह जी सू अरज किवी — राठोड गोपालदास माहरो भाई तिण न भाटी गाय दास मारिया ।

तर पातसाह फुरमायो ये गोयदास न मारो । तरे इणा भरज किवी गोयनाम महाराज मूरमिष रो चाकर है । जद पातसाह फुरमायो ढरा मायने जाय मारो । तरे सम्बत् 1671 रा जठ सुद 8<sup>4</sup> रिणनसिध जी साथ भेलो करने दिन री उगाड ल<sup>5</sup> श्री राजा जी री फोज म गोयदास जी रा ढरा ऊपर आया भगडो हुवो । भाटी गोयदास न मार लियो । तठ “तरा रजपूत राजाजी रा बाम भाया —

1 सबध रिता ।

3 राजा मूरमिष के पर ।

4 गुरुवार मई 25, 1619 ई ।

5 उन्य वेना म ।

2 स्थगित थी ।

## जोधपुर राज्य की स्थान

भाटी गोयदास मानावत ।  
 राठोड तिलोकसी सूजावत ।  
 राठोड बेसोदास सावलदासोत ।  
 राठोड भोपत कलावत ।  
 हल पतो भदावत ।  
 सोनगरो कसोदास ।  
 चचाण नरहर चिरणात ।  
 पवार केसो ।  
 भाटी पिरथीराज ।  
 धायभाई केसो मानावत ।  
 भाटी रायसिधोत करमसी ।  
 चीहाण साजण सीवावत ।  
 भाटी भादो नाराणदासात ।  
 भाटी सूजो भेरावत ।  
 भाटी गोयदास भेरावत ।  
 भाटी बलो कानावत ।  
 भाटी कु भो पतावन ।  
 भाटी भनोहरदास गोयदासोत ।

महाराज पौढ़िया था । सा हावो सुण अपानी हुवा । गोयदास मरिया री  
 मालूम हुइ । कवर जी गजभिष जी न लार चडाया । सो किशनगढ रा मारग मे  
 जाय पूगा । राजा किशनसिंध उद्दर्सिधोत नू मार लियो । किशनसिंध जी रो साथ  
 काम आयो, लिए री विगत —

- 1 राव करण राव सकर्तसिध रा ।
- 1 राठोड खेतसी गोपालदासोत चापावत ।
- 1 राठोड वाघो खेतसीयात ।  
खगारोत सूरसिध हमीरोत ।  
भाटी जिवा ।
- राठोड बिसोरदास बत्याणदासोत ।
- राठोड सावलदास सुरावत ।  
मालो लिखमणोत ।
- राठोड माधादास रामदासोत मेडत्यो ।  
राठोड गोपालदास बाघोत जेतावत ।
- भाटी घनो वरमसेणोत चाकर ।  
राठोड मानसिध बत्याणदासात ।

सिसोदिया भारमल ।  
 का मूरे नारणात ।  
 का० लुदर चनवत ते भगो० ।  
 रा० पिरायनाम सुरताणोत ।  
 गहनोन राधो हिंगोला सेवो धीरो ।  
 चक्रकर कानो ।  
 भाटी भीबो बाधा ।  
 गाव बीठवामिया रा जणा 3 ।  
 मववाणो विसनो ।  
 कछवाहा भोपत ।  
 हुल जणा 3 ।  
 दयो नापो महेस ।  
 मालवी लाडवानी ।  
 कछवाहो दूना ।

— — —

रजपूत जणा 81 रिण म रथा । वेत महाराज रा साय र हाथ रहयो ।  
 सम्बद्ध 1673 रे पातसाह जहांगीर<sup>1</sup> अनमेर र मुशाम क्वरजी गजमिध जी न  
 जालोर लिख दिवी पुरमायो । विहारिया कना सू छुडाय लेवा । तर गजमिध  
 जी जालोर खाली कराय लिवी । विटारी नास पालगपुर गया ।

सायद रो दूहो ।

बार बरस अलावदी पिह फीटा<sup>2</sup> पिटसाह ।

चढिया घाडा सोनगढ़<sup>3</sup> ते लीघो गजसाह ॥1॥

विहारिया रा काम आया तिण री विगत —

- 1 अवन्नल खा ।
- 2 सालारखा ।
- 3 ताजला ।
- 4 केसरखा ।
- 5 हेतूसिंध ।
- 6 मुहतो राजसी ।

1 जालार का परगना शाहजाहा खुरम को दे दिया गया था, और खुरम ने ही  
 जालार सूरसिंह को दिया । जातोर परगना री विगत (हस्ततिक्षित),  
 नणसी० 1 पृ 135 ।

2 लंगित ।

3 स्वणगिरि जालोर ।

ने बालात पचायरण निवलियो । ने राजा जी रा साथ म साहेणी राई सिंह पाचावत बाम आयो गोली लागन ।

फलाधी रो परगनो बीकानेर रा राव सूरसिंह रायमिश्रोत नू पातसाह जी किल दियो थो । सो सम्बद्ध 1670 र पाढो सूरसिंह जी ने दिया ।

महाराज श्री सूरसिंह जी हपा री तुलाव<sup>1</sup> दाय वार विराजिया ।

1 चढ एहण म जोधपुर सूर सागर क्षपर सम्बद्ध 1670 रा बाटी सुद 153 तुला विराजिया ।

2 महार म अत अवस्था समै सम्बद्ध 1676<sup>2</sup> म तुला विराजिया ।

लाय पसाव च्यार 4 दिया—

1 वारठ लया न ।

1 कविया भानीदास ने ।

1 साढ़ माला ने ।

1 भाट गोप ने ।

लाल पचास एक रा हप्पा हजार पच्चीम 25000) दिरीजता । सूरसागर तलाव जोधपुर करायो सम्बद्ध 1663<sup>3</sup> रा रो मोहरत कियो । भाटी गोपदास मानावत ऊपर गयो थो, तिण तिणायो वधायो ने सूर सागर रा पठा क्षपर कोट महल वाग करायो । सूरज कुड करायो ।

सम्बद्ध 1654 रा पीय वद 116 जसलमेर सूर रावल भीम रा डोड हजार अस्वार कोलणा सूर अघ कोस क्षपर आया । तर कहड गोपालदास सामै जाय बेढ किकी । सो रजपूत पंतीस सूर गोपालदास बाम आया । जसलमर री फौज सूधी जसलमर गई ।

सम्बद्ध 1654 रा काती वद 147 गाधारी सूर रावली साढ़ीया बीकानेरिया ली । तर मायलियो सूरो ने राठोड हरदास महेसदासोत आपडिया सादिया छुडाई ।

मागलियो सूरो घनराज रो रजपूत थो सो घावे पडियो ।

सम्बद्ध 1648 रा माहा सुद 38 सूरसिंह जी क्वर पदे डाढी सबराई<sup>4</sup> तरे मडोवर गोठ सबली हुई । तठे इतरो दियो । वापा 74 घोडा 20 घोल तरवारा

1 1613-14 ई । विगत<sup>5</sup> (2, पृ 57) के अनुसार स० 1672 वि ।  
(1615-16 ई) म ही कलोदी का परगना सूरसिंह को मिला था ।

5 1606-7 ई ।

2 रजत तुलादान ।  
3 सोमवार अवकूवर 18 1613 ई ।  
4 1619 ई म ।  
5 1606-7 ई ।

9 दाढी रखवायी ।

6 शनिवार दिसम्बर 24 1597 ई ।  
7 शनिवार अक्टूबर 29 1597 ई ।  
8 शुक्रवार, जनवरी 7 1592 ई ।

३७ रथया तीन सौ बत्तीस ३३२ दिवा । टका ४० उमरावा रा खवासा नू हजूरिया नू हुजदारा नू निया ।

सम्बत् १६६० रा माह वद ५<sup>१</sup> श्रीपात दामादराथम जोधपुर आयो तरे लक्ष्म होम करायो ने लक्ष्म भोज करायो । सम्बत् १६६५<sup>२</sup> म खजान रथया ९९ ०० ००१) गड ऊपर चटापा निणालू लाख एक । एकल मह मू यापलाव पाटो थो ।

सम्बत् १६६८ रा पोष सुत् ११<sup>३</sup> सीतोदिया भीव गाव ईसाली मारन निकलियो तरे राठोड लिछमण नारायणोत राठोड अमरो सावलदासोत बाहर चढ़िया सौ बाम आया ।

सम्बत् १६६५<sup>४</sup> मुहुता बेला जाभणात ने जगा अजबाणी न दस री सूप दीवाणगी दी । पछे जगा कने दण्ड भागियो तरे पेट मार ने भूबो । पले बरस दोङ काम कियो थो ।

सम्बत् १६७१<sup>५</sup> रा म भण्डारी मना ने परधानगी व्यास नाथा री मारफत दिवी ।

दिल्ली री तरफ कर फिसाद उठियो । तर सम्बत् १६७५<sup>६</sup> र महाराज सूरसिंध जी ने अजमेर सू दिल्ली ने विदा किया । पीमाण रा डेरा सू क्वर अजसिंध जी नू राठोड राजसिंध यीवावत आसोष रो घली ने व्यास नाथो ने भण्डारी लूणो इणा न देस री भोलावण देने जोधपुर विदा किया । आप बुरहानपुर पथारिया ।

दिल्ली मे महकर<sup>७</sup> रे याए सूरसिंध जी महजादो (खुरम) नवाव खानखाना था<sup>८</sup> । चौतरफ दिल्ली रो धेरो थो । महकर भ रथया रो तीन पाव ही धान मिले

१ बुधवार जनवरी ११ १६०४ ई ।

२ १६०८-९ ई ।

३ शनिवार जनवरी ४ १६१२ ई ।

४ १६०८-०९ ई ।

५ १६१४-१५ ई ।

६ १६१८-१९ ई । जहांगीर (पृ ३६८) के अनुसार सूरसिंह को मगसिर वदि ३ स १६७२ वि (रविवार अक्तूबर २९ १६१५ ई) को विदा दी गई थी ।

७ महकर—( $20^{\circ} 10'$  उ०,  $76^{\circ} 37'$  पू०) बुरहानपुर स ८३ मील दक्षिण म प्रोर बुलढाना (बरार) स ३६ मील दक्षिण पूव म ।

८ शाहजान खुरम सितम्बर १६१७ ई के अन तक दक्षिण स बापस लौट गया था । (जहांगीर पृ ४५५-४५६) । सन् १६१९ ई के प्रारम्भ म जब खानखाना बुरहानपुर पहुचा तब तक मलिक धबर के उपद्रव पुन प्रारम्भ हो गय थ । जहांगीर पृ ६६५-६६६ ।

नहीं। तर सगला ठाकुरा कु भवरण नू कयो जाय ने हजूर सू अरज कर मैं  
माठ दिन रा भूखा था सो के तो हजूर वारे पधार गनीमा सू जग करो, के महकर  
छोड़ कठीने ही पधार जावो, नहीं तो मैं भगला जणा जाता रहता। कु भवरण  
जाय आ अरज हजूर ने किबी। तर हजूर सू आरागण रो थाल न दोय रकेविया  
थ्रे तीन सोना रा वासण<sup>1</sup> कु भवरण नू दिया, तिक धीच बकरा मोल ले सारा  
सरदार गोठ कर खाया। पछ फर अन मिले नहीं जिण सू भूखा मरता सरदार  
फेर कुम्भकरण साथ हजूर मालम कराई। हजूर नवाब ने समाचार सारा कथा।  
“पातसाह रो हृकम छे सो न तो भगडो करा ० महकर छोडा। आ सुण पाढा  
देरा आय हजूर कुम्भकरण साथे चिठियाँ<sup>2</sup>। क्या तू चढ जा। तर आपारा  
पाच प्रसवार ले कुम्भकरण चिठियो। सा महकर सू पाव कोस ऊपर बीजापुर रा  
पातसाह सू मुहमेज<sup>3</sup> हुयो तठे देवजोग सू पचास लिखणी कुम्भकरण मारिया।  
आदमी तीन कुम्भकरण रा काम आया। कुम्भकरण पूरा धावा पडियो, ने दिखण्या  
रो निसाएं खोस लियो। सो कमो सादावत लेने आगे हकीकत कही। तर महाराज  
ने नवाब चिठिया। सो गनीमा सू जग किया फत हुई। लिखण्या री कीज भाग  
गइ। ने हजूर पालखी मेली तरे हजूर री पालखी म वेठ कुम्भकरण डर आया।  
पाटा वशाया, थाव साजा हृमा तर जेतावत आसकरण दैर्दासोत सू बगडी जपत  
कर कुम्भकरण नू पटा सहित बगडी पट लिख दिवी, न देस नू सीख दिवी। पछे  
कुम्भकरण न खफगान<sup>4</sup> हुवो। कुम्भकरण प्रथीराजोत जेतावत थो।

नवाब खानखाना नामिक अद्वक री मुहम गढ़ पीडारो<sup>5</sup> मारियो। तठा सू  
(आई छे) मूरती १ चतुमज जी री आएी। तिका कोठार माह राखी। पछ एर  
तिन श्री राजा जी नू कयो म्हारे कोठार माहे चतुमज जी री मूरती है। गढ़  
मारियो तठा सू आई छे। लो तुम दू दू। तर सलाम करन राजा जी लिवी। सो  
श्री चतुमज जी री मूरत केइ दिन तो साथे रही न पछ जाधुर रा गढ ऊपर  
पधरायी<sup>6</sup>। सवग जोटण सवा करता।

1 वनन।

2 नाराज हुए चिढ गय।

3 मुहमेज = आमने सामने मुठभेड़।

4 खफगान होना=पागल हो जाना।

5 गढ़ पीडारा=इसकी सही पहचान कठिन है। नामिक के आसपाम इससे मिलते  
जूलत नाम का एक मात्र सभावित स्थान वेठ ( $20^{\circ} 15^{\circ} 73^{\circ} 30^{\circ}$  पू.)  
है जहा एक पुराने किले के ध्वसावशेष हैं जो ममुरगडी कही जाती है।  
जटागोर के शासनकाल म वहां दलखी (पवार) घरान का आधिपत्य था।  
बम्बई मेजेटियर खण्ड 16 नामिक, (1883) पृ 384-385।

6 स्थापित की गई।

।

३७, रूपया तीन सो बत्तीस ३३२ दिया। टका ४० उमरावा रा खवासा नू हूरिया नू हुजदारा नू दिया।

सम्बत् १६६० रा माह बद ५<sup>१</sup> श्रीपात दामोदराथम जोधपुर आयो तरे लक्ष्य होम करायो ने लक्ष्य ब्रह्म भोज करायो। सम्बत् १६६५ म सजाने रूपया ९९ ०० ००१) गढ़ ऊपर चटाया निणाणू लाल एक। एकण मेहं सू गोगलाव फाटो था।

सम्बत् १६६८ रा बोप सु<sup>२</sup> ११<sup>३</sup> सीसोन्त्या भीब गाव ईसाली मारन निवलियो तरे राठोड़ लिद्धमण नारायणोन राठोड़ अमरा मावलदासोत बाहर चटिया सो काम आया।

सम्बत् १६६५<sup>४</sup> मुहूता वेला जाभणात ने, जगा अजवाणी ने देस री सू प दीवाणी दी। पछे जगा बन दण्ड मागियो तरे पेट मार ने मूवो। पले वरस दोढ़ काम कियो थो।

सम्बत् १६७१ रा म भण्डारी मना न परधानगी व्यास नाथा री मारस्त दिवी।

निखण री तरफ पर फिमाद उठियो। तर सम्बत् १६७५<sup>५</sup> र महाराज सूरसिंह जी ने अजमेर सू दिखण ने विदा किया। पीसागण रा डेरा सू कवर गजसिंह जी नू राठोड़ राजसिंह खीवाकत आमोप रो घणी न याम नाथो न भडारी लूणो इणा ने देस री भोलावण देन जोधपुर विदा किया। आप बुरहानपुर पपारिया।

निखण म महकर<sup>६</sup> र याण सूरसिंह जी सहजाना (खुरम) नवाब खानखाना था<sup>७</sup>। चौनरफ दिखणया रा धेरो था। महकर म रूपया रो तीन पाव ही धान मिले

१ बुधवार जनवरी ११, १६०४ ई।

२ १६०८-९ ई।

३ शनिवार जनवरी ४ १६१२ ई।

४ १६०८-०९ ई।

५ १६१४-१५ ई।

६ १६१८-१९ ई। जहानीर (पृ ३६८) के अनुसार सूरसिंह को मगसिर वर्ति ३ स १६७२ वि (रविवार अक्टूबर २९ १६१५ ई) को विदा दी गई थी।

७ महकर—( $20^{\circ} 10'$  उ०  $76^{\circ} 37'$  पू०) बुरहानपुर से ८३ मील दक्षिण म ओर बुलडाना (वरार) स ३६ मील दक्षिण पूव म।

८ शाहजाना खुरम सितम्बर १६१७ ई के अन तव दक्षिण स बापस लौट गया था। (जहानीर पृ ४५५-४५६)। सन् १६१९ ई के प्रारम्भ म जव सानखाना बुरहानपुर पहुचा तव तव मलिक अबर क उपर्युक्त पुन प्रारम्भ हो गय थ। जहानीर पृ ६६५-६६६।

नहीं। तर सगला ठाकुरा कु भवरण नू वयो जाय ने हजूर मू भरज वर मैं  
आठ दिन रा भूमा द्या सा बे तो हजूर वारे पधार गनीमा सू जग बरो, बे महबर  
छोड कठीन ही पधार जावो, नहीं तो मैं सगला जणा जाता रहसा।<sup>1</sup> कु भवरण  
जाय ग्या भरज हजूर न दिवी। तर हजूर मू भारोपण रो धाल न दाय रकविया  
भी तीन सोना रा वासण<sup>2</sup> कु भवरण नू दिया, तिब बीच वकरा मोन ले भारा  
मरदार गोठ कर खाया। पछ फर भ्रम मिल नहीं जिण सू भूमा मरता सरदार  
फेर कु भवरण साय हजूर मालम कराई। हजूर नवाव ने समाचार सारा बया।  
<sup>3</sup> पातसाह रो हृष्म द्ये सो न तो भगडो करा न भवर छाडा। भा सुण पाद्या  
डरा आय हजूर कु भवरण साय चिह्निया<sup>4</sup>। वया तू चढ जा। तर आपारा  
पाच भ्रसवार ले कु भवरण चढियो। सा महबर मू पाव कोम ऊपर बीजापुर रा  
पातसाह सू मुहमेज<sup>5</sup> हुयो तठे देवजोग मू पचास दिल्ली कु भवरण मारिया।  
आदमी तीन कु भवरण रा द्याम आया। कु भवरण पूरा धावा पडियो न दिल्ल्या  
रो निमाए खास लियो। सो बमो मादावत लन आयो हवीवत वही। तर महाराज  
ने नवाव चन्निया। सो गनीमा सू जग किया फत हुई। दिल्ल्या री फौज भाग  
गई। न हजूर पालती भली तरे हजूर री पालती भ वेठ कु भवरण ढर आयो।  
पाटा वघाया पाव माजा हृष्मा, तर जेनावत आसकरण दईदासोत सू वगडो जपत  
कर कु भवरण नू पटा सहित वगडी पट लिय दिवी, न देस तू सीख दिवी। पछे  
कु भवरण न खफगान<sup>6</sup> हुवो। कु भवरण प्रथीराजोत जेतावत थो।

नवाव खानवाना नासिक ग्यवक री मुहम गढ पीडारो<sup>7</sup> मारिया। तठा मू  
(आई द्ये) मूरती। चतुमेज जी री आणी। तिका कोठार माह राखो। पछ एक  
टिन श्री राजा जी नू क्यो म्हारे कोथार माहे चतुमेज जी री मूरती है। गढ  
मारियो तठा मू आई द्ये। सा तुम षू दू। तर भलाम वरन राजा जी लिवी। सो  
श्री चतुमेज जी री मूरत वेई दिन ता साये रही न पछे जीयपुर रा गढ ऊपर  
पधरायी<sup>8</sup>। संवग जोटण सेवा वरतो।

1 बतन।

2 नाराज हुए चिह गये।

3 मुहमेज = आमन सामने भुठभेड।

4 खफगान होना=पागल हो जाना।

5 गढ पाडारो=“सकी सही पहिचान कठिन है। नासिक के आसपास इसमे मिलते  
जूलत नाम का एक माथ सभावित स्थान पेंठ (20° 15' उ 73° 30' पू) है। जहा एक पुरान किने के ध्वमावशेष हैं जा मसुरगडी कही जाती है। जहांपर के शामनाल म वहा दलवी (पवार) घराने का आधिक्य था। बम्बई गेजटियर खण्ड 16 नासिक, (1883) पृ 384-385।

6 स्थापित की गई।

।

सम्वत् 1668 रा भाद्रवा वद 11<sup>1</sup> पातसाह राणाजी ऊपर फोज लेने आयो तर थी सूर्यसिंह जी नाडूल रे थाए था । पछे सिलावट एक पचाली जीवराज नू मेलियो, तिए ठाकुर जी री मूरत देखाढ़ी । तरे जीवराज भाटी गोयदास जी नू क्यो । गोयदास हजूर मू मालम करने ठाकुर जी न पधराया, ने आनदधनजी<sup>2</sup> नाव दियो । पहला शालग्राम जी थी लक्ष्मीनारायणजी री सेवा छ । आदू म कल्याणराय जी री सेवा मोहल<sup>3</sup> माह छ । तिका पिण आदू छे । आनदधनजी रा सेवग नाथो तापी रुग्पत पे पदम नाभ छ ।

सम्वत् 1675 रे<sup>4</sup> भाटी प्रधीराज गोयदासोत न परधानगी दिवी न देस त्रिवाणगी भाटी रुग्नाय सुरताणोत नू दिवी ।

महाराज सूर्यसिंह जी रे इतरा पगना हुवा था —

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| जोधपुर ।                                               | सोजत ।     |
| सिवाणो ।                                               | मडता ।     |
| जतारण ।                                                | हिरान्य ।  |
| बडनगर ।                                                | तेरवाढ़ी । |
| राधणपुर ।                                              | मेरवाढ़ी । |
| जालोर ।                                                | फलोधी ।    |
| रतलाम मालवा मे ।                                       | सालोर ।    |
| सातलमर भनमव म पिण अमल नहीं त्रिवाण म चोर गाव राजा रा । |            |
| नाडूल थाए थो तरे गादवाड रो गाव ।                       |            |

— — —

सम्वत् 1676 रा भाद्रवा सुद 9<sup>5</sup> दिखण म महकर रे थाए था तठे देवलोक हुवा ।

महाराज सूर्यसिंह जी रा राजलोक बवरा री विगत —

१ वडी बहू सीसोदणी मनारथ<sup>6</sup> जी राणा उदेसिंह रा वेटा संगतसिंह री वेटी भाटा राजा री बसी फलोधी यक्का बीकू बोहर रहे तद परणाई थी सो पीहर मूर्दू ।

१ शनिवार, अगस्त 24 1611 ई ।

२ इस मूर्ति पर मदिर अभयसिंह ने बनवाया था । घोक्का० जोधपुर I, पृ 23, रेझ० मारवाड I पृ 369 ।

३ महल ।

४ 1618-19 ई ।

५ मगलवार, सिनम्बर 7, 1619 ई ।

## जोधपुर राज्य की स्थापना

157

2 वह भटियाणी सुजाएंदे जी कल्हण गोइद पचायएते री बेटी पीहर रो नाव वालवाई । सम्बत 1641 रा वसान सुद 5<sup>1</sup> मढोवर परणिया ढोलो आयो था । सो दिखण महाराज साथे बली बेटा 2 हुमा ।

1 बेटो 1 घटमासियो सम्बत 1643<sup>2</sup> मूझो ।

1 बेटो दूजो प्रतापसिंधजी सम्बत 1649 रा मासोज<sup>3</sup> मे लाहोर जायो थो, सो मास आठ रो हाय ने समायो ।

3 इएरे सोभासिकदार री वर पारवती धाय थी ।

वह राणी सोभागदे कद्यवाही नेत्रावत दुर्जणसाल री बेटी पीहर रो नाव बिसनावती वाई । सम्बत 1644 रा आसाठ सुद 9<sup>4</sup> लाहोर परणिया सो सम्बत 1666 रा सावण<sup>5</sup> म बुरहानपुर म चलिया<sup>6</sup> । इएरे बेटा 2 दोय न बेटी । एक ।

2 बटा 2 दोय हुमा ।

1 राजा गजसिंध जी सम्बत 1652 रा काती सुद 8 गुरु<sup>7</sup> जनगिया लाहोर म ।

2 जसवत्सिंध सम्बत 1645<sup>8</sup> मे गुजरात माह जाया था सो मास पाच रा हुय समायो ।

2 बटिया 2 दोय

1 वाई मनभावती वाई सम्बत 1655 म भाई थी सो साहजादा परवज नू परणाई ।

2 वाई कल्याण क्यर नानी पक्की मूई ।

इएरा सोभागद जी गाव देइजर म तलाव करायो तिण रा नाव सोभागदेसर दिरायो ।

4 वह आहाडी सुरताएंदे जी रावत सहसमल री बेटी । पीहर रा नाव जसोदा वाई । डूगरपुर धाय ने सम्बत 1647 रा बेठ सुद 9<sup>9</sup> परणिया । पछे जगद्वाय री जात कर धावता बेजनायजी बोस 9 माथे सम्बत 1689 रा वेसाल वद 1110 न चलिया ।

1 शनिवार अप्रैल 24 1589 ई ।

2 1586-87 ई ।

3 सितम्बर-मन्त्रवर 1692 ई ।

4 रविवार जून 23, 1588 ई ।

5 जुलाई अगस्त 1609 ई ।

7 गुरुवार मन्त्रवर 30 1595 ई ।

9 शुक्रवार, मई 21, 1591 ई ।

10 सोमवार माच 25, 1633 ई ।

6 स्वगवास हुमा ।

8 1588 89 ई ।

- 1 क्वर सबलसिंह जी सम्बत् 1664 भादो मुदि 3 रो<sup>१</sup> जाम । इणा ते महाराज फलीधी दिवी थी । उठ गुलाम जहर दियो तिणा सू सम्बत् 1703 रा फागण वद 3<sup>२</sup> देवलोक हुआ ।
- 5 बहू बड़ी आदम सुहागदे राव मडलिक री बेटी । पीहर रो नाव पाहपा वाई । सम्बत् 1647 रा आसाड वद 8<sup>३</sup> ढोलो आयो थो सो जोधपुर भ परमार वणाजी र घर परणिया ।
- 6 बहू पवार चतुरगद सामा पवार री बेटी । सम्बत् 1647 रा आसाड सुद 9<sup>४</sup> गाव अराई परणिया । तिण सम्बत् 1650<sup>५</sup> म लाहोर म राम क्यो । 1 वाई आसकवर सुजाणदे जी (भय्याणी) री गोद दीकी थी सो राजा भावसिंह कछवाहा नू परणाई थी सम्बत् 1673 रा सावण वद 1<sup>६</sup> । पछ राजा भावसिंह सम्बत् 1678<sup>७</sup> रा म जफर नगर दिल्ली म जठे राम क्षुणो तरे वाई धुरहानपुर म थी तठे बली । इण र हृष क्वर हुई थी सो नानी थकी समाइ ।
- 7 बहू सोलक्णी मनोरथदे जी खतसी जी री बेटी सम्बत् 1650 रा फागण सुद 8<sup>८</sup> परणिया गाव सिरियारी । सा सम्बत् 1663 रा मिगसर<sup>९</sup> म राम क्या ।
- 8 बहू जाडेची सहिवदे जी नवानगर रा जाम सत्रसाल री बेटी पीहर रो नाव लाड वाई । सम्बत् 1653 रा फागण वद 2<sup>१०</sup> गुजरात न डोलो आयो थो सो भ्रह्मनावाद सू सरखेज पधार परणिया । सा सम्बत् 1705 रा बेसाम वद 6<sup>११</sup> जोधपुर गढ ऊपर राम क्यो ।

1 जनिवार अगस्त 15 1607 ई । विवराजा० 2 पृ 89 ।

2 शुक्रवार फरवरी 12 1647 ई । मृत्यु क समय उसरा मनसव 2 हजारी जात 1500 सदार का था । पा ना 2, पृ 727 ।

3 शुक्रवार जून 4 1591 ई ।

4 रविवार जून 20 1591 ई ।

5 1593-94 ई ।

6 गुरुवार जून 20 1616 ई ।

7 1621 ई । मृत्यु तिथि पोष मुनि 10 1678 वि (गुरुवार निसम्बर 13 1621 ई । बगावली पृ 19 ।

8 सोमवार फरवरी 18 1594 ई ।

9 नवम्बर निसम्बर 1606 ई ।

10 मंगलवार जनवरी 25 1597 ई ।

11 शुक्रवार माच 23 1649 ई ।

- 9 वहू बोडी रतनादेवी गाव सणा रा राव बाधा थोडा री बेटी, पीहर रो नाव  
फूला वाई । सम्वत् 1653 रा फागण सुद 8<sup>1</sup> अहमदावाद डोलो आण  
परणाई नोरग बाग माहे । सो सम्वत् 1708<sup>2</sup> मे राम क्यो ।  
1 बवर विजेसिंघ तृतो सो मास 24 जीवियो ।
- 10 वहू सोनी उद्धरणदे जी, उमरकाट रा सोडा बाबीदास री बेटी । सम्वत्  
1654 रा वसाख वद 12<sup>3</sup> अहमदावाद मे नोरग बाग मे परणिया ।  
डालो आयो थो ।
- 11 वहू देवदी हीरादे जी, राव कला<sup>4</sup> री बेटी पीहर रो नाव कमलावती वाई  
सम्वत् 1660 रा आसाढ सुद 9<sup>5</sup> डालो आयो थो सो आगरा सू मधुरा जी  
पधार परणिया । मध्यन् 1704 रा भाद्रवा वद 3<sup>6</sup> जोधपुर मे राम क्यो ।  
तिग रो बेटो । बेटी । हुई ।
- 1 बेटो 1 बीरमने सम्वत् 1664<sup>7</sup> रा ज्याम सो वरस 6 रो हुय समायो ।  
1 बेटी । —— हुइ सो नेनी थकी मूई ।
- 12 वहू बीरपुरी नारमद जी राणा बणबीर री बटो पीहर रो नाव चापावाई ।  
सम्वत् 1663 रा भाद्रवा वद 9<sup>8</sup> डोला आयो थो सो अहमदावाद नोरग  
बाग मे परणिया सो सम्वत् 1680 रा मिगसर<sup>9</sup> मे जोधपुर राम क्यो ।
- 13 वहू भटियाणी अमोलकदेजी भाटी महसमल मालदबोत री बेटी, पीहर रा  
नाव पारवतीवाई सम्वत् 1664 म<sup>10</sup> आगर जाता डालो आयो । सो बीलाडे  
परणिया सम्वत् 1734 रा आसाज वद 6<sup>11</sup> राम क्यो । इणा र बेटी 1 एक  
मिरधावनी वाई राजा जेसिंघ ने परणाई सम्वत् 1679 रा मिगसर सुद -<sup>12</sup>  
तीज र साव ।

- 1 सोमवार, फरवरी 14 1597 है ।  
2 1651-2 है ।  
3 शनिवार अप्रैल 22 1598 है ।  
4 सिराही का पदच्युत शासक राव कला ।  
5 सोमवार, जून 25, 1604 है ।  
6 रविवार अगस्त 8 1647 है ।  
7 1607-8 है ।  
8 रविवार अगस्त 17 1606 है ।  
9 अक्टूबर-नवम्बर 1623 है ।  
10 1607-8 है ।  
11 शुक्रवार, सितम्बर 7 1677 है ।  
12 सोमवार नवम्बर 25, 1622 है ।

- 14 वह पवार रगाै, साढ़ूल पवार री बेटी। भोपत उदसिंधोत रा बर म  
बुरहानपुर म परणिया सम्बत 1666<sup>1</sup> ने सम्बत 1676 त्रिक्ल म हजूर  
साथे बली<sup>2</sup>।
- 15 वह लाहडी जादब साजणदे जी पहाड़ खा री बेटी सम्बत 1666<sup>3</sup> म  
बुरहानपुर मे परणिया। सो श्री जी महकर देवलोक हुबा तर जोधपुर थी  
सो सम्बत 1676 रा आसाढ़ सुद 2<sup>4</sup> मढावर जाय बली।
- 16 चहू कद्धवाही नौरगदे सेखावत तिरमल रायसिंहोत री बेटी रायसल  
दरबारी री पोती। पीहर रो नाव अमरा। सम्बत 1668 रा आसाढ़ बट  
4<sup>5</sup> खड़ले जोधपुर थी जाव परणिया। सा श्री जी साथे महकर म सहगमन  
कियो<sup>6</sup> सम्बत 1676 रा भाद्रवा सु<sup>7</sup> 9<sup>8</sup>, 1 बेटी इन्द्रकवर काई सम्बत  
1675 रा भाद्रवा बट 1<sup>9</sup> रोज म सो बरस 4 च्यार म होय ने सम्बत  
1679 मे मूई।
- 17 कद्धवाही सिणगारदे थीरावन दिनेमणदास रामदास री पोती माडल डोलो  
आयो। सो उदेपुर थी (जाव परणिया)। गगाजी जाता स्योपुर मे सम्बत  
1685 रा मिठेमर सुद 7<sup>10</sup> राम कियो।
- 2 ओलगणा दोब लाहोर मु लाया था
- 1 हरवशीवाई राजा गजसिंह जी गोद था सो सम्बत 1692 रा भाद्रवा  
वा<sup>11</sup> च्यारहू<sup>10</sup> राम कियो।  
जोधपुर म कागे दाग कियो। छत्री कराई। ने आ जात री  
पटेलण थी।
- 2 रामकली ~ ~ पहला मूई।

1 1609-10 ई।

2 मगलवार मितम्बर 7, 1619 ई।

3 1609-10 ई।

4 बुधवार जून 21 1620 ई।

5 रविवार जून 7 1612 ई।

6 सती हुई।

7 मगलवार सितम्बर 7 1619 ई।

8 मगलवार जुनाई 28 1618 ई।

9 रविवार, नवम्बर 23 1628 ई।

10 बुधवार जुनाई 29 1635 ई।

## 18 पात्रा भ्रष्टाढा री त्यारी विगत—

- 1 सुरेखा वली । 2 रामरेखा सम्बत् 1697 रा पोस  
वद (2)<sup>1</sup> राम क्यो ।
- 3 स्यामा (सम्बत् 1674 म राम क्यो)<sup>2</sup> ।
- 4 मोहूणराय सम्बत् 1683 (1693 ?) राम क्यो ।
- 5 सुविधा ।  
1 देटो देवकरण ।  
1 वेटी प्रभावती भाटी च द्रसेण न परणाई ।
- 6 गुणमहर बली ।
- 7 पूरा ।
- 8 बत्यारादासी ।
- 9 (नणजेवा सती हुई)<sup>4</sup> ।
- 10 गिरथरी पहला राम क्यो ।
- 11 राथवेल जाधपुर वली ।
- 12 मेघमाला जोधपुर म राम क्यो ।
- 13 (रत्नमाला)<sup>5</sup>
- 14 चापा पखावजण<sup>6</sup> वली
- 15 गारजा ।
- 16 आण दराय वली
- 17 रगमूर्ति वली
- 18 फूलबसी वली

18

## 150 (महाराजा गजसिंह)

महाराज गजसिंह जी सम्बत् 1652 रा छाती सुद (8) बृहस्पतवार<sup>7</sup> रो  
जाम । सम्बत् 1676 रा आसोज सुद 8<sup>8</sup> पाठ वेठा बुरहानपुर म ।

- 1 शुक्लवार नवम्बर 20 1640 ई कविराजा , 2, पृ 91 ।  
2 1617-18 ई । कविराजा 2 पृ 91 ।  
3 1616-17 ई (1626-27 ई ?) कविराजा 2 पृ 91 ।  
4 कविराजा , 2 पृ 91 ।  
5 कविराजा 2 पृ 91 ।  
6 पखावज बजाने वाली जाति की ।  
7 गुर्ज्वार अक्तूबर 30 1595 ई ।  
8 दुधवार अक्तूबर 6 1619 ई ।

महाराजा सूरसिंह जी देवलोक हुया । तर पातसाह जहाँगीर रो पुरमान आया था दिल्ली जावता तर गया सो धागरा सू पातसाह जी सिरपाव हाथी घोड़ा साना री सावत मूषा मेलिया । सो निखण री फोज म नवाब खानखाना रो बेटो दराव स्था सरदार थो जिकण बुरहानपुर म गजसिंह जी न टीका दियो । सूरसिंह जी देवलोक हुवा तर पातसाही लोक हसम लेण वासते आयो । सो राठोड जेतावत ग्रासकरण दईदासोत बगरह रजपूता हसम नियो नहीं, पछे पातसाह जी टीको मेलियो तिए साथ हसम बगसण रो हुकम आया ।

गजसिंह जी ने टीको हुयो । तर इन मुजब मनसव दियो—तीन हजारी जात दाय हजार प्रसवार । पछे पच हजारी मनसपर हुवो ।

1 जोधपुर 2 जेतावत 3 सोजत

4 सिवाणो 5 तेरवाडो 6 सातलमर 7 भेरवाडो । सातलमर पोहवरण रूपया 25000) री जागीरो म भडिया ने अमल हुवो नहीं राव चांद्रसण मालदेवोत भाटिया रे घडाण<sup>1</sup> मेलिया था जिए सू माय भाटी था ।

महाराजा सूरसिंह जी देवलोक हुवा तर इतरा परगना तागीर होय दूजा र लिखीजिया—

1 फलोधी महाराज सूरसिंह जी रा क्वर सबलसिंह जी ने लिख दिवी ।

1 जालोर साहजादा खुरम ने लिख निखी ।

1 साचोर साहजादा खुरम म लिख दिवी ।

1 मेडतो माहजादा खुरम ने लिख दियो ।

महाराज गजसिंह जी टीके विराजिया पछ फर इतरा परगना पाया—

1 फलोधी सम्बद् 1680<sup>2</sup> पातसाह जहाँगीर दिवी ।

1 जालोर सम्बद् 1677<sup>3</sup> साहजादे खुरम निख दिवी ।

1 साचोर सम्बद् 1679<sup>4</sup> साहजादा खुरम लिख दिवी ।

1 जलगाव रो परगनो दिखण म सो सम्बद् 16 (81)<sup>5</sup> म पातसाह जहाँगीर दियो तिए री पेदायश रूपया 178000) ।

1 मेडतो सम्बद् 1680 साहजादे परवेज दियो ।

1 बोरगाव राजोर पातसाह जहाँगीर निया ।

1 मसूदो पातसाह जहाँगीर सम्बद् 1680<sup>6</sup> रा वरस म दिया ।

1 नागोर सम्बद् 1683<sup>7</sup> म पातसाह जहाँगीर दियो ।

1 भिणाय पातसाह जहाँगीर दिया ।

1 निखी मे ।

2 1623 24 ई ।

3 1621 ई ।

4 1622 ई ।

5 1624 ई (विगत 1 पृ 108) ।

6 1623 24 ई ।

7 1626 7 ई ।

जोधपुर राज्य की स्थात

I विरालू ।  
 I बडनगर गुजरात रो ।  
 I काकेरचो महमदावाद रो ।  
 I विराद पातसाह जहांगीर दियो ।  
 राजा गजसिंह जी ने इतरा परगना पातसाह जहांगीर दिया था । जुदा  
 सम्बद्ध 1694 ताई ।

| रुपया ।  | गाव | प्रगना                                      |
|----------|-----|---------------------------------------------|
| 400000   | 565 | नागोर पटो 19 ।                              |
| 100465   | 205 | विराद गुजरात म ।                            |
| 102050   | 61  | राष्ट्रगुजरात में ।                         |
| 37500    |     | भिलाय ।                                     |
| 178930   | 45  | जलगाव रो परगनो दिखण म ।                     |
| 53300    | 2   | मसूदो अजमेर में ।                           |
| 22300    |     | बोरगाव राजोरा । दिखण म                      |
| 18000    |     | आसेर रा परगना रा 28000                      |
| 450      |     | वीरगाव 4300 राजोरा ।                        |
| 35799800 |     | बुरहानपुर हवेली तपा रा लेत<br>बीघा 800 थे । |
| 894995   |     |                                             |

महाराजकवर भ्रमरसिंह जी री जागीर रो हिसाब पातसाही दफतर था  
 लिखियो ग्रामो । सम्बद्ध 1686 रा वेसाल वद 8° देश म मुहया जेमल द्वं लिख  
 मलिया । जेमल सोजत थो ।

पाच हजारी जात पाच हजार अस्वार महाराज गजसिंहजी ।  
 दाम । रुपया । मासामी पाच हजारी जात खास मास । रुपया 30 000)  
 1,32 00 000 3,30,000 पाच हजारी जात खास मास । रुपया 40 लेखे, मास । रा दाम  
 रुपया । रा दाम 40 लेखे, मास । रा दाम  
 12 00 000 ने वरस । रा मास म बाद मास  
 । अजनासा रो कठ । वाकी 11 खरा जिण रा  
 दाम 40 लेखे मुकरेडे रुपया 330000) ।

1 1637 38 ई ।  
 2 शुक्रवार, माच 26, 1630 ई । इस समय राव भ्रमरसिंह का मनस्व 2  
 हजारी जात 1300 सवार था । पा ना । प्र पृ 291 ।

$4\ 40,00\ 000 \times 11,00,000)$

पाच हजार असवार । असवार 1 रा रुपया 20) मास । एक रा, तिण रा दाम 800) जिण हिसाब असवार 5 हजार रा मास 1 रा दाम जुमल 4 000 000) प्रति रुपया 1) रा दाम 40 लख मुकरद रुपया 10 00 000) मास । रा ने वरस एक रा मास 12 में बाद मास । अजनास रा कटे 1 बाकी मास 11 खरा तिण रा दाम जुमल दाम 4 40 00 000) छार कराड अंगालास लाख तिणा रा रुपया 11,00 000) अभ्यार लाख हुम्हा ।

$5\ 72\ 00,000 \times 14\ 30\ 000$

वरस रा मास 11 त्यारा दाम 5 कराड चाहत्तर लाल न रुपया चबद लाल 30 हजार हुम्हा ।

खास जात रा ।

पाच हजार असवारा रा ।

मास 1 रा हूब सा मास 11 रा ६० तिण म 1430000) तिण म पच हजारी जात मनसव तिण रा मास 11 रा रुपया 330000) तीन लाख तीस हजार हुम्हा । तिण म चोथाई कटे ६० 82500) बयासी हजार 500) बाकी तलब खरी ।

पच हजारी जात रा चोथाई कट ने वरस । रा खरा पाव ।

पाच हजार असवारा रा वरस । रा खरा पाव ।

बाकी तलब खरी जागीरी पावे पाच करोड गुण चालीस लाख दाम त्यारा रुपया तर लाख 47 हजार पाच सा ।

तनेखाह मे जागीर पाई ।

जोधपुर राज्य की स्थात

165

$$18965297 \times 4741321 = ) III$$

$$5000000 \times 125000$$

$$3940297 \times 985071 = III$$

$$1500000 \times 37500$$

$$560000 \times 14000)$$

$$11510872 \times 287771 III) III$$

$$2566673 \times 64166 III) -$$

$$10000000 \times 250000)$$

दाम ।

$$7716085 \times 192902 = )$$

$$2283915 \times 57097 III = )$$

$$10000000 \times 250000$$

$$2710000 \times 67500$$

$$2531550 \times 63288 III)$$

$$2181000 \times 54525$$

$$350550 \times 8763 III)$$

$$2531550 \times 63288 III)$$

जोधपुर च्यार लाख चिमतर हजार  
एक सो बत्तीस पूणि सात आना ।

साजत । साल पच्चीस हजार रुपया ।  
जंतारण अठाएँ हजार 5 सो सात  
रुपया पूणा सात आना ।

सिवाण साडा सेतीस हजार रुपया ।

सातलमर पोहबरण रा चबडे हजार  
रुपया दफ्तर भेरल थे ने ग्रमल नहीं ।

जातोर सरकार जोधपुर दोय लाल  
पूणी तेरे आना ।

माचोर सरकार जोधपुर चोसठ हजार  
एक सो छासठ रुपया सवा तेरे आना ।

मडतो

रुपया ।

दाम पहली था ।

दाम इजाके सम्बन्ध 1683 में हुवा ।

फलाधी साडा सिरसट हजार रुपया ।  
तरवाडा मोरवाडो ।

1 1

तरवाडा ।

मारवाडो ।

|                                                                      |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| $4625653 \times 125641 - )$                                          | दिल्लग मे जागीर पहली थी, त्यू बले<br>पावसो ।                       |
| $1000000 \times 25000)$                                              | मसादत्त <sup>1</sup> माहे रातिया छे मसादत्त<br>बलिया जागीर पावसी । |
| महाराज गजसिंघजी ने सम्बत् 1687 रा <sup>2</sup> वरसाती था मुंजरात मे— |                                                                    |
| दाम 1                                                                | ६० १                                                               |
| $2938820 \times 73470 - )$                                           | वडनगर तगीर सद याकूत                                                |
| $1593444 \times 39836 - )$                                           | सरकार पटण तगीर अजीज खान<br>1 1 1                                   |
| $1312590 \times 32814 - )$                                           | काकरेची ।                                                          |
| $280854 \times 72211 - )$                                            | परगने सादलपुर ।                                                    |

$4532264 \times 11330611 - )$

बुरहानपुर म महाराज ने टीको हुवो मे उठा सू दराव खा र साथे महकर  
र थाणे गया । निजामसाह अमर चपूरी फोजा आय महकर दोलो बेरो दियो ।  
महीना तीन परो रहो । पाच सात लडाया मदान म हुई तिण मे महाराज  
गजसिंघ जो हरोल था । आखर जाता दिल्लिया री फोजा भागी । महाराज री  
फत हुइ । सम्बत् 1677 (78)<sup>3</sup> वरस दोय ताई लडाया रही । तठ गजसिंघ जी  
पातसाही फोजा र आडा मणिया रहा । तिण मू पातसाह जी गजसिंघ जी रो  
नाम नयमण दियो ।

### दीहा

गज बघी आलोचियो<sup>4</sup>, वरि भेला वरियाम ।  
पातसाही राखू पगा, सो दल थभए नाम ॥1॥

पछ सम्बत् 1679 साहजादा खुरम ने दिल्लग र सोवे भलियो तिण आय  
अमर चपू सू सुलह किवी । महाराज सीख कर पातसाह री हजूर आया । हजरत

1 मुसादत=क्षण ।

2 1630 ई ।

3 1620-1622 ई ।

4 विचार किया ।

सू सीखकर सम्बत् 1679 रा भाद्रवा मुद 10<sup>1</sup> जोधपुर पधारिया । सीसादणी परतापदे जी तू राणी पदा रो पाट दियो, पटो 18,001) रो दियो वीजी राज लाका सू विवरण<sup>2</sup> पटो राणी पदो दिरीजतो जिण तू दिरीजयो । अर दूजी राजलोका विचे राणी पदो हुवा जिका खरच दूणो करे ।

सम्बत् 1677<sup>3</sup> दिखण री मुहम मे गजसिंघ जी रो पातसाह जहांगीर दल घभण नाव दियो । न एक हजारी जात मनसब एक हजारी ग्रसवारा रो इजाफो हुवा, जिण मे परगनो जालोर दियो । सो भाटी गोपालदास ने ने आसावत ने माहाणोत बेमल ने हाकम भेलियो । पिण जालोर शाहजादा खुरम रे थो, जिण सू अमल हुवो नही । पच्छ पातसाह जी साहजादा खुरम ने दोलताबाद सू माडव ऊपर भेलियो । गजसिंघ जी ने साहजादा साथे जावण रा हुकम पोहतो । सो साहजादा सामन हुआ । तर बुरहानपुर म जालार ने साचोर सहजादे गजसिंघ जी ने दिया ने आगे भेलिया । दिखण रे सोबे साहजादो खुरम थो, सो पातसाह जी सू किर गयो न तखत लेण रो मनसबो कर पूरब भ गयो ने उठा सू फेर साथ भेलो कर आगरा ने आवण लागो । उदेपुर रा राणा अमरसिंघ सू एकठ किंवी । राणे अमरसिंघ आपरा कबर भीम ने खुरम र साथ कियो । पातसाह जहांगीर अजमेर थो, जो साहजादा परवेज ने खुरम सामो भेलण ने तयार कर आगरा ने बूच कियो । महाराज गजसिंघ ने बुलाया सो चाटमू र मुकाम पातसाह र सामल हुवा । साहजादा परवेज र मूढ़ा आगे मोहवत खा न मुसाहिब कियो न महाराज गजसिंघ जी ने परवेज साहजादा र साथ जावण रो हुकम दियो । मोहवत खा महाराज री धणी सिफारिश कर एक हजारी जात ने एक हजारी ग्रसवार रो इजाफो दिरायो तिण माय परगनो फ्लोधी दियो । वीजी तलब वाकी रही ।

हम सम्बत् 1680<sup>4</sup> रा वरस महाराजा साहजादा परवेज र साथे छे न अजमेर रो सोबो सारा परगना परवेज री जागीरी म हुवा सा भेडतो परवेज साईदान ने देण रा कोल कियो तर महाराजा मोहवत खा कन राठोड गजसिंघ जी ने भेलियो ने क्वायो महाराज सूरसिंघजी री जमीन भेडता सूधी न अबबर साह री दियोडी है । न हमे किणी दूजा ने देवो हो, सो महारी जमीन सारी परीजाय छे । क्वीम राठोडी रो छ । पछे मरजी री वात है । तर नवाब देखियो आज इणा न उदास करणा नही । तर सम्बत् 1680 रा सावण<sup>5</sup> मे परवेज मापरी जागीरी माह

1 बुधवार सितम्बर 4 1622 ई । (विगत, 1 पृ 107) ।

2 दुगुणा ।

3 1620 ई ।

4 1623 ई ।

5 जुलाई, 1623 ई ।

मूँ मेडतो दियो । ने दरगाह म मनसव माह लिखणा नहीं । सम्बत 1680 रा भाद्रवा वद 8<sup>1</sup> राठोड काना खीवावन, ने भण्डारा लूणा मेडत आया अमल कियो । ने परवेज रा आदमी था सो परा गया । मे मेडता री रेव तोय लाख 200000) रुपया री भ हुवो ।

सम्बत 1681 रा काता सुन्दर 15 हाजीपुर पटण गगा जी री तीर ऊपर माहजादा खुरम र परवेज र वेढ हुई । खुरम री फोज म सीसांचियो भीव हजार 25 लाग मूँ हरोल थो । गोड गापालदास ते बैइ नबाब खुरम र सामल था । ने परवेज री फोज म आवेर रो राजा बडा जसिंध कन लोग स बठो दखियो । तर हरोल इणा ने किया ने माहबत खा बगरह फर ही नबाब हरोल म माकला था न महाराज गजसिंध जी ढाबो वाजू नदी र काठे आतरे<sup>2</sup> थका उभा हा । हम वेढ हुई । तोपमानो आयो । साभा सोर हुवा ने खुरम ने राणा भीव री साथ री बागा ऊपडी । तठे परवेज री फोन रा पग छूठा ने खुरम ने भीव कयो । और तो फते हुई । गजसिंध जी उभा है सो इणा न बतलावा । ने महाराज नदी र काठे उण बक्त नाडो खोलता हा सो जज<sup>3</sup> लागी । तरे कू पावत गोरधन परवेज री सिक्स्टन रा समाचार कया—ने तडक न कयो हमार आप न नाडो खोलण री बखत लाधी थ । तरे महाराज कयो— महै तो आ हीज बाढ जोकता था । कोई रजपूत कहण वालो है के नहीं ।” पछे अस्वार होय बाणा उठाई । बडी तरवार बजाई । सीसोदियो भीव हाथी चढियो ऊभो थो सो महाराज ने गारधन दोनूँ भीव र हाथी गया सो बरछी देने भीव ने मार लिया । खुरम भागो । परवेज री फते हुई । सीसोदिया भीव न सहजादे जोधपुर दण रा बचन दिया था । पातसाह जहांगीर महरवान हाय ने एक हजार अमवार रो इजाफो दियो । इण बधारा मे<sup>4</sup> पाच हजारी जात न पाच हजार अस्वार पूरा हुवा । तनब्बा ने जलगाव बराढ रो दिया । बुरहानपुर मूँ कोम 30 है । रेव एक लाख इकातर हजार 171000) रुपया री<sup>5</sup> । तठ भाटी सियो रुपसिंधोत ने फोजदार मेलियो थो ।

खुरम भाज राजपीपला रा पहाडा म पठो । हाडा राव रतन ने गजसिंध जी न बीजो ही घणा साथ खुरम रे लारे गया मा जाय बुरहानपुर रया । खुरम आय बुरहानपुर रा पुरा लूटिया ।

1 शुद्धिवार अगस्त 1623 है ।

2 शनिवार अक्टूबर 16 1624 है ।

3 नदी के बिनारे फासले पर ।

4 बिलम्ब ।

5 हृदि मे ।

6 विष्ट (I पृ 106, 108) के अनुसार रेव रुपया 1,78 000) थी ।

तठ रतन रो साथ माराणो । महाराज गजसिंह जी रतन री मदद कियी । तर युरम भागो सो भासेर र दिल गया । न भासर रो बिसो युरम साहजादे र थो न बिसो भारी थो । सो युरम रा भाणस बिला मे था न गोड गोपालदास बटा चबै सू बवीला सूपा माहो था न तीन हवार सिपाही था ने बारे पातसाह जहांगीर री पौज भानी थो । सो दोय वरम लडता न हुमा था, सो युरम साहजादा धनाणचक<sup>1</sup> भानो । बिसो छोडने भाणसो न भेने गोड गोपालदास रो बटो बतराम माय थो हुवो । ने दूजो बेटो बिठलदास बवीना न भेने भेवाड तथा बूदी तरफ भायो । हम युरम उठा सू निश्चीयो सा बुरहानपुर राव रतन सू मामलो बियो तरेरा ही भेला था ने उठा सू युरम नाठ गयो- । सौ उठ बेड हुई सो गोपालदास बतराम बाप न बेटो दोनू बाम भाया न साहजादा न कादिया मो जूनगढ गयो । न महाविलो पदिया । ने गोड रामानास बूदी थो सो बास न भाई रा बारज बरण न बहो बेटो बिठलदास भस्वार भाठ सू जूनेगढ गयो ।

हाजापुर पटणे साहजादा युरम सू गजसिंह जी र घेड हुई । तठ युरम रा इतरा बाम भाय तथा थाव पदिया । बाम भाया त्यारी विगत—

- 1 राजा सीसोदिया भीव राणावत ।
  - 2 जेतारणियो राठोड हरीदास रामोत ।
  - 3 कूपावत बवरो जसवात सादूलोत रो ।
  - 4 राठोड राष्ठोदास ।
  - 5 हाथी जटाजूट युरंग रो बाम भायो ।
- ~

थावा पदिया रो राजाजी उपादिया । त्यारी विगत—

- 1 राठोड भीव बल्याणान्तोत ।
- 2 राठोड प्रधीराज बलुमोत ।
- 3 सीसोदियो गोपालदास भारुत ।

महाराज गजसिंह जी रा उमरावा म राठोड कूपावत गोरधन चादावत पूरा लोहा पदियो । गोरधन थाई भाष्ठा लडियो ।

सम्बत् 1682 रा काती<sup>1</sup> म मोहवत था न बुरहानपुर म तानीर किया, ने दरगा बुलायो । न फिदाई था न बुरहानपुर भलिया । ने माहजादा परवेज ने सारा उमरावा ने बवाया ये सारा बुरहानपुर रहजो<sup>2</sup> । मोहवत था साथे आवजो मनी । फिनार्द खंड बुरहानपुर भायो । पातसाह कुरमाया जिवे नमाचार कहा । मोहवत था साहजादा परवेज ने सारा भाय ने ते कृच कियो । महाराज गजसिंह जी

1 भचानक ।

2 भाय बला ।

3 भवदूबर 1625 ई ।

क्यो—“म तो पातसाहवा रा हृकम नहीं जिए सू हाला नहीं । हवेली वेस रखा । पछे किदाई खा महाराज न क्यो— आप समजास<sup>1</sup> बरने साहजादा ने उमरावा ने पांचा बुलावा । तरे महाराज कही— म नहीं गया तिए सू भोहवत खा मा सू नाराज हैंज मेरे जादा नाराज होसी न दरगाह जाय छे सो मारी बदी बरसी<sup>2</sup> ।” तरे किदाईखा क्यो— आप तरत रा सामधर्मी हो सो पातसाह जी र हजूर आपरी आछी तरह हाजरी करसू । तरे महाराज साहजादा जी ने उमरावा ने भला आदमी मल समजास कराया । पातसाह जी रो हृकम अठ रहण रो है न थे माहवत खा साथे थयू जावो । तर साहजादो राव सूरसिध राव रतन जैसिध राव चदो राजा बरसिध देव कोस च्यार सू पाढा बुरहानपुर आया । भोहवत खा पातसाह जी बने गया । नदी सतलज ऊपरे पातसाह जी र पावा लागो न पातसाह जी ने आपर डेरे आणिया । पछे पातसाह जी आसप खा ने पकड खेडिया म दियो न बेकायदे कियो । पछे किदाई खा पातसाह जी कन आयो । महाराजा री तरफ सू राठीड राजसिध साथ था ने किदाई खा पातसाह जी आग महाराज री घणी सुपारस करी न परवेज माहवतखा सामल थो सो सारा माहाराज सू दाय राखता । पातसाह जी रे दीवान खोजो अबदुल हसन थो सा हा माहाराज सू दोरो<sup>3</sup> थो । सो उण जागीरी रो हिसाब कियो ।

तठ जागीरी म भेडता माडे नहीं ने वही ओ याने भोहवत खा हिमायत<sup>4</sup> बरने दिरायो थो । दरगाह म मनसवा म है नहीं सो खालसा म माड दियो । तरे किदाई खा अरज किवी ए तो इजाफा रा उ मद म था । सात उमराव साहजादा सूधा उड आवता था सो महाराज रहेता सारा रहा छे । तठ मढती तागीर ऋरायो छा । तर पातसाहजी आप बजीर होय ने फिर भेडतो दिराया । तर अबदुल हसन अरज किवी रुपया दोय लाख 200000) मे मढतो इणा न दियो छे पिण रुपया च्यार लाख उपजना रो है । बड़ी ठोड है । तरे पातसाह राठीड राजसिध त्रू फुरमयो— किहुक तो खोजा री राखो । तरे रुपया 2॥ लाख मे भेडता दिया ।

पछे सम्बद्ध 1683 रा काती<sup>5</sup> मे साहजादा परवेज फोत हूवो ने भोहवतखा निसरिया । वासे फोज ले बडगूजर अणी राय ने आगानूर विदा हुआ । जद बकील भगवान माह जसवरण क्वर अमरसिध रो नावे नागर लियो । पछे अमरसिध जी

1 समझा कर ।

2 बदनामी, भली बुरी करेगा ।

4 तरफनारी ।

3 नाखुश ।

5 अक्तूबर 1626 ई० ।

ने राठोड़ राजसिंघ कूपावत इणा फौज साथे प्रस्वार 1500 पनरे सौ ले ने साथे हुआ। ने मुहता रामा ने हाक्म मेलियो सो नागोर नवाब खानखाना र थी सो उतार ने अमरसिंघ ने दिवी। ने देवलिया रा डरा सूधा तो फौज लारे गया, ने उठा सू अमरसिंघ जी ने आगी राव ने आगानूर कन सीख कर न ऊरा आया। ने, उठ महेला ता मुहणोत जेमल ने रास आया था। पछे राठोड़ माधोदास पूरणमलोत ने सिंधी सुखमल ने भेलियो न जमल ऊरो आयो। पछे मादसौर कन लिखमाडी गाव छ तठ खानाजगी हुई सो राठोड़ माधोदास पूरणमलोत काम आया, ने कबर अमरसिंघ जी ने राजसिंघ जी ठरा आया था। सो आ खबर दरगा हुई। तर नागोर री पेटी 6 राजा सूरसिंघ जी बोकानर रा जिणा नू दिवी सो पटियारी विगत—

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1 पटी मदाणा री ।  | I पटी साढीला री । |
| 1 पटी ईदाणा री ।  | 1 पटी लाडण् री ।  |
| 1 पटा किरणेद री । | 1 पटी जामेडा री । |

ए छब पटिया लिख दिवी। पछे नागोर ही तानीरायत हुई। फौज माह सू विना हुक्म उरा आया निए सू मोहवत खा साहजादा खुरम कन गयो।

सम्बत् 1683 रा काती वद 13<sup>1</sup> कश्मीर उरे एक ठिकाणो भभोर छे तठा रा डेरा पातसाह जहांगीर फोत हुवो न बुलाकी तरत रो मालक बणाया। सो वरस एक ताई इणहीज तरह नीतरियो। पछे नवाब आसफखान खुरम रो सुसरो थो तिण खुरम ने बुलायो। सा गढ जूने सू खुरम कूच कियो। मोहवत खा साथे थो। सो बुरगानपुर जीवणो रास न गुजरात म हुय न इडर मे हुय न उदयपुर आया, ने उदयपुर स अजमैर आया। न आवता पहेमा ही महाराज तो जोधपुर गढ पथार गया था ने माहवत खा शाहजादा ने क्या—‘गर्जसिंघ जी मारो माया बाटण न<sup>2</sup> नागोर लिवी थी सा हू पाँक।’ तर शाहजहा मोहवत खा न नागोर

- 1 रविवार अक्टूबर 8 1626 है। जहांगीर की मृत्यु कार्तिक वदि 30, सम्बत् 1684 वि (रविवार अक्टूबर 28 1627 है) को राजोर मे हई थी। पादगाहनामा 1 अ पृ 69।
- 2 शाहजहा उदयपुर नहीं आया था परतु अहमदाबाद से गोगुदा की राह ही वह सीधा अजमैर चला गया था। पीप सुदि 6, स 1684 वि (बुधवार जनवरी 2 1628 है) को गोगुदा म महाराणा कण्णसिंह न शाहजहा से मेट की थी। पा ना 1 अ, पृ 80।
- 3 बाटने के लिए।

लिख दिवी । तर मोहवत सा अजमेर सू आपरा आदमी मेलिया सो अमल दियो । ने साहजहा ने मोहवत सा आयता उदयपुर हुय ने आया था सा राणो करणसिंह मिलियो न बूच हूता साहजहा लार आपरा कवर जगतसिंह न मेलियो । ने साहजहा अजमर आयो । तर गोड विठ्ठलदास गोपालदामोत ने राजा पणा रो मिताव नियो । ने अजमेर दिवी । सो अजमेर सू बूच हूबो ने सावाड डेरा हुवा सो सरवाड विठ्ठलदास ने दिवी । मालपुरे डेरा हुवा सो मालपुरो दियो । ने सारसोप डेरा हुमा सो सारसोप दिवी । न गढ रोहडे डेरा हुवा सो गढ रोहडो दियो । चाकरी री वही निवाजस दिवी । न हम रणथम्भोर र पासती हुय न आगरे आया<sup>1</sup> न सम्बत 1684 रा आसाढ वद 4 आगरा मे साहजहा तस्त बेठ<sup>2</sup> तरे अठारे जना 18 ने मारिया ।

### बोहा

सबल सगाई<sup>3</sup> ना गिए, ना सबला सू सीर<sup>4</sup> ।  
खुरम अठार मारिया, के काका के वीर<sup>5</sup> ॥॥॥

साहजहा री पातसाही हुई । दिखण कुल सोबे लोदी खानेजहा थो सो कुछ ले बालाधाट ऊपर लो आणा उठाय दियो । पछे साहजहा तस्त बठो । तर उणा बुलायो, सा आयो पिण दात बणी नहीं । तरे आगरा माह सू चड निसरियो ने ने लार पातसाह री फोज हुई सो पाह थी बेढ हुई सो मार लिया ।

महाराज गजसिंह जी और हा हिन्दु नवाब वगरह बुरहानपुर दिखण हा सो जहांगीर न फात हुए सु खानेजहा कने सीख करन आप आपरे ठिकाणे उग आया था । ने महाराज पातसाह जहांगीर रा सामधर्मी सू कर साहजहा सू कजिया<sup>6</sup> किया था सो इण बात री दुतरफी मन म ख्लान थो । सो साहजहा पातसाह राव सगतसिंह उदेसियोत री बीटी लीलावती ने महाराज कन खातरदारी करण न मली सो एकण तरफ जोधपुर आय न चौगान म डेरा किया । ने एकण तरफ महाराज डेरा कराया । न बाई आय ने मिली<sup>7</sup> महाराज ने मलिया

1 गुरुवार जनवरी 24 1628 ई को शाहजहा आगरा पहुचा था । पादशाह नामा 1 पृ 86 ।

2 भगलवार जून 10 1628 ई । वस्तुत वह सोमवार फरवरी 4 1628 ई को सिहासनारुद्ध हुआ था । पादशाहनामा 1 पृ 87 ।

3 रिष्टदारी ।

4 साभा ।

5 भाई ।

6 लडाइया ।

7 अमूठी ।

## जोधपुर राज्य की रथात

सो दिया । ने मन री स्तानि मेटण री वात के बाई थी सो वही । महाराज तो तस्त  
रो बढ़ो सामग्रम राखियो, सो हम महाराज न खातर जमा हूँई । बाई ने दिन आठ  
8 जोधपुर राखी । पछे पाथो कूच किया, ने महाराज ही डेरा बारे किया ने साथ  
सारो भेलो कियो ने राठोड राजसिंध महेशदास विधीराज बगरह तु बुलाया ।  
तर सारो ही भीव कल्याणदासात बगरह सारो साथ ठाकुरा रो आयो । तर अठा  
शू आधो कूच कियो सो बीस बीस कोस री मजल कर आगरे गया । ने, रत्ती  
माहे पातसाहजी र पग लागा । रजा वहाडुर साभो आयो ने कयो उमरावा एक  
सो सू कटहडा मे आबो । पछे जाय पातसाहजी सू मुजरो कियो । पातसाहजी  
महरवान हुआ । घोडो हाथी सो राजाजी ने दी । तठ डेरा किया । तठा पछ बीसा पचीसा  
धुडियोही<sup>2</sup> मोटी ही सो राजाजी ने दी । तठ दिन पाच रयो । पछ नडारा  
दिना पृठी पातसाह रुपवास री सिकार गयो । तठ राजाजी अस्वारा 2100 सू  
(नहारा ?) बाढ़ी री सिकार साहजहा गयो । तठ राजाजी अस्वारा 2100 सू  
गया । सो असवार अलगा कभा राख आप जणा आठा सू आगा मुजरो करण गयो  
ज्या म बणा च्यार बीच कभा राख ने जणा च्यार आग गया । विगत—

- 1 भाटी लाडला अपसिंहोत ।
- 2 सोनगरो राजसिंध ।
- 3 जतावत राजसिंध ।
- 4 ऊदावत कृदावनदास विहारीदासोत ।

ध च्यार जणा ने बिचे कभा राखिया—

- 1 राठोड नरहरदास भाणोत ।
- 2 देवडो अचलदास रावतोत ।
- 3 राठोड पृथीराज बलूभ्रोत ।
- 4 राठोड कल्याणदास दयालदासोत ।

8

इणा मायला तीन जणा उरे कभा राखिया । अर राजाजी बद ने<sup>3</sup> मुजरो  
कियो पातसाह विदा दिली । तरे ढोरा तू वृहा । पछ चोकी रो हाथी लार दोडियो  
न मावत<sup>4</sup> कूकवो दियो । लोका भागियो ।

- 
- 1 रेती—यमुगा नदी के तट पर रेतीला मदान ।
  - 2 जीएं शीए खण्डहर ।
  - 3 आग बढ़कर ।
  - 4 महावत ।

हाथी मसत हुयो है सो मेरे सारे म है नहीं। तिण ८ महाराज आगा चालिया। अर भाटी लाडवान बीच ऊभो थो तिण नू हाथी दवायो। तर दोप ठाकुरे लोह कियो। राठोड वृद्धावनदास री बटारी दातो माहे लागी। अर राजसिंघ भगवानदासोत रो फटको<sup>1</sup> पाछला पग ऊपर लागो। सो इणा नू घोडा ऐराकी राजा जी दिया। ओ मामलो पातसाह दीठो ने ऐरो पिण सारा डेरा आय बेठ रखा। तर पातसाह री कुरम ताजमहल कयो— इसडा उमरावा नू मारीजे नहीं। कथा हुआ एक हाथी भासिया तो। तरे फोज विदा नहीं किवी। अर राजा वहादुर नू मेल दिलासा दिराय पगे लगाया आमसास माहे। अर कयो— गर्जसिंघ मेरे मामू वा वेटा भाई है। पछे घणी मया किवी ने या पिण पातसाह रा घणा काम किया।

पातसाह तख्त बेठ ने आगरा री गिरद नवाई<sup>2</sup> भीमिया चोरटा बाडबा था त्या ऊपरे फौज मेली। ने फौज म सरदार खा सरदार थो अर पाच स अस्वार राजाजी रा ने हाडा राव रतन रा बेटा माधोसिंघ ने सरनार खा साथे मलियो। गाव सीसरोधी फनपुर कने बढ़ी गढ़ी है तठे बाकी री फौज आ लगी<sup>3</sup> उभी राखी। राजाजी रा साथ नू सरदारखा कयो— ये गढ़ी भेलो। तर या गनी ऊपर घोडा उमाय हूल्लो किया तठे राजा जी रो साथ काम आयो। तिण री विगत—

- 1 राठोड भगवानदास हमीरोत।
- 2 हाडो दुरगो।
- 3 देरासरी करणो।
- 4 राठोड कहीदास माधोनासोत।
  
- 1 राठोड गोकलदास विशनदामोत।
- 1 राठोड स्यामसिंघ जासूतोत।
- 1 राठोड नरहरदास कलावत।
- 1 राठोड किशनसिंघ विशोरदासोत।
- 1 राठोड जगनाथ खेतस्योत।
- 1 राठोड साहिबखान केशोदासोत।
- 1 राठोड जगनाथ खेतस्योत।
- 1 राठोड मुद्रदास नरायणदासोत।
- 1 राठोड आसकरण वीरमदेवोत।

1 प्रहार।

2 आसपास।

3 अलग ही।

- 1 भाटी नरहरदास भानोदासोत ।  
 1 बच्छवाहो दुरगो ।  
 1 राठोड महेसदास मोहणदासोत ।  
 1 हाडो डू गर हमीरोत ।  
 1 भीबोत बलू मेघराजोत ।  
 1 पचोली सोडर गोरावत ।  
 1 राठोड दयालदास बल्याण दासोत ।  
 1 सीची गोईद ।  
 1 बीजा ठाकुरा रा रजपूत जणा 40 काम आया ।
- 

इतरा काम आया । ने हाडा राव रतन रा वेटा माघोसिध रा 400 तथा 500 काम आया । पातसाहा फोज ऊभी रही । मदद किणी न किवी । महाराज रा साथ री फते हुई । अस्वार हुवा गढा मेरे रहा था सो निसर गया । गढी मिली । राजाजी रा साथ रा अणी दोय किवी । एक अणी म भगवानदास जी था अर दूजी श्रणी म पचोली बलूजी था । बलू भगवानदास ने (क्यो—) ‘आज गढी मत भू बो । सबारे बेगा थका भूबसा । सरदार खा क्यो— आज हीज भू बो’ । जद भू बिया । भगवानदास र अणी भार पडियो न इतरा सू काम आया तिण री चिंगत उपर मडी । विदा किया था, तरे पातसाह भगवानदास नू खासो सिरपाव दियो थो न भगडा मेरा काम आयो त्यारी खबर गई तरे राजाजी पाणी देने पातसाह जी र मुजरे गया । बाको मालम किया । तर राजाजी नू माहे दुलाय मुजरो करायो । पातसाह भगवानदास रा घणा बखाण किया । बीजा ही राजपूता रा बखाण किया । तरे राजाजी अरज किवी— तसियो दाग छुटे । बढ हुसी तठ माहरो तसिया रो मुजरो होसी । पातसाह जी तसियो बकसियो ।

सम्वत 1679 रा मिगसर सुद 5<sup>1</sup> राठोड भगवानदास वाधावत खाप जतावत ने बगडी दिवी थी, राठोड जेतावत आसकरण दईदासोत नू तागीर करेन ।

खानजहा पठाण सम्वत 1686 रा काती वद 13° रात पोहर एक गया आगरा थी नाठो<sup>2</sup> । पातसाह साहजहा रजा बहादुर न वासे विदा कियो । बीजी ही

1 बुधवार नवम्बर 27 1622 ई ।

2 रविवार अक्टूबर 4 1629 ई ।

3 भाग गया ।

फोजा धनी विदा किंवी । चावल नदों ऊपरे रजा बहादुर जाम पोहतो । तठ वेद हुई । रजा बहादुर काम आयो काती बद 14<sup>1</sup> । राठोड प्रथीराज बलुबोत लोहडो पड़यो । पिरथीराज र हाय री बरछो एक खानेजहा र लागी । खानेजहा पातसाही फौज ने पाल ने दखणिया भेलो हुवो । पछे शाहजहां पातसाह आगरा सू बुरहानपुर<sup>2</sup> गयो ने खानेजहा ऊपरे पिचतालीस हजार घोडा री तीन फोजा कर विदा किंवी । पनरे हजार घोडा री फोज मे महाराज गजसिंघ जी ने सरदार किया । पनरे हजार घोडा री दूजी फौज मे खुरासाली आजम खा ने सरदार किया । पनरे हजार घोडा री तासरी फोज मे साईस्तखा ने इणी दोया ने सरदार किया ।

सवत 1686 रा चत बद 93 पातसाह जी बुरहानपुर या महाराज गजसिंघ जी ने दोलतावाद दिसा विदा किया, तीन फोजा कर ने । तरे महाराज साथे तावीन म इतरा पातसाही उमराव किया या । त्यारी विगत—

| 1----- | -----1 | 1                                                            |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------|
| 5000   | 5000   | राजा गजसिंघ जी री फौज रा सरदार ।                             |
| 16940  | 10130  | दिखणी उदाराम री लार पाच हजार बीजा मनसबदार आसामी 41 ।         |
| 5500   | 2480   | बहादुरखा रोहतो भाया समेत आसामी च्यार बहादुर खा च्यार हजारी । |
| 30000  | 2000   | भारतसाह बू देलो ।                                            |
| 4220   | 2675   | अणीराय बडगुजर तीन हजारी आसामी 6 ।                            |
| 4480   | 2400   | नोसर नसीरी खा तीन हजारी आसामी 6 ।                            |
| 4690   | 2109   | सरदार खा तीन हजारी आसामी 6 ।                                 |

1 सोमवार अक्टूबर 5 1629 ई ।

2 पादशाहनामा के अनुसार आसेर से खानेजहा लोभी के विरद्ध सना भेजी गई । पा ना 1-अ पृ 296 ।

3 गुरुवार फरवरी 25, 1630 ई ।

|                       |      |                                                                   |
|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| जो मूर राज्य की ह्यात |      |                                                                   |
| 4150                  | 2450 | राजा विटलदास गोड तीन<br>हजारी आसामी 9।                            |
| 470                   | 70   | इसफदार दौढ़ सदी आसामी 5।                                          |
| 3150                  | 1030 | बछवाहो मनस्प राजा तीन<br>हजारी आसामी 2।                           |
| 2600                  | 1350 | जानीसार खा आसामी 2, आप<br>अढाई हजार।                              |
| 4250                  | 1893 | सफदर खा जणा 9 आप अढाई<br>हजार।                                    |
| 2800                  | 1200 | राठोड प्रथीराज बलुमोत,<br>आसामी 7, सफदर (आप) दो<br>हजारी।         |
| 2850                  | 1200 | अहेदाद खा जणा 9 आप दो<br>हजारी।                                   |
| 1640                  | 413  | जहान खा बाकड जणा 8 आप<br>हजारी।                                   |
| 1380                  | 260  | हवीब खा मूर जणा 4 आप<br>हजारी जात।                                |
| 1620                  | 285  | ह्यात खा बगसी पातसाही तरफ<br>रो जणा 9 आप हजारी जात<br>दोसे भसवार। |
| 700                   | 300  | सीसादियो गोक्लदास भाणावत।                                         |
| 600                   | 90   | महमद रजा जणा 2 आप पच<br>मदी।                                      |
| 500                   | 200  | भालो नरहरदास।                                                     |
| 500                   | 100  | महमद सा।                                                          |
| 600                   | 150  | समसजर बाहदर रो।                                                   |
| 1250                  | 130  | ईमरक खा जणा 3, आप दो<br>हजारी।                                    |
| 2500                  | 1500 | रावत पूजो अहाडो धूगरपुर<br>रो।                                    |

|                                            |     |                                                   |
|--------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|
| 2640                                       | 809 | उसरी ( उसमान ? ) खा जणा<br>10 सू , आप दोढ हजारी । |
| 1000                                       | 600 | पीर खा ।                                          |
| 1400                                       | 512 | साढ़ी खा जणा 4 आप हजारी<br>जात ।                  |
| 2200                                       | 420 | खार खा जणा 3, आप हजारी<br>जात ।                   |
| 760                                        | 310 | राव हरचाद कद्धवाहो जणा 2<br>आप नव सदी जात ।       |
| 760                                        | 310 | मीर फजुलो जणा 2 आप सत<br>सदी जात ।                |
| 1400                                       | 220 | जणा 3 ।                                           |
| 500                                        | 80  | करीमवेग ।                                         |
| 500                                        | 100 | हुसेनवेग ।                                        |
| 400                                        | 40  | हुसेन ।                                           |
| <hr/>                                      |     |                                                   |
| 1400                                       | 220 | बाकी 2 डाणी                                       |
| 700                                        | 180 | स्वाजा इनायततुलो जणा 2<br>आप छ सदी ।              |
| 40                                         | 5   | नूरमहमद दरोगो हथनाल रो ।                          |
| <b>विषत मनसवदार भ्रसवार राखे आबता रा :</b> |     |                                                   |
| 11050                                      |     | मनसवदारा रो साथ जाबता रो 44 201 छे                |
|                                            |     | त्यारा राखे चोथी पातो ।                           |
| 2000                                       |     | मोहवत खान रा कद्धवाहा चान्द्रसण साथे ।            |
| 261                                        |     | नजर बाहनर रो साथ वेटा समस साथे ।                  |
| 400                                        |     | बरकदाज मुगल ।                                     |
| 100                                        |     | प्रहदी मुगल ।                                     |
| <hr/>                                      |     |                                                   |
| 13811                                      |     |                                                   |

23 हयणिया ऊपरे ग्रावो ।

तीन लाख रुपया विदा करता दियो थो, पछे तीन  
लाख उपडिया<sup>1</sup> तरे लारा सू बले जावता त्यू  
आवता उठा साठा 60 ऊपरे ।

इतरा पाछ थो साहंजहा पातसाहंजी बले महाराजा  
जी री तावीन बले मेलिया—

सयद दरबानजाहा पच हजारी— । खवास खा ।

सम्बत 1686 रा दुटीक आसाढ बद 3<sup>o</sup> महकर री पालती सीरपुर है, तठे  
हरोल राजा गजसिंघजी था । आजम खा साईस्त खा चादाल था । सो दिखणीया  
री कौज आग आय दिखाली दी, तिण ऊपरे राजा जी दौडिया । वास साईस्त खा  
ने आजम खा री फौज देखी, ने खानजहा तूट पडियो । लडाई हुई तरा पातसाही  
उमराव मारिया बोजा विचलिया<sup>2</sup> । तरे राजा जी न खबर हुइ तर राजा जी  
घडी एक दिन येके आया । तरे पठाण निकलियो । खेत हाथ आयो । पातसाही  
खेत राजाजी र हाथ आयो । सीरपुर वेढ हुइ तठ इतरा काम आया । इतरी  
विगत—

3 कछवाहो छत्रसिंघ ने छत्रसिंघ रे वेटा 2 पेमसिंघ । बालो 2 ।

- 1 राव जगद्वाय राम राव मालदबोत रे । राजा जी आया  
पछे घडी आधी जीविया ।
- 1 राठोड करमसेण उप्रसेणोत ।
- 1 राठोड गिरधरदास केशोदासात मेडतिया ।
- 1 कछवाहो वाय खगारोत ।
- 1 वछवाहो बलभद्र नारायणदासोत सेखावत ।
- 1 हाडा रिदे नारायण रा वेटा ।
- 1 जासूपर खा री वेटो ।
- 1 खान आरव रो वेटो, खानखाना रो जवाई ।
- 1 राव दूदा रा रजपूत धणा काम आया ।
- 3 लोहोडा लागा—
- 1 राव तिलोकचाद मनोहरोत रो वछवाहो ।

1 खच हुए ।

2 बुधवार मई 19 1630 इ ।

3 विचलित हुए ।

१ कछवाहो छारकादास गिरधरदासोत ।

१ नछवाहो रपसीवाल राजा जगनाथ रो ।

पातसाही लाख जणा 300 तीन सो काम आयो न हजार एक घायल हुवा ।  
पठाण खानजहा रा जणा 200 मुवा घायल पणा हुवा ।

सम्बत 1687<sup>1</sup> पातसाही फौजा सू लडने जणा पचास सू मीरा सद<sup>2</sup> र  
हाथ खानजहा मारियो गयो ।

सम्बत 1686<sup>3</sup> रा म दिल्ली ऊपर विलायन रो पातसाह च्यार लाख फौज  
सू आयो सो तीन लाख तो सिव था ने एक लाख घोड़ो थो जिण माथ एकाकी  
घोडा माथ दोय 2 अस्वार चटिया इसा सो मुलक म दगा चमकियो । तरा आगरा  
सू पातसाह साहजहा ने तुरक नवाब हि दुस्तान सारी फौज तीन लाख सू  
चटियो ।

तर महाराज गजसिंघ फौज र लारे था, न गाव पूजलोता रो मेडतियो  
रुगनाथसिंह थाप सू छाड ने ऊठे आयो थो सो एकण नवाब कन एकण घाढा सू  
चक्कर था । पातसाह सू राड हुई तर महाराज तो पाच हजार असवारा सू डावी  
बाजू चटिया ऊभा था सो कजियो हुवो । विलायत रा पातसाह र फौज रो लोक  
आगो बन्तियो, ने पातसाह साहजहा री फौज रा पग चलिया । ने पातसाह साहजहा  
हाथी चटियो ऊभो थो सो हाथी किर ने भागो । तरे मेडतियो रुगनाथसिंह देखियो  
भरणा तो आयो । पिण, कहणो हुवे सो तो कहले । उतरे धाडो बाढ ने साहजहा  
रा हाथी कने आयो ने कने बाब<sup>4</sup> थो तिण री हाथी रा माथा माहे दिवी न  
साहजहा ने बही—मरे बडचोद चरखा कठे जाय थे थन काई सूजी थे । इतरा  
जाय सो तो वारा ही घर मे मावेगा पिण त कठ मावगा । हिया फूटा<sup>5</sup> थिर फौज  
तो उभी थे । तरे पातसाह शाहजहा ने सूरतआई ने हाथी पाढ़ो पेरिया ने रुगनाथ  
सिंघ दौड ने महाराज कने आयो, ने कया— त राणा भीब ने मारिया जिका आज  
पेर दिन थे । तरे बाजू डावी सू पाच हजार असवारा सू ही महाराज री वागा  
उठी<sup>6</sup> ने वास नवाब री ही वागा उठी, सो भार तरकारिया री ने फत किंवी । न

१ सोमवार जनवरी 24 1631 ई ।

२ सयद मुजफ्फर खा । पा ना, १-म पृ 351 ।

३ 1629-30 ई ।

४ बामढी=छढी ।

५ मांद बुद्धि ।

६ घोड़ो को विपर्णी सेना पर देल दिया ।

सिंह ने विस्तृत रो मीर भागो ने डेरा सारा लूटिया । न साहजहा री फने हुई । ने दिसी पाल्का आया ने नोबता निसाण बागा ने जे बबार हुआ । राजा गजसिंघ जो ने महाराज नहण री पदवी हुई । न मारवाड सवाय तीन हजार रो मनसव इजाफे भ देण रा हुक्म हुवो । तरे महाराज भरज किंवी— हू विचार ने भरज किंवी तर लिखाय देसी” । पछे पातसाह कोज बगसी ने हुक्म फुरमायो— राड मे हम दू एक सिपाही कोई था सो आय ने गर जवानी बोलिया उसकी तलाश करो” । तरे नवाव क्यो— हजरत । घ्यार लाय पीज मे किसी ठीक कुण था । मरजी हूदे ता सारी रो हाजरी लिराईजे सो दा ही आय जायगा । तरे निधि दिराय न घोलख लसी” । तरे सारे हुक्म पोहतो, भगडा भ राड री बहून सारा र सिले बपडा था जिहु रा जिहु सज न चढ आवा । तर सारा साव सभन चढ आया, सो इहु नित हमेस निजर देता दोय तीन हजार नवाव। री निधे देता रघुनाथसिंघजी न चिलत<sup>1</sup> थी न दावड रो घुमालो माथे” दियाहो घोड़ो चाडिया आवतो था । सा, सो पावडा सू पातसाह ने देख ने क्यो— वा सिपाही आव हे उसी दू ल आवो” । तर अ दाडिया, सा रघनाथसिंघ ने ल आया । ने इए रो नवावा था सो साथे हुवो ने रघनाथसिंघ बाकफ न थो, समझे बम । तर नवाव माहरा पाच दिवी, सो पातसाह र नजर किंवी । तर पातसाह क्यो—सिपाही भला ही बुशल हो” । तरे नवाव भरज किंवी—‘तर, हजरत सिपाही नहीं ह भडतिया खाप राठोड ह । वास सू, रिसाय घठे आया है । हमारे पास है’ । तर पातसाह किंवी— ए बढो रजपूत है । न कही— रघनाथ हमकू की जिया म हाथी पास आय कर बचन सवाल कियो सो हम एक बार फेर कहो । तरे रघनाथसिंघ कही— हजरत बो बहून ता बाहीज था । हम वा बात नहीं पूछीजे । हम वा आखर नहीं केवीजे । तर पातसाह विशेष हठ कियो । तर याहूत कजिया म आखर बया था । जिहुरा जिहु फेर क्या, न पातसाह साहजहा महरबान होय न मराठ रा परगाना गाव 112 गावा सू दियो<sup>2</sup> । बगरह फेर जानीरी दिवी । सवा तीन हजार रो मनसव दियो । ने बहोत राजावधी फुरमाई न गाव पूजलोता तीन हजार री रख भ बात सावलदास र थो, जिए रघनाथसिंघ ने इण चाकरी सू इतरी नवाजस हुई ।

सम्बत 1688<sup>3</sup> साहजहा पातसाह बुरहानपुर हो । तठ राठोड किशनसिंघ

1 बच पहना हुआ ।

2 सिर पर दावड (दुलाई) का मोटा साफा बाषा हुआ था ।

3 रघुनाथ सावलदासास भाधोदास जयमलोत को मारोड का पटटा था । कविराजा 2 पृ 188 ।

4 1631 ई ।

जसवत मादूलात र राठोड माधवदास पूरणमलोत रे वर आगानूर नू बुरहानपुर रे माणकचाक मे मारने राजा गजसिंघ जी रा चाकरी छोडने राजा जगतसिंघ ने आय रथो । पातसाही वासे साथ विदा न कियो । राजा जगतसिंघ जी आग दिखाणा री माहम था । राठोड किशनसिंघ जसूतोत जसूत सादूलोत रा कईक दिना पछे जालोर थाणो राखियो । किशनसिंघ जसूतोत ने भडारी जगनाथ देवला ऊपर कटक कियो । देवल सूधा रा भावर मे पेठा । तर सिरोही रो साथ काबा चीबा आया । अर जालोर रो ही थणो साथ थो । या सगला भेला हुय देवला सू वेढ किवी । तठे सिरोही रो ने जालोर रो साथ मगलो ही निसरिया । तठ किशनसिंघ जी पाढो बल ने काम आयो । पछे देवडे आपे राम रो बोल देन देवल बणावीर न आएयो थो सो दोढी र मूहड चूक वर मारियो ।

महाराज र अनारा खवास री हकीकत । अनारा किली नवाब री बहू थी सो असवारी पधारता महाराज री ने इणरी नजर मिली । सो दूती मेल बात बराय ने महाराज रात रा हाथी अस्वार होय ने इण री हवेली रा भरोखा नीचे पधारने हाथी ऊभा राख । तरे भरोखा माय अनारा छीको नाख सो छीका रा रसा र महाराज चढने इण रे महल पधारे । इग तर घणा दिन हुवा । निहायत आ बात परसद<sup>1</sup> कई जायगा हुई । तरे अनारा कई— के ता अब मने ले जावो के अठ पधारो मती । हमे बात चावी<sup>2</sup> हुई । तर अनारा ने महाराज ले आया । छान राखी<sup>3</sup> ने आ बात पातसाह मू मालम हुई । नवाब री बहू कठ ही जाती रही । तर महाराज रा भरम था हीज सो खाजा नाजर ने निध बरण<sup>4</sup> न मतिया । सो जनाना म जावण निया नहा । तर पातसाह महाराज न पूछियो— अनारा ने तुम लाया हो साच बोना नही तरे हमारा गला री सोगद खावा । तरे महाराजा सोगन खाई नही । तिण मू पातसाह जाए लिबी ने क्यो— हम इसकू देश म भेज देवो । तरे जाधपुर मेल दिवी सो चाद पोल बारे बेरी<sup>5</sup> उण कराई । न नाव अनारा री बेरी दिया<sup>6</sup> । ने महाराज री निषट मरजीवान थी ।

पछे एक दिन महाराज अनारा र महल पधारिया था न बवर जसवतसिंघ जी हजुर आया सो महाराज ने अनारा ऊठिया सो उठता र महाराज र न अनारा र औना र ही मूहडा आग पगरखिया रा जोडा कवरजी धरिया । तर अनारा खमा खमा क्यो— लाल जी ह तो महाराज री चाझर हू । तर बवर जी क्यो—

1 प्रसिद ।

2 सबत्र फल गई ।

3 गुप्त रखी ।

4 तसाश बरन क लिए ।

5 छाटा कुआ ।

6 अनारा द्वारा निमित बावडी ।

महार तो भाप मा बरोबर छो' । तरे इण वात मू भनारा बोहत राजी हुई, न महाराज सू भरज किंवी—भ्रमरसिध जी तो बडा है, सा बमाय मिवाय जमी खाट ने खावसी न जोधपुर रा राज तो जसवात्सिध जी न दिरावो ।' तरे महाराज बचन दिया ने भ्रमरसिध जी र मा सोनगरी जी र पिण भनारा मू बणे नही न भ्रमरसिध जी पिण दावे ज्यू बोले मो इण तरे बचन सू राज जसवात्सिध जी र भायो थो : न भनारा न महाराज धाम पधारिया, पथे सरदारा चूक करन मारी ।

सम्बत् 1682<sup>1</sup> रा वरस भाम्बेर जपुर रा राजा बडा जसिध जी पोहवर जी भाया था न मान रा भला डेरो थो, सरे दरबार<sup>2</sup> कियो थो सो वाता मे फरमायो 'हमार तो हिंदुओ म राठोड वर बाढ़ग म बडा रजपूत है ने राठोडा रो दावो बठे रमा नही ने बछवाहा ता वेर री वात म समझे नही । बछवाहा बोजल ने पाच हजार फोज म घोडा दोय हजार सू कजियो हुवो न गोडा मारियो ने गोडा जावता भापणी घरती मे निकले पिण कोई नाव लेवे नहा । रोस सरम किणी ने ही आवे नही ।' तरे सामोद र धणी रामसिध नायावत अरज किंवी—'प्रथीनाय फुरमायो, सो तो ठीक पिण राठोडा र आ रीत है भू डो कोई हर कोई थोटोई राठोड बाम कर आवे तो ही जोधपुर रो धणी उण नू ही । अगेज लेव<sup>3</sup> उण ने बाढ़ देव नही । तर जसिधजी न आ वात बडी लागी ने रीस म फुरमाया—किण ने बाढ़ियो ?' तरे वात इण तर बकवाद हुई । किण बह्त ता गोड रो सभा नही था । दिली सू वे चाकर था । साहजादा शाहजहा सामल था, सा जहांगीर पातसाह दिली सू विदा कर दिया था । मुल्क छूट गयो थो । तर जसिध जी इण तरे क्यो पथे सम्बत् 1684 जहांगीर तो फोत हुवा ने शाहजहा तह्त बठा तरे गोड निराट बदियो । ने शाहजादा बन गाड री चाकरी थी । पथे वरस तीन तथा च्यार सू गोड किशनसिध घोडा 50 सू आगरे जावतो थो, सा मारग म सामाद सू कोस 2 दोय डपर उतरियो । ने बल किंवी थी तर सामोद म रामसिध नायावत सुणियो गोड किशनसिध कने उतरिया है । तर नायावत हजार आठ स आदमी भेला कर न इण र नजीक गया । तरे गोड पूछिया—'ये कुण छो ' । तर रामसिध जी नायावत क्यो—आग बछवाहा विजल ने गोडा मारियो है सा वेर उण ने भाया हा । इतरा बहता कजियो हुवो सो 50 आदमिया रो जार कोई । सो किशनसिहजी पिण्डा भ्रठारह आदमिया सू काम भायो ने वाकी नास छूटा ने

1 सन् 1625-26 है ।

2 सिरह दरबार ।

3 स्वीकार कर अपने पास रख लते हैं ।

डेरो डाढो नाथावता उरो लियो । सो आ बात जेसिध जी सुणी सा पातसाह मूरता छाती फाटी ने रामसिध जी ने कबायो— इसो खोट बरम किहु कियो । हमै म्हारी जमी म ऊभा रहीजो मती । तर नाथावत केवाया— माह रो तो दाणो पाणी है ज्यू हुसी पिण दरमाह मे याय हुवो सा जेपुर रो बोल कठ ही रहसी नही ।<sup>1</sup> इतरो कहत नाथावत तो डेरा डाढा आवेर ने मवाड म उन्पुर गया न जेसिध जी दर कुचा आगरे जाय पातसाह सू मुलाजमत करने क्यो— हजरत नाथावत कुत्ताई किबी । म्हे तो ओ सुणियो तर उणा ने जमी बार कात दिया है । ने पाहकर जी मे जसिध जी नाथावता ने क्यो थो जिण री पातसाह ने ठीक नही । गोड विठ्ठलग्स विशनदास न मारियो सुणियो क आग लागी सो इणा रिणथभोर म लाक भेलो करने जेसिध जी माये आगरा सू कूच करन आया । तर पातसाह जाएियो—जसिध मे तो चूक नही । तर पातसाह गोडा ने फरमान लिखियो थारे कार्द काम छे ? किशनसिध ने हमारा नाकर मारिया छे । सो मारण बाला कू सजावार भ करूगा । तुम जावो । ने सोच मत करो । ने दु ढाण सू काई खीलस कीजो मती । तर गोड उदास होय ने रिणथभोर पाढ्या आया न अरज लिखा—

मारी ठाकुराई नाथावता विगडी न नाथावत उन्पुर गया । सो फटो रोजीनो राणा जी दियो ने रीत मुलायजा सू राखिया । जितर दुसरावो<sup>2</sup> आयो सो विणी बात ऊपर नाथावत रामसिध जी र नाईत्तिफाकी होय गई । दुनिया इहु पिण कहे छे आगे उदपुर मे दसरावा र दिन आवेर बणाय ने मारता । सो दसरावो आयो न आवेर बणाई न सारी हकीकत रामसिधजी सुणी सो राणी जी असदारी कर आवेर मारण गया जिण बकत नाथावत रामसिध जी आवेर मे जाय ऊभा रहा । लडाई करण ने तयार हुवा । क्यो— मा मूवा आवेर मिलमी । राणजी बडापणी विवार आवेर मारी नही ।

आगा सू इगा तरे आवेर बणावणी मोकुब राखी । सो राणा जी तो किंबुही फुरमायो नही पिण नाथावत पिण सू हीज उदास हुम ने सीख मागी “म्हारा दाणा पाणी है ज्यू हुसी । हम अठ रेवा नही । सो उठा सू चन्ने आगरे पातसाह री फोड मे आय न डरा महाराज गजसिधजी री फोड कन किया, न आजवा रा राठाड उन्माण जी चानवत ने रामसिध जी नाथावत ए दोनू सल शिकार घाडा फरण न गया था । गो— पिण उठे था । सो पातसाह सू जाय मालम किबी—

किशनसिध ने मारियो सा हरामी अठे आयो है । तरे पातसाह फौज तोपा तयार कर ने फुरमायो— नाथावत कू पकड लावो । आ बात रामसिध जी सुणी । तरे उन्माण जी ने क्यो— आप पधारो न मारी तो आय लागी<sup>3</sup> सा तो हुसी सो

1 दुसरावा—दणहरा विजयादशमी ।

2 मृत्यु निकट आ लगी ।

वरी । पिण्ड म्हाने लकड़ी आप राठोड़ा रा हाथ सू दिरावजो । जेसिध जी रा हाथ सू न्त्रिवावजो मती ।” तरे उदभाण जी क्यो—‘रजपूत छा सो थाने छाड कींकर जावा । हू थारे भेलो हू ने असवार डेरे भेतियो सा असवारा घोडा पिलाए हुवा । तर चापावत सारा र डेरे पिलाए हुवा । ने, इणार पिलाए हुआ सुण ने भेडतिया कू पावत जतावत ऊदावत, सारा राठोड़ा र डेरे पिलाए हुआ ने मालम हुई । तर महाराज गजसिंध जी नगारो करायो ने महाराज र डेरे नगारा सुण ने बीकानेर, किशनगढ़, जालोर नाव भातर राठोड़ सारा र नगारा हुवो । ने महाराज र नगारो हुवो सुण ने हाँडा, भाटी, सारा हिंदु तयार हुवा । कछवाहा बिना समसत हिंदुवा र तर पातसाह सू भालम हुई हजरत । मोटी अनरथ हुवो है । हिंदु तुरकाण सारी जाजम उठ है ।” तरे पातसाह आपरा लाक ने बरजाय दिया, ने उदेभाए जी रामसिंध जी नायावत ने लेने महाराज बन थाया । ने रामसिंध जी महाराज सू मुजरो कियो ने क्यो—“म्हार वास्ते सारा राजा खेद किहु करावो हो पातसाह बन मने रबरु ले जाय ने मुकावलो कराईजो । मे अकेले म्हारे मते नही मारियो है । इण तरह सारी विगत लारली महाराज ने वही सागे । तरे महाराज पातसाह सू भालम कराई—‘इण रो मुकावलो रबरु—सुणावो, जिहु है । तरे पातसाह दीठो । ओ कोई विरतत<sup>1</sup> है फुरमायो—‘उसदू यहा ले आवो ।’ तरे उदेभाए जी रामसिंध जी ने लेने दरगा गया ।

मुलाजमत किवी रामसिंधजी हाथ वाघ ने ऊभा रया । तर पातसाह किरपा बरने हाथ खोलिया । फुरमायो—“किहु विशनसिंध कू ये मारिया । तरे इणा क्यो— हजरत मै मारियो पिण्ड आप सब का सायब हो सो एक बार न्याव पूछ्याईजे । तरे फुरमायो—‘किस तरह बात है । तरे इणा अरज किवी— हजरत पना इण खून में मोनू तो मरजी आवे सो करना, पिण्ड बीजा किसी न सजा नही देणी तिणारी निसाणी दिरावो’ तर पातसाह ने बडो इचरज हुवा । कुरान बोरह सब सू स विचे दिया । तर रामसिंध जी अरज किवी— हजरत गोड विठ्ठलदास नु ही दुनाय लिराईजे । तर बुलायो । पछे इणा ठेट<sup>2</sup> सू जेसिध जी पोहकर जी आया था ने राठोड़ा र तरफ री वकवाद हुई थी सा सारी हकीकत खुलती भालम किवी । जेसिध जी पोहकरजी मे बात किवी सो तो छिपी राखी है, ने गोड ने जोरदार जाण ने आपरा तप तज सू म्हारे एकला ऊपर नाली, सो हमे आ ठेट री हकीकत आपरो दसा मे सारी हिंदु तुरकाणा म चाढी हुई । हमे इण खून मारो नाक जरूर बढाईजो सो सारी जहान जाए । जसिध जी पोहकरजी मे फुरमायो ने ओ बाम करायो तिण म आ हुई । तर पातसाह रामसिंध सू घणो रजावध हुवो न हाथी सिरपाव

1. वृत्तात ।

2. पारभ ये ।

निया ने सामोद रो पटो पाछो बहास करायो । ने जेसिध जी री हिंदू तुरकाण मे दोनू रजवाडा म घणी हासी हुई ।

सम्बत् 16— आगरे राजा गजसिंह जी घोडा 487 रुपया चार लाख 4000<sup>00</sup>) रा पठाए ह्यात था रा विगर मोल कीनाईज उमरावा नू चारणा नू दिया । तिण री विगता देस मे सिधबी सुखमल पचाली भदनसिंह ऊपर सिख दिवी । दीवान पचोली मोहणदासजी रा लिखिया परवाना —

मेडता रो वित मेर ले गया था, जिण बावत सम्बत् 16791 —मेडता रा सोबादार अबु महमद मेडता सू चढियो सो जेतारण रो गाव नीबोल नदवाण बोरा भातवर आसामिया ही जिणा ने तुरका पकडी । ज्या दिना बलूदे राठोड रामदास चादावत राज करे सु हातो पातसाही चाकर जुदो मुनसब विण विरामणा पुकार धाली । तरे आपरा साथ बाहर चढिया सो मेडता रा गाव खालडकी मू गदडा विचे जाय पोहता ।

तुरका सू झगडो हुवो । हवते झगडे जतारण हावम श्री महाराज री तरफ मू पचाली राधोदास मुहतो रामो विशनदास रो ने फिर सरदार जतारण फौज मे हा सो चढिया तो झगडा म सामिल हुवा । झगडो हुवो । बोहरा ने छुड़ाय लिया । तुरक नाठा पिण भगडो भारी हुवो । मुगदडा खालडकी विचे इतरा काम आया । तिणा री विगत—श्री महाराज री फौज रा—

- 1 कू पावत किशनदास खोवावत राठोड आसोप वाला रो ।
- 1 वेडरोडे जद पटे गाव रतकुडियो थो ।
- 1 कलावत नराणदास राठोड ।
- 1 पचाली राधोदास बलोत ।
- 1 सुवार खगार ।
- 1 राठोड रामदास सूर्यसिंहोत ।
- 1 करणोत माघवदास रतनसिंहोत ।
- 1 राठोड तेजसी कलावत रो वेटो गाव मुगदडा रो आ पडने काम आवो जणा 20 सू ।
- 8 राजपूत 8 जणा दूजा काम आया, धायत हुथा ।
- 1 भाटी गोपालदास आमावत ।
- 1 राठोड गोपालदास सुदरदासोत रीया रो ।
- 2 राठोड रामदास जी चादावत काम आया ने — —

चारण दधवाडियो<sup>1</sup> माधवदासजी काम आयो ।  
दूजा आदमी घणा माराणा ।

सम्बत् 1690 रा फागण सुद ०<sup>2</sup> फलोधी ऊपरे वलोचा री फोज आई  
तरे श्री महाराज रो साथ फलोधी थो तठे सामा जाय लडिया । तठे काम आया—

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1 भाटी अचलनास सुरताणेत       | राजपूता सू । |
| 1 भाटी हरदास कलावत ।         |              |
| 1 भाटी सगर्तसिंध खेतसिंधोत । |              |
| 1 भाटी वाथ ।                 |              |

सम्बत् 1692<sup>3</sup> बु देलो फिरियो । तर आसोज सुद २<sup>4</sup> आगरा थी, साहजहा  
पातसाह बु दला री धरती म होय दोलतावाद गया ।

सम्बत् 1681<sup>5</sup> मे भडारी लूणा ने परधानगी दिवी । पहली दिवाणगी थी ।  
परधानगी हुवा पीछे लूणो वेगोहीज रामसरण हुवो । तरे राठोड राजसिंध खीवावत  
खाप कू पावत ने परधानगी दिवी । सम्बत् 1684<sup>6</sup> म श्री महाराज बुरहानपुर सू  
जोधपुर पधारिया । सिंधवी सिरेमल ने दीवाणगी दिवी । सम्बत् 1686<sup>7</sup> म  
तागीरायत किवी । पछे सिरेमल नाश ने उदपुर गया । तर मोहोणेत (जमल)  
जेसावत नू दीवाणगी दिवी । स० 1690<sup>8</sup> म मोहोणेत जेमल सू तागीरायत  
करने सिंधवी सुखमल ने दिवी । सुखमल पहली भडारी लूणा सामल ही काम  
दियो था ।

सम्बत् 1689<sup>9</sup> म पातमाहंजी पजाव री तरफ फोज कर गया । तर महाराज  
साथे था न पाटवी कवर अमरसिंध जी था । तिणा र महाराज रै खवास अनारा  
रे बणती नही । तिण सू अनारा रात दिन अमरसिंध जी री नालसा<sup>10</sup> महाराज  
आगे करबो करती, न अमरसिंध जी पिण अपजोरे<sup>11</sup> हालता । तिण सू महाराज  
नाराज था ने छाटा कवर जसवतसिंध सू महाराज री मरजी थी ।

1 राजस्थान के महाकाय राम रासो का रचयिता माधवदास चूडावत  
दधवाडिया । वह बलूदा का वास वा निवासी था ।

2 फरवरी 1634 ई । 3 1635 ई ।

4 शनिवार अक्तूबर 3 1635 ई ।

5 1624-25 ई ।

7 1629-30 ई ।

9 1632-33 ई ।

11 अपने बल बूते पर रहत रहे ।

6 1627-28 ई ।

8 1633-34 ई ।

10 नालिश=शिक्षायते ।

दिया ने सामोर रो पटो पाढो बहास करायो । ने जसिध जी री हिंदू तुरकाण म दोनू रजवाहा म पणी हासी हुई ।

सम्बद्ध 16— भागरे राजा गजनिध जी घोडा 487 रपया चार साल 4000<sup>00</sup>) रा पठाण हयात यां रा विगर मोल बीताईज उमरावा नू चारणा नू लिया । तिण री विगता देस म तिधबी गुप्तमत पचासी भानसिध ऊपर लिस ट्रिबी । दीवान पचोली माहणदासजी रा लिखिया परवाना —

मेडता रो वित मर से गया था, जिण आवत सम्बद्ध 1679<sup>1</sup> — मेडता रा सोवादार मयु महमद मठता नू चढ़ियो सो जेतारण रो गाव नीबोल नादवाण बोरा मातवर भ्रातामिया ही जिला ने तुरको पवडी । यां दिना बमूदे राठोड रामदास चादावत राज दरे मु हातो पातसाही चाकर, जुदो मुनसब पिण विरामणा पुकार पासी । तरे भावरो साथ चाहर चढ़िया, सो मठता रो गाव सालडवी मू गदहा विवे जाय पोद्दता ।

तुरको मू भगडो हुवो । हवते भगडे जतारण हाकम थी महाराज री तरफ मू पचासी राधोनास मु हृतो रामो विशनदास रो न किर सरदार जतारण फोज मे हा सो चढ़िया, तो भगडा म सामिल हवा । भगडो हुवो । बोहरा ने दुडाय लिया । तुरक नाठा पिण भगडो भारी हुवो । मुगदडा सालडवी विवे इतरा काम माया । तिणा री विगत—थी महाराज री फोज रा—

- 1 बू पावत विशनदास खीवावत राठोड आसोप याला रो ।
- 1 वेडरोडे जद पटे गाव रतनुडियो था ।
- 1 बलावत नराणदास राठोड ।
- 1 पचासी राधोनास वलोत ।
- 1 सुवार खगार ।
- 1 राठोड रामदास सूरसिधोत ।
- 1 वरणोत मायवदास रतनसिधोत ।
- 1 राठोड तेजसी कलावत रो वेटो गाव मुगदडा रो मा पडने काम आवो जणा 20 मू ।
- 8 राजपूत 8 जणा दूजा काम भाया, घायल हुमा ।
- 1 भाटी गोपालदास आमावत ।
- 1 राठोड गोपालदास सुदरदासोत रीया रो ।
- 2 राठोड रामदास जी चादावत काम भाया ने — —

चारण दधवाडियो<sup>1</sup> माधोदासजी काम प्राप्तो ।

दूजा आदमी घणा मारणा ।

सम्बत् 1690 रा कागण सुद ०<sup>०</sup> कलोधी उपरे बलोचा री फोज आई तरे श्री महाराज रो साथ कलोधी थो तठे सामा जाय लडिया । तठे काम प्राप्ता-

1 भाटी अचलदास सुरताणोत राजपूता सू ।

1 भाटी हरदास कलावत ।

1 भाटी मगतसिंध खेतसिंधोत ।

1 भाटी चाप ।

सम्बत् 1692<sup>३</sup> चु देलो फिरियो । तर प्रासोज सुद २<sup>४</sup> आगरा थी साहजहा पातसाह चु देला री घरती म होय दोलतावाद गया ।

सम्बत् 1681<sup>५</sup> मे भडारी लूणा ने परधानगी दिवी । पहली दिवाणगी थी । परधानगी हुवा पीछे लूणो बेगोहोज रामसरण हुवा । तरे राठोड राजसिंध खीवावत खाप कू पावत ने परधानगी दिवी । सम्बत् 1684<sup>६</sup> म थी महाराज बुरहानपुर सू जोधपुर पधारिया । भिघवी सिरेमल ने दीवाणगी दिवी । सम्बत् 1686<sup>७</sup> मे तागीरायत किवी । पछे सिरेमल नाश ने उदपुर गया । तर मोहोणोत (जमल) जेसावत तू दीवाणगी दिवी । स० 1690<sup>८</sup> मे मोहोणोत जेमल सू तागीरायत करने सिघवी सुखमल ने दिवी । सुखमल पहली भडारी लूणा सामल ही काम नियो थो ।

सम्बत् 1689<sup>९</sup> मे पातसाहजी पजाब री तरक फोज कर गया । तर महाराज साये था ने पाटबो कबर अमरसिंध जो था । तिणा र महाराज र खदास अनारा रे बहुती नही । तिण सू अनारा रात दिन अमरसिंध जी री नालसा<sup>१०</sup> महाराज आगे करबो करती, ने अमरसिंध जी पिण अपजोरे<sup>११</sup> हालता । तिण सू महाराज नाराज था ने छोटा कबर जसवतसिंध सू महाराज री मरजी थी ।

1 राजस्थान के महाकाय राम रासो का रचयिता माधवदास चूडावत दधवाडिया । वह बलूदा का वास का निवासी था ।

2 फरवरी 1634 ई । 3 1635 ई ।

4 शनिवार अक्तूबर 3 1635 ई ।

5 1624–25 ई । 6 1627–28 ई ।

7 1629–30 ई । 8 1633–34 ई ।

9 1632–33 ई । 10 नालिश—शिकायतें ।

11 अपने बल बूते पर रहत रहे ।

सो महाराज विचारियो अमरा ने टीका सू दूर कर बाई दूजी ठौड़ दिरावणी । ने जसवत्सिध ने जोधपुर देणो । भा सलाह ठहराय कवर अमरसिध ने लाहोर था, लिय मेलियो— जोधपुर थी, थे मेडते जावजो ।<sup>1</sup> राठौड़ राजसिध खीबावत अमरसिध जी री हजूर थो, सो सोख कर यापरे घटे गयो थो । कवर अमरसिध जी सम्बत् 1690 रा वेसाख वद 11<sup>2</sup> जोधपुर था हालिया सो बीलाडा माहे होय ने वसाख सुद 2 भडते आया । राठौड़ राजसिध जी आसोप थी मेडते आखतीज नू आया ने महाराज थी गजसिध जी राठौड़ राजसिध जी नू लिखियो— ‘कवर अमरसिध ने म्हे टीका थी दूर किवी है । कवर अमरसिध ने लाहोर मेल दीजो सो थी पातसाह जी र जुदो चाकर राखा ।’ तरे सम्बत् 1691 रा आसोज सुद 10<sup>3</sup> कवर अमरसिध जी भडता सू हालिया । डगोलाई उपर ढेरो कियो । पछ्ये गाव पद्मावती बडी ढेरो थो तथा थी बाती वद 12<sup>4</sup> राठौड़ राजसिध जी राजा जी रा चाकर था त्या ने सगला ने उरा लने मेडते आया । कवर अमरसिध जी आपरा चाकरा ने लेन हालिया सो लाहोर गया । तरे विलायत रा मीर सू फतह किवी । तठे महाराज ने मनसब रो पातसाह फुरमायो थो—सो महाराज उघार राखी थी सा पातसाह जी सू अरज किवी । म्हाने मनसब रो फुरमायो था सो अमरसिध ने बख्साईज । तरे पातसाहजी फुरमायो ठीक छे । तरे सरबद 1691 रा पोय वद 9<sup>5</sup> नम बुहस्पतवार लाहोर म पातसाह जी र परे सगाया ने पातसाह जी अडाई हजार जात दोड हजार असवारा रो मनसब दियो । ने परगता 5 जागीर म दिया सावलू साख आधी था ।

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 150000) बडोद रहण सू | 20000) बालूबो  |
| 375000) भिलाय       | 70000) सार्गोद |
|                     | 160000) आतरोदो |

437500) च्यार लाख ने साढा सतीस हजार रुपया रा दाम 17500000) कवर अमरसिध जी जागीर पाई । तर महाराज थी गजसिध जी लिल मेलियो— “अमरसिध री मा सोतगरी अमरसिध री बर, वेटा, वेटी जिकु अमरसिध रा हुबो सो जोधपुर था चलाय दीजा अमरसिध जागीर पाई छे । बडो (हए) जठे जाय रह । तद सम्बत् 1691 रा चेत वद 6<sup>6</sup> जोधपुर था उतरने बडो (हए) नू हालिया त्यारी विगत—

1 रविवार, अप्रैल 13, 1634 ई ।

2 शनिवार अप्रैल 19, 1634 ई ।

3 सोमवार सितम्बर 22 1634 ई ।

4 बुधवार, अक्टूबर 8, 1634 ई ।

5 गुरुवार दिसम्बर 4 1634 ई ।

6 शनिवार फरवरी 28 1635 ई ।

१ वहुजी श्री सोनगढ़ी जी मनसुखदे, सानगरा जसवात री बेटी, अमरसिंघ  
री मा ।

२ कवर अमरसिंघ जी री वहुबा

१ सीसोदणी अनूपदे, उदपुर राणा करण री बेटी ।

२ कछवाही अणददे, राजा महासिंघ री बेटी ।

३ अहाडी अजायब दे रावल पूजा री बेटी ।

४ जाडेची बोहरणदे बीभा अजावत री बेटी ।

५ भाटयाणी सबसुख दे जगनाथ री बेटी ।

5

२ कवर अमरसिंघ जी र बेटा दोय २ ।

१ कवर रायसिंघ, कछवाही रो सम्बत् 1680 रो जाम ।

२ कवर जगतसिंघ, अहाडी रो, परणने गया पछे मूवो ।

2

कवर अमरसिंघ जी री बेटिया—

१ दीप कवर आहाडी री ।

१ बदन कवर जाडेची री ।

१ बल्याए कवर सीसोदणी री ।

3

परठ १—महाराजाधिराज महाराजा श्री गजसिंघ जी महाराज कवार  
जसवातसिंघजी बचनात थी रावल जो धरती माह थी राजपूत परो काढसी तिण  
न थी राजाजी धरती माहे नही राखे । बोटडिया, बाहुडमेरा, पोहकरणा श्री  
रावल जी री धरती रो विगाड करसी तिण नू गरदन मारसी । विल पाढ्यो  
दिरावसी । मेहूचा राडघडा रा, मागलिया, गागाद देवराज ऊहड इदा कोई नही  
कर । थी रावल जी री धरती रो विगाड करसी सो सजा पावसी । तिण वात  
रा बोल महाराज थी सूरसिंघ जी रो छे । महाराज श्री गजसिंघ जी थी राजा जी  
री धरती माह थी जिको रजपूत परो काढसी । तिण नू थी रावल जी नही राखे ।  
महवचा, राडघडा मागलिया नू नही राखे ।

सम्बत् 1693 रा जेठ वद 7<sup>1</sup> । मुवाम जसलमेर महाराज कवर थी  
जसवातसिंघ जी जसलमेर मनोहरदास री बेटी परणिया तर राठोड राजसिंघ

१ रविवार मई 7, 1637 है ।

खीवावत कागद लिखन रावल श्री मनोहरदास ने दिया। कागद ऊपर छाप थे। सही न थे।

महाराजाधिराज महारावल श्री मनोहरदास जी वचनात् श्री राजाजी री धरती रो रजपूत, श्री राजाजी धरती माहे परो काढे तिण ने श्री रावल जी धरती माह राखे नहीं। श्री राजा जी री धरती रो विगाड़ करण पावे नहीं। कोई विगाड़ कर तो महाराजाधिराज महारावल श्री कल्याणदास जी रावल श्री मनोहरदासजी रो दोल थे। कोटडिया वाडमेर रो पोहकरणो, श्री राजाजी री धरती रो विगाड़ करे जीको विगाड़ गरदन मारे। मे, वित पीथ पाढ़ो करे। भाटी सोढो श्री रावल जी री धरती माहे रहे नहीं। श्री राजाजी री धरती ये विगाड़ करण पावे नहीं। विगाड़ करे सो गरदन मारा। महेवचा राढघडा मागलिया कोई श्री राजाजी री धरती माहे थी—परो काढे तिण नु श्री रावल जी धरती माहे राखसी नहीं। कोटडिया वाहडमेरा कठे ही नहीं राखे। सम्वत् 1693 रा जेठ वद 7 रवि<sup>1</sup> ऊपरे सीह की छाप की थी। कागद श्री राणीजी ने गुदराय ने धाघू रासा रे कोठार दियो। श्री जी री हजूर धाघू रामसिंह र हाथ। सम्वत् 1693 रा जेठ सुद 5-जोधपुर मे।

महाराज गजस्ति जी हाथी ने लाख पसाव इतरा दिया चारणा न।

हाथी 1 लाख 1 पसाव

|   |   |                                                   |
|---|---|---------------------------------------------------|
| 1 | 2 | भादो अजो किसना महराजोत हाथी लाल मुदर।             |
| 2 | 2 | आदो दुरसो ने किसना नु दोय 2 हाथी जगनाग 1 गुणसो 1। |
| 1 | 2 | बारठ राजसी खावत हाथी पूरणो मकुनो 1।               |
| 0 | 1 | बीठू राजसी परतापमलोत।                             |
| 1 | 1 | महडू कल्याणदास जग्डावत हाथी गयादगिर 1।            |
| 1 | 1 | सद्याच हरिदाम बीणावत हाथी गजमवर 1।                |
| 0 | 1 | कवीयो भानीदास जोरावत नाथूबोत।                     |
| 1 | 1 | कवीयो पचायण हाथी मतग।                             |
| 0 | 2 | गाडण वेसव सद्वात।                                 |
| 1 | 1 | घर्षवाडियो खीवराज जतमालोत, हाथी रिणदलण।           |
| 0 | 1 | भाट गोकलचाद ताराचाद रो।                           |
| 1 | 0 | भाट राव मनोहर—सीधो।                               |

1 रविवार मई 7 1637 ई।

2 गुरुवार मई 18, 1637 ई।

जोधपुर राज्य की स्थापना

० १ सामोर हेमराज ।

९ १६ लाख पसाव एक राखपया (2500) दीरीजता । महाराज  
थी गजसिंह जो इतरा हाथी दिया—  
२ परम वेरे हाथी २ दिया ।

१ सम्बत् १६९० रा फागण मुदी १५१ चत्र प्रहरण वेला भागरा थी  
लाहोर जाती दूरक्षेत तरे कोस २ डेरो थो तठ दियो हाथी फुको ।  
१ सम्बत् १६९४ रा जेठ मुद १२ मात्र भवस्या भागरे दियो हाथी  
चेरवचो ।

— — — १

२

९

चारणा ने लाख पसाव में हाथी दिया—

- १ भादो अजो किसना महराजोत ।
- २ आढो दुरसो ने विसना ने ।
- १ वारठ राजसी घलावत ने ।
- १ महूँ कल्याणदास जाडावत ।
- १ सडायच हरीदास वीणावत ।
- १ कवियो पचाईए ।
- १ घषवाडियो लोवराज जेमलोत ।
- १ माट राव मनोहर ।

— — — १

८

साहजहाँ पातसाह ने पेसकस किया ।

- १ सग्रामसूर रूपार सालत ।
- १ वसादर मथन रूपा र सालत ।
- १ सूरत सिंगार रूपार सालत ।
- १ पलराव ।
- १ जग जोधा ।
- १ जूल हाल ।

१ मगलवार माच ४ १६३४ ई ।  
२ शुक्रवार मई ४ १६३८ ई ।

1 रिणबीत ।  
 1 हयणी छवीली ।

---

8

3 साहजादा परवेज नू दिया ।  
 1 रामप्रमाद ।  
 2 मनराज ।  
 3 गज तिलक ।

---

3

5 पातसाही उमरावा ने दिया ।  
 2 नवाब खानखाना नू ।  
 1 हाया गजघटा । 1 सुदावक्स ।  
 1 राजा जेसिध कछवाहा नू परणग्यो तर डायज दिया ।  
 1 सेद माला जहागीर पातसाह टीको दे मेलियो थो राजाजी  
 नू तिए नू दियो । हयणी पवन वेग ।  
 1 आसपहार ने सावला सुदर रुपेरी साहत ।

---

5

8 महाराज आपरा चाकरा नू दिया ।  
 5 राठोड राजसिध खीवावत परधान ।  
 1 गजसोभा ।  
 1 गजरतन ।  
 1 वाघवचो ।  
 1 गज कवर ।  
 1 हयणी मेमोली ।

---

5

2 राठोड मटेसदास मूरजमतोत चापा ।  
 1 अलोल गज दियो थो । पछे उरा ल लटकगा नियो ।  
 1 हयणी गुणेसी ।

---

2

1 मदारी लूणा गोरावत ने हाथी गुणेसो दियो था सो उरा  
ले बाल सुदर दियो ।

---

8

35

महाराज श्री गजसिंघ जी सम्बत 1694 रा जेठ सुद 3<sup>1</sup> राम क्यो । तिण  
टिन इतरा हाथी था । त्यारी विगत—21 हाथी—

- 1 गज तिलक सहजादे खुरम टीका रो राजा श्री गजसिंघ जी ने  
बुरहानपुर मेलियो थो, सम्बत 1676<sup>1</sup> रा म ।
  - 1 मगुकर राजा श्री सूरभिंव जी रो माल लियो थो ।
  - 1 भेघनाद राजा श्री सूरभिंव जी री खरीद ।
  - 1 तिलाक भोहण पहली रिण बावलो कहीवतो कवर अमरसिंघ जी  
र दायजा रो रागे अमरसिंघ जी दियो थो ।
  - 1 रिण रावत, राजा गजसिंघ जी ने साहजहा पातसाह दियो थो ।  
गज मगल नाव पहली थो ।
  - 1 वेसदन मथन राजा जेसिंघ जी अमरसिंघ जी रे डायजे दियो थो ।
  - 1 भूवण राव परवेज राजा गजसिंघ जी ने दियो थो ।
  - 1 बख्ल बलद साहजहा राजा गजसिंघ जी न दियो थो ।
  - 1 बली कवर रायभान बन माल दियो । सम्बत् 1685<sup>2</sup> ।
  - 1 अलोल गज फटीम<sup>3</sup> बन मोल लियो थो ।
  - 1 फौज सीगार छोने बोत को<sup>4</sup> । राजा सूरभिंव जी ने अकवर  
पातसाह दिया । पछ जहांगीर पातसाह उरो लियो । सा साहजहा  
गजसिंघ ने दियो ।
  - 1 नूर प्रसाद जहांगीर पातसाठ 'फौज सीगार' तिण र बदल सूरभिंव  
जी ने दियो ।
  - 1 रिणजीत खुरम साहजादे थके दिलगा म राजा गजसिंघ जी ने  
दियो ।
- 

1 सन् 1619 ई

2 1628-29 ई ।

3 फटीम राहधरा शाखा का राठोड़ पुजा का पुत्र ।

4 बोत को—दस वर्ष का हाथी ।

- 1 जुलहाल पहली अणी राव नावें था साहजहा गजसिंध न ब्वर थव दिया था ।
- 1 जुधसिंध राजा गजसिंध जी सादिक खा रा बेटा कने मोल लिया था ।
- 1 मधु मूरत राजा गजसिंध नू साहजहा दिया थो ।
- 1 जगजीत, राजा सूरसिंध जी नू खानखाना दियो थो ।
- 1 फते ममारेख, राजा गजसिंध जी सामगर कन मोल लिया था ।
- 1 जगनग राजा गजसिंध जी बुरहानपुर मोल लिया थो ।
- 1 फत दोलत किसना आढा कने राजा गजसिंध नी मोल लिया था ।
- 1 अचल दीप राजा गजसिंधजी राजा भावसिंध री बटी परणिया तर राजा जेसिंध दायजे दिया था ।

21

## 20 हयणिया

- 1 सुख निधान, सुरसिंध जी आगरे तिबी थी ।
- 1 फूतमाल राजा सूरसिंध जी मोल लिबी थी । बाडी री सिकार म ली ।
- 1 मेघमाला, राजा सूरसिंधजा मोल लिबी थी ।
- 1 सुदरी राजा सूरसिंधजी मोल लिबी थी ।
- 1 सुगणी, राजा गजसिंध जी बाडी री सिकार मे ली ।
- 1 रगीली राजा गजसिंध जी खानम री पाच हथथो मोल लिबी थी, तिण म ली ।
- 1 शप, वेल, राजा सूरसिंध जी मोल लिबी ।
- 1 सपूती राजा गजसिंध जी मोल लिबी ।
- (1) मोहणी राजा सूरसिंध जी मोल ली ।
- 1 गज सुदरी सूरसिंध जी मोल लिबी ।
- 1 नणसुख राजा गजसिंध जी चारण किसना कन लिबी ।
- 1 विनोदी राजा गजसिंध जी बुरहानपुर म ली ।
- 1 सहेली राजा गजसिंध जी बाडी री सिकार म ली ।
- 1 वसुतावर राजा गजसिंध जी रिफवग बना ली थी ।
- 1 क्तुर्द, राजा सूरसिंध जी मोल लिबी ।
- 1 वगुली राजा सूरसिंधजी मोल लिबी ।
- 1 चमेली, राजा सूरसिंधजी मोल ली ।

- 1 दोलती, खानम रा पचाली राजा गर्जसिंह जी तिण माय ली ।  
 1 रिणवावलि, राजा गर्जसिंह जी नू मूत जेमल पेस किंवी ।  
 1 रायबेल खान मा री पाच हथणी राजा गर्जसिंह जी ली तिण माय ली ।

20

41

## (निर्माण काय) —

राजाजी रा हुकम सू इतरो काम कू पावत राजसिंह खीवावत करायो । तिण री विगत—तोरण री पाल आगलो सभामढप दीवाण खाना दीवानम्याना नीचली पोल, कोठार रसोहो न थी आएद धनजी रो ठाकुर दुवारो इतरा नवा नाम करायो । तलहटी रा महल नवा कराया । बागायत धणी नवी कराई । वेडा<sup>1</sup> परणा नवा कराया । महाराज गर्जसिंह जी बिन पातसाह हुवो । एक कोड ने वारे लाख रुपया खादा दीधा । रुपया 99 00 001 सूरसिंह जी रा खाटीयोडा खजाना मू काढ खादा खाया । रुपया 13 00 001) बोहरा<sup>2</sup> रा माथे कीधा तिण में जालोर ग्रामो<sup>3</sup> मेली थी सो महाराज जसवत सिंहवी छुडाई । करज रा रुपया 1120001) एक करोड 12 वारह लाख 1 रुपयो देने छुडाई ।

महाराज गर्जसिंह जी तुला विराजिया तिण री विगत —

- 1 पिरोजियाँ<sup>4</sup> री तुला कवर पदे किंवी । जोधपुर सूरसागर ऊपरे राजा सूरसिंह जी रुपया तुलिया । तरं सम्बत् 1670 रा काती सुद 15<sup>5</sup> चाद्रग्रहण थो दस हजार पीराजिया तुलिया ।  
 2 रुपारी तुलाव किंवी ।  
 1 प्रयागजी चवणी ऊपर सम्बत् 1680<sup>6</sup> ।  
 1 बणारसी मनकरणका<sup>7</sup> का ऊपरे सम्बत् 1681<sup>8</sup> ।

1 वेडा=वेरा=कुए ।

2 उपाजित ।

3 साहूकार ।

4 गिरवी ।

5 फिराझी सिवके चादी बे जिह फिरोजशाह तुगलक न चलाया था ।

6 सोमवार, अक्टूबर 18, 1613 ई ।

7 1623 ई ।

8 मणिकर्णिका घाट ।

9 1624 ई ।

1 आगरे सूप ग्रहण में हवेली जमना ऊपर सम्बत् 1690 रा आसोज वद 30<sup>1</sup> ।

10000) राणी प्रतापदजी तुलिया छपया 10000) सू ।

9000) कवर जसवंतसिंघ जी तुलिया 9000) सू ।

— — —

3

सम्बत् 1691<sup>2</sup> महाराज लाहोर सू सीख कर पथारिया । सम्बत् 1693<sup>3</sup> जेसलमेर रा रावल मनोहरदास री बेटी कवर जसवंतसिंघ जी न परणाई । सम्बत् 1694 रा बाती सुद 15<sup>4</sup> पाछा आगर पथारिया । सम्बत् 1694 रा जठ सुर<sup>5</sup> (2)<sup>6</sup> रा सावा महाराज कवर जसवंतसिंघ जी बुदी हाडा चत्रसिंघ जी रे परणीजण पथारिया था । राठोड राजसिंघ खीवकरणोत जान म साथ हो जान देस सू गई था ।

महाराज गजसिंघ जी न आगरा रा डेरा चाकी<sup>7</sup> गाई । पातसाह साहजहा डेर सुख पूछ्ण ने आयो न क्यो ने पूछियो— मामू जी आपरा मन म हुवे सा कहो । तर महाराज अरज करी जोधपुर रा राज रा टीको जसवंतसिंघ ने देण रो बचन दिरावो । तरे पातसाह बचन दिया । पद्ध उमरावा मुतसदिया खवास पासवाना बगेरह सारा चाकरा नु बुलाय ने फुरमायो । थ सारा जसू री चाकरी म रहीजो ने जाधपुर रो धणी जसू ने कीजो । बोई पलटियो तो थी परमश्वर जी री दरगा म समझ लेसा । सारा चाकरा इण बात री बचन दिया । सम्बत् 1694 रा जेठ सुद 3 सूरजबार<sup>8</sup> दोफारा ऊपर घडी दोय दिन आयो आगरा म हवेली म देव लोक हृषा । जमना ऊपर दाग दियो । सतिया हृदै ऊपरे द्यनी कराई थे ।

महाराज गजसिंघ जी बहो राजा हृषो । छोटी मोटी बावन राढ जीता न पाच हजार फौज बन सासती रही । ने चटेरा राजपूता रा हाथ सू करता, न

1 सामवार सितम्बर 23 1633 ई ।

2 1634-35 ई ।

3 (मगलबार अप्रैल 23) 1637 ई ।

4 सोमवार, अक्टूबर 23 1637 ई ।

5 शनिवार, मई 5, 1638 ई ।

6 राणावस्था थी अवेननता ।

7 रविवार मई 6, 1638 ई ।

तितदारी देखता । न साथ वार पातिया मे भेले जीम जिसा रो चेहरो करता । ने पाव हजार ने ही नावे पर नावे ग्रोलखता सो उमरावा ने कुरब बायदो जादा थो । पिण ओल-खाण सारा सू बरावर थी । न राज रो रसालो तथा सरदारा रो रेख रो साथ सारा रो चेहरा भ माडता न सीख हृती । सो अरवरु हृडती । परवारी सरदारा र दियोडी हृती नही । ने आठवें दिन सारा रो अरवरु खबर लेता । राजपूत री भीमत र लेखे हिंदवाणी तुरकाणी भ महाराज गर्जसिंध जी बरावर कोई जाहे हृवो नही ।

### नीताणी

दल डोह्या पातसाह का, प दीठा थोडा ।  
गजबधी जेहा जवान, ज जेहो घाडा ॥१॥

महाराज दबलोऽ हुवा री खबर जोधपुर जेठ सुद 12 सोमवार<sup>1</sup> न आई ।  
तर जोधपुर मे सतिया हुई ।

महाराज गर्जसिंध जी र राजलोका क्वरा री विगत—

- 1 वढी वह क्षद्धाही कत्याएंदवी पीहर रो नाव रुपमती बाई, राजा जगरुप जगनाथोत री बेटी । सम्बत 1652 रा आमोज बद 12 रो जन्म जिणा ने जोधपुर सू ताडे जाय परणिया । सम्बत 1662<sup>2</sup> म ने सम्बत 1705 रा मिगसर<sup>3</sup> भ राम कयो ।
- 1 चान्द्रमती बाई बाधवगढ रा बाधेला राजा शमरसिंध ने परणाई थी जोधपुर सम्बत 1690 रा फालगुण सुद 5<sup>4</sup> ने सम्बत 1671 रा भाद्रवा बद 14<sup>5</sup> रो जन्म सो राजा राम कयो, तर सम्बत 1707<sup>6</sup> मे जोधपुर आई । गाव डावरो पटे दियो ने सम्बत 1726<sup>7</sup> म राम कयो । ने दान पुण्य घणो कियो ने रुपया 10001) बावडी करावण माह रुपया साहारणी उदेकरण नू दिया ।

1 सोमवार मई 14 1638 ई ।

2 मगलवार सितम्बर 9, 1595 ई ।

3 1605-6 ई ।

4 नवम्बर दिसम्बर 1648 ई ।

5 शनिवार फरवरी 22, 1634 ई ।

6 बुधवार अगस्त 24 1614 ई ।

7 1650-51 ई । 8 1669-70 ई ।

- 3 वाया नानी थको मूर्दि ।  
 1 पेम कवर ।  
 1 पूर वाई ।  
 1 अणनी वाई ।
- 2 बहू चौहाण इमरत्ने जी चौहाण मिकरा री बेटी सम्बत् 1664 रा फालगुण<sup>1</sup> मे नाव खेजड़ली पधार परणिया था । सम्बत् 1719 रा फालगुण वर्ष<sup>2</sup> को जोधपुर बलिया ।  
 1 कवर ग्रचलतिध सम्बत् 1670<sup>3</sup> जामो थो सो वालक थको राम कयो ।
- 3 बहू सोसोणी राणी प्रतापदे जी पीहर रो नाव दूमावती वाई, भाण ममतावन री बेटी । सम्बत् 1655 रा आसाज सुर<sup>4</sup> 13<sup>5</sup> ने सम्बत् 1664 रा आसोज सुर<sup>6</sup> आगरा सूर मथुरा जी पधार परणिया । केसोदास मार विहाव कियो राणी जी रो नाना थो । पछ सम्बत् 1679 रा मिगसर सुर<sup>7</sup> 5<sup>8</sup> जोधपुर म राणी पना किया ने सम्बत् 1690 रा जठ सुर<sup>9</sup> 13<sup>10</sup> नाहीर राम कयो । रप्या 3500) तुला की अन्त श्रवस्था (म) । इणा रो बटो । ।  
 1 कवर जसवाततिधजी सम्बत् 1683 रा महा बद 4<sup>11</sup> रा जनम बुरहानपुर भ
- 4 बहू चाद्रावत कशमीरदे जी राव चादा री बेटी । जोधपुर सूर रामपुरे पधार परणिया सम्बत् 1668 रा बेसात सुद 4<sup>12</sup> कवर पदे था । तर तलाव गानेलाव फूटो थो सो फेर नबो वधादो सम्बत् 1710<sup>13</sup> रा मे ने सम्बत् 1715<sup>14</sup> मे प्रतिष्ठा कराई ।

1 जनवरी फरवरी 1608 है ।

2 मगलवार जनवरी 20 1663 है ।

3 1613-14 है ।

4 सामवार भक्तुवर 2 1598 है ।

5 सोमवार सितम्बर 19, 1607 है ।

6 बुधवार नवम्बर 27 1622 है ।

7 शुक्रवार मई 30, 1634 है ।

8 मगलवार दिसम्बर 26 1626 है ।

9 शुक्रवार भ्रेत्र 24 1612 है ।

10 1653-4 है ।

11 1658-9 है ।

- 5 वहू भटियाणी लालदे, रावल कल्याणदास री वेटी । पीहर रो नाव रामबवर बाई, जोधपुर थी जेसलमर पथार परणिया, कवरपदे सम्बत् 1669 रा माहा वद (5)<sup>1</sup> जसलमर रावल भीव व्याव किया । गायदास जी जानी था । (४३५६) पाच हजार ३ सो छप्पन हुगाणी लागा । पोहबरण देहरा रो भागलो मण्डप बराया । सम्बत् 1709<sup>2</sup> रा वरस म । सम्बत् 1650 रा मिगसर सुद 12<sup>3</sup> बारह रा जन्म ने सम्बत् 1724<sup>4</sup> मधुरा जी मे राम कयो ।
- 6 वहू सोनगरी मनसुखदेजी, सोनगरा जसूत मानसिपोत री वेटी । पीहर रो नाव भागूतीबाई । सम्बत् 1670 रा वेसाख सुद 10<sup>5</sup> गोदतूक साह गाव मिणियारी जोधपुर सू पथार परणिया था सो कवर अमरसिंघ जी र जागीर म बडोद रहण गई । सम्बत् 1691 रा चत वद 7<sup>6</sup> गढ था उत्तरन अमरसिंघ जी र नागोर हुवा तद नागोर आया । सम्बत् 1651 रा फासण वद 6<sup>7</sup> रा जन्म ने सम्बत् 1697 रा आसाढ वद 3<sup>8</sup> नागीर म राम कयो ।
- 1 कवर अमरसिंघ जी सम्बत् 1670 रा पोस सुद 10<sup>9</sup> रो जन्म ।
- 7 वहू बाधेती कसूमदेजी सागा बाधेला री वटी ईडर री धरती थी जोधपुर डालो आया थो । सम्बत् 1671 रा आसाढ<sup>10</sup> मे साभा सिकदार रे घरे परणिया था तलाव बागडी नवो बराया सम्बत् 1715<sup>11</sup> । सम्बत् 1652 रा मिगसर सुद 14<sup>12</sup> रो जन्म ।
- 8 वहू जाहेबी नवरंग दे नवानगर रा धरणी जाम जसा री वेटी । बुरहान पुर डोला आयो थो । रावलो साय जाय बुरहानपुर सू त डोलो लाया । सम्बत् 1678 रा वसाख सुद 12<sup>13</sup> गाव रावर पथार परणिया । सा

---

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 1 शुक्रवार जनवरी 1, 1613 ई ।    | 2 1652-3 ई । |
| 3 रविवार नवम्बर 25 1593 ई ।     | 4 1667-8 ई । |
| 5 शनिवार अप्रैल 9 1614 ई ।      |              |
| 6 रविवार माच 1, 1635 ई ।        |              |
| 7 मगलवार, जनवरी 21, 1595 ई ।    |              |
| 8 मगलवार, जून 15 1641 ई ।       |              |
| 9 शुक्रवार दिसम्बर 30 1614 ई ।  |              |
| 10 जून 1615 ई ।                 | 11 1658 ई ।  |
| 12 शुक्रवार दिसम्बर 5, 1595 ई । |              |
| 13 शुक्रवार अप्रैल 12 1622 ई ।  |              |

सम्बत् 1719 रा पागुण वद 8<sup>1</sup> बुध रात घडी 5 पाच मूरच्छी सो तुरत राम क्यो जोधपुर मे ।

- 9 वहू कछवाही केसरदे नष्की चाद्रभारा री बेटी । सम्बत् 1679 रा जेठ सुद 8<sup>2</sup> रामपुरा रा घरनी भं चावल ऊरे पठे पधारता गाव पवानवाड परणिया साहजादा परदेज साथे जाता । चाद्रभारा मोहबत खान रो चाकर । सम्बत् 1694 रा जेठ सुद 3<sup>3</sup> राजाजी राम क्यो तर जेठ सुद 12<sup>4</sup> जोधपुर सू मढावर जाय कनी । सती हुता बधीवान ढूँगा ।
- 10 वहू कछवाही सूरदेजी राजा भावसिंघ री बेटी । जोधपुर भी आवेर पधार परणिया सम्बत् 1679 रा काती सुद 12<sup>5</sup> राजा जेसिंघ आव कियो । सो सम्बत् 1694 रा जेठ सुद 3<sup>6</sup> तीन राजाजी साथे आपरे सहगमन कियो । सती हुवा ।

6 पात्रा माहली गायगा थी त्यारा विगत—

- 1 तनरेखा थी हजूर साथे आगरे बली ।
  - 2 चाद्रज्योति ।
  - 3 फूलबेल ।
  - 4 नेनघन जेठ सुद 7<sup>7</sup> आगर हीज बली । उण दिन अस्त्री धरम हुई थी । जिए सू पछे बली ।
  - 5 कमोऽकती कवर जसवन्तसिंघ री मारी, आगरे बली ।
  - 6 हरिमाला कवर जी री मारी सो आगरे बली ।
- 4 खवासा च्यार 4—
- 1 लाढ्या जोधपुर म थी, सो मढोवर आप बली, सम्बत् 1694 रा जेठ सुद 12<sup>8</sup> ।

1 बुधवार, जनवरी 21 1663 ई ।

2 मंगलवार मई 27 1623 ई ।

3 रविवार, मई 6 1638 ई ।

4 सोमवार मई 14, 1638 ई ।

5 सोमवार नवम्बर 4 1622 ई ।

6 रविवार मई 6 1638 ई ।

7 गुरुवार, मई 10 1638 ई ।

8 सोमवार मई 14, 1638 ई ।

## जोधपुर राज्य की स्थापना

2 मधुरी भागरे हङ्गर साथ जेठ सुद 31 वलो ।  
3 मधुरी जोधपुर थी मढोवर जाय वली सम्बत 1694 रा

जठ सुद 12<sup>2</sup> ।

4 मुक्खी सम्बत् 1694 जोधपुर माहे बोडी जो कना सू ली थी,

सो आगरे हङ्गर साथे वली जठ सुद 33 ।

3 तुरकाणिया अनारा ईसरे महू री बेटी सुगंधा । महाराज साथे  
आगर थी । सो महाराज रो हुक्म थो जिण सू अबदाल मुगल  
तीना ही रा माधा ताडिया । तठा पथे थी राजाजी ने दाग  
दियो ।

जोधपुर म सतिया सत करता सिवदार राघोदास ने तुलाय क्यो—‘फिदिया  
सारा ने छोड दे ।’ तर केदी सारा धोडिया । पचोली बलू राघोदासोत केन  
म हो तिण क्यो—‘हू धरे जाऊ तर मारे धर रा कुसी हुव सो महाराज  
रो सभो हुवा इण बखत म मारे धरे खुशी हुवे प्रा यात भली नही । जिण  
सू महाराज जसव तर्सिंह जी छोडसी तर झट सू ।  
महाराज देवलोक हुवा तर पडदायत अनारा रो गहनो इण मुजब सरकार  
म आया—

कण्ठमाला म मोती 28 पना 15 ,

माला मोतिया री मे मोती नग 95 हीरा 3—

कासला सफे चोत्तु टा गोल सिधाडा रखी पातवी चूनिया ।

बीटी माणक री पना 5 ।

बीटी मोती री मीनाकारी ।

जेहड रो जोडो नग 2 ।

टीकी ।

देस रो गहणो ।

जेहड रो जोडी सोना री ।

कण्ठमाला मोत्यारी मोती 26 पना नग । ।

माला मोतिया री म मोती 88 ने लाल । ।

अनुप अबदाल फरहाद, परास सुन्नर हुउ उरजनियो हुगरियो जमति:

ईसरियो साकरो, ईसरवेद नेतो ईदो, या म अनारा वगेरह पडदायता :

1 रविवार मई 6 1638 ई ।

2 साप्तमवार मई 14 1638 ई ।

3 रविवार मई 6, 1638 ई ।

गहणा रो भरम थो, सा यारा घर सोजिया । महाराज गजसिंह जी चारणा ने सासण दिया । तिण री दिगत—

#### 4 जोधपुर रा गाव—

1 बारठ राजसी अखावत ने गाव रूपावस तफे पाली जोधपुर था कोस 16 खारला बने । रेख रूपया 8600) री सम्बत 1686 रा पास बद 13<sup>1</sup> ।

1 बारठ राजसी परतापमलोत नू गाव जालीवाड़ी खुरद, तफे पीपाड जोधपुर था कास 18 उगवणो पीपाड था कोस 2 रेख रूपया 500) री सम्बत 1677 म<sup>2</sup> ।

1 आमिया भाना रासावत नू गाव बसी, तफे भाद्राजण जोधपुर था कोस 15 गाव पातीगरवलिया (पाचपदरिया ?) कने दिखणा दो । रेख रूपया 300 री सम्बत 1662<sup>3</sup> रा मे ।

1 लालस खेतसी परवत मेषराजोत नू गाव भाटेलाई तके बोटणा र । जोधपुर था कास 12 रेख रूपया 500) री । सम्बत 1692 रा वेसान बद 2<sup>4</sup> मुकात हादे कतलू दोलतावाद ।

1 परगन मेडता रो गाव

1 बारठ राजसी परतापमलोत नू गाम पीथावस तफे मोकाले । रेख रूपया 500 सम्बत् 1686<sup>5</sup> रा म ।

#### 3 परणना सोजत रा गाव ।

1 आढा दुरसा मेहावत ने ने विसना दुरसावत ने गाव पाचेटियो सोजत सू कोस 13 वाता भीवालिया कन । रेख रूपया 1500) री सम्बत् 1677 रा<sup>6</sup> मे ।

1 दधवाडियो खीमराज जतमालोत नू गाव राजगियावस बडो सोजत सू कोस 7 विटोरा कन । रेख रूपया 400) री सम्बत् 1694 रा काती सुद 9<sup>7</sup> न ।

1 गाडण केसोदास सदूग्रोत नू गाव सोभडावस सोजत था कास 8 धोलरा बन । रेख रूपया 300) री सम्बत् 1683<sup>8</sup> रा म ।

1 दुधवार दिसम्बर 2 1629 है ।

2 1620-21 है ।

3 1605-6 है ।

4 मगनवार मप्रत 12 1636 है ।

5 1629-30 है ।

6 1620-21 है ।

7 मगलवार, मवूयर 17 1637 है ।

8 1626-27 है ।

## (महाराजा जसवंतसिंह)

महाराज जसवंतसिंह जी सम्वत् 1683 रा माह वद 4 मंगलवार<sup>1</sup> रो बुरहानपुर में हवेली में जन्म, सम्वत् 1691 रा सावण सुद 6<sup>2</sup> काश्मीर में राजा गजसिंह जी पातसाह साहजहा सू अरज कर वडो वेटो अमरसिंह दीक्षा थी दूर कर जसवंतसिंह जी नू टीका नू धापिया । सम्वत् 1694 रा आसान वद 7<sup>3</sup> महाराज जसवंतसिंह जी नू टीको पातसाह साहजहा श्रापरा हाथ सू आगरे दियो । जसवंतसिंह जी जागपुर सू बू दी परणीजण गया । उठे महाराजा गजसिंह जी गी ल्वर आई न पातसाह रो हुक्म आयो— दरगा आवजो । तर इतरो इनायत कियो ।

1 सिरपाव ।

1 घाडो ।

1 हाथी ।

1 श्रलम ।

1 जोडी नगारा रो रूपा री ताला 600 भर ।

1 मवी ।

1 तरवार जडाव री सभुरी ।

1 वटारो जडाव रा ।

1 च्यार हजारी रो मासव ।

पातसाहजा इतरा उमरावा न सिरपाव दिया महाराज ने टीको दियो तरे ।

1 राठोड राजसिंह खीवावत ।

1 राठोड गोरधन चादावत ।

1 राठोड विठ्ठलदास गोपालदासोत ।

1 राठोड जगतसिंहरामदासात ।

1 राठोड सुदरेदास रामदासोत ।

1 रावल भारमल जगमालोत ।

1 राठोड रतन राजसिंहोत ।

1 राठोड चनमाली दास ।

1 राठोड भावसिंह कानोत ।

1 चारण आदो किसना दूरसावत ।

1 मंगलवार, दिसम्बर 26 1626 ई ।

2 सोमवार जुलाई 21 1634 ई ।

3 शुक्रवार मई 25, 1638 ई ।

विरमा 80 जेन सू दीना सो राठोड राजसिंह जी हुजदारा तू वच्चील त्रु  
खवासी तू चीघडा तू बाट दिया । पातसाहजी टीका दियो तरे इतरा परगना  
मासव मे दिया ।

3,43,1 25) जोधपुर  
3 50,000) मैडतो ।  
1 50,000) साजत ।  
75 000) मिवारांगो ।  
67 500) फ्लोधो<sup>1</sup> ।

---

9 85 625) नव लाख पिचयासी हजार छ्व सो पच्चीस रुपया ।

सम्बत् 1695 रा काती सुद 10° मुकाम हुसियार नगर राजा जी र जमा  
खरच रो नावो श्री पातसाह जी सू गुजराया सो खरच घणा हुबो तर पातसाह जी  
फुरमाया वया किया चाहिये । तर महाराज अरज किवी—‘हजरत रे विचार  
मे आवे ज्यू कराईजे । तरे फुरमायो—‘सब राजपूता का एक एक गाव ले लेवो ।  
तर अरज करी किणी रो ही लण जिसो सलूक न द्य । तर फुरमायो दूर करा ।  
तर अरज करी— दूर करण वालो लोक न छे । हू नीठ धेरिया राखू हू । एक  
हजार रो पावण वालो छोड तो तिण तू दस गाहूक दीवे । तर श्री पातसाहजी  
भोवदखा तर विलायतखा रे सामो देल न फुरमाया महाराज के लोक एसा ही है  
सो जतारण का किस तर । तरे इणा अरज करी हजरत की मरजी हुवे तो भला  
ही बगसाई जे, म्हे छोडी । तर फुरमायो— ठीक द्ये । पछ सवत् 1695 रा माह  
वर्ष 4<sup>3</sup> श्री पातसाह जी री वरस गाठ हुई तर एक हजारी जात ने एक हजारी  
असवार हजाफे किया त्या मे जेतारण दिवी उनाली था । सम्बत् 1694<sup>4</sup> रा वरस  
रा मुकाता रा थी पातसाह जी ने ₹ ० २ ०० ०००) दिया सम्बत् 1696 रा जेठ सुद  
5<sup>5</sup> जोधपुर पधार पाट विराजिया । महाराज श्री जसवंतसिंह जी री जामोर  
श्री पातसाह दरबार थी लखो लिखियो आयो । सम्बत् 1706<sup>6</sup> पचोली मनोहरदास  
नावो भेलिया ।

---

1 इस समय 14 000) सातलमर परगना भी जसवंतसिंह को मिला था ।  
विगत 1, पृ 124 ।

2 मगलवार नवम्बर 6 1638 ई ।

3 रविवार जनवरी 13 1639 ई ।

4 1637-38 ई ।

5 शुक्रवार मई 15 1640 ई ।

6 1649-50 ई ।

रूपया 1

12 62,500 प्रगता बदिम त्यारा दाम पाच किरोड़ पाच लाख हुवा ।  
 3 41 135 जोधपुर त्यारा दाम एक किरोड़ सवा सेंतीस लाख दाम ।  
 3 50,000 मेडतो एवं किरोड़ चालीस लाख दाम ।  
 1,50,000) सोजत साठ लाख दाम ।  
 75,000) सिवाएँगे तीस लाख दाम ।  
 2 50 000) जेतारण एक किरोड़ दाम ।  
 14,375) सातलमेर पाच लाख पिचहत्तर हजार दाम ।  
 1 25,00) गजसिंघ पुरो तिण रा (पाच लाख दाम) ।

---

1 26,62 500<sup>1</sup>

2 92,500) रेवाढी दाम एक किरोड़ सतरे लाख ।  
 1 95 000) नकदी तलब इण हिसाब मे रही ।  
 1,70 000) उदेही रो प्रगतो पायो दाम अस्तु लाहू ।  
 25 000) वाकी नवदी तलब रही

---

1,95,000

---

17 50 000

इजाफा हुवो दाम तीन किरोड़

1 अस्वार 500 इजाफे हुआ सम्बत 1704 रा चेत वद 9<sup>2</sup> मुकाम आगर ।  
 1 अस्वार 1000) इजाफे सम्बत 1705 रा फागण<sup>3</sup> मे खदार नू विदा किया तर ।

---

- उपर दिये गये सात परमनो की आमदनी कुल ह० 1,95 000 अर्धात दाम 4 78 00 000 होती है जो इस जोड से ह० 67 500 अर्धात् दाम 27 00 000 कम है । इस आमदनी के परगने फलोधी का उल्लेख यहा छूट गया है जो गही पर बठन के समय ही उह मिल गया था ।
- मगलवार माच 7, 1648 ई
- शुक्रवार, जनवरी 19 1649 ई के बाद । यह बृद्धि वारिस (1, पृ 65) के अनुसार माह मुद 13 1705 वि (मगलवार, जनवरी 16, 1649 ई) को और विगत (1 पृ 127) के अनुसार माह सु 15 (गुरुवार, जनवरी 18, 1649 ई) को हुई थी ।

1 अस्त्वार हजार 1000 इजाफे सम्बद्ध 1709 रा वेसाख सुद 9<sup>1</sup> मुकाम दिली ।

हिसाब थी महाराज श्री जसवंतसिंह जी रो मनसब सम्बद्ध 1735 रा पोस वद 10<sup>2</sup> देवलाक्ष हुमा तठा ताई इतरो मनसब थो । महाराजा जी री जागीर री तलब दाम 13 00 00000 तरह कराड था तिण म एक 10000000 किरोड बावत रसत फोजदारी प्रगते पटण री इनाम था सो जागीर हुवा था । वाकी 12 00 00 000) वारे किरोड रहया । तिण से इग्यार किरोड मनसब रा ने एक किरोड इनाम छ । सात हजारी सात हजार अस्त्वार तिण म 5000) दा सवा । 1 55 25 000 जोधपुर बगेरह सरकार जोधपुर मोहल 19

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 60 00 000       | हवेली 2 ।     |
| 2 50 000        | पीपाड़ ।      |
| 15,00 000       | आसोप ।        |
| 12 00 000       | महेवो ।       |
| 10 00 000       | भाद्राजण ।    |
| 8 00 000        | सातलमेर ।     |
| 6,00 000        | विलाडो ।      |
| 4 00 000        | पाली बगरह 3 । |
| 3 00 000        | वाहलो बलूदो । |
| 3 00,000        | खीवसर ।       |
| 3 00,000        | खरवो ।        |
| 3 00 000        | दुनाडो ।      |
| 2 00 000        | गूदोच ।       |
| 75,000          | कोढणो ।       |
| 50 000          | इतावटी ।      |
| <hr/>           |               |
| <b>15525000</b> |               |
| <hr/>           |               |

1 मगलवार, अप्रैल 26 1653 ई । वारिस (1 पृ 268) के प्रनुसार फाल्गुन सुद 12 (सोमवार फरवरी 28 1653 ई) को जसवंतसिंह ने मनसब में हजारी जात की वृद्धि हुई थी । विगत (1, पृ 127) म भी यही तिथि है ।

2 गुरुवार नवम्बर 28, 1678 ई ।

3 56,80 000 प्रगने जालोर (वगरह), मोहला 6 सरकार जोधपुर  
 1 15 00 000 प्रग० जालोर  
 80 00 000 प्र० जेतारण ।  
 80 00 000 प्र० सोजत ।  
 30 00,000 प्र० मिवाणो ।  
 27,00 000 प्र० फलोधी ।  
 24,80 000 प्र० साचोर

3 56 80,000

—  
 20547731 प्रगने मेडता (वगरह), सरकार नामीर  
 1,40 00 000 प्रगने मेडतो  
 60 47,731 प्रग० अमरसर  
 5 00 000 गजमिधपुरो रुण पटो

— — —  
 2 05 47 731

— — —

6406683 प्रगने परवतसर सरकार अजमेर  
 2056200) प्रगने परवतसर  
 1614131 प्रगना बबाल  
 1536352 प्रगने तोसीणो  
 12500000 बाहतो जावलो

— — —  
 6406683

2470000 परगन कूलियो सरकार चित्तोड  
 720000 परगने थीपलाज परवतसर रा गाव  
 — — — तिए रा प्राप्त रूपया 1 एक रा दाम 40 लेखे मुक्करडे ।  
 81349414 20337351—) ॥  
 32476064 दाम परगने मोहम वगरह सूबो जहानावाद

पातसाह साहजहा रे बखत आरगजेव र वहत महाराज जसवत्सिंघ जी र  
 जामीर म परगना रया त्यारी विगत—

जोधपुर ।  
 मेडतो ।  
 जतारण ।  
 सोजत ।  
 सिवारण ।  
 कलोधी ।  
 पोहकरण ।  
 जालार ।  
 भीनमाल ।

— —

9 ने नागोर ही घणी बार रहदो कियो है ।

22 गुजरात रा परगाना—

पाटण ।  
 खिरालू ।  
 मूजपुर ।  
 तेरवाडो ।  
 मेरवाडो ।  
 घटिराऊ ।  
 मामूरावाद ।  
 ममदावाद ।  
 साचोर ।  
 थिराद ।  
 विसलपुर ।  
 राधणपुर ।  
 वीरपुर ।  
 मूधी ।  
 सीनोर ।  
 सभी ।  
 वीरमगाव ।  
 वढवाण ।  
 घघुको ।  
 वडनगर ।  
 सरसो ।

पटलाद फलोई ।

22

10 हमार रा प्रगना ।

साहबाद ।

जीद ।

टोहाणो ।

भठयेढो ।

भराई ।

रोहतक

जमालपुरो ।

मुहम ।

बलवारो ।

सरसो ।

10

18 फुटबर प्रगना—

खोडी ।

नैणवाय ।

वेनडी

फूलीय

परवता

पीपलाद

चदेही ।

तोसीणो

बबाल ।

कुरवाडो

~

ल

४ ५  
केथल ।

नारनील ।

वन्नोर ।

उजेणी ।

जाजपुर ।

---

18

5 घण्टा रा परगना—

साहवाद ।

बभारी ।

राइ ।

गुधारी ।

आमोठ ।

---

3 नागर चाल रा परगना—

बारा ।

वरवाडो ।

अटवण ।

---

3

---

68

श्री हजूर ने ऐ प्रगना सदा ही हुवा छ । कदेकण<sup>1</sup> उतरिया थे तर रोकड दीधी थे ।

पातसाह ओरगजेव महाराज जसवंतसिंघ जी बखत बलाद ग्रो लिताब दियो । उमराव 22 ताबीन म दिया । जठ ही मेलिया तठ कत कीधी । महाराज जसवंतसिंघ जी ने साहजहा पातसाह च्यार हजारी जात च्यार हजार असवारा रो मनसव देने समत 1694 धासाढ वद 7 टीका मागरे दियो तर श्री पातसाहजी इतरो मागलियो ।

18 हाथी हथणी ।

10 हाथी ।

4 हजूर था सो दिया ।

---

1 कभी कोई ।

2 शुक्लवार मई 25 1638 ई ।

|   |          |   |           |   |           |
|---|----------|---|-----------|---|-----------|
| 1 | ਕਸੀ ਵੱਖਰ | 1 | ਮਧਮੂਰਤ    | 2 | ਪਨੀਸ ਗਜ । |
|   |          |   | ਮਹਲਾਵਾਦ । |   |           |

---

|   |                                                            |   |           |   |              |
|---|------------------------------------------------------------|---|-----------|---|--------------|
| 6 | ਦੇਸ ਥਾ ਥਾਵਾ ਰਾਂ ਮਲਿਆ ਸਮਵਤ् 1695 ਰਾ ਆਵਰਾ ਸੁ <sup>51</sup> । |   |           |   |              |
| 1 | ਗੜ ਤਿਵਾਹ ।                                                 | 1 | ਮਧੂਰ ।    | 1 | ਤਿਖੀਵਾਈ ।    |
| 1 | ਮਪਨਾਵ ।                                                    | 1 | ਰਿਲਰਾਵਨ । | 1 | ਧਮ ਦਰ ਮਧਨਾ । |

---

6

---

10

|   |                         |   |          |   |            |
|---|-------------------------|---|----------|---|------------|
| 8 | ਹਥਾਲੀ ਹਦੂਰ ਪੀ ਰਾਂ ਮਨੀ । |   |          |   |            |
| 1 | ਮੂਸਮਾਲ ।                | 1 | ਮਹਨੀ ।   | 1 | ਮਪਮਾਲਾ ।   |
| 1 | ਕਮਾਵਰੀ ।                | 1 | ਮੁਅੰਦੀ । | 1 | ਗੜਮੁਅੰਦੀ । |
|   |                         | 1 | ਰੰਨੀਸੀ । | 1 | ਚਮਨੀ ।     |

---

8

---

18

ਵਿਗਨ

1 50 000) ਦੀਡ ਸਾਗ ਰਘਾ ਰੀ ਜੋਹਾਰ<sup>52</sup> ਲਿਯੇ, ਪਾਤਸਾਹੀ ਜੋਹਾਰੀ ਲਾਕੀ ਮਲਿਆ ਥਾ ਤਿਗੇ ਘਵਲ ਜਾਹਰ ਥੀ ਸੀ ਰਿਧਾ । ਤਿਗ ਰਾ ਮੀਤ ਜਾਹਰਿਧੀ ਕਿਧੀ । ਥਾਵੀ ਰਘਾ ਰਘਾ ਸੀ ਪਗਸਿਆ ।

140000) ਚਖਦ ਹਜ਼ਾਰ ਰਘਾ ਰੀ ਮੋਹਰ ਏਥ ਹਜ਼ਾਰ ਏਨ ਰੀ ਲੋ ਦ੍ਵ ।

200000) ਰੋਝਾ ਲਿਧਾ ਜਤਾਰਣ ਰਾ ਸਾਲਸੇ ਕਰ ਮੁਹਾਤੀ ਵਰਮ 1 ਰੀ ਕਰਨੇ ਲਿਧੇ ਪਦ੍ਧ ਸਮਵਤ् 1695<sup>53</sup> ਤੁਨਾਤੀ ਥਾ ਦੀ । ਤਰਪਚ ਹਜ਼ਾਰੀ ਜਾਤ ਪਚ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਵਾਰ ਮਸਤਕ ਕਰਨੇ

---

1 ਮੁਖਵਾਰ, ਜੁਲਾਈ 5 1638 ਈ । ਪਾ ਨਾ (2 ਪ੃ 102-3) ਦੇ ਪ੍ਰਨੁਗਾਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਵਨ ਸੁ 7 ਸ 1695 ਵਿ (==ਸੋਮਕਾਰ, ਅਗਸਤ 6,1638 ਈ) ਪੀ ਜਸਵਾਨਤਿਹ ਨੇ ਦ ਹਾਥੀ ਬਾਨਸਾਹ ਕੀ ਮੌਟ ਕਿਧੇ ।

2 ਜਵਾਹਰਾਤ ।

3 1638-39 ਈ ।

दिवी । च्यार हजारी रो मनसव थे । तर जोधपुर मेहठो, साजत सिवाणो फलोधी पांच परगना दिया था । पद्धति जतारण दी तर छ परगना हुआ ।

रावल मनाहरदास राम वयो सम्बत् 1707 रा काती सुद 15<sup>1</sup> । मनोहरदास र वेटो नहीं थे । तर भाटिया भेना हाय ने भाटी रामचन्द्र न टीके वसालियो ने भाटी सबलसिंघ हृदार थे सा आगरे पातसाह जी कर गयो । तर पातसाहजी महाराज ने फुरमायो मबलसिंघ न जसलमेर रो टीको दिराय देवो, ने पाहकरण थारी छ, सो थ उरी लबो । सम्बत् 1706 रा आसोज बद 3<sup>2</sup> जोधपुर पधार ने सम्बत् 1707 रा आसोज सुन्न 3<sup>3</sup> पौज जोधपुर था पाहकरण तू विदा दिवी । तीन अणी किया । अणी एक म रीया रो घणी राठोड गोपालदास सुदरदासोत मटतिया । अणी एक म पानी रो घणी राठोड विटठलदास गोपालदासोत चम्पावत । अणी एक म आसाप रा धणी राठोड नाहरवान राजसिंघोत कू पावत । अ तीना ने तीन अणिया म मालक दिया । सारो साथ दोढ हजार अस्वार अढाई हजार पाला था । सिंधवी परतापमल पचोली मदनसिंघ भण्डारी जगनाथ मुहणोत नेणसी बीज। ही हुजदार कामदार साथे घणा था । आसोज सुद 13<sup>4</sup> पोहकरण रे हू गरसर तलाव डेरो कियो । आसोज सुद 15<sup>5</sup> गढ दोले धेरो दियो । तर रावल सबलासध थी महाराज री पौज माहे थे ।

पचास रुपया रोजीना पेटिया रा पावता । तिण पोहकरण माह भाटी था, त्या सू वात चारने कोट माहे था वारे कान्तिया । काती बद 6 शनिवार (1707 वि)<sup>6</sup> थी महाराज री कते हुई । कोट लियो । तर भाटिया रो बीजो साथ थे सा निसरीयो । भाटी राजसी मेधराजोत ही निसरीयो । कोट माहे माणस सगला कढाई सो था त्या माह जणा 13 तेरह पडाऊ रया था, सो पोल खोल ने लड काम आया तिण री बिगत—

- १ भाटी प्रतापसी सुरताणोत ।
- १ भाटी वेशीनास बलावत बलो जमलोत ।
- १ भाटी गोपलदास पना जमलोत ।

१ मगलवार अक्टूबर 29 1650 ई ।

२ गुरुवार, जन 6 1650 ई ।

३ बुधवार सितम्बर 18, 1650 ई ।

४ गुरुवार सितम्बर 27, 1650 ई ।

५ रविवार सितम्बर 29 1650 ई ।

६ शक्कूबर 5 1650 ई ।

1 भाटा सादो अमरावत केलहण ।  
 1 भाटी रूपसी जगावत खवास ।  
 1 राठोड बुसलो राजावत ।  
 1 चादसमो देवराज ।  
 1 राठोड रूपो हिंगलावत ।  
 1 देवराज साहूल वरसलोत रो चाकर ।  
 1 चहुवाण लखो गोपाल रो  
 1 गोड रामो ।  
 1 कछवाहा जमाल मुसलमान ने धोर हुई । इणार लुगाया, दाय  
     थी सो गोर म साव गढी ।  
 2 भाटी प्रतापसी सुरताणोत रा चाकर  
     1 भाटी लाला काहावत ।  
     1 भाटी हदो रमावत ।

इतरा थी हजूर साहवा री फौज रा राजपूता र लोहडा लागा तथा  
काम आया ।

1 ऊहड राजसिंध जगनायोत काम आयो ।  
 10 लोहडा लागा तिण री विगत—  
 3 राठोड विठलदास गापालदासोत रा राजपूता र लोहा लागा ।  
 1 सोलखी सुरताणे र ।  
 1 सोलखी दुरणा र ।  
 1 भाजराज पतावत र राठोड र ।

---

(3)

1 पवार गोपदास राठोड सुजाणसिंध किशोरसिंधोत रो चाकर ।  
 1 भोपत जसिंध भाटी रगनाय रो चाकर तिण र एक लोह लागो ।  
 1 पीपाडो रामो राठोड अमरा सुरजनोत रो चाकर तिण र एक लोह लागो ।  
 1 (गगादास साहड), भाटी महेमदास रो चाकर तिण र एक लागो ।  
 1 (पीपाडो मोहणनास) राठोड सवर्णसिंध किशनसिंधोत रो चाकर तिण र  
     एक लोहो लागो ।  
 1 (सानगरी जोगीदास) राठोड नारायणदास राधोदासोत रो चाकर, तिण  
     र लाह लागो ।

१ पूर्वो जगमाल सरकार रो चाकर तिण र लोह लागा ।

(10)<sup>1</sup>

पोहवरण म अमल करते महाराज री फौज जसलमेर गई । भाटी रामचन्द्र भाज गयो । रावल मनोहरदास रं खले सबलसिंघ ने थाप जसलमर रो टीको दियो ने महाराज री फौज पाढ़ी जोधपुर आई ।

महाराज रो गीत

गढ कलियो जसा खत्रियागुर<sup>2</sup>, दिल चो भलो टालियो दोस ।

अतसुख सरग पामिया<sup>3</sup> उद, सरग गजन पामियो सत्तोष ॥ १ ॥

आदू दुरझ<sup>4</sup> भालते अणभग<sup>5</sup>, पूरे भर चढिया प्रभत ।

दरगह<sup>6</sup> अन त मालदे दूजा, खडू गरविया छनपत ॥ २ ॥

धारण गई बालते<sup>7</sup> खटग घर, जोध जसा<sup>8</sup> जुडिया जरद<sup>9</sup> ।

भाटीया दरद दिये ते भागो, दादा ने पित चौ दरद ॥ ३ ॥

मनहर भाम<sup>10</sup> सुरग मन धोको उदो गजबाध<sup>11</sup> अजसो<sup>12</sup> ।

वैर पर नद रहे वरिया, ज्या वरा वाहरु<sup>13</sup> जसो ॥ ४ ॥

सम्बद्ध 1698 रा आसोज सुद 10<sup>14</sup> मुकाम लाहौर मह राज जसबतसिंघ जो एक टिन इतरी बहाताश किवी—

22 घोडा उमराव चारणा नू दिया । 14 उमरावा ने—

१ राठोड महसदास सूरजमलोत रा नू सुरग सारग वगस राठोड सबलसिंघ राजावन रा रो ।

१ राठोड नाहरखान राजसिंघोत नू भाईजान कुमेत खरी<sup>15</sup> रुपया 1050) रा ।

१ राठोड चत्रभुज नरहरदासोत ने देव चित्र ।

१ राठोड विठलदास किशनसिंघोत नू हरीबाण खानाजाद ।

1 विगत 2, पृ 305 कविराजा 2 पृ 98-99 ।

2 खत्रियो का गुरु ग्वामी । 3 पाया प्राप्त हुआ ।

4 दुग ।

वीर ।

6 गवित हुए ।

7 पुन कर्जे म करते ।

8 हे राजा जसब त सिह ।

9 जिरह वरनर ।

10 रावल मनोहरदास और रावल भीम ।

11 मोटा राजा उदयसिंह तथा राजा गर्जसिंह ।

12 गव करते हैं । 13 वर का प्रतिशोधन करते वाला ।

14 रविवार अक्तूबर 3, 1641 ई ।

१ राठोड अमरा आसकरणोत नू जवादियो खानाजाद ।  
 १ राठोड रगनाथ राजसिधोत नू नगीना जेसलमेर रो ।  
 १ राठोड मार्नसिध सूरजनोत नू मारएक खानाजाद ।  
 १ राठोड हरीदास नारखानोत ने हे प्रनूप खानाजाद ।  
 १ राठोड अलपत शासकरणोत नू सोबन बलस खानाजाद ।  
 १ राठोड सुजानसिध रायसिधोत नू नीलकठ खानाजाद ।  
 १ देवडा अचलदास राऊलोत मुरग खरीद माडू रो ।  
 १ भाटी ईशरदास हरदासोत नू सुरेण रेगरगीलो खानाजाद ।  
 १ राठोड बाजखान लक्ष्मण सन रावत चबुसेनोत रा पुरविया नू  
 सुरतबाज खानाजाद ।

---

14

८ चारण नू  
 १ चारण चू डदास बलावत नू रेणमियो खानाजाद ।  
 १ चारण नह राजसी अरखावत रा नू ने सोनो सुदास खानाजाद ।  
 १ चारण जसा पचाईणोत नू खरीद आगरा रो ।  
 १ चारण गिरधरदास न तोडर खानाजाद ।  
 १ खडियो जगमाल ने नीलो खेड़का रो ।  
 १ चारण भीवराज रामदासोत नू नीलो फौजदार जगा पिरागोत रो ।  
 १ घघवादिया मुदरदास भाधवदासात नू हसलो चोधरी रोहिताम  
 रो ।  
 १ चारण काना राजसिधोत नू हासलो खानाजाद ।

---

8

22

3 हाथी दिया, सा दस म हाथी था सो दिराया ।

१ राठोड गोरखन चादावत नू रिणजीत ।  
 १ राठोड गोपालदास मुदरदासोत नू जगनग ।

---

१ राहितास चौधरी, बीलाडा का दीवान ।

1 राठोड विठ्ठलदास गोपाल\*सोन नू रामपरसाद ।

—  
3  
—

2 लाख पश्चाव चारणा नू सिरपाव ने रुपया रोकड़—

1500) भाडा किसना दुरसावत नू

1500) लालस खेतसी ।

—  
3000  
—

154 पाषा दिवो

14 बादलाई उमरावा ने ।

140 कसूमल बाजे लोका ने ।

—  
154  
—

(परमाणु का युद्ध)

सम्वत् 1714 भाद्रवा सुन्दर 10<sup>1</sup> पातसाह साहजहा ने निली मे असमाद आई ने काती बद 7<sup>2</sup> बीमारी थकाहीज असवारी हुई । सनबाढे बठा पडदा मे थका पथारिया<sup>3</sup> । मिमसर बद 5<sup>4</sup> आगरा रे बिले दाखल हुवा । बली अहद शाहजादा दाराशिकोह थो सो तो पातसाह जी री हजूर हाजर थो । न साहजादो सूजा बगाला र सूबे थो । सो पातसाह जी ने बीमार मुण पातसाही लेण री उम्मेद सू तीनू साहजादा आगरा ने कूच कियो । पातसाह जी मू मालम हुई । तर साहजादा सूजा ने रोकण सारु तो बितराक पातसाही उमराव साथे दे जपुर रा राजा बडा जसिधजी बिया बिया सो मिलावट समझास कर साहजादा सूजा ने रसता मे ठेहराय दियो । न साहजादा ओरगजेब मुराख्वकस ने रोकण सारु पातसाही उमराव 22 साथे देने

1 सोमवार सितम्बर 7 1657 ई ।

2 सोमवार अक्टूबर 19 1657 ई ।

3 एक तरह की नाव ।

4 सोमवार नवम्बर 16 1657 ई ।

महाराज जसवंतसिंह जी ने विदा किया<sup>1</sup> सो सम्बत् 1714 रा माह वद 4<sup>o</sup> महाराज उजेण पोहता। पद्ध खबर आई सहजादा मुरादबहस गुजरात या उजेण आवे है। तर महाराज मुकालता ने असवार हुवो सो खाचरोट परगनो द्व तठ पोहना। तर खबर आई मुरादबहस पाठ्यो फिर गयो। जद चेत मुद 9<sup>o</sup> रो दसरावो खाचरोट कियो। मुरादबहस दहोद र रस्त हाय ने ओरगजेव मामल हुवो। महाराज खाचरोट सू कूच कियो सो उजेण सू पर कोस च्यार तथा राच गाव चोरनारायणो छे तठ महाराज डेरा किया। ने उण हीज गाव साहजादा रो डेरा हुवा। ओरगजेव महाराज ने कहाया—

म ता पातसाहजी रा सुख पुछण ने जावा छा। ये महारा आडा किहु किरो छो। साहजादे माझी खातर समजास नराई। पिण महाराज कोई खात री मजूर किवी नही। ने कवायो — सुख पूछणे जावणो हुव तो छडी असवारी मू जावो। लश्कर मूधा जावण देवा नही<sup>2</sup>। सो महाराज र साथ पातसाही मनसवार बाईस या स्था माह सू नवाव कामम खा वगरह उमराव पतर ता साहजादा ओरगजेव मू मिल गया, न हाढो मुकदास भाघोदासोत बोटा रा घणी भीव सीसोदिया सुजाणसिंह साहपुर रो घणी गोड अरजन राजगढ रणथम्भोर रो घणी, सीसोदियो रायसिंह, राठोड महेसदास सूरजमलोत राठोड रतन महेसन्मोत रत्नाम रो घणी अे सात उमराव पातसाही महाराज र सामन। सम्बत् 1714 रा वेसाख वद 9 सुझरवार<sup>3</sup> गाव चोरनरायणो महाराज र न साहजादा रे राह हुई। पोहर एक दिन चन्ता लडाई सह हुई सो च्यार घडी दिन लारलो रयो तेठा ताई लडाई हुई। ओरगजेव रा हायी ताई महाराज री वरछी तलवार वूही ओरगजेव देखने पणो तारीफ किवी। महाराज र हाय र तलवार लागी। पग रे तीर लागो। ने महाराज र असवारी रा घोडा महदूव रा पग कटियो। तर हूजे घोडे असवार हृय झगडो किया। पातसाही फोज सारी भागी ने ऊलो साथ सारो कट मारियो। तर महाराज रा उमराव राठोड श्रासकरण राठोड महसदाम महाराज रा घोडा

1 गुरुवार दिसम्बर 17 1657 को विदा हुम्मा या। वही पृ 21 विगत 1 पृ 131, 170, विराजा 2, पृ 99।

2 बुधवार जनवरी 13 1558 ई। वही (पृ 21) और विगत (1 पृ 133, 170) के ग्रनुसार शनिवार फरवरी 6 1658 ई को।

3 शुक्रवार अप्रैल 2, 1658 ई।

4 शुक्रवार अप्रैल 16 1658 ई। मूल पाठ म 'सुद' लिखा है जो स्पष्टतया प्रतिलिपिकार को ही भूल है क्याकि आगे वशाल सुदि। को जसवंतसिंह के सामृत पद्धतेने का उत्त्लेख है।

रो वागा भाल ने माडाणी महाराज ने ले निसरिया<sup>1</sup> । पातसाही उमराव काम आया त्यारी विगत—

- 1 राठोड राव रतन महेसदास दलपत उर्द्देश्योत रतलाम रो धणी पहला राज जालौर थो ।
  - 1 राव रतन महेसदास दलपोत रो, मनसव दोई हजारी पाच सो 500 असवार ।
  - 1 फतेसिंघ महेसदासोत, मनसव दोन सदी तीस अस्वार ।
  - 1 राईसिंघ रतनोत रो लोहडा लागा ।  
राजपूत 50 अर ।
  - 1 चारण वारठ जसा वेणीदासोत काम आया ।
- 

- 1 गोड मरजनसिंघ विठलदासोत राजगढ रणथम्भोर रो धणी मनसव दोढ हजारी दोढ हजार असवार सा रजपूत चालीस 40 सू काम आयो ।
  - 1 भालो दयालदास नरहरदास सावलदासोत रो भाई राधोदास सुधी जणा 40 चालीस सू काम आयो ।
    - 1 भालो दयालदास नरहरदास सावलदासोत रा र मनसव नव सदी पाच सा अस्वार ।
    - 1 राधोदास नरहरदासोत र मनसव च्यार सदी अढाई सो अस्वार ।

राजपूत 40 काम आया ।
- 

- 1 नवाब इखतमारखा सिपाही 200 दोय सो सू काम आयो । मनसव तीन हजारी तीन हजार अस्वार ।
  - 1 हाडो मुकनदास भाधोदासोत कोटा रा धणी भाई तीन सू, ने सिपाही 200 सू काम आयो ।
- 

1 बही, पृ 26 38-39 विगत । पृ 176 । बम्बू (3 पृ 287) और आ ना (पृ 71) के अनुसार रणक्षेत्र म आङ्गमण का सामना नहीं बर सका और भाग निकला ।

2 सहित ।

- 1 हाड़ो मुकुददास माधोदासोत मनसव तीन हजारी दाय हजार प्रसवार ।
  - 1 जुभारसिंघ माधोदासोत मनसव च्यार सदी सो प्रसवार ।
  - 1 कहीराम माधोदासोत मनसव तीन सदी सो प्रसवार ।  
सिपाही 200 वाम आया ।
  - 1 सिसादिया बिननसिंघ नारणदास मनसवत रो वाम आयो ।  
मनसव चार सदी दाढ़ सो प्रसवार ।
  - 1 सिसादियो इकमागद मुखताण प्रबलावत रो पूर लाहडे पठियो ।  
मनसव दो सदी तीस प्रसवार ।
  - 1 राठोड गोरथन चादावत कू पावत च डावत रा घणो मनसव हजारी 500 प्रसवार ।
  - 1 सीसादियो सुजाणसिंघ सूरजमलात साहपुरा रो घणी बेटा 3 तीन सू वाम आयो । मनसव दोय हजारी जात हजारी प्रसवार ।
  - 1 राठोड उदसिंघ रामसिंघ वलुद्योत भारमलोत रो ।
- 

महाराज जसवंतसिंघ जी रा साथ रा वाम आया, त्वारी विगत—  
खाप चपावन

- 1 राठोड विठ्ठलदास गोपालदास माडगोत रो, सम्बत् 1684<sup>1</sup> रिलसी गाव रा पटो, रेख रपया 16,800) सोलह हजार आठ सो री ने गाव 11 या । पद्ध बधारो पाली रो पायो, रेख रपया 50,500) रा गाव 36 ।  
चाकर वाम आया ।
  - 1 राठोड पतो<sup>2</sup> खानावत ।
  - 1 राठोड भोजराज पतावन जमलात ।
  - 1 राठोड गिरधरदास मनोहरदास भाणोत रो सम्बत् 1706 आउवा रो पटा गाव 9 रेख रपया 14,500) । पद्ध सेडा रो पटो रेख रपया 21,000) ।
  - 1 राठोड दयालदास सूरजमल जतमालोत पट दातीवाहो गाव 5 रेख रपया 8,000) री ।
-

- 1 राठोड भीब विठलदास गोपालदास माडणोत रो वरस 16 री अवस्था मे थो, ने उमेदवारी री बदगी म थो सो काम आयो ।
- 1 राठोड विजो हरिदास गोपालदास माडणोत र पटे गाव 8 । ब्राह्मा रा पटो रख रूपया 6000) मे सम्बत् 1711 । सम्बत् 1713 सूधा ब्राह्मी रा पटो ।
- 1 राठोड नरसिंहदास अमरा सुरजनोत रो पटे खेना गाव 6, रख रूपया 4000) री ।
- 1 राठोड रामचंद्र नरहरताम भाणोत रा पटे गाव 3 रख रूपया 2000) । गाव नथार रा गेलावास जोधपुर रा सम्बत् 1708<sup>1</sup> मे ।
- 1 राठोड लिखमीदास जोगीदास महेसोत रो पटे गाव 2 मडता रा रख रूपया सम्बत् 1705 रा चत वर् 14<sup>2</sup> ने ।
- 1 राठोड किरतसिंह मानसिंह सुरजनोत रो, पट गाव 3 । रख रूपया 4000) री सम्बत् 1712 रा सावण म<sup>3</sup> 1 मलावास खडा ।
- 1 राठोड द्वारकादास बलूमोत ।
- 1 राठोड बेणीदास राजसिंधात ।
- 1 राठोड ढू गरसी पातावत ।
- 1 राठोड रामदास खानावत ।
- 1 राठोड विश्वनारसिंह खर्तसिंधोत ।

### दोहा

किण हीरा दाय चार है, किण हीरा दस बीस ।  
रया उजीणी राड म, चापावत चालीस ॥॥॥

### खाप कू पावत

- 1 राठोड कल्याणदास बेरसलोत पटे गाव दो, रख रूपया 1500) री, गाव 1 पीपलियो 1 विजालियो ।
- 1 राठोड भावसिंह बेसोदासोत पट गाव 2 खोडी रा । 2 री रेख रूपया 1500) री म, सम्बत् 1707<sup>4</sup> रा म ।

1 1651-52 ई ।

2 शुक्लवार माघ 2 1649 ई ।

3 जुलाई मंगस्त 1655 ई ।

4 1620-21 ई ।

- १ राठोड सेतसी बलूमोत गंग चावर थो सबत 1711<sup>१</sup> रा छनासी  
था मध्यपुरो बघनार रो पटे, रेख रुपया 1000) री ।  
१ राठोड लाडलान जमिहे चादावत गंग चावर उभदवारी में थो ।  
१ राठोड घमरो, हरीदास पिरामोत रो गंग चावर ।  
१ राठोड छारकादास लाडलान बीकाव रो गंग चावर ।  
१ राठोड दयालदास सूरजमत महेशदामात ।  
१ राठोड सुजाएसिध केसोदासोत ।
- 

## खाप उदावत जतारणिया—

- १ राठोड बलराम दयालदास बल्याणदास रो, पट बघनार रा गाव  
25 रेख रुपिया 35 000) री ।  
१ राठोड कु भो बलराम दयालदासात रा, पट गाव रायपुर गाव 16  
रख रुपिया 10 000) री ।  
१ राठोड बीरमदे मुक्तनदास कल्याणदासोत रो पटे गाव दोय 2 रेख  
रुपिया 5000) जतारण रा । मोर रो मिवाणा रा उदेपुरिया  
सम्बत् 1705 म । सम्बत् 1707 म गाव 3 रेख रुपिया 8000) ।  
१ राठोड सूरदास बणीनास विसोणुदासोत रो पटे गाव 2 रेख  
रुपिया 6000) री । सम्बत् 1706 म तिलाणो मेडता रा रामावास  
वडा सोजत रो ।  
१ राठोड देइदास सूरदास बेलीदामात रो ।  
१ राठोड आसकरण बलराम दयालदासोत रो पटे गाव 5 रेखाडी  
रा सम्बत् 1708 रा रेख रुपिया 4 000) ।  
१ राठोड बेलीदास दयालदासोत ।
- 

## खाप जताथत—

- १ राठोड करण मुजाणसिध भगवानदासोत रा, पट बगडी गाव 17 सो  
रख रुपया 20,000) री सम्बत् 1703 रा ।  
१ राठोड उदयमान भगवानदास बाधोत रो पटे माटो (माढा ?)  
गाव 4 सो रेख रुपया 10,000) ।  
१ राठोड जुगराज कुभकरण बाधोत, पट घणत गाव 13 रेख रुपिया  
900) री सम्बत् 1711 रा ।
-

- 1 राठोड साहिवसान कुम्भकरण वाधोत रो ।  
 1 राठोड गोरखन लाडखानोत ।
- 

### खाप करमसोत—

- 1 राठोड प्रिथीराज दलपत हरदासोत विपाड रो पटो गाव 8 सो रपया 26 600) सम्बत् 1703 । पछ बघारा सम्बत् 1712 सा सम्बत् 1714 सूधो विराणी जासको बेघण खेवाली कालो ऊना रामपुरो रेख रपया 15,500) रो । मुकरडे रेख 42 100) री ।  
 1 राठोड जेतसिंध मुक्कादासोत, पटे गाव आचीणो रेख रपया 1200 री सम्बत् 1713 रा ।  
 1 राठोड गोरखन माधोदास जसव तोत गर चाकर 1 पटे रत्नपुरो उदेही रो, रेख रपया 1200) रो ।  
 1 राठोड चदरभाण सबलसिंह वीरमदेश्रोत रो गर चाकर ।  
 1 गिरधरदास माधोदासोत रो पटो रपया 1200) रो यो बो तगीर थो ।
- 

### खाप सोनगरा—

- 1 सोनगरा माधोदास केसोदासोत । साथे रजपूत 5 म सोनगरा 2 सोलकी 3 । पटे गूँदोच गाव 5 सो रेख रपया 16000) री ।  
 1 सोनगरो गोकलदास भालरस्योत पटे सम्बत् 1711<sup>1</sup> री उद्हाली थी रेवाडी रा गाव 4 ।  
 1 सोनगरो जगतसिंध राजसिंधोत पटो रपया 3000) रो तुरके उपान्धिया सो परवाहरो धवलपुर बाम आयो धरे न आया ।
- 

### खाप मेडतिया—

- 1 राठोड सबलसिंध उदसिंध भगवानदासोत पटे सम्बत् 1708-  
 ऊनाली थी लावो जाटा रो रपया 5000) रेख 8000) ।  
 1 राठोड बल्याणदास मोहणदासोत पटे गाव टाहो तके कलह प्रगत  
 मेडतो रपया 3000) ।
-

- 1 राठोड गरीबदास सुजाणसिंध रायमिधोत पटे कुमाणो गाव 3 सो रेख रूपया 5500) रो सम्बत् 1709 रा ।  
 1 राठोड गोपीनाथ गोकुलदास विशंदासोत रो, पटे बोल्दा रो गाव 5 रेख रूपया 5600) बीठधालियो 1 ताबडाली 2 कूपडावास 3 खेडा रेख 1000) ।  
 1 राठोड महेशदास जसा सगरा सु दरदासोत रो, गर चाकर ।  
 1 राठोड मुरारदास गाइदासात पटो रूपया 8000) रो ।  
 1 राठोड राजसिंध द्वारकादासोत गर चाकर मुरारदास साथे माराणो ।  
 1 राठोड महेश नाहरखान ढू गरसीहोत ।
- 

## खाप भाटी—

- 1 भाटी महेशदास अचलदास सुरताणोत रो, पटे बीकूकोहर ने गाव कलबो बगरह गाव 11, रूपया 5400) सम्बत् 1690 रा म ।  
 1 भाटी केसरीसिंध अचलदास सुरताणोत रो पटे गाव 6 म 5000) म, जातीबाडी 1 डामली 2 खडा 3 ।  
 1 भाटी दुरगदास बेमोदास वाधोत रो, पटे गाव 3 चाबडियो जतारण रो एक 1 घामडवास सोजत रो 2 नथावडी मडता रा रेख रूपया 3000) रो ।  
 1 भाटी माधोदास बेसोदासात र पटे गाव ईदियो सोजत रो, रेख रूपया 1000) रो सम्बत् 1700 रा ।  
 1 भाटी नर्सिंधदास भाण जसावत<sup>1</sup> रो, पट गाव ढूहढ जोधपुर रो रेख रूपया 1000) रो सम्बत् 1799 ।  
 1 भाटी तेजमाल<sup>2</sup> जगनाथ भेल्दासोत रा पटे ग्रबावस ।  
 1 भाटी दयालदास लिखमीदास गोइदासोत रो पट गाव रामडावास जोधपुर रो रूपया 8000) म सम्बत् 1709<sup>3</sup> रा सावण था साथ ।  
 1 भाटी मानसिंध गोपालदासोत पटे गाव जाखली ।
- 

1 नेण्ठी पृ 383, 386 ॥

2 वही (पृ 31) किंगत (1 पृ 18) और कविराजा (2 पृ 102) में 'तजमाल' के स्थान पर जहमाल नाम दिया है। सभवत रूपसिंहोत भाटी (नेण्ठी, 2, पृ 431) ।

3 सन् 1652 ई ।

- 1 माटी भाण मनोहरदासोत, पटे गाव आनावास जोधपुर रो, सम्बत 1711<sup>1</sup> रा साल सावण् था ।
- 1 भाटी उदसिंघ माधोदासोत पटे गाव सावत कूपो प्रगनो जोधपुर रो रेख रुपया 400) री सम्बत 1715 ।
- 1 भाटी रतनसो भीव पिरागदासोत रो, पटे गाव बोरणो ।
- 1 भाटी गोपालदास साकरदासोत गर चाकर ।
- 1 भाटी भगवानदास रायमलोत पटे गाव लोगडावास ।
- 1 भाटी राजसिंघ लखा भानीदास पिरागदासात रो पटे राखी ।
- 1 भाटी कु भो सुरताणोत पचाण रो गर चाकर ।
- 1 भाटी सुजाणसिंघ सुन्दरदास रामोत रो गर चाकर ।
- 1 भाटी लिखमीदास इमरदास भोपनात रो पट ढकाई ।
- 1 भाटी विश्वनसिंघ रामसिंघ सुरताणोत रो पटे जूळ परगनो जावपुर रो रेख रुपया 1000) रा सम्बत 1710 था ।
- 1 भाटी केशरीसिंघ विठ्ठलदासोत पट गाव वेराई परगन जोधपुर रो ने तालोडो परगन जतारण रो ।
- 1 भाटी रतनसी सामदासोत ।
- 1 भाटी भानोदास पचाणोत ।
- 1 भाटी रामचंद्र साहूलात ।
- 1 बीकूपुरियो सबलसिंघ बलूप्रोत ।
- 1 भाटी रामसिंघ लाडलानोन ।
- 1 भाटी रुग्नाथ जखमी हुवो ।

#### खाप चोषा—

- 1 राठोड प्रतापसिंघ करमसी भोजराज मालदेवोत रो पटे गाव 2 दोप नौकडी बडी म मेडता री रेख 1000) आहू परगने फलोवी रा रख रुपया दोष हजार 2000) जुमले रख रुपया 3000) री ।
- 1 राठोड रनन गोईन्दास भगवानदासात भोटा राजा रो पटे गाव 5 वधनोर रा रेख रुपया 6000) री ।
- 1 राठोड ईसरदास महासिंघ माधोदासात पट घणाहरी गाव 4 सा रेख रुपया 4000) ।
- 1 राठोड बीरमदे मोहणदासोत गर चावर ।

- 1 राठोड जगतसिंघ देईदास बलमदेश्वोत रो, गर चाकर ।  
 1 राठोड गोपीनाथ बेसोदास गोयदासोत, गर चाकर ।  
 1 राठोड भीव जगनाथोत ।
- 

## खाप चोहाण—

- 1 चहूवाण दयालदास लिखमीदासोत पटे गाव 7 में गाव फीच जोधपुर रो, सम्बत् 1711<sup>1</sup> रा ऊनालू साख था रेख रुपया 2000) री, सम्बत् 1712 रा जुमले रेख रुपया 4000) री ।  
 1 चहूवाण भरसिंधदास लिखमीदासात, पटे गाव 11। प्रगने ऊही रा, रेख रुपया 3000) री सम्बत् 1709 रा ।  
 1 चहूवाण जेतसी सहस्रलोत पटे गाव ठाकुरवास परगने सोजत रो रेख रुपया 600) रो, सम्बत् 1711 रा पोस बद 11<sup>2</sup> ।  
 1 चहूवाण दूदो गोईदास भचलदास मावनमीथोत रो गर चाकर ।  
 1 चहूवाण किसनदास दयालदासोत रो, पटे गाव रलियावती परगने मढता रो, रेख रुपया 2000) री ।  
 1 चहूवाण गोयन्दास रामसिंधोत ।  
 1 चहूवाण भानो ।  
 1 चहूवाण भानो ।  
 1 चहूवाण राधोदास साइलोत ।  
 1 चहूवाण रामदास चाषावत ।
- 

## खाप भद्रावत प्रखेराजोत—

- 1 राठोड पूरणमल जसावत पटे गाव 3 परगने सोजत रा, 1 दुड़ोला बीडी 2 दोय मण्डलो तीन बाणियावस, रेख रुपया 2200) री ।  
 1 राठोड गोयदास भानावत पटे गाव मुरडाबो परगने जतारण रो, रेख रुपया 1000) री ।  
 1 राठोड गोरधन भगवानदास ललावत गर चाकर ।  
 1 राठोड विहारीदास बेसोदासोत गर चाकर ।  
 1 राठोड रामचंद्र साइल राईसिंधोत रो पटे गाव चबडियो परगने सोजत रो, रेख रुपया 600) री ।
-

**खाप झहड—**

- 1 झहड मेघराज उरजन गोपालदासोत रो पटे गाव 43 सू बोढणा  
यो रेख रुपया 11600) री ।
- 1 झहड नारायणदास गोपालदासोत पटे माचराणो छाढेताई रेख  
रुपया 2700) री ।

**खाप मांगलिया—**

- 1 मांगलियो दयालदास माधोदासोत पटे गाव खारो लूणाहो परगने  
जोधपुर रो रेख रुपया 1100) री ।

**खाप पातावत—**

- 1 राठोड भगवानदास माडण राणावत रो पटे गाव 2 प्रगने जोधपुर  
रा, 1 बीटीलो 2 मादेही रेख रुपया 2500) री सम्बत् 1699  
माहा सुद 11<sup>1</sup> ।
- 1 राठोड भगवानदास सगतो जेतस्योत रो नवसर रेख रुपया 2000)  
री सम्बत् 1714 सूधा ।
- 1 राठोड तोणा रामदासोत पटे गाव 3 परगने जोधपुर रा । चापा  
सर 2—3— रेख रुपया सम्बत् 1705<sup>2</sup> या ।
- 1 राठोड जगनाथ चादावत, पटे गाव 2 II परगने जोधपुर रा करण्य  
आधी भुवा बासणी लूमासरियो रेख रुपया 2100) ।

**खाप रुपावत—**

- 1 राठोड सबलसिंह आसकरण सुरतावत री गाव भोजावास परगने  
जोधपुर रेख रुपया 1500) सम्बत् 1709<sup>3</sup> रा ।

**खाप पुरविया—**

- 1 राठोड उदसिंह वाजखान लखमणसेनोत रो, पटे गाव सरेचा,  
रुपया 1600 सम्बत् 1703 री मिगसर सुद 13<sup>4</sup> ।

**खाप जेतमाल—**

- 1 राठोड सहस्रमल साहूल गोपालदासोत गर चाकर ।

1 शुक्रवार जनवरी 20 1643 ई । 2 सन् 1648-49 ई ।

3 सन् 1652-53 ई । 4 गुरुवार, दिसम्बर 10 1646 ई ।

**लाल दूर्गोत—**

- 1 राठोड भगवानदास मनोहरदासोत गर चाकर ।
  - 1 राठोड जगमाल वरमिधोत, पटे गाव उपतिष्ठो परगने जतारण रो, रेख रुपया 800) री ।
  - 1 राठोड मवलसिध दनपतोत ।
  - 1 राठोड जोगो वरमिधोत ।
  - 1 राठोड गोवढ न भगवानदासोत नगराज अखराजोत ।
  - 1 राठोड विहारीदास केसोदासोत ।
- 

**पांच सोहड—**

- 1 राठोड देवोदास ईसरदासोत, गर चाकर ।
  - 1 राठोड कमा प्रसराजोत ।
  - 1 राठोड हनी ।
- 

**लाल भीदोत—**

- 1 राठोड घमरा मूजो जमलोत रो, पठ गाव छरवाडा मालवा रो रेख रुपया 700) री सम्बत 1714<sup>2</sup> आ ।
  - 1 राठोड रुपसी मूजावन ।
  - 1 राठोड सुरताला भोपतात ।
  - 1 राठोड नधो तिथभीदाम लूणावत रो पटे गाव भाना रो वाडा, रेख रुपया 600) सम्बत 1714 रा । भाना रो परगने जोधपुर रो ।
  - 1 राठोड जसो राईमलात ।
- 

**लाल बंस—**

- 1 बंस जगमाल फरसरामोत, पटे गाव सरगियो खुरद जोधपुर रो रेख रुपया 300) री ।
- 

**लाल इदा—**

- 1 इदो दपानदास जगनाथ सुरतालोत रो, पटे गाव राममीण तिवाणो रो, रेख रुपया 1000) री ।
  - 1 इदा नाथो जतावत पटे गाव 2 जोधपुर राखीयो । गोशासरियो रेख रुपया 700) री ।
-

- 1 इदो चादो अचलावत रो पटे गाव सूरदड परगने मेडता रो  
रुपया 2000) री ।
- 1 इदो सारग नरहरदासात ।
- 1 इदो रामो टीलोत बालेसर ।
- 1 इदो मनोहर गणेशोत पटे गाव सालोडी परगने जोधपुर री रेख  
रुपया 150) री ।
- 

#### खाप मुहता—

- 1 मुहतो बिशनदास सिधात पटे गाव बूहूप सिवाणा री रेख रुपया  
700) री सम्बत 1700 रा<sup>1</sup> ।
- 1 मुहतो नरहरदास पीथा नारणोत ।
- 

#### खाप धाषत—

- 1 धाधल जसवत ईसरदास पचाईणोत रो पटे गाव 2 जोधपुर रा 1  
केरु 2 सवकी, रेख रुपया 3500) री ।
- धाधल सारग हीगोला सूरावत रो कोठार री खिदमत मे था, पटे  
गाव नीबरिया—रेख रुपया 500) री ।
- 1 धाधल किसनो ।
- 

#### खाप गहलोत—

- 1 गहलोत धायवाई पिरागदास चापावत पटे गाव 3 परगने जाधपुर  
रा, रेख रुपया 3150) री ।
- 1 गेलोत कलो ।
- 

#### खाप आसायच—

- 1 आसायच जगमाल पिरामोत, हायिया रो कोजदार पटे गाव  
जाटियावास रेख रुपया 400) री ।
- 1 आसायच महेस जगमाल रो ।
- 

#### साहणी पलाणिया—

- 1 साहणी बमो अखराजोत रो पटे छडकली जोधपुर रो रेख रुपया  
900) री ।
- 

<sup>1</sup> सन् 1643-44 ई ।

- 1 साहणी राधो केसोदासोत ।  
 1 साहणी सादो भीवा रो, पट गाव ढोहलियो थो जोधपुर रो ।  
 1 पलासियो नरा मलावत, पटे गाव पालडी तीजी जोधपुर री, रेख  
रूपया 300) री ।  
 1 चरवादार हदो ।
- 

#### खाप पचोली—

- 1 पचोली काह नरसिंहदास राधोदास नेतावत रो झापरियो-वास  
जोधपुर न तवेले मुसरफ रखा थो ।  
 1 पचाली गोवरधन सिंच्यादामोत भीवाणीदास जोधपुर ने बुताव  
(ब्रताव ?) लिखतो ।  
 1 पचोली वेसोदास मलूकचद रा फोलमाने मुसरफ थो ।
- 

#### खाप सुराणी—

- 1 ताराचांद बीजावत मो दफतर मे नवीसादो था ।
- 

#### खाप महेचा—

- 1 महेचा मनोहरदास कमोदासात ।
- 

#### खाप बालावत—

- 1 बालो किशनदास देणीदासोत, पट गाव पीपलबी, रेख रु 300) री ।  
 1 बाला भगवानदास मनोहरलामात ।  
 1 बालो देवराज ईसरदामोत ।
- 

#### खाप चारण—

- 1 खाप चारण लिडियो जगभात ।
- 

#### खाप राजगुर—

- 1 खाप राजगुर प्रोहित दलपत मनोहरदासोत बरस 22 री उमर म,  
सो परणीज ने गयो था सो काम आयो । पटे गाव तिवरी जोधपुर  
री ।  
 1 खाप देव (देवडा ?) हरीदात पत्ता कलावत रो रोजीनदार ।  
 1 खाप कडा (बोडा ?) जगचाय बाधावत पटे, गाव————रेख  
रूपया 2600) री ।

### खाप खोची—

1 सीची जोगीदास कला रामसिंघोत रो ।

### खाप सोलखो—

1 सालखी सूरो रतना जसावत रा, वरकदाज ।

1 खाप जुकालियो नारण बाधावत देईदास रे बदले, गाव थापण,  
रख रूपया 300) री ।

### खाप पवार—

1 पवार सूजा सावल रा ।

1 पवार भोजा जसवात रो ।

### खाप विरामण—

1 ब्राह्मण हरी पाठक रसोडदार ।

1 व्यास देईदास सावल रो पुळकरगो ।

1 श्रीमाली रिणछोड कढलोत पटे गाव बीडावासणी परगने जोधपुर  
री ।

### खाप पीपाडा—

1 पीपाडो अमरो साढुलोत पटे गाव——— रेख रूपया 2000) री ।

1 पीपाडो जोगीदास अमरावत, पटो वाप मलो ।

### खाप पिडिहार—

1 पिडिहार सादो भीमावत ।

1 पिडिहार राधो बंसावत ।

1 पिडिहार सूजो सावलोत ।

1 पिडिहार जसवात ।

1 पिडिहार माजा ।

1 पिडिहार करणा भाधावत ।

1 पिडिहार अमरो साढुल रो ।

### खाप हूल—

1 हूल लाडलान मधराजोत ।

### खाप कच्छवाहा—

1 कच्छवाहा महेश सलेखाना रो दरोगो ।

**खाप भाईल—**

- 1 भाईल रामसिंध वचरावत, पटे गाव मूठली परगने सिवाणा री ।  
 1 भाईल देदो सावलोत पटे गाव मूठली परगने सिवाणा री ।
- 

**खाप सायला—**

- 1 सावलो उदसिंध रामसिंधोत ।
- 

**खाप कलावत—**

- 1 कलावत दुर्जणसोल गोयददासोत ।  
 1 कलावत अमरो मुजावत ।  
 1 कलावत मुजालसिंध गोयददासोत ।
- 

**फुटकर आसामी—**

- 1 खत्री रामसिंध ।  
 1 खत्री हरीसिंध ।  
 1 जोगीदास अमरावत ।  
 1 सहसा सावलोत ।  
 1 श्रागोस्तिथा वागो कानवित ।  
 1 गहलोत देदो ।  
 1 राठोड जेतमाल सहममलोत ।  
 1 राठोड<sup>1</sup> चुतरो, मडारी ताराचाद रो चावर ।  
 1 आबदारी जणा 2  
 1 राधो साढ़लोत ।  
 1 रामदास पाचावत ।  
 1 वाणदार बीठल ।  
 1 वेस सहगो रतन गोयदोत रो वरकदाज ।
- 

सरदार काम आया      आसामी एक सो वयासीस 142 ।  
 राजपूत काम आया      जणा 701 सात सौ एक ।

1 वही (पृ 35) और विंगत, (पृ 184) म चुतरो का 'आलेखो' लिखा है।

घोडा काम आया — 301 तीन सौ एक ।  
हाथी काम आयो— 1 एक ।  
जस्मी हुवा ” जणा 131 एक सौ इकतीस ।  
इतरा जस्मी पला उपाडिया ।

- 
- 1 राठोड मुजाणसिध ।  
1 राठोड रायमल ।  
1 राठोड जगन्नाथ ।  
1 भाटी रघनाथ ।  
1 राठोड ढारकादास ।  
1 राठोड महातिधि ।  
1 राठोड खानो ।  
1 राठोड सादूल ।

फुटकर जणा 10 या 15 ।

---

पातसाही लोक घणो काम आयो ।  
रत्लाम रा घणी राव रतन रा नाम आया निण री किगत ।  
4 चौहाण

- 
- 1 अमरदास ।  
1 भगवानदास सादूलसिधोत ।  
1 बुम्भो ईसरदासोत ।  
1 विठ्ठलदास किशनदासोत ।
- 

4

- 1 भाटी केलण अजो ।  
1 सोनगरो धीरम ।  
8 राठोड—  
1 गिरधरदास किशनदासोत ।  
1 नरहरदास बीकानेर रो ।  
1 गोपीनाथ राव सकतसिंह उत्सिधोत रो पीतो ।  
1 सागो मडला नाथा रो ।  
1 रतनसी मडला नाथा रो ।  
1 रुपसी मडला नाथा रो ।

१ मडत्यो मावसिध भ्रजमलोत ।  
१ हरराम लिखमावत ।

---

४  
१ गेहलोत पचायण हरदासोत ।  
१ बद्धवाहो मामसिध राजावत ।  
१ भेहतो सावलदास हपमी रो ।  
१ विडिहार घनो ।

---

18

श्री महाराज उजोरा री राज मरह सू देस पधारिया तर इतरो साय ताये

थो—

॥ राठोड—

१ महेमलास मूरजमलोत चापावत ।  
१ राजसिध भगवानदासोत ।  
१ अमरो मुरजनोत ।  
१ कन्याणदास दरपतोत ।  
१ आसो नीवावत, खाप करनात ।  
१ भीव गोपालदासोत ।  
१ आसकरण तंजस्योत ।  
१ हरीदास जमवतात ।  
१ हुरीदास वाधान ।  
१ केसरखान वाजखानोत ।  
१ अदेव-द भाणव-दीत बोटेचो ।

---

॥

१ देवहो जगनाथ अचलदासोत ।

राठोड महेसदास, राठोड आसवरण, राठोड अमरसिध, औ तीनू  
सरदार उमर मे ज्ञानहा हा । सो झेड़ा म पण राठोड करम द्वाया  
तया भू पाढ़ा उरा आमा, जिला भू इणारी लोकिक मे निदा हुई ।

बोहा

महाराज भल आविया, मुवस वसावो देम ।

जवर अ वयू जीविया, आमा, अमर महेण ॥॥॥

## 11 हुजदार सवास पासवान बगरह ।

- 1 भण्डारी ताराचन्द नारणोत दीवाण थो ।  
 1 मुहूणोत वरमसी नएसीयात ।  
 1 भाडारी घमराज रायमलोत ।  
 1 साहणी महेसनास ।  
 1 धाय भाई भोजराज पिरागदासोत ।  
 1 मुगल हसनवेग ।  
 1 चौहाण रामदास मधूप्रोत ।  
 1 गूजर लिखमण ।  
 1 इदो हरी (दास जगनाथोत) ।  
 1 आवदार सावल ।  
 1 गहलोत चुतरा ।
- 

11

## 7 फुटकर

- 1 जलेवदार दोलतसाह अलावस्थ रो ।  
 1 चौहाण मनोहर गोपाल रो ।  
 1 गोड नारहण चौथा रो ।  
 1 साखलो भगवान आवदारखाना रो चावर ।  
 1 अधोलिया वाधो काना रो ।  
 1 गावल पातल रो ।  
 1 गोड नावो चौथा रो ।
- 

7

सम्बत 1714 रा वसाख सुद 1<sup>1</sup> उजीए री राढ माह सू श्री हजूर साहिब सोजत पथारिया ।

पछ देस सू मिया परासत सामो आयो । दिन 4 तथा 5 सोजत रया । घोड़ा पालो कर सगलो साथ 40 001 रो भेलो हुवो । पछ जोधपुर पथारिया पिण मन म उदास घणा जु माहरो कोई निसरियो नहीं थो अर म झगडा माह सू नि सरिया ।

---

1 शुक्रवार, अप्रैल 23 1658 ई । (बही पृ 42) ।

उजोल री राड मे औरगजेव री कन हुई ने औरगजेव मुरादवत्तश आगरा ने चलाया। ने आ बबर शामर पातसाहजी ने पोहती। तर साहजादो दारा शिकोह धाढ़ा असी हजार लेन 80000) सामी चढियो, सो धौलपुर आय ढरो कियो। औरगजेव धौलपुर न डावा छोड़न सूधा आगरा ने खडिया सो कोस तीन उर प्राय उत्तरिय। दारा शिकोह ने बबर हुई सो चदन औरगजेव उपर आयो। सो सम्बत 1714 रा जेठ सुन्<sup>91</sup> आगरा भू नजीक वेढ हुई। भगडो भारी हुवो, औरगजेव री पत हुई। दारा शिकोह री कोज रा पातसाही उमराव व मनसवदार काम आया तिणा री विगत—

- 1 राव राजा सत्रसाल बूंदी रो धणी काम आयो तिज लारे सतिया 40 हुई जिणु भ रासिया 6 व्यवासा 34।
- 1 बूंदी रा राव राजा सत्रसाल रो बबर भारथसिध काम आया।
- 1 विश्वनगर रो राजा अपसिध भारमलोत।
- 1 राव रामसिध भरमतेण उप्रसेण चद्रसणोत।
- 1 निसणी मुकबरता।
- 1 सरवाड रो राजा गौड शिवराम बलराम गोपालदासोत।
- 1 गौड भीम विठलदासोत।
- 1 गौड पोकरदास।
- 1 गौड भानीदास।
- 1 राठोड जगरूप नायोत खाप मेडतिया।
- 1 राठोड गोपालसिध खाप मेडतियो।
- 11 शहजादा दाराशिकोह रा तावीनदार काम आया। त्यारी विगत—

- 1 राठोड केशरासिध भगवानदामोत।
- 1 राठोड सुजाणसिध गापालदासोत मेडतियो।
- 1 राठोड रघुनाथसिध परतापसिधोत खाप मेडतियो।
- 1 राठोड हरीसिध परतापसिधोत खाप मेडतिया।
- 1 राठोड मुरजमल मनोहरदासोत खाप मेडत्या।
- 1 राठोड मुकनदास विश्वनदासोत।
- 1 राठोड विश्वोदरदास सावससिधोत मेडत्या।
- 1 राठोड गोमुकदास दूदावनदासोत।

1 रविवार, मई 30 1658 है। उसी दिन रविवार रमजान 7 सन् 1068 हि था। आ ना पृ 94 आक्षिल वाक्यात इ आलगीरी पृ 58।

- 1 राठोड जगल्प जगनाथोत ।  
 1 राठोड विश्वसिंध दलपतोत खाप मेडितिया ।  
 1 राठोड अभेभाण मनोहरदासोत मडितिया ।
- 19 विश्वगढ रा राजा रूपसिंध जी र साथ रा काम आया । त्यारी  
 दिगत—
- 1 राठोड महार्सिय रघनाथोत ।  
 1 राठोड रिणद्वाडदास मानसिंधोत ।  
 1 राठोड क्षसादास जगनाथोत ।  
 1 राठोड खंतसिंध मानसिंधोत माटा राजा उदसिंह जी र  
 परवार रो ।  
 2 राठोड हरकरण ने काह जगभायोत ए दोनो भाई हा ।  
 1 राठोड उदेभाण बनमालीदासोत ।  
 2 राठोड विहारीदास, न ठाकुरसी साढुनोन खाप मडितिया ।  
 दोनू भाई ।  
 1 राठोड केसोदास मोहणदासात ।  
 1 राठोड भावसिंध जगन्नाथोत ।  
 1 राठोड रघनाथ भोजराजोत खाप करमसोत ।  
 2 राठोड सुभकरण न मनोहरदास आसवरणात खाप करमसोत  
 रो दोनो भाई था ।  
 1 राठोड अभो साईदासोत खाप करमसात ।  
 1 राठोड रुपो सो तोपाहाना उपर था ।  
 1 राठोड विश्वसिंध अचलदासात ।  
 1 राठोड माधादास चतुमजोत ।  
 1 राठोड वल्याणदास जसवत्तोत ।
- 

19

- 1 नहको गारधन सुजाणसिंधोत ।  
 1 भाटी रामसिंध भीवोत ।  
 1 खगारोत सूरसिंध द्वारकादासात ।  
 1 नहको गिरधरदास सुजाणसिंधात ।  
 1 खवारा सावल ।

ओरगजेव सू शिक्ष्ट खाय दाराशिकोह भागो । सो आगरे गया ने उठा सू  
 दिली हाय लाहीर कानी गयो ने ओरगजेव आयो । पातसाहा कोट भ सविया दिन  
 दाय तीन लडाई हुई । आखर पातसाह जी ओरगजेव रा लोक र हवाल हुया । पहला

तो श्रीरागजेव पातसाह जी सू अरज कराई थी "हुवम हुव तो बदम देखू । पछे आपरा वेटा सुल्तान महमद ने मुरादबलगु रा वेटा राजदबलगु न पातसाह जी री हजूर मेलिया । तर पातशाह जी तस्त छन सारो ही पातसाही रा कामद करने भेज दियो न फुरमाया—' हमे थाहरे तुल जू बरो । तठा पछ पातसाही म हुक्म श्रीरागजेव रा चलियो ।

आगर आय आरगजब महाराज जसव तसिंध जी ने फरमान मिलिया । साथ भेला कर देगा आवजो । घणी दिलासा लिखी न रूपया पाच लाख-5 00 000 सामर रा खजाना सू दिराया । न रूपया पचास हजार 50 000) री हुडिया मेती । तर घणो साथ भेला कर सम्बत् 1714 रा जेठ बद 8<sup>1</sup> आठ जोधपुर सू कूच कियो । जेठ सुद 11<sup>2</sup> ग्यारह पाहकरजी पधारिया । दिन चालीस अजमेर मुकाम रया । मिया फरासत मू देस रो काम तामीर कर मुहणोत नेणसी ने दियो<sup>3</sup> । ने रूपसिंध जी घोलपुर री बद म बाम आया तिग री काण करावण ने हृपनगर पधारिया । पछ अजमेर सू कूच कियो ।

श्रीरागजेव मुरादबलगु फौज करने दारा शिकाह लार चढाया । तर मयुरा जी सू कास एव उली कानी<sup>4</sup> ढरा हुवा । तर साहगादा मुरादबलगु न आरगजेव आपरे डरे बुलाया याने लाहोर ने विदा करसा । मुरादबलगु खाल श्रीरागजब र डर सोय रयो, सो श्रीरागजब मुरादबलगु न पकड कद किया ।

महाराज रोपड र डरा आरगजब सामल हुआ सा राठोड महसदास सूरजमलात न पहला श्रीरागजेव कन भेल कोल बोल लन खातर जमा किवी । पछ सम्बत् 1715 रा भाद्रवा बद 13<sup>5</sup> साम श्रीरागजेव र पावा लागा । तर महाराज न जहानावाद रो सूबो दे विना किया सो सम्बत् 1715 रा आसाज सुन्त 16 जहानावाद पधारिया ।

श्रीरागजेव दाराशिकोह र लार चन्दियो सो मुल्तान ताई गयो । दाराशिकोह भाज गुञ्जरात म गयो । श्रीरागजेव पाथो जहानावाद आया जितर साह सूजो पूरब सू फौज करते आया । पटणे डेरा हुवा । आ खबर श्रीरागजेव ने लागी तर श्रीरागजब पटणा न कूच कियो सम्बत् 1715 रा पोस<sup>7</sup> भ हजूर ने माथ लिया सा चादोल

1 मुक्कवार मई 14 1658 ई । 2 मगलबार जून 1 1658 ई ।

3 नएसी ज्येष्ठ बदि 12, 1714 वि (मगलबार मई 18 1658 ई को भेड़ता म ही नियुक्त किया था । वही पृ 43 विगत 1, पृ 132 ।

4 इस आर । 5 सोमवार, अगस्त 16 1658 ई ।

6 शनिवार सितम्बर 18 1658 ई ।

7 दिसम्बर 1658 ई ।

म राखिया । न रस्ता म हजूर रा डरा ने नजीक पातसाही सोपखाना रो डेरो हमेमा हुवे । जिए सू हजूर ने धूक रो भरम पड़ियो । ने हजूर रो सरीर पिण बीक वंचाक थो सा गाव कुरठे डरा हुवा । ने साह सूजा री पौज रा डरा कुरड़ हुवा । सो ओरगजेब मुकालवा ने चत्नियो जिए द्विन सम्बत 1715 रा माह वद 5<sup>1</sup> पाल्ली रात तह टृती जिए वरन महाराज जसवंतसिंघ जी राठोड ईसरसिंघ अमरसिंधोत हाडो भावसिंघ सत्रशालोत सीसोदियो रायसिंघ जी भीमोत, बीजा ही पुट्टकर उमराव महाराज जसवंतसिंघ जी र साथ पाढ़ा देस नू कूच कियो । सो जपुर रा महाराज जसिंघ जी छूबड़ा<sup>2</sup> अस्वारा सू ओरगजेब जावता रहा सो सामा मिलिया ।

घडी च्यार एकत महाराज सू चाता किवा सो महाराज तो जसिंघ जी रा क्यो मानियो नही । ने इसरमिध भावसिंघ रायसिंघ बगरह न जसिंघ जी पाढ़ा लै गया सा ओरगजेब र पगा सगाया । क्सूर माफ करायो । न महाराज जसवंतसिंघ जी जाधपर नू खडिया सो माह सुद दस सन<sup>3</sup> जोधपुर पधारिया । तुरका सू पवारता पातसाही सहर लेलू मालू दानू ही लूटिया<sup>4</sup> । राड मे ओरगजेब री फनह हुई । महाराज जोधपुर म दिन दस रथा । पछ सिवाणे गया सो सिवाणा रो गढ हाथ त्रायो नू तर पटदायतिया ॥ ॥ ने सिवाणा मे एकण पडवा म बाल दिवी । ने जोधपुर पधार साथ भेला कियो । पटावाला ने पटा दिया । ने बाकी रा ने रोजगार दियो । सरदार रा दोय ईपया रोजीना घोडा अस्वारा ४ आना राजीना न पेन्त रा च्यार आना रोजीना कर दिया । एमीदार तनखानार सारो लोक पचास हजार भेलो कियो ।

साह सूजा सू कुरड़ राड हुई जठ राव रायसिंघ जी घोडा उठाय आही तलवार बजाई । ओरगजेब री कने हुई साह सूजो भाज गयो । ओरगजेब राव रायसिंघजी नू फनजग सिताब दियो । हाथी एक हथणी एक घोडो एक मोतिया री माला दुष्टुगी सिरपाव न्यायत कियो ने जोधपुर ऊपर बिदा किया । महमद अमीला बगरह वाईत उमरावा न दोय हजार अस्वार बोम हजार पैन्ता सू साथ मलिया पुरमायो रायसिंघ ने जोधपुर गाली कराय दीजो । आ खबर महाराज जसवंतसिंघ न आई । तर कू पावत नाहरखान राजसिंधात आरोप रा धणी ने मुहगोत नेणसी ने हजार-दस (सवार) दने मढत मेलिया ।

राव रायसिंघ जी रा डरा बान्नरसीदरी हुवा । साजादो दाराशिनोह गुजरात म थो सो मुगियो महाराज जसवंतसिंघजी ओरगजेब सू बदलने जाधपुर

1 मगलवार जनवरी 4 1659 है ।

2 चुने हुए इने गिने ।

3 जनवार जनवरी 22 1659 है ।

4 स्थातपार ने इन दोना मराठाशही मनसपदारा को भ्रातिवश शहर समझ लिया है ।

उरा आया है ने हजूर कर मरण मते होय रवा दें। जिण सू फरमान दे भलो आदमी मनियो लिखिया ग्रठे थ माहरे सामल होय मदद करो। सो पातसाही सेवू”। महाराज लिखियो ‘विगा पधारजो महे मूटा आग छा’। तर दाराशिकोह गुजरात सू दूच कियो।

मो जालोर सोजत जतारण मेडत होय अजमर आया। न महाराजा जाधपुर सू दूच कियो सो बीलाढा रा डेरा दाराशिकोह रो साहजादो सिपेह सिकोह बीलाढे महाराज कन आयो। सो साहजादा रे माथे दूच कियो सो गाव रावडियास डेरा किया। उठा सू साहजादा ने सोत दिया क्या— आप अजमेर पधारो। साथ सारा भेला होय म ई अमंजर आवा हा। तर साहजादो दाराशिकोह कन अजमेर गयो। औरगजेव अजमर ने कूच कियो। आव है सा मारग भ सवाई जसिध जी ने फुरमायो जसव तसिध जी माहरी आयोढी पातसाही गमावे थे। सो थे समझावो। माहरे सामल ही नही रव, न दाराशिकोह रे सामल ही नही रहो। पाढ़ा आपर छिकाए परा जावे। पछ जकोही तस्त रा धणी हुबो जिणा री चाकरी करै। जसिध जी महाराज ने लिखियो— आ हकीकत थ। सा आपर खदाम पासवान न भेलजो। तर अगलियो आसा माधावत ने भेलियो। जसिध जी आसा ने पातसाह कने ले गया। पातमाह जी आपरो कौल पजा ऊपर लिखने फरमान दियो— 'थारो मनसव ने वतन वहाल खुद रखिया है। थे दाराशिकोह री मदत मत कीजो। ने जोधपुर जावजो। चेत वन 11<sup>1</sup> ग्यारह ने महाराज कन फरमान आयो। तर महाराज रावडियास सू पाढ़ो जोधपुर भ कूच कियो। ने सम्बत् 1715 रा चेत सुद 1<sup>2</sup> अजमेर म लडाई हुई। सो औरगजेव री फने हुई। दाराशिकोह भागो सा गुजरात म गयो। इण्ण लडाई म औरगजेव रा बडो उमराव सेव मीर मारियो गया। औरगजव नवाब बहादुर खा ने महाराज मवाई जसिध जी ने दाराशिकोह र वास बिना किया। न महाराज जसव-तमिध जी न लिखियो ‘थाने गुजरात रा खुयो द्वायत थे जलदी जावजो। सा वालसमद रा डरा फरमाण आयो सम्बत् 1715 रा चेत सुद 6<sup>3</sup>। तर वालसमद सू अमवार हुय गत ऊपर पधारिया सो घडी अदाई रपा। न गुजरात रा सूवा रो मुहरण कियो। हो डरा सालावास था तठ रातरा दावल हृवा न दसरावा सथनाणे किया।

1 बुधवार माच 9 1659 ई।

2 रविवार माच 13, 1659 ई।

3 शनिवार माच 19 1659 ई।

4 चत्र सुद 10 = बुधवार, माच 23, 1659 ई।

न वसाख वद 2<sup>1</sup> सिरोही पधारिया ने राव अखराज रो बटी परणिया । ने वसाख वद 3<sup>2</sup> वाले रे मुकाम नवाब वहादुरखा ने सवाई जमिष जी रे सामल हुया । ने वेसाख वद 12<sup>3</sup> न अहमदाबाद रो स्याही वाग डरा हुया । वेसाख सुद 4<sup>4</sup> अमदाबाद मे परवस कियो । पतिमाही महला म दाखल हुया ।

सो महाराज जसबत्तिंष जी तो अहमदाबाद हीज रथा । ने नवाब वहादुरखा न सवाई जेतिष जी दारा शिकोह सूरत गया जिण र लारे गया सूरत म पठाण—थो । जिण दारा शिकोह न साहजादा सूतो पकडन नवाब वहादुरखा ने सूप दिजो ।

सम्वत् 1716<sup>5</sup> महाराज जसबत्तिंष जी भोमिया ऊपर चनाई किवी । मास च्यार लागा । भोमिया न सर कर ने पोस वद 14<sup>6</sup> अहमदाबाद हवेली पधारिया । सम्वत् 1718 रा भाद्रवा सुद 1<sup>7</sup> तरे रा नवडा भामिया दूना बोली ऊपर चढाई किवी । दूनो पा लागो । महाराज रा डेरा कावरिये तलाव हुप्रा । तठ सम्वत् 1718 रा मिगसर वद 8<sup>8</sup> फरमान आयो दिखण ग्रोरगाबाद जावजो । गुजरात रो सूबो महाराज सू तगीर हाय नवाब मोहवत ला ने दियो । गुजरात रा परगना री एवज महाराज न हसी हसार रा परगना दिया तर लाल री पदास रा । मुहसीयत करमसी नेणमीयोन ने पबोली बद्रराज ने हसी हसार रा परगना मलिया । वरम अदाई ने मास एक अहमदाबाद री सूबो रयो ।

मिगसर सु<sup>9</sup> 5<sup>9</sup> स्याही वाग डरा हुवा पछ अहमदाबाद पधारिया नही । कुतव्या पठाए सोरठ जूनेगढ थो तिण न अहमदाबाद रहए रो हुक्म आयो । सम्वत् 1718 रा पौत वद (1) मगलवार<sup>10</sup> ने स्याही वाग था, ग्रारगाबाद ने कूच किया ।

- 1 बुधवार माँच 30 1659 ई ।
- 2 गुरुवार माँच 31 1659 ई ।
- 3 शुक्रवार अश्वल 8, 1659 ई ।
- 4 शुक्रवार अष्टम 15 1659 ई ।
- 5 1659 ई ।
- 6 शनिवार इसम्वर 3, 1659 ई ।
- 7 गुरुवार, अगस्त 15 1661 ई ।
- 8 सोमवार नवम्बर 4 1661 ई ।
- 9 शनिवार, नवम्बर 16 1661 ई ।
- 10 मगलवार नवम्बर 26 1661 ई ।

निखण रो मूबो नवाब सासन्हाँ ने इनायत हुबो पोम सुद 12<sup>1</sup> सूरत पधारिया। माहा सुर 6<sup>2</sup> श्रीराजाद राजा जिंध जी री हवेली पधारिया ने माहा सुद 10<sup>3</sup> सूरजबार ने आपरी हवली पधारिया। सम्वत् 1718 रा चत वद 3<sup>4</sup> पूना ने कूच हुबो वसाल वद 11<sup>5</sup> लक्ष्मीर री पालती पूने डेरा हुवा। वसाल सुद 3<sup>6</sup> पूने हवेली री जायगा विचारी तड़े पधारिया। सम्वत् 1718 रा वसाल वद 13<sup>7</sup> राठोड महेसनास सूरजमलोत चापावत छाडाणो कियो<sup>8</sup>। महेसदास र हजार बीस री पदास रो पटो था। सम्वत् 1719 रा चेत सुद 8 सूरजबार<sup>9</sup> आधी रात र वस्त दिखणी सिवा रो चावर नतु सासन्हाँ रा ऐरा ऊपर आया। असवार पाल स मूती मातत लाँ रो बडो वेटा अबुलफतह<sup>10</sup> काम आयो। छोटा वेटा (बुजुग उम्मेदलाई)<sup>11</sup> रे घाव लाना। चौरीदार 100 एक सो काम आया। सहेली तरे मारो गई। तीस घायल हुई। एक जणी न पकड़ ले गया। नवाब सासन्हाँ छिप गयो। सिवा रा सिपाही च्यार काम आया। या खवर श्रीराजजेव सू मालतम हुई। तरे सासत लाँ मूसाडो ताजीर किया न महाराज जसवंत सिंह जी न सोबो इनायत किया। सा सम्वत् 1719 रा आसाड सुद 6<sup>12</sup> फरमान आया महाराज न सूबो हुवा। तिण रो आसाड सुद 15 सुकर<sup>13</sup> दिन घडी पनर चतिया दरवार कियो। पातसाही उमराव आया था त्यान थ्री जी मोजमानी दिक्षी। सासन्हाँ कूच वर पानसाह जी री हजूर गयो। सम्वत् 1720 रा काती वद 11<sup>14</sup> पूना मृ मिवा ऊपर चढाई विकी सा मिंगसर सुद 7<sup>15</sup> कुडासे पधारिया। गढ र नोरचा लगाया। चत वद 13<sup>16</sup> गढ

1 रविवार दिसम्बर 22, 1661 है।

2 बुधवार, जनवरी, 25 1662 है।

3 रविवार, जनवरी 19 1662 है।

4 बुधवार फरवरी 26 1662 है।

5 शुक्रवार अप्रैल 4 1662 है।

6 शुक्रवार, अप्रैल 11, 1662 है।

7 रविवार अप्रैल 6 1662 है।

8 रष्ट होकर दिना आना प्रस्थान किया।

9 अप्रैल 5 1663 है।

10 मा उ 5 पृ 158।

11 मा उ (क अ) 1 पृ 428 मनुची 2 पृ 10-।

12 मग्निवार जून 30 1663 है।

13 जुलाई 10 1663 है। विगत, 1 पृ 150।

14 शुक्रवार, अप्रैल 16 1663 है।

15 शुक्रवार नवम्बर 27 1663 है।

16 मालवार मार्च 15 1664 है।

ऊपर कियो रात विचारी थी तठे दिन घड़ी एक चढ़ गयो । गढ़ माहला ने जाग हुय गई । गढ़ माहला रा अरावा छूटो तिण सू लकडा री पाज बणाई थी सा बली । मुहणोत सुदरदास जमनोत मरण मेत होय साथ मे गया थो सो आराबा रा डर सू पाढ़ा आयो । जोतक (ज्योतिष ?) राय रे गोला सू उच्चलियोडो पथर लागा । आदमी बीस एक मरण गया । बाम विगाडियो । थी जी साथ पाढ़ो बुलाय लिया । सारा डेरा आया । पछ गट ने सुरग री तजबीज किंवि । सम्बत 1720 रा वसाख बद 12<sup>1</sup> सुरग लगाई । तिण सू गज सो 100 गढ़ रो पठो ऊचेरा थो सा उडियो । पातसाही च्यार मनसबदार छाटा काम आया । ने आदमी 100 एक सो काम आया । आदमी तीस चालीस एक गढ़ माहला काम आया जहसी हुवा । सम्बत 1720 रा जेठ बद 6 सुकरबार बल पलीता लगाया तिण सू कोट रा भाटा ने घूज उडी । पिण बुरज ऊपरली भीत उडी नही । पछे मारचा म साथ थो सो आगा गयो । दिन उगता सवा मुकाबलो हुवो । थी महाराजा श्री पिण दिन घड़ी च्यार तथा पाच चढ़ता एक पहाड़ी ऊपर चढ़ बठा । साथ आया वधियो<sup>3</sup> । गढ़ माहला भाटा बलता<sup>4</sup> लकडा बलता पूला गालिया गाला चताया । पाहर तीन लडाई हुई । महाराज रो साथ इतरो काम आयो । त्यारी विगत—

- 1      राठोड भीव गोकलदासोत मेडतियो गालो लागो ।  
 1      राठोड भावसिंघ भीमात जतावत जेतसिंघ र बदले थो गोली लागी ।  
 1      राठोड नाहरखा जसवतोत बालावत बलियो थो सा जठ सुद 8<sup>5</sup> मूदो ।  
 1      राठोड जोगीदास करमसी धनराजोत पातो, गर चाकर ।  
 1      भाटी स्यामसिंघ काह मूरजनोत रो गर चावर ।

### 3 बरकदाज

- 1      पवार जोगीदास मधावत ।  
 1      जाफर महम्मद ।  
 1      नाथो ततार जापकरो (?) ।

### 3 उमराबा चावर—

- 1      राठोड सूरजमलोत भीयोत रो ।  
 1      राठोड जतसी हमीरोत ।  
 1      राठोड उदसिंघ द्वारकादासोत ।

1 बुधवार, अप्रैल 13 1664 है ।

2 शुक्रवार मई 6, 1664 है

3 आग बढ़ा ।

5 रविवार मई 22 1664 है ।

4 जलते हुए ।

- 3 पायत हुमा उमरावा रा चावर—  
 51 फुटवर बाम आया ।  
 29 वरवदाज हिन्दु मुगलमान ।  
 14 गर चावर ।  
 8 उमरावा रजपूत ।
- 

65

जेठ बद 7<sup>1</sup> ने पातमाही सोवा हता दियो<sup>2</sup> । पड़ी च्यार लडाई हुई ।  
 साहर वेग री खवास रो वेटा । — वरस 22 रो काय आयो । न दस तथा आठ  
 मनसवदार काम आया । तीम तथा चालीम सिपाही पायल हुमा ।

सम्बत 1720 रा जेठ बद 11<sup>3</sup> पातमाही भ्रह्मो दोय साथे महाराज र  
 तिरपाव मलियो, ने तिसियो वरसात रो मोसम आयो<sup>4</sup>, सा यादो जायगा जागो  
 जठे छावणी कीजा । नामारमान तू हजूर बुलायो सो जेठ सुद 4<sup>5</sup> उठा सू कूच  
 दिया । महाराज रो साप जेठ सुद 4<sup>6</sup> मारचा सू डरा आयो । मारचा री तापा  
 उमारण बास्त मुहर्णोन प्रासकरण पचाली धारारूप करणोन न राखिया । सम्बत्  
 1720 रा अमावास्या बद 3 बुधवार<sup>7</sup> महाराज बुद्धगा सू कूच वरने पाया पून  
 पधारिया, ते पातमाही नज या जठ छावणी दिक्को । राजा रायसिंह सीसोदिया  
 जनेर थो पूने आयो आसाद सुद 13<sup>8</sup>

खवास भोरगावाद थी तिणा कन राठोड माक्सदास पचाली नराएदास  
 तिरवाही हिराराम था सा खवासा न नण सारु मुहर्णोन सुदरदास पचोली वेसरी  
 सिप पचोली धणदरूप ने अस्वार दाय हजार 2000 एक । सो देने पूना सू आसाद  
 सुद 5<sup>9</sup> ने मेलिया । सा मारग म सिवा रा असवारा बलघ<sup>10</sup> खेरिया घोडा अस्वारा  
 सू, सो अस्वार एक सो 100 तार चढ़िया । आगे सिवा रा असवार पाव सो था,  
 तिणा सू बड हुई । बलघ छुडाय लिया न इतरा महाराज रा रजपूत काम आया ।

---

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1 शनिवार मई 7, 1664 है ।     | 2 खावा बोता । |
| 3 बुधवार मई 11, 1664 है ।    |               |
| 4 गुरुवार मई 19 1664 है ।    |               |
| 5 जून 1, 1664 है ।           |               |
| 6 श्रविवार, जून 26 1664 है । |               |
| 7 शनिवार, जून 18, 1664 है ।  |               |
| 8 रथो के बार ।               |               |

ऊपर किया रात विचारी थी तटे निन घडो एक चढ़ गयो । गढ़ माहसा न जाग हुय गई । गढ़ माहसा रा भराबो सूर्यो निग मू सकडा री पाज बगाई थी सा बली । मुहरणात सुदरदास जमवाल मरण मेत हाय साथ म गया था सा पाराबा रा डर गू पालो आया । जोतक (अयोतिप ?) राय र गाला मू उध्दलियोहा पत्थर साया । आदमी तीम एक मरण गया । काम विगाडिया । थी जो राय पाठा बुनाय लिया । सारा डरा आया । पछ गढ़ ने सुरग री कब्रीज रिकी । मम्बत 1720 रा वसाल वद 12<sup>1</sup> सुरग सगाई । निग मू गत्र सा 100 गढ़ रो पठा ऊंचेरो थो गा उडिया । पातसाही च्यार भनभवार छाटा बाम आया । न आदमी 100 एक मा बाम आया । आदमी तीम चालीस एक गढ़ माहसा बाम आया अचमी हुवा । सम्बत 1720 रा जेठ वद 6 सुवरवार<sup>2</sup> बल परीता सगाया निग मू बाट रा भाटा न पूज उहो । पिण बुरज ऊपरली भीत उशी नहीं । पद्मे भारचा म गाथ था गो आणा गयो । दिन उगता सदो मुहाबला हुवो । थी महाराजा थी विल निन घडो च्यार तथा पांच चढ़ता एक पहाड़ी ऊपर चढ़ बठा । साथ आयो वधियो<sup>3</sup> । गढ़ माहसा भाटा बलता<sup>4</sup> सकडा बलता पूता गोलियो गाला चनाया । पाहर तीन लडाई हुई । महाराज रो साथ इतरा बाम आयो । स्थारी विगत—

- 1 राठोड भीद गोकलदासोन मेहतियो गोलो लागो ।
- 1 राठोड भावसिध भीमात जतावत जतसिध र वन्ते थो लोली लागी ।
- 1 राठोड नाहरवा जमवोत बालावत बलियो थो सा जेठ सुद 8<sup>5</sup> मूर्वो ।
- 1 राठोड जागीरास बरमसी घनराजोत पाता गर चावर ।
- 1 भाटी स्यामसिध काह सूरजनोत रा गर चावर ।

### 3 बरकान ज

- 1 पवार जोगीदाम मधावत ।
- 1 जाफर भहमद ।
- 1 नायो ततार जापकरो (?) ।

### 3 उमरावा चावर—

- 1 राठोड सूरजभलात भीवोत रो ।
- 1 राठोड जतसी हमीरोत ।
- 1 राठोड उदसिध द्वारकादासोत ।

1 चुषवार, अप्रैल 13 1664 ई ।

2 शुब्रवार मई 6, 1664 ई

3 आग बढ़ा ।

5 रविवार, मई 22 1664 ई ।

4 जलते हुए ।

- 3 धायल हुया उमरावा रा चाकर—  
 51 कुटकर काम आया ।  
 29 वरकदाज हिंदु मुसलमान ।  
 14 गर चाकर ।  
 8 उमरावा रजपूत ।
- 

65

जेठ बद 7<sup>1</sup> न पातसाही लोका हलो कियो<sup>2</sup> । घटी च्यार लहाई हुई । ताहर वेग रो खवास गे वेटो — — वरस 22 रा काम आयो । ने दस तथा आठ मनस्वनार काम आया । तीस तथा चालीम सिपाही धायल हुमा ।

सम्बत 1720 रा जेठ बद 11<sup>3</sup> पातसाही भ्रह्मी दोय साव महाराज र सिराव भेलियो ने लिवियो 'वरसान रो भोमम आयो छ सा आद्यी जायगा जाए' जठे छावणी कीजो । नामदारसाँन तू हजर युलायो सो जेठ सुद 4<sup>4</sup> उठा सू कू च किया । महाराज रा साय जेठ सुद 4<sup>5</sup> मोरचा सू डेरा आयो । मोरचा रो तोशा उत्तरण वास्तु मुहुर्णोत प्राप्तकरण पचाल। अग्नदृष्ट करणोत ने राखिया । सम्बत 1720 रा आसाढ बद 3 युधवार<sup>6</sup> महाराज कुडाणा सू कू च करने पांच पूने पथारिया, ने पातसाही गज था जठे छावणी किवो । राजा राष्ट्रसिंघ सीसोदिवा जूनेर थो पूने आयो आसाढ सुद 13<sup>7</sup>

खवासा भोरगावाद थी तिणा बन राठोड गोकलदास पचाला नराणदास तिरवाही हिरदेराम था सा खवासा ने लण साव मुहुर्णोत सुदरदास पचोनी केमरी सिध पचाली अणदृष्ट न अस्वार दोय हजार 2000 एक । सो नेने पुना सू आमाढ सु<sup>8</sup> 55 न मेलिया । सा मारण म सिवा रा असवारा बलध<sup>9</sup> पेरिया धोडा अम्बारों सू सो अस्वार एक था 100 लार बढ़िया । आगे सिवा रा असवार पाच सो था, तिणा सू बेंद हुई । बलध छुडाय लिया, न इतरा महाराज रा रजपूत काम आया ।

- 
- 1 शनिवार मई 7, 1664 है ।  
 3 युधवार मई 11, 1664 है ।  
 4 युधवार, मई 19 1664 है ।  
 5 जून 1, 1664 है ।  
 6 रविवार जून 26 1664 है ।  
 7 शनिवार जून 18, 1664 है ।  
 8 रथा के बल ।

2 धावा बोता ।

- 1 राठोड दौलतखान सायबखानोत मेडतियो ।  
 1 राठोड भोजराज वीरमदेशोत मेडतिया ।  
 1 साढा गिरधर गोरधन रो ।  
 1 राठोड सूरसिंघ मेघराजोत ।  
 1 राठोड जुम्हारसिंघ रामावत ।  
 1 देवढो जीवा भोजराजोत ।  
 1 राठोड दुरगदास सु दरदासोत मेडतियो ।  
 1 वरकराज कल्याणराय बालोत ।  
 1 मेघराज अखराजोत ।
- 

9

सम्बते 1721 रा सावण वद 30<sup>1</sup> मुधा पूना म थी महाराजाजी री ताबीन  
म इतरा पातसाही मनमवदार था ।

- 1 राजा रायसिंघ सीसोदियो ।  
 1 बुदेला शुभकरण ।  
 2 कछवाहा भोजराज खणारोत ।  
 1 गाड हरचाद गिरधरदासोत ।  
 1 सीसोदिया वीरमद ।  
 1 राणाजी रो चाकर राठोड सावलदास माधादासोत ।  
 1 राजा मानसिंघ रूपसिंधोत किशनगढ रा धणी रा तरफ सु राठोड  
कल्याणसिंघ मुहृतो तेजसिंघ ।  
 1 समद मनवरखा चानजहा रो बेटो ।  
 1 दिखणी रभाजी सिंवा रो सालो ।  
 1 भाला री आसामिया च्यार ।
- 

सम्बत 1721 रा चत वद 12<sup>2</sup> महाराज जसवन्तमिष्य जो सु दिखण रो  
सोबो तगीर हुवो न पातसाही रा हुकम धायो दरगा हाजर हुवा जो दिखण र  
सूबे सवाव दनलखी न राजा जसिंघ जी दिखण रे सूबे मेलिया । सो चत वद 12  
पूने आया । चत वद 14<sup>3</sup> महाराज पूना सु कूच कियो । बसास सुन्द च्यार 4<sup>4</sup> रे

1 बुधवार जुनाई 13 1664 ई ।

2 शुक्रवार माच 3 1665 ई ।

3 शुक्रवार माच 5 1665 ई । 4 रविवार अप्रैल 9 1665 ई ।

साव रामपुरा रा चद्रावत ग्रमरसिंह जी री बेटी परणिया । धोडा 25 पचीस, हाथी 1 एक छोकरिया ॥ ग्यारह बडारण एक वागा पाच से पच्चीस इतरो डापजे आया । जेठ वद 11<sup>1</sup> करोली रा जान्वा रे परणिया । जेठ सुद 10 रवि<sup>2</sup> श्री महा राजा जी परभात रा आम खास रो बहूत साहजहानावाद पधारिया । तरं श्री पातसाह जी मुसतफत खा भेज ने केवायो—“दरवाजा बारै बठो” पछे प्राम खास बठा तर बुलाया । दरवाजा म दरामद दुश्मा तर बहुशी महमद अमीखा असदखा नू हजरत साम्हा भेजिया था । क्षपर बठा था पातसाह जी, तठ बुलाया । पावा लगाया । बगल सू छाती सू लगाय मिलिया । एक हजार माहर पाच हजार रूपया श्री जी नजर किया । धणी महर खानगी इनायत सू सिरपाव दियो । हवेली नू विदा किया । तर एक हजार रुपया बेगम साहब री दोरी मेलिया । बगम खासो सिरपाव दियो । श्री जी हवेली पधारिया । तर वादसाह जी बरक भेजी । एक दिन फुरमायो—‘हजरत आला साहजहा र बहूत था भाये राठोड नाहरखा राजसिंहोत बगरह आम खास गुसलखाने भादमी ग्रावता सो भव भी आवे ।’ तर श्री जी ग्ररज की त—“म्ह बालक था । म्ह हजरत रा खानाजाद बादा था । अति महरखानगी फुरमाई । सम्वत् 1722 धावण वद 5<sup>3</sup> श्री पातसाह जी श्री महाराज जी नू अतर तोला 20 ते चोवीस तोला चोगो । सी थान दूदामी रा इनायत हुआ । गुलाब ईद हुई तर च्यार हजार री मुराही श्री पातसाहजी नू निर गुजराई । तर श्री जी नू धोप<sup>4</sup> । दोई हजार री इनायत किवी ।

महाराज क्वार श्री प्रवीसिंह जी नू श्री हजूर तेडिया सो सम्वत् 1721 रा ग्रसाढ वद 4<sup>5</sup> भोम निन घडी च्यार पाछ्लो थो तर गढ था तलेटी रा महला पधारिया । हथजी र ही<sup>6</sup> विराजिया थका बासे भाठी राम कु भावत बठो थो । खवामिया गायणिया चवदे हजूर तेडाई । सा कु पावत राजसिंह जी री हवेली उतरी । कवरजी निन 20 सहर मे महला रया । आसान वद 9 रवि<sup>7</sup> महला था परभात रा थसवार हुआ । ग्रासाढ वद 13 गुर<sup>8</sup> डेरा भेडत र राणी तलाव री पालतो मुकाम 2 दोय किया । कवरजी साये राठोड लखधीर विठलदासोत चापावत,

1 रविवार श्रवेत 30 1665 ई ।

2 रविवार मई 14 1665 ई ।

3 गुरुवार जून 20 1665 ई ।

4 तलवार विशेष ।

5 मगलवार मई 23 1665 ई ।

6 रविवार मई 28, 1665 ई ।

7 रविवार जून 1, 1665 ई ।

भासो भावसिध भाटी राम कु भावत मुहणोत नलसी जमलोत बीजो ही देस रो साथ हुतो । सम्वत् 1722 रा आवण मुद 2 भोम<sup>1</sup> श्री कवरजी रा डेरा नागत निली या कोस 5 हवेली या कोम 7 सात तठ श्री जी भाषु हरदास साथ रुपया एक हजार रो कपडो मलियो—वापतो बूदीदार । आसवरी 2 थीसाप 7 अधवा 4 सूथणा नू तिलक । मिसह 3 री । सावण मुट 3 बुध<sup>2</sup> डेरा अवराइ, हवेली या कोस 211, तठे बहुजी चाक्कावती जी मिठाई भेजी । सावण मुद 4<sup>3</sup> मुकाम तठ श्री जी निवाही हिरदेराम साथे सासो सिरपाव भेजियो ।

प्रथम सावण मुट 5 सुकर<sup>4</sup> राठोड भीब गोपालदासोत मुहणात सुदरनास साथे साथ दे साम्हा मेलिया । पोहर एक दिन चढिया श्री महाराज जी र पाव थी कवर जी नागा । उमराव हुजदार सोह पगे लागा । बडो हरख उद्धाह हुवो । दिन पोहर 211 चढियो श्री पातसाहजी र पग कवरजी लागा । पातसाहजी जुमे भसीत पधारिया या तरं कवर जी नू मुसलखाणे वेमाणिया घडी 2 सो पातसाह जी पधार सासो सिरपाव नियो । श्री पातसाह जी पधार खासो भिरपाव दियो श्री पातसाह जी पूळियो उमर बेतीक म छे कवर जी अरज किवी चबदे वरम म थ । नामदार खान सू पातसाहजी मुरमायो—कवर री मूरत ने महाराज री मूरत एक छे । नामदार खा अरज की 'बोहत स्याएं छ आवण मुद 6<sup>5</sup> शन श्री महाराजा श्री कवर जी उठती चोइ र मुजरे पधारिया तर च्यार हजारिया में कवरजी ने उभा राखिया ।

सम्वत् 1722<sup>6</sup> म पातसाह शाहजहा रे दिन सात पेशाव वद रयो ने पेट दूल ने माह वद 12<sup>7</sup> भूयवार घडी दोय रात गया फोत हुवा । पातसाह जी री सबर आई तर माह मुट 10 रवि<sup>8</sup> थीरगजेव दिली मू बुच तियो तर श्री महाराजाजी श्री कवरजी साथे या फागण वद 7 गुर<sup>9</sup> तीजा पोहर रा आगरे दाखल हुवा ।

- 1 मगलबार जुलाई 4 1665 ई० ।
- 2 बुधवार जुलाई 5, 1665 ई० ।
- 3 गुरुवार, जुनाई 6, 1665 ई० ।
- 4 शुक्रवार जुलाई 7 1665 ई० ।
- 5 शनिवार जुलाई 8 1665 ई० ।
- 6 1666 ई० ।
- 7 रविवार जनवरी 21 1666 ई० ।
- 8 रविवार फरवरी 4 1666 ई० ।
- 9 गुरुवार फरवरी 15 1666 ई० ।

मध्यवृत् 1722 रा वेसाख बद ८<sup>१</sup> कबरजी प्रथीसिंघ जी गोडा दे परणीजश  
न सीरकर आगरा मूँ चढ़िया तर पातसाहजी इतरी नवाजस<sup>२</sup> कियो —धाडे एक  
सोना री सालत सूधो किलमी एक हपया 2000) री व रासो सिरपाव । गोडा र  
परणीज ने सम्बत् 1722 वेसाख सुद 11 सुवरवार<sup>३</sup> घडो च्यार दिन चढ़िया  
कबरजी जोधपुर दाखल हुआ ।

सम्बत् 1723 रा भाद्रवा सुद 15 सोम<sup>४</sup> दिन घडो नव चढ़िया आगरा मूँ  
महाराजा ने साहजादह मोजम साथे काबुल री मुहम विला किया । फुरमायो—  
‘विलायत असफान रो पातसाह सफीक काबुल कपर आव द्ये सो जाय ने वादीबस्त  
करा । महाराज ने इतरी निवाजस करो—

- 1 सिरपाव खासी ।
  - 2 हाथी, रामपरसाद न हपणी । रपा रा साज म् ।
  - 2 धाडा 2 घेराको एक तो सोना रा साज मूँ व एक रपा रा साज  
मूँ ।
  - 1 तरखार एक कीमत हपया 1000) री ।
  - 1 लजर एक कीमत हपया 1000) री ।
  - 1 ढात । ।
  - 1 बवाण । ।
- 

आसाज वट १५ शाहजाह मोजम न विदा कियो निलो ने इए मुज़ब  
निवाजस हुई ।

- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1 खासो सिरपाव ।                | 2 हाथी ।                     |
| 1 मोक्षिया रो माता ।           | 50 000) हपया रोकडा 50 000) । |
| 101 धोडा 101 ।                 | 1 तरखार ।                    |
| 1 धोडो 1 सोनारी सापत । 1 ढात । |                              |
| रो ।                           |                              |

- 
- 1 सोमवार अश्वेत 16 1666 ई ।
  - 2 निवाजस=बलशीश ।
  - 3 मुहूरवार मई 4 1666 ई ।
  - 4 सितम्बर 3 1666 ई ।
  - 5 भगलवार सितम्बर 4 1666 ई० ।

4 घोडा 4 रुपा री 1 खजर ।

साथत रा ।

96 घोडा सादा सजा सू 1 बवाण खरकस

101

साहजादा कन घोडा हजार 5 था ने महाराज कन घोडा हजार दोय था ।  
साहजादा साथ इतरा उमराव पर था । तिण री विगत—

1 मीर मिरजो सुलतान ।

1 मुक्त्यार खा ।

1 सुरवल दखा ।

1 यामदारखा ।

1 समसेर खा ।

सम्बद्ध 1723 रा काती मुद 151 लाहौर पधारिया । सलेम र बाग डेरा  
हुग्रा ।

सम्बद्ध 1721 रा चत वद 12 महाराज जसिंध जी दिखण रो सूबो सो  
पून गया था । सो दिखणी सिवा सू तर बात ठहराई । पातसाह जी रो हठ छ ।  
सो जिद करो मती । गढ परगना कितरायक नजर कर देवो । सो पातसाह जी राजी  
होय ने पाढ़ा थान मनसब मे परा देसी ।

थ म्हारे साथे पातसाह जी कन चालो । म्हारी जुमेवारी छे । तर दिखणिया  
कितरायक किला मे पातसाही अमल करायो । न जसिंध जी आपरा कबर रामसिंध  
जी ने साथ दे सिवा ने दिली मेलियो<sup>3</sup> । पातसाह जी जेसिंध जी सू घणा राजी  
हुथा । सात हजारी मनसब कियो<sup>4</sup> । सिवा न पातसाह जी री हजूर ले गया सो  
पाच हजारिया मे खडो कियो । सो पातसाह जी इसारो कियो जिण सू बहशी  
शिवा रो हाथ पकडने दूजी ठोड ऊभो राखियो । इए बात भु मन मे सिव घणा  
बुरो मानियो । ने मनसब दूजी तरफ देण रो परमायो । सो सिवे मजूर कियो नहीं

1 गुरुवार नवम्बर 1 1666 ई० ।

2 शुक्रवार माच 3 1665 ई० ।

3 कु बर रामसिंह तब शाही दरवार मे आगरा म ही था । शिवाजी-आगरा  
पृ 16 17 19 ।

4 आ ना पृ 907 हस्त बनारस पृ 27-28 ।

तर सिवा र दोली पातसाही चौकिया बठ गई। सिवो राजीना गरीबा रे बासते कावडा भर भर ने खाणा मेलता, सा कावडा म बठ सिवो निकलियो सो दिखण गयो। पातसाहजी पूरा अतराज हुवा, न कवर रामसिंघ जी री दोढी मने किवी। सिवे दिखण म धोकल मचायो। जैसिंघ जी सिवा ऊपर चढाई किबो सो दिखणी जाए ने पाढ़ा हट्टा गया ने ए सरजोर हुवा। आधा बधता गया सो अबखी<sup>1</sup> जायगा म परा गया। उठ दिलीणिया रो लोग दवियोडो था सो घाटा रो नाको रोक लियो। भगडो हुवो। पातसाही लोक रे पाणी री घणी तगाई आई। सो जैसिंघ जी बगेरह शस्त्र मेल न निसरिया। सिवे आपरा किला म पाढ़ो अमल कर लियो। ऐ समाचार पातसाह जी सू मालम हुवा। तरे जैसिंघ जी रा च्यार हजारी मनसव जवत हुवो, ने तीन हजारी मनसव मे आवेर रही।

सम्बत् 1723 रा फागुण सुद 9<sup>2</sup> साहजादा मोजम ने महाराज जसवन्तसिंघ जी ने कावल री मृहम मे फरमान आयो, थे पाढ़ा जल्दी सू हजूर आवजो”। सो चेत वद 11 रविवार<sup>3</sup> दिली पधारिया ने चेत वद 12 सोम<sup>4</sup> पातसाह जी सू मुलाजमत किवी। सो मोहरा हजार एक ने रूपया हजार च्यार नजर किया।

सो रूपया हजार दोय राखिया, न दोय हजार पाढ़ा दिया। ने सिरपाव दियो। घोडो 2 तरवार 1 ने कवर प्रथीसिंघ ने दाय हजारी मनसव दियो। दोय हजारी जात ने हजार अस्त्वार हुवा। कवरजी ने तो पातसाह जी आपरे कन राखिया। ने महाराज ने दिखण रो सोबो इनायत कर साहजादा माजम साडे चेत सुद 9<sup>5</sup> विदा किया। कवर रामसिंघ जैसिंघोत कछवाहा रो पातसाह जी सू अरज कर तखसीर<sup>6</sup> माफ कराई। कवर जी प्रथीसिंघ जी पोहचावण चलिया जिणा तू चेत सुद 15<sup>7</sup> च्यार घडी दिन पाढ़ला सू विदा किया। तर कवरजी ने महाराज इतरी नवाजस किवी।

2 घाडा 2 दोय।

1 सिरपाव पेहरण रो।

1 तरवार जडाऊ मृठ री।

1 विकट।

2 शुक्रवार फरवरी 22 1667 ई०।

3 माच 10 1667 ई०। 4 माच 11 1667 ई०।

5 रविवार माच 24, 1667 ई०।

6 कुमूर, दोय।

7 शुक्रवार माच 29 1667 ई०।

2 बटारी 2 नखसी री 1 सोनेरी 1 ।

---

कवरजी पाढ़ा पातसाहजी कन दिली गया । सम्बत 1723 रा जेठ<sup>1</sup> वद कवर जी प्रथीसिंघ जी ने सीतला नीसरी सो जेठ वद 11<sup>o</sup> दिन घडी पाच पाँचेलो रयो तरे दिली म देवलोक हुवा । कवरणी जी गौड़जी सती हुवा । महाराज रा डेरा बुरहानपुर मूँ ऊली कानी या । तठ कवरजी री खवर पोहती महाराज न घणी उदासी हुई । महाराज रो फुरमायोहो दोहो —

घट सू एक घडोह, अलगा<sup>2</sup> आवडतो नहीं<sup>3</sup> ।  
पीथल<sup>4</sup> घणी पडीह, जग छेटी जसराज उत ॥1॥

सहजादो मोजम जेठ सुद 7<sup>5</sup> महाराज रे डेरे मातमपुरसी ने आयो । पातसाह जी घणी खातर लिखी थी सो कही । जेठ सुद 9<sup>7</sup> बुरहानपुर दाखल हुवा । जेठ सुद 12<sup>8</sup> बुरहानपुर था दूच हुयो सो असाढ वद 14<sup>9</sup> श्रीरगावाद दाखल हुआ । आसाढ सुद 41<sup>10</sup> राजा सवाई जेसिंघ जी महाराज ने मिजमानी लिंबी । आसाढ सुद 13<sup>6</sup> राजा सवाई जेसिंघ जी ने कवर कीरतसिंघ जी श्रीरगावाद था दिली ने दूच कियो । सो सम्बत 1724 रा भाद्रवा वद 10<sup>1</sup> बुध बुरहानपुर रा डेरा जेसिंघ जी बीमार हुआ । सो आसोज वद 51<sup>3</sup> बुरहानपुर म देवलोक हुवा । पातसाह जी द्वारा सिंघजी ने टीको दियो । च्यार हजारी मनसव दियो ।

महाराज ने दिखण विदा किया तर पातसाह जी फुरमायो थो— वचन देने दिखणी सिवा न तथा सिवा रा बेटा ने वदमी म हाजर कीजो । सो सम्बत 1724 रा आसोज सुद 13<sup>14</sup> दिखणी सिवा कने समजास करणे राजगत मेलिया ।

1 मई, 1667 ई० ।

2 बुधवार मई 8, 1667 ई० ।

3 दूर ।

4 मन नहीं लगता ।

5 प्रदीप्ति ।

6 सोमवार मई 20 1667 ई० ।

7 मंगलवार मई 21 1667 ई० ।

8 शुक्रवार मई 24 1667 ई० ।

9 सोमवार जून 10 1667 ई० ।

10 शनिवार जून 15 1667 ई० ।

11 रविवार जून 23 1667 ई० ।

12 रविवार अगस्त 4 1667 ई० ।

13 बुधवार अगस्त 28 1667 ई० ।

14 शुक्रवार सितम्बर 20 1667 ई० ।

साहजादा जी री तरफ सू खोजो आदम, गोविंदराय, महाराज री तरफ सू राठोड रिणछोडदास गोय यासोत ने मलियो । ने रिणछोडदास साथे इतरो लवाजमो दियो—

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 166 | असवार ।               |
| 3   | घोडा 3 खासा ।         |
| 25  | पथादा ।               |
| 1   | पहदार ताज । ।         |
| 4   | छडीदार 4 ।            |
| 1   | पचोली हरकरण गोरधनोत । |
| 12  | फरास ।                |
| 2   | मसालची ।              |
| 1   | दीवटियो ।             |
| 1   | डरा सिरायचा ।         |
| 10  | ऊट 10 भारभरदारी रा ।  |

---

सिवे आपरा वेटा सभाजी ने असवारा 3 तीन से मू मेलियो । सभाजी बरस दस तथा इग्यारे मे थो । सिवा रो मा सभो जी रिणछोडदास रे हाथ भोलायो, महाराजा जी रो बोल लियो । वाती सुद 3<sup>1</sup> राजगढ या विदा किया तर सिवे इए मुजब दियो—

|       |               |
|-------|---------------|
| 1     | खोजा आदम ने । |
| 1     | घोडो ।        |
| 1     | सिरपाव ।      |
| 1000) | रुपया ।       |

---

|       |                |
|-------|----------------|
| 1     | गोविंदराय ने । |
| 1     | घाडो ।         |
| 1     | सिरपाव ।       |
| 1000) | रुपया          |

---

|   |                |
|---|----------------|
| 1 | रिणछोडदास ने । |
| 1 | घोडो ।         |

---

1 गुरुवार अक्टूबर 10, 1667 ई० ।

सिरपाव ।  
धुगधुगी देता था सा लिंबी नहीं ।

मिगसर बद 5<sup>1</sup> श्रीरामावाद ग्राया । मिगसर बद 6<sup>2</sup> सोम श्री महाराजा जी साथे से जाय साहजादा जी सू मुलाजमत कराई । पच हजरिया म खडो रावियो<sup>3</sup> । सिरपाव दियो । सभूजी महाराज री कचेडी री पास्ती डेरा खडा किया था । सभूजी जी तिन 8 रया । मिगसर बद 12 सूरजवार<sup>4</sup> पास्ता विदा हुवा । राठोड रिणछोडदास गायदासोत न महाराज पोहचावणे ने मेलिया । साहजादे जी सभूजी ने इण मुजब दिया ।

2 घाडा 2 ।  
1 पुणछिया री जाडी ।  
2 धुगधुगी 2 ।  
कपडो

मिवाजी र मलियो ।  
1 धुगधुगी जडाऊ ।  
1 कटारी जडाऊ ।  
कपडा रा थान 9 ।

फागुण बद 4 गुरुवार<sup>5</sup> श्री महाराज जी माजम नू मोहलो<sup>6</sup> दिया । अमवाय 3300 तेतीस स गिगती धाई । निपट घडो माहलो हुवो । थेसो मोहला किणी रो हुवा नहीं । पातसाही माह तारीफ हुई । श्री जी सिरपाव 300 तीन से उमरावा नू बामदार ख्वास पासदाना नू किया । पाथ 10 किंवि । न माहला री हकीकत श्री जी जाफरखान पातसाही दीवान नू इरण भात लिखाई है ।

3300 असदार 3300 स म ।

- 1 रविवार अक्टूबर 27 1667 ई
- 2 सामवार अक्टूबर 28 1667 ई ।
- 3 शभाजी का पूर का मनसद पाच हजारी जात पाच हजार सवार का पुन श्रदान झर दिया गया था । जय अस्त 10-2 ग 34।
- 4 रविवार नवम्बर 3 1667 ई ।
- 5 जनवरी 23 1668 ई ।
- 6 मोहला=महाली=सेना की सलामी ।

1286 वर्षात जिरह टोप सू 1514 साला 500 वरकदाज ।

3300

600 जणा 600 तोपची बड़ुक ।

62 नाला ।

10 गजनाल ।

40 सूतर नाल ।

10 भाराणा<sup>1</sup> ऊट । (बार्गीर) <sup>2</sup>

(62)

3962

सम्वत् 1724<sup>2</sup> महाराज जसवंतसिंघ जो ने पातसाह जो गुजरात रा परगणा थिरोद राघणपुर इनायत किया । सो जापीर सू मिया करासत अमल करण गयो सो कालो दृदै अमल दियो नहीं । सम्वत् 1728 रा सावण वद 8<sup>3</sup> महाराज ने दूड़ी बार अहमदावाद रो सूवो हुवो ने हमार री एवज गुजरात रा परगणा 28 अठाईस पटण, बीरम गोव पटलाव बगेरह हुआ । पछ अहमदावाद रो सूवो महमद अमीखा नू हुवो<sup>4</sup> । तर पातसाह जो रा हुक्म सू नदी मही काठा ऊपर मटीना आठ रपा ।

सम्वत् 1730 आसोद वद<sup>5</sup> फुरमान आयो 'सोवो कावल सिनाव जाय पोहधजो -। सम्वत् 1730 म कावल जावण रो हुक्म आयो सो गुजरात मू मारवाड म होय कावल ते पथारिया । हुक्म परणी ताकीदी रो थो, जिण सू विता हुक्म जोशपुर न पथारिया, न जोधपुर था कोस 4 ज्यार गाव गृड डेरा हुवा ने दिवाला<sup>6</sup> गाव गुडे किंवो न क्वर जी जगतसिंघ जो ने राजलोक गुडे जाय मिलिया ।

1 बजन ले जान बाल ।

2 सितम्बर 2, 1667 ई को हुदा कोली को जभीशारी मे से 76 लाख राम की जापीर जमबनमिह को दी गई थी । जय अव 10 2 पृ 211 :

3 बुधवार जुलाई 19, 1671 ई ।

4 मुहम्मद अमीन रो मगलवार, सितम्बर 24 1672 ई को अहमदावाद वे पास पहुच गया था । अहमदी (अ) पृ 258 :

5 सितम्बर, 1673 ई ।

6 बुधवार अक्टूबर 29 1673 ई ।

गूडा सू वीसलपुर डेरा हुग्रा ने उठा सू दरकु चा पधारिया । सो अटक पार होय ने पेसोर डेरा किया फागण वद 13<sup>1</sup> पसोर था बास एक । पर डेरो कियो । फागण वद 14 चौथे<sup>2</sup> डेरा नदी खोहाट ऊपर किया । फागण वद 30 तीस<sup>3</sup> पच्छ घाटी रे मुहडे डेरा हुवा । नवाब सुजात खा नवाब पातसाही मनसबदार ममसत फागण सुद 1<sup>4</sup> एक घाटी म पैठा । दीवाण पचोली बछराज ने नवाब कूच करता कयो पातसाही वहीर सवारे तू जावता सू ले आवजे ने दूजे दिन केवायो वहीर मत भेजजो तर रह गया । पच्छ फागण सुद 3<sup>5</sup> वहीर ले बछराज घाटी माहे गयो तर सश्कर म धान न मिनियो तर फेर वहीर पाढ़ी मेल दिवी । पच्छ फागण मुद 5<sup>6</sup> बछराज न रसद लेण मलियो, तर ओर रसद लेन गयो । बडा 2 उमराव साये हुता । राठोड़ सूरजमल नाहरखानोत (कूपावत) साये हुतो । सो ए पाटिया गया । आगे नवाब मुजायत खा रे पठाणा रे लडाई हुती थी । सो पातसाही लोक सगला निसर गयो । नवाब ऊपर भार आया सो सुजातखा काम आया । ओ नवाब सुजायत खा भोटो पातसाही उमराव थो च्यार हजारी मनसबदार थो । श्री जी रो साथ नवाब सुजात खा री मदद आयो । असदार 500 पाच सो बरकदाज 600, आदमी 105 (एक सो पाच) पचोनी अण्डरूप भर सेरदिल री ताबीन रा था कुल 1250 साढ़ी बार भा साथ थो । लडाई हुई । श्री जी रो साथ लडाई रो भार भालियो तिण सू बादशाही लोक सगलो निसर गयो । श्री जी रो साथ काम आयो तिण री बिगत—

1 दीवाण पचोली बछराज रामचादोत खाप भामरिया ।

7 चापावत ।

1 रतन बलुओत ।

1 स्यामसिंघ केसोदासात रोजीनो पावतो ।

1 रामसिंघ बलुओत ।

1 रामसिंघ रामदासोत ।

1 रामचाद्र हरीदासोत ।

1 सोमवार फरवरी 23 1674 ई ।

2 मगलवार फरवरी 24 1674 ई ।

3 बुधवार फरवरी 25 1674 ई ।

4 गुरुवार फरवरी 26 1674 ई ।

5 खडपा प्रथवा कडपा की घाटी ।

6 शनिवार फरवरी 28 1674 ई ।

7 सोमवार माच 2 1674 ई ।

1      केशवदास मानसिंघोत ।  
 1      सुजाणसिंघ आईदासोत ।

---

7

## 3 जोधा

1      रायमल केसरीसिंघोत ।  
 1      भावसिंघ गोय द्वासोत ।  
 1      फतेसिंघ र गोली ने तोर गला र लागो ।

## 2 खाप कू पावत

1      प्रतापसिंघ हरचंदोत ।  
 1      देवकरण द्वारकादासोत ।

## 7 खाप भेडनिया—

1      किशनसिंघ स्यामसिंघोत ।  
 1      परतापसिंघ गोपीदासोत ।  
 1      विसनदास गिरवरदासोत ।  
 1      कुशलसिंघ स्यामसिंघोत ।  
 1      काह गोकुलदासात ।  
 1      मौवतसिंघ सवलसिंघोत ।  
 1      विर्जसिंघ रामसिंघोत ।

---

7

1      करममोत हरीसिंघ भीबोत ।  
 1      बालावत मुकनदास कल्याणदासोत ।  
 1      कलावत आसवरण तर्जसिंघोत ।  
 1      सिंधल जगनाथ उरजनोत ।  
 6      खाप भाटी—

1      भीव प्रयागदासात ।  
 1      स्यामसिंघ मुकनदासान ।  
 1      दयालदास केशवदासोत ।  
 1      राजसिंघ केशवदासात ।  
 1      राजसिंघ जसुवातोत ।  
 1      आसवरण मोहणदासोत ।  
 1      केशवदास रत्नसिंघोत ।

---

- १ चौहाण हरनाथ मनोहरदासात ।  
 १ देवडो नरहरदासोत अचलदासात ।  
 ३ खाप काढवाहा—  
     १ चत्रमुज करणोत ।  
     १ साहिवस्तान जगनाथोत ।  
     १ केशवदास गोवधनोत ।
- 

(3)

वरकदाज—

- १ मुहतो नाथो घासी रो ।  
 १ वारड उदो ।  
 १ सिसादियो मनजो ।  
 १ खोची स्यामो ।  
 १ पवार अरादो ।  
 १ खीचो भोजराज ।  
 १ वा सहवाज ।  
 १ पवार फरसी ।  
 १ वा वाघो ।  
 १ इदो रामचान्द्र ।  
 १ पवार रामचान्द्र ।  
 १ राठोड रुगनाथ ।  
 १ सुथार आसो ।
- 

(49) इतरा काम आया । घोडा 49 इणारी पायगा रा गया घोडा 40 रजपूता रा । केर्द गया केर्द बढ़ियो<sup>1</sup> । इणारा रजपूत 20 काम प्राया और 20 तथा 30 तीस घायल हुए । भाटी कुसलभिष पुरे लोहडे उपाडियो । आदमी 8 इणारा काम आया । पोहर पाच लडाई हुई । प्रणी 2 थी एक तो बछराज री दूजी अणी मूरजमल नाहरखानात री थी । बछराज र अणी भार घणा पड़ियो । पद्ध पातसाह जी श्री जी ने तिकियो थाह रो साथ घाटा माहे थाणा रासगा । तर घणा साथ दे राठोड रणधोडदास गायदासोत नू घाटा माथ रानियो । इण

1 मारे गये ।

भ्राद्धी तरह सूर रसत चलाई। पठाणा सूर मामला दोय च्यार रिण्डोडदाम जी किया गर फते किवी। तठा पछ पठाणा जार कियो पाणी राकियो, तर पाणी ऊपर जाय ढेरो कियो, लडाई हुई तर फत हुई। थी जी रा बोल बाला हुवा<sup>1</sup>। तठा पछ पठाणा धलो जोर कीवी। ढेरो दीधो। पातमाही लोक निसरियो दासे बहीर सूर खगडो हुवो। तठ राठोड बीरमदे साहिदासोत नाम आयो। सम्बते 1731<sup>2</sup> ग्रो खगडो हुवा पछ हजूर साथ मगला आयो। तर पातमाह जी रो फर लिखिया आयो थाहरो साथ पाटे मलना।<sup>3</sup> “तर रिण्डोडदास नू भाया भतीना भरमाया<sup>4</sup>। थ सोवे मत जायो। तरे उजर दीधो। तर भाटी रुगनाथ ने मलियो। सौ रुगनाथ र शेय च्यार मामला पठाणा सूर हुमा, तिण म तीख<sup>5</sup> रही। एवं दिन पठाण ढरा ऊपर भाया तठ साथ रा पग छूना। तरे पाणी घिर ने राठोड बीरमदे स्थापनासोत नाम आया।

आगे कावल र साव माहवतखा था सा गुजर गया। तठ पठाणा और पणा परन्तिyo। कावल रो रस्तो चाल न सके। तर महाराज ने सूद मेलिया था<sup>6</sup> सो पठाणा सूर धणी लडाईया हुई। दाय बार काबुल गया। पठाणा ने भ्राद्धी तर सर किया। न पातमाही अमल जमाया। पातमाह जी सुद काबुल ऊपर चढाई बरने गया था सो इसन अबदात रा डेरा<sup>7</sup> महाराज जसवंतसिंह जी पिसोर सूर सामा पधार<sup>8</sup> ग्ररज किवी आप भ्राद्धा मत पघारा पठाण कुतरा छे।<sup>9</sup> तर पातमाह जी भ्राद्धा न आया। महाराज पठाणा सूर लडाईया किवी, ने अमा जमाया।

महाराज जसवंतसिंह जी कावल र सोवे था तर सम्बत 1733<sup>10</sup> मे लबर भाई हिंदुस्थान रा देवरा पाहण<sup>11</sup> रो पातसाह हुकम कियो है। तर श्री महाराज दरबार कियो। पातमाही शोधदार क्षी हजूर आया, तरे फुरमाई “पातसाह जी

1 प्रभाव बढ़ा।

2 सन् 1674 है।

3 बट्टवाया, भ्रमित किया।

4 वर चर बान रही।

5 मृत्यु पयत जसवंतसिंह काबुल सूबे के भ्राद्धीन केवल जमरूद का आनेतार ही रहा।

6 श्रीराजेन्द्र जून 27, 1764 है। से दिसम्बर 23, 1675 है। तक हमन अबदान म ठहरा रहा। मा आ (अ) पृ 82 91।

7 जसवंतसिंह श्रीराजेन्द्र से रावलपिण्डी म रविवार जून 14, 1674 है। को मिला था। मा आ (अ), पृ 82।

8 मन् 1676-77 है।

9 देवालय नष्ट करने।

चाकर रा ईश्वर रा देवरा पाढ़ तर ठाकुर री रीत तो काई रही नहीं । ने जैसिध  
जी मूवा पछ देवरा पाड़े सा जैसिध जी नू टणका<sup>1</sup> जाणिया, तथा मुलायजो<sup>2</sup>  
राखियो । सो हम पातसाह जी देवरा पाड़सी तो म मसीता पाड़सा । तर पातसाही  
आहदेदारा कयो— 'विचार ने जवाब फुरमायो पातसाप जी मू मालग होसी । '  
तर फुरमायो था बठा इणहीज बास्ते क्वा था । तर ओहदेदारा हकीकत लिखी ।  
तर देवरा पाड़णा मोदूब राखिया ने पातसाहजी मन म घणो दुख पायो । पछ  
महाराज देवलाक हुका देवरा पडीया ।

### दोहा

जित जसा<sup>3</sup> पह<sup>4</sup> जीवियो, थिर रहिया सुरताण<sup>5</sup> ।  
आगल ही अवरग सू, पडियो वह पापाण<sup>6</sup> ॥ 1 ॥

सम्बत 1713 रा बसाख बन 27 श्री महाराजा जी री साथ मुहणोत  
सुदरदास जेमलान सिधला रो गाव पाचेटा क्वला भूविया । मिधल वाष आदमी  
जणा 401 सू गाव क्वला सभियो था । रावलो साथ चढियो । पालाचाकर 6915  
था तिणा री अणी दोय क्वी एक अणी राठोड लखधीर विठ्ठलदासोत री साथ  
3543 आदमी दे माला नू मेलिया ने वीजी अणी मुहणोत सुदरदास राठोड  
देववरण कु भकरणोत मोनगरो माधोदास केनोनासोत राठोड मुकुदास साढ़लोत  
और ही वीजो साथ सारो ही थो 3372 था । सो सिधल जणा 28 (अट्टाइस)  
काम आया ने 132 वीजा रजपूत काम आया । जुमल 190 मूम्रा । वरा सात सती  
हुई । वर एक पेट मार मूई । मामलो हाथ आयो ने महाराज री फते हुई ।  
सि धल काम आया । त्यारी विगस—

- 1 मधराज देवराजोत ।
- 2 सावतसिध वाधोत ।
- 3 मुलतान रायसिधोत ।
- 4 सुरताण जसवतात ।
- 5 लाधो मानावत ।
- 6 सूरो किसनावत ।
- 7 रतनसी ।

- 1 शक्तिशाली ।
- 3 जसवतसिह ।
- 5 सुर+स्थान, देव भवन ।
- 7 शनिवार माच 21 1657 ई ।
- 8 शनिवार माच 21 1657 ई ।

- 2 लिहाज ।
- 4 प्रमु राजा ।
- 6 पथर ।

- 
- 8      वैसरीसिंघ द्वावत ।
  - 9      सहसमल हमीरोत ।
  - 10     प्रमरो मनावत ।
  - 11     भोजराज अखराजोत ।
- 

11

सम्बत 1704 रा महा वद 4<sup>1</sup> खीरिया री वासणी लवेरा थी कास 6 वावडी था घोम । थे तठा थी साडिया सोढो रा असवारा 24 दिन उगता री लिवी ।

नवरा थी भाटी सुदरदास सुरताणोत वाहर हुवो । मो गोपालसरिया भानेसरिया विव जाता आपडिया । तठ सोढ जणा च्यार 4 मार लिया । न थी महाराज रा काम आया तिण री विगत ने घोडा 2 सोढो रा लिया ।

3 काम आया—

- 1      भाटी सुदरदास मुरताणोत, सिकार थी वाहर हुवा ।
  - 1      भाटी दूदो प्रथीराजोत, सुदरदास या मिलण आयो थो ।
  - 1      भाटी जसवत हरलासोत सुदरदास रो चाकर ।
- 

3

3 जरमी हुवा—

- 1      भाटी केसरीसिंघ अचलदासीन सुरदास खोहले लियो थो<sup>2</sup> । तिण रे धाव च्यार लागा । सम्बत 1709 रा भाइवा वद<sup>3</sup> सोढो माघोसिंघ उमरकोट रा धणी पातसाह जी कना सू दिली था टीको लेने आवे थो सो मारियो जणा 6 सो रेवाडी कन तेवरे आयो । पछ उजणे काम आयो ।
  - 1      चीतीवारा रामा रे धाव 5 लागा ।
  - 1      भाटी किशनसिंघ र रजपूत र धाव लागा था ।
- 

3

साहणी ईसरदाम सागावत गाव जूड थी तठा सू वाहर हुवो । सो पोहर दिन चढता भाटी सुदरदास काम आयो । पछ थडी । नू ईसरदास, भाटी सुदरदास रे घोड चढियो । सुदरदाम रा रजपूत 4 ईसरदास साथे हुवा, ने साडिया वासे खडिया ।

---

<sup>1</sup> भगलबार जनवरी 4, 1648 है ।  
<sup>2</sup> गाव रखा था ।

<sup>3</sup> अगस्त, 1652 है ।

तर चामू चराई विचे प्राप्तिया । तठ या नू भावना देखने सोङ्गा साडिया घोड़ने हाठा<sup>1</sup> । ए साडिया ले उरा आया । भाटी राम कु मावत पिण्ठ उठ चढ़ियो ईसरदास भेलो पो सर्वर्या बाहर पातो<sup>2</sup> सो तिवारी या प्रोहित मनोहरदास, बालहरवा था भाटी हरदास रा 2 वेटा मोहणदास मुकनदास राठोड श्रीतसिंध अचलदासोत गाव जेलू या सेलोत नरहर सालोही थी इदो पीपो जूरावत लूडियाला था भाटी सुदर भगवानोत माहा वद 6<sup>3</sup> चढ़िया । ने जगत म साना सता था तठ रात घडी 2 पाछ्ली थी । सोङ्गो भगवान नदा रो भाई भार लिया घोडा धाडिया 6 यार आया । भाटी सुदरदास रा रजपूत ईसरदास साय था । त्या साडिया छुड़ाई —

- 
- 1 पवार नरो ।
  - 1 पवार रामो ।
  - 1 पवार नारसिंध ।
  - 1 पवार हूलखण ।
  - 1 खीची राधो ।
- 

## 5

सम्वत् 1715<sup>4</sup> महाराज र ने पातमाह र नारसाई<sup>5</sup> हुई तर जसलमर रे रावल सबलसिंध दयालदासोत फलोधी रा तथा पोहकरण रा गाव दम मारिया था । तिए सू महाराज गुजरात पथारता सिरोही रा ढरा सू मुहणोत नणसी न जसलमेर ऊपर विदा कियो । सो जाधपुर आय कोज भेली करने पाहकरण डेरा किया । सो रावल रो वेटो अमरसिंध पोहकरण रा गावा भ पो सो उठा सू नाठो । सो जसलमेर गयो । वासे नणसी चटियो । जसलमेर रा गाव 25 बालिया न जसलमेर सू कोस तीन उर गाव वासणपी डेरा किया । ने रावल गढ माहे सू निःरियो नही तर आसणी कोट मारने पाढ़ा आया ।

सम्वत् 1689 मगरा रा<sup>6</sup> मेर मुल्क मे विगाड घरुो करता तर मुहणोत नेणसी ने विदा किया । गाव 15 बालिया । सम्वत् 1700 रा वेसाख मुद 11<sup>7</sup> राडवरा रा गाव जालीर रा हाकम मारिया, तर महेचो महसदास छाडियो<sup>8</sup>

- 
- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1 भाग गए ।                 | 2 बूक मचाई ।           |
| 3 बुधवार जनवरी 5, 1648 ई । | 5 विरोध ।              |
| 4 सन् 1659 ई ।             | 7 मगलवार भई 7 1644 ई । |
| 6 1632 ई ।                 |                        |
| 8 विद्रोही हा गया ।        |                        |

धरती रो विगाड़ कियो । तर मुहम्मोत नेणसी जेमलोत ने राडधग ऊपर विदा कियो । सो राडधरो मारियो कोट थर पाडिया न रावल जगमाल भारमलोत ने नेणसी र अगवाणी थो जिणा न राडधरो दियो । महचा महस बीरम ने काढ दियो सम्बद् 1702 साजत रा मगरा माह सू रावल नराणा दोडतो मुल्क रो विगाड़ करतो तर मुहणात नेणसी सुदर ने विदा किया । सो गाव बली, दूकडो कोट कराणो माकड वगेरह गाव मारिया ।

राठोड भालो देवराजोत पोहकरण रा जालीवाडा रो धणी दरबार सू पर हुक्मी रहतो । सो सम्बद् 1725<sup>1</sup> भाटी अचलदास ने गोपालदाम हुकम सू मारिया । सम्बद् 1700<sup>2</sup> पातावता रूपावता र माहोमाह झगढा हुवो, आदमी धणा मूप्रा । जद सू दोनू खापा मे वेर पडियो । सम्बद् 1725<sup>3</sup> रूपावत ईसरदास रा वेटा किशनदास ने पातावता मारियो ।

सम्बद् 17 4<sup>4</sup> साडिया कट, बलघ, गाय भस छालिया री विसुद्द<sup>5</sup> सारी धरती मे पातसाह लगाई । ने मारवाड री महाराज ने वस्ती, जद सू घास भारी पान चराई सूह हुई है ।

सम्बद् 1726<sup>6</sup> गोक्ल जी मे श्री गोरखननाथ जी रो देवरो थो, सो पाडण रो पातसाह औरगजेव हुकम दियो । तर श्री नाथजी री मूरत लेने गुसाई जी जोधपुर आया सो वेइक दिन जोधपुर सू नजीक भालवर मे कदम खडी थे तठ विराजिया ने उठा सू जोधपुर परगना रो गाव पाटोदी थे जठे केइक दिन रखा । पाटोनी सू भेवाड रे गाव सीहाड पधारिया सो हनीज उठे हीज विराज थे । श्री जी दुवारो कहीजे थे ।

सम्बद् 1723 रा पोस वद 9<sup>7</sup> औरगावाद डेरा मुहम्मोत नेणसी सुदरदाम जेमल रा वेटा दोनू भाया ने कद किया । न सम्बद् 1725 दट करने छोडिया, मौ रूपया भरीजिया नही तर सम्बद् 1726 रा माह वद 1<sup>8</sup> फेर वेद किया । पद्धं औरगावाद मू जोधपुर ने बहोर किया । सो मारग म सम्बद् 1727 रा भाद्रवा वद 13<sup>9</sup> दानू भाई पेट मारन मर गया ।

1 सन् 1668-69 है

2 सन् 1643-44 है ।

3 सन् 1668-69 है ।

4 सन् 1667-68 है ।

5 पान चराई धादि का दोई कर ।

6 सन् 1669-70 है ।

7 सोमवार दिसम्बर 10 1666 है । यहा पर सम्बद् 1724 वि होना चाहिये क्योकि राजा जमवतसिंह भासाड वदि 14 1723 वि (जून 10, 1667 है) को ही औरगावाद पहुचा था । तदनुमार सही तारीख नवम्बर 29 1667 है होगी ।

8 मगनवार निम्बर 28 1669 है । 9 बुधवार, अगस्त 3 1670 है ।

दोहो

लेसो पीपल लाख<sup>1</sup>, लाव लखारा लावसी ।  
तावो देण तलाक, नटिया सुदर नेणसी ॥ १ ॥

श्री हजूर सू मालम हुई । तर मुहणोता रा बटा करमसी बगरह टावरा ने घोड़िया । सा वे नास ने नागार रा धगी रायसिंघ जी बन गया । तर महाराज मुहणोता ने चाकर रामण री तलाक घाली । पथ राव रायसिंघ जी दिखण म था सो उठे (दिन) दाय तथा च्यार (दिन) वीमार रहने ग्याराणक रा मर गया । तर सरदारा भुसद्वी चाकरा सारा वयो—‘झो काई हुवो ने उणारे गुजरात रो बद नौकर थो । तिण ने पूछियो तर वेद क्यो— करमाना दोप द्ये । हण गुजराती बाली रो ग्यरथ छ के परावध’ रा चूक है । ने रायसिंघ जी रा चाकर समझिया क करमसी मुहणोत रो चूक छ ।

करमसी व्यू हीन करने मारिया द्ये । तिण सू करमसी ने तो भीत मे चुणाय ने मारियो ने नागोर लिखिया वाकी रा ने धणो<sup>2</sup> म घाल न पील नालजो । सो करमसी री बडारणिया दा धो जिहं करमसी रा वेटा सावतसिंघ, समरामसिंघ ने लेते नीसरी, सा किशनगढ़ ले गई ।

महाराज जसबलसिंघ जी सम्वत् १७१७<sup>3</sup> रा वरस गुजरात सू पातसाह श्री आरगजव जी नू पेसकसी भेली । तिण री विगत—

विगत

---

|         |          |                   |               |             |                                         |
|---------|----------|-------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------|
| जुमले 1 | धाट हुमा | हजूर <sup>1</sup> | वाकी खरा कर 1 | पाछा किया । | आसामी ।                                 |
| 1       | 1        | 0                 | 1             | 1           | 1                                       |
| 87000)  | 15825)   |                   | 67675)        | 3500)       | हजूर या जोहार आयो थो तिण मे रुपया 3500) |
|         |          |                   |               |             | पानदान । केर नियो ।                     |
| 83000)  | 13811)   |                   | 26189)        | 43000)      | हजुरिया अठे खरोद कियो ।                 |
| <hr/>   | <hr/>    | <hr/>             | <hr/>         | <hr/>       | <hr/>                                   |
| 170000) | 29626)   |                   | 93864)        | 46500)      |                                         |

1 नाका नामक पश्चाथ जिसे चपड़ी भी कहते हैं ।

2 भारध । 3 कोलह ।

4 सन् 1660-61 ई ।

|         |        |         |        |                                                |
|---------|--------|---------|--------|------------------------------------------------|
| 32,500) | 0      | 32,500) | 0      | कपड़ो सारो राखियो                              |
| 12 000) | 0      | 12,000) | 0      | घोडो 2 राखिया                                  |
| 1,400)  | 0      | 1 400)  | 0      | वहलिया <sup>1</sup> 14 राखिया                  |
| 2 000)  | 0      | 2 000)  | 0      | सोनारा हाल 4 घोडा                              |
|         |        |         |        | रा राखिया ।                                    |
| 0       | 0      | 0       | 0      | चीतरा 9 गुदराया <sup>2</sup> था<br>सो राखिया । |
| 217900  | 29636) | 141764) | 46500) |                                                |

महाराज श्री जसवंतसिंघ जी रे परधान कामदार मुख्य हुग्रा त्यारी विगत—  
विगत—

- 1 राठोड राजसिंघ बीवा माडल कू पावत रो सम्बत् 1667<sup>3</sup> रा—  
राजा श्री भूरसिंघ जी चावर रास न क्वर गर्जसिंघ जी रे चावर  
थापियो सो राजा श्री गर्जसिंघ जी जीविया जठा ताई परधानगी  
निवी । पद्ध राजा श्री जसवंतसिंघ जी पाट बठा तर पातसाह  
श्री साहजहा श्री राजा श्री जसवंतसिंघ जी रे भूढा आगे परधानगी  
री सारी मुदार<sup>4</sup> देने थी पातसाह जी आपरी तरफ री साख रूपया  
री जागीरी दिवी<sup>5</sup>, नाख रूपया री जागीरी राजा श्री गर्जसिंघ जी  
री दिवी थी । राजा श्री जसवंतसिंघ जी जोधपुर पधारिया तर  
राजसिंघ जी साथ आयो । सम्बत् 1697 रा पोस बद 5<sup>6</sup> राठोड  
राजसिंघ आरोप रा धणी रामसरण हुवा । कागे दाग दियो तठ  
नाहरम्बान राजसिंघोत छत्री कराई ।
- 1 राठोड महेसदास सूरजमलोत चापावत राठोड राजसिंघ राम क्यो  
तर सम्बत् 1697 रा माह सुद 11<sup>7</sup> राजा श्री जसवंतसिंघ जी  
परधानगी निवी । जोधपुर म थी राजा जी थी पातसाह जी री  
हजूर पधारिया, तर पातसाह साहजहा विण महेसदास रे माथे राजा

1 बत । 2 पेश करवाये थे ।

3 सन् 1610-11 ई 4 उत्तरदायित्व ।

5 राजसिंह को भादा बदि 2 (=गुहवार भगस्त 16 1638 ई) का एक  
हजारी जात-400 सदारा का शाही मनसव दिया गया । पा ना, 2  
पृ 105 । 6 सोमवार, नवम्बर 23 1640 ।

7 मग्लवार जनवरी 12 1641 ई ।

जी री हजूर र मदार सम्बत 1697 रा वेनाल सुद 5<sup>1</sup> पाव लाहोर म दी थी। सम्बत 1699 सोनह सो नियानव रा आवण सुद 3<sup>2</sup> एधार री मुहम सरपसज र ढेर राठोड महेसनास नू राजा जी परधानगी सू दूर कियो। श्री महाराजा जी री तरफ री साठ हजार री जागीर सू आउबो पटे थो सो बर तरफ कियो। न पातसाह जी री तरफ री लाव री जागीर हुती सो जाई ने पातसाह जी रो चाकर रयो सम्बत 1714 सबह सा चोन्ह रा<sup>3</sup>। महेमदास जी नू मनमव आठ सनी तीन सो अपवार परगनो आलणपुर रो रुपया 67000) म टियो थो सम्बत 1695 रा वाती सुद 9<sup>4</sup> मुकाम नूरदी बुवा री मराय।

- 1 राठोड गोपालदास सुदरदामोत खाप मेडतिया माधोदासोत रीया रो धणी ने पातसाह जी महाराज जी री हजूर परधान थापियो सम्बत 1699<sup>5</sup> राठोड महेसनास न परधानगी था दूर कियो तर।
- 1 भाटी प्रथीराज गोपालाम मानावत रा ने सम्बत 1705 रा आसाज सुद 9<sup>6</sup> परधान थापियो। वाती सुद 10<sup>7</sup> दश मिगसर सिरपाव ने जडाव रा हन साकला री जोडी बहशी। पछे सम्बत 1706 रा सावण सुद 7<sup>8</sup> कावल रे मुकाम परधानगी सू दूर कियो।
- 1 राठोड आसवरण नीवावत खाप करणात ने सम्बत 1723 म परधानगी टिकी<sup>9</sup> सो महा<sup>10</sup> म जोधपुर आयो।
- 1 सिध्वी सुखमल सोमावत सम्बत 1656 रा पोस वद 10<sup>11</sup> जनम। राजा श्री गजसिंह जी मारा दस री मदार देने आगरा सू विदा

1 सोमवार अप्रैल 5 1641 ई।

2 मगलवार जुलाई 19, 1642 ई। 3 1657 ई।

4 सोमवार नवम्बर 5 1638 ई।

5 सन् 1642 ई।

6 शुक्रवार मितम्बर 15 1648 ई।

7 सोमवार अक्टूबर 16, 1648 ई।

8 शनिवार अगस्त 4 1649 ई।

9 1666 ई। पोम वद 8 (=रविवार, दिसम्बर 9, 1666 ई वो यह नियुक्ति की गई (वाकीदास क्र 339 पृ 32))।

10 माघ 1723 वि (=जनवरी 1667 ई)।

11 रविवार, दिसम्बर 2 1599 ई।

कियो सो सम्बत 1690 रा आसोज सुद 14<sup>1</sup> जोधपुर आयो। पछे राजा जी जसवंतसिंघ जी टीके वेठा तर देस री मदार सिंघवी सुखमल पचोली मोहणदास ईसरदास ऊपर राखी थी गजसिंघ जी री दिवी। पछ सम्बत 1702 रा आसोज वद 3<sup>2</sup> सुखमल जोधपुर मूदो। वडा अबलवान थो। पछे उण री ठोड सिंघवी परतापमल आयो। पछ परतापमल तामीर हुवा, तरे परगने मेडता रो हाकम हुवो।

- 1 मुहणेत नेणसी जमलोत नू सम्बत 1714<sup>3</sup> देश दीवाणगी दिवी मलारणे हाकम थो तठा सू बुलाय न। पछ सम्बत 1723 रा पोस सुद 9<sup>4</sup> काम सू दूर कियो ने कद किवी।
- 1 पचाली वेसरी सिंघ रामचंद्रोत ने सम्बत 1723 रा पोस<sup>5</sup> मे देस दीवाणगी देन जोधपुर मेलियो बखसी रा आहटा सू तमीर करने। सम्बत 1735<sup>6</sup> महाराज देवलोक हुवा तर केशरी सिंघ ने पातसाह जी दिली मे केद कियो सो कथू हीक खाय न मूग्गो।
- 1 खोजा सुदर राजा थी गजसिंघ जी रजा बहादुर काम आयो, तर रजा री वहु कने सम्बत 1686 रा मिगसर सुद 4<sup>7</sup> मोल लिया। तिए ने महाराज थी जसवंतसिंघ जी आपरी हजूर तन दीवाणगी सम्बत 1702 रा जेठ सुद 3<sup>8</sup> सुकाम नदी ऊपर दिवी। सा सम्बत 1703 रा चेत वद 5<sup>10</sup> दीवाणगी तामीर किवी।
- 1 पचोली बलभद्र राधोदास नतावत रा नू सम्बत 1703<sup>11</sup> महाराज आपरी हजूर तन दीवाण कियो। कुल मुदे पालखी चसतो। पछ सम्बत 1711 रा सावण सुद 11<sup>12</sup> दावाणगी सू दूर कियो। देस

1 रविवार अक्टूबर 6 1633 ई।

2 शुक्रवार अगस्त 29, 1645 ई। 3 1658 ई।

4 सोमवार, दिसम्बर 24, 1666 ई।

5 दिसम्बर 1666 ई। 6 1678 ई।

7 सोमवार, नवम्बर 9 1629 ई। 8 सोमवार, नवम्बर 9 1629 ई।

9 गुरुवार मई 7 1646 ई।

10 सोमवार माच 15 1647 ई। 11 सन् 1647 ई।

12 शनिवार जुलाई 15 1654 ई।

कसी 1 लाख रुपया किया। कद में गढ़ ऊपर रहता, ने सम्वत् 1711 रा वेसाहि बद 5<sup>1</sup> काल बस हुओ।

- 1 मुहणोत सुदरदास जमलोत नू पचोली बलभद्र री तागीर सू महाराजा जी हजूर तन दीवाण कियो सम्वत् 1711 — —पद। सम्वत् 1723 रा पोस सुद 9<sup>3</sup> नव नणसी सु दर ने काम सू तागीर किया ने केद किया सो पेट मार मूझा।
- 1 खोजो फरासत राजा श्री गजसिंघ जी रजा बहादुर कन लियो। सम्वत् 1676 रा भाद्रवा बद<sup>4</sup> — फरासत रो ज म। सम्वत् 1701 रा आसान सुद 12<sup>5</sup> राजा श्री जसवातसिंघ जी सारे देस री मदार देने आगरा सू बिदा कियो सो सम्वत् 1702 रा सावण बद 8<sup>6</sup> मेडत आयो, ने बद 14<sup>7</sup> सनीसर जोधपुर आयो। पछ सम्वत् 1705 रा सावण सुद 2<sup>8</sup> फरासत नू हजूर बुलायो ने भाटी रुग्नाथ सुरताण मानावत नू देस सू पियो। पछ सम्वत् 1706 रा माह बद 9<sup>9</sup> केर फरासत नू देस रो सूबो देने मतियो। सो सम्वत् 1714 रा जेठ सुद 12<sup>10</sup> दूर कियो। पछ सम्वत् 1746 रा चतुर सुद 2<sup>11</sup> मूझा। घर म दोलत धणी थी सो नवाब सुजाइत खा रे नाईव काजमवेंग से लिवी। थी अजीतसिंघ जी नू न मली। सो भू डो दीठो। फरासत ने वाग म गाड़ियो। ऊपर मुकरबो<sup>1</sup> करायो। जोधपुर मे चादपोल वारे सामिया रो वाग वाजे छे।

1 रविवार अप्रैल 15 1655 ई०।

2 1654 ई०।

3 सोमवार दिसम्बर 24 1666 ई०।

4 अगस्त 1619 ई०।

5 बुधवार जून 25 1645 ई०।

6 रविवार, जुलाई 6, 1645 ई०।

7 जुलाई 11 1645 ई०।

8 बुधवार जुलाई 12 1648 ई०।

9 बुधवार, जनवरी 16 1650 ई०।

10 बुधवार जून 2 1658 ई०।

11 रविवार माच 2 1690 ई०।

12 मनवरा।

- 1 मुहणोत नेणसी हासी हसार थो । तिण ने सम्बत् 1723<sup>1</sup> तागीर कर व्यास पदमनाभ ने मेलियो सो लोक वेराजी हुवो । पातसाहजी वन लोक फिराद गयो, तर लाख एक री रकम छुडाई ।
- 1 खोजो लाल परबेजी राजा श्री गर्जसिंघ जो सम्बत् 1684 चावर राखियो । पद्ध सम्बत् 1692 बवरजी श्री जसवन्तसिंघ जो री हजूर री खिजभत मे दीयो सो सबत् 1697 रा आसाड वद 6<sup>2</sup> महाराज श्री जसवन्तसिंघ जी चावरी या दूर किया । लाहोर म पद्ध । सम्बत् 1702<sup>3</sup> बल चावर राखियो । सम्बत् 1711 रा भाद्रवा वद 2<sup>4</sup> मूँवो जोधपुर गढ ऊपर लाल र डेरे इतरो निसरियो—

|               |               |
|---------------|---------------|
| 336) मोहरा ।  | 11,000) रुपया |
| 1 घाडा 1 ऊट । | 4 000) सोनो   |

- 1 सम्बत् 1708 रा मिगसर वद 15 कवर र वासते श्री रामेश्वरजी महादेव जी री पूजा करण सालू थीमाली दवे बेणा नू वसाणियो । सो वरस 1 नू सेखावत जी र कु वर प्रथोसिंघ जी हुवो । तर परगने जोधपुर रो भाव डोटीयाल रेख रुपया 200) री श्री माली दवे बेणा नै ताबा पतर कर दियो ।
- 1 महाराज श्री जसवन्तसिंघजी सबत् 1735 रा पोस वन् 10 विसपतवार<sup>5</sup> ने एक पोहर च्यार घडी दिन चढिया पिसौर मे देवलाल हुवा । बूदेला पूरणमल रा बाग म दाग हुवो न खवासा गायणिया 8 आठ हाजर थी तिके सतिया हुई । पूरवियो कल्याण रथी<sup>6</sup> म बूद पडिया तिण न यारो पाखती वालियो । राणिया 2 हाजर थी । जादम जी राजा छतरपण री पाती ने भूपाल री बेटी, तिण ने मास 6 छव रो आधान<sup>7</sup> थो । दोनू ही राणिया सत्र करण रा बडो हठ कियो । तर राठोड रिणच्छोडदास गोयदासोत, राठोड सग्रामसिंघ जु भारसिंधोत

1 1666 ई० ?—1667 ई० ?

2 शुक्लवार जून 18, 1641 ई० ।

3 सद् 1645—46 ई० ।

4 शुक्लवार जुलाई 21, 1654 ई० ।

5 रविवार अक्टूबर 19 1651 ई० ।

6 गुरुवार नवम्बर 28 1678 ई० ।

7 चिता में । 8 गम ।

चापावत सूरजमल कू पावत नाहरखान ऊदावत राजसिंघ बलरामोत  
जतावत प्रतापसिंघ देवकरणोत चापावत उदसिंघ लखधीरोत  
करणोत दुरगदास आसकरणोत बगरह अरज विवी "यापरे छोरु  
हुव जितरे उतावल मत करो । श्री परमेश्वर जी म्हा नू घणी देवे  
तो म्हे सनाय हुवा । इण ताछ घणी समजास करने राखिया । रे  
रवारी राधा साथ श्री जी री वाग चलाई जाधपुर ने ।

1 महाराज जसवातसिंघ जी रा राजलोका कवरा री विगत—

2 कवरपदे परणिया—

1 भटियाणी जसहपदे रावल मनोहरदास री वेटी । सम्वत  
1684 रा भाद्रवा सुद 15<sup>1</sup> रो ज्ञम सम्वत 1693 रा  
वैशाख सुद 12<sup>2</sup> जसलभर पधार परणिया दुगाणी रूपया  
7233 सात हजार दो सो तेतीस लागा । सम्वत 1706  
रा वसाख वद 4 तथा 5<sup>3</sup> बुध नव घडी रात गया राम  
क्यो, दिली म जमना ऊपर दाग दियो ।

1 हाढी जसवातदे बू दी रा राथ सत्रसाल री वेटी—पीहर रो  
नाम रामकवर । सम्वत 1684 रा दुतिक सावण सु<sup>4</sup> 8<sup>4</sup>  
ज्ञम । सम्वत 1694 रो जठ सुद 2<sup>5</sup> बूधी पधार  
परणिया । सम्वत 1720<sup>6</sup> म वाग करायो ने वाग र कोट  
करायो तिको राई का वाग कहै छ । न वाग बन पुरो  
बसायो ने तलाव कल्याण सागर करायो तिण ने रातो  
नाढो कहै छ । सम्वत 1726 रा वैसाख सुद 13<sup>7</sup> राणी  
पदो औरगावाद मे दियो । सम्वत 17 बू दी मे  
देवलोक हुवा ।

10 राजा हुवा पछ परणिया

1 शनिवार सितम्बर 15 1627 ई० ।

2 भगलवार अप्रैल 25 1637 ई० ।

3 बुधवार अप्रैल 10 1650 ई० ।

4 गुरुवार अगस्त 9 1627 ई० ।

5 शनिवार भई 5 1638 ई० ।

6 सन् 1663-64 ई० ।

7 शुक्रवार अप्रैल 22 1670 ई० ।

1 चहुवाण जगूरूपदे जी चहुवाण दयालदास सिंहरावत  
री बेटी, पीहर रो नाम रायकवर ! स 1688 रा  
आसाढ वद 12<sup>1</sup> रो जम ! सबत 1697 रा फागण  
वद 3<sup>0</sup> लाहोर पधारता बीलाड डोला मगाय  
परणिया !

1 बछवाही बसमादेवी द्वारकादास राजा गिरधरदासोत  
री बेटी ! सम्बत 1681 रा आसोज वद 2<sup>3</sup> रो जम  
सम्बत 1697 रा चेत वद 10<sup>4</sup> लाहोर पधारता  
खडेले परणिया ! सम्बत 1706 रा भाद्रवा वद 9<sup>5</sup>  
बेटी प्रताप कवर हुई ने भाद्रवा वद 10<sup>6</sup> देवलोक  
हुवा !

1 जावत (जादम ?) जेवतदे जी प्रथोराय (रायसिंधोत)  
री बेटी, जूनागढ परे कोस पच्चीस गाव चौराझ  
(चोरवाड ?) उठा सु डोलो आयो ! सम्बत 1700  
रा जेठ वद 2<sup>7</sup> तलेटी रा महला परणीजिया !  
1 बेटी महाकवर सम्बत 1701 रा आसाढ वद 18  
हुई ने सम्बत 1703 रा पास सुद 10<sup>8</sup> श्रोरी  
सु चली !

1 गोड जसरगदे मनोहरदास री बेटी पीहर रो नाव  
चारमती सम्बत 1692 रा सावण वद 8<sup>10</sup> रो जम !  
राव अमरसिंध रा वर म पातसाह साहजहा फुरमाय  
ने परणाया सम्बत 1706 रा फागण वद 21<sup>11</sup> गोप्तवक

- 1 सोमवार, जून 4 1632 ई० ।
- 2 मगलवार जनवरी 19 1641 ई० ।
- 3 शुक्रवार मगस्त 20 1624 ई० ।
- 4 बुधवार फरवरी 24 1641 ई० ।
- 5 मगलवार मगस्त 21, 1649 ई० ।
- 6 बुधवार मगस्त 22 1649 ई० ।
- 7 सोमवार मई 13, 1644 ई० ।
- 8 शनिवार मई 31, 1645 ई० ।
- 9 बुधवार जनवरी 5 1647 ई० ।
- 10 शनिवार, जून 27 1635 ई० ।
- 11 शुक्रवार फरवरी 8, 1650 ई० ।

रे साव । गढ़ रणथम्भोर पथार परणिया । राजा विठ्ठलदास व्याव कियो । सम्बत 1719 रा आसोज वद 14 बात<sup>1</sup> कियो ।

- I कद्यवाही अतरगदेजी राजा वरमिधदे री वेटी दूदी रा राव राजा रतनसिंघ री दोहीतरी । सम्बत 1691 रा भाद्रवा सुन्त 6<sup>2</sup> रो जाम । मेडता सू खडेल पथार सम्बत 1706 रा जेठ सुद 8<sup>3</sup> परणिया ।
- I क्वर प्रथीसिंघ जी सम्बत 1708 रा आसाढ सुद 5 विसपतवार<sup>4</sup> रात घडी 3 पल 42 गया जाधपुर मे जनमिया ने सम्बत 1723 रा जेठ वद 11<sup>5</sup> दिली म देवलोक हुवा । गोह जी सती हुवा, भटियाणी जी रया ।
- I बाई रतनावती—सम्बत 1712 रा “रो जाम
- I सीसोदणी जससुखदेजी पीहर रो नाव छपक्वर बीरमदे सूरजमलोत री वटी सम्बत 1700 रा जाम, ने सम्बत 1713 रा जेठ वद 3<sup>6</sup> मुथरा जी परणिया सम्बत 1719 रा मिगसर वद 5<sup>7</sup> राम कयो ।
- I देवडी अतसुखदे जी पीहर रो नाव अलंदक्वर तिरोही रा राव अखराज री वेटी । सम्बत 1700 रो जाम । गुजरात र सोवे पथारता सम्बत 1715 रा वशाख वद 2<sup>8</sup> परणिया । सम्बत 1715 रा पोस सुन्त 15<sup>9</sup> जोधपुर गढ़ ऊपर देवलोक हुग्रा ।

1 सोमवार सितम्बर 1, 1662 ई० ।

2 मगलवार अगस्त 19 1634 ई० ।

3 मगलवार मई 28 1650 ई० ।

4 शुक्रवार, जुलाई 1 1652 ई० ।

5 बुधवार, मई 8 1667 ई० ।

6 बुधवार मई 20 1657 ई० ।

7 मगलवार अक्टूबर 21 1662 ई० ।

8 बुधवार माच 30 1659 ई० ।

9 रविवार दिसम्बर 18 1659 ई० ।

1 चाद्रावत जेसुखदे जी पीहर री नाव मनभावती, रामपुरा रा राव अमरसिंघ री बटी हरीसिंघ री पौती । सम्बत 1702 रा चत वद 2<sup>1</sup> रो जाम सम्बत 1721 रा बक्षाय सुद 4<sup>2</sup> पूना सू पधारता रामपुर परणिया । भाई विहाव कियो । धोडा 40 हाथी 1 फेर ही दायजो धणो दियो । महाराज री सवर आई, तर जोधपुर सत कियो<sup>3</sup> ।

1 कवर जगतसिंघ जी—सम्बत 1723 रा माह वद 4<sup>4</sup> जनमिया तलेटी रा महता मे ने स 1732 रा चत वद 30<sup>5</sup> हीस रात आधी रा देवलाक हुआ ।

1 वाई उदेकवर सबत 1722 रा फागण<sup>6</sup>——रो जाम, सो उनी थकी मूई ।

—

1 जादव जसकवर राजा छत्रमण<sup>7</sup> री पौती, कुवर भूपाल री बेटी । चबत् 1721 रा वैसाख सुद 11<sup>8</sup> पूना सू पधारता करोली तफे गाव हीडवण परणिया ।

1 कवर अजीतसिंघजी—सम्बन 1735 रा चेत वद 4<sup>9</sup> जनमिया लाहोर मे ।

1 नहवी जी गाव कवोड रा फतेसिंघ री बेटी

1 कवर दलयमण जी सम्बत 1735 रा चत वद 4<sup>10</sup> जनमिया लाहोर मे ।

1 शनिवार फरवरी 21 1646 ई० ।

2 शुक्रवार माच 24, 1665 ई० ।

3 सामवार पोप सुदि 14 (दिसम्बर 16, 1678 ई०) के मठोर (जोधपुर) मे सती हुइ । यही पृ 19 ।

4 शुक्रवार, जनवरी 4, 1667 ई० ।

5 शनिवार, माच 4 1676 ई० ।

6 जनवरी फरवरी 1665 ई० ।

7 राजा छत्रमण—करोली का राजा ।

8 शनिवार, अप्रैल, 15, 1665 ई० ।

9 बुधवार, फरवरी 19, 1679 ई० ।

10 बुधवार, फरवरी 19 1679 ई० ।

## 30 पातरा खवासा तीस ।

12 स 1714 रा सिवाणा रा किला मे जवर कर वाली ।

9 पेसौर म सम्बत 1735 रा पोस वद 10<sup>1</sup> श्री हजूर साहिवा साथे सतिया हुई ।

11 रही ।

## (राव अमरसिंघ)

राव अमरसिंघ जी महाराज गर्जसिंघ जी र पाटवी कवर अमरसिंघ जी था । सो महाराज इणा सू नाराज था तिणा सू अमरसिंघ जी न टीका सू दूर किया । सम्बत 1691 लाहौर बुलाय पातसाहजी र जुदा चाकर राखिया<sup>2</sup> । तर पातसाह साहजहा अढाई हजारी जात दोढ हजार असवारा रो मनसब दियो । तिणा म बडोद बगरह पाच परमना दिया तर अमरसिंघ जी रा राजलोक कवरा नू जोधपुर सू सीख दिवी सो बडोद जाय रया । आ हकीकत विगतवार उपर लिखी छ ।

राव अमरसिंघ जी रा सम्बत 1670 रा पोस मुट 10<sup>3</sup> रो जाम जोधपुर म । सम्बत 1691 रा आसाज मुद 10<sup>4</sup> पातसाही चाकर रया ने मनसब म पाच परगना पाया । सम्बत 1694 रा जेठ मुद 3<sup>5</sup> महाराज गर्जसिंघ जी आगरा म देवलोक हुवा । तर पातसाह साहजहा महाराज जसवात्सिंघजी न तो जाधपुर लिख दियो, ने अमरसिंघ जी ने रावाई रो खिताब दिया न मनसब च्यार हजारी असवारा रा कियो मे नागोर इनायत कियो (रु 4 00 000) च्यार लाख रुपया मे ।

गाव जाखणियो, नागोर रो ने गाव सीलबो, बीकानेर रो इणा दोनु गावा रे काकड रो कोड<sup>6</sup> थो । जिए वास्ते दुतरफे खेडा<sup>7</sup> हुई । अमरसिंघ जी री पौज म सिधबी सीहमल भरव पदमावत रो सरदार थो, ने साथे फौज घडिया

1 गुरुवार नवम्बर 28 1678 ई० ।

2 पहिले के मनसब दो हजारी जान—1300 सवार के मनसब म पीप मुद 1 (=गुरुवार दिसम्बर 11 1634 ई०) को 5 सदी जात—200 सवारा की दृढ़ि थी गई थी । (पा ना 1 पृ 291, 1 व पृ 65) ।

3 शनिवार दिसम्बर 11 1613 ई० ।

4 सामवार सितम्बर 22 1634 ई० ।

5 रविवार मई 6 1638 ई० ।

6 विवाद था ।

7 खेट, लठाई ।

पालाकर हजार तीन थी। न बीकानेर रा राजा परमसिंघ जी री फौज मुहूर्तो रामचंद्र वत्याणु रो भट्टसरी सरदार थो ने साथे फौज चढ़िया पालाकर चार हजार सथा साढ़ा च्यार हजार थी। दोनू फौजा र आपस म बोस च्यार री छेदी थी।

सिधवी सीहमल चढ़ बीकानेर रा साथ उपर गया। गाव सीलवे सम्बत 1699 रा काती बद 11 अदीतवार<sup>1</sup> पाहर दिन चन्द्रिया बेड हुई। सो मिथवी सिहमल ने राठोड दयानदास हरदासोत राठोड अग्रराज दलपतोत बीजो ही साथ निसरियो। खत बीकानेरिया र हाय आयो। राव अमरसिंघजी रा इतरा काम आया सिधवी सीहमल रो बागद सिधवी मुखमल नू थो तिरा म अ आसामिया लिखी आई—

तिएरी विगत—

- 1 राठोड वरण भोपत गोपालदासोत चापावत।
- 1 राठोड वेसरीसिध नरसिंधनास कलारायमलात रो।
- 1 राठोड गोयनास खीवा माडणोत रा खीवावत।
- 1 राठोड साहिवखा भोपत गोपालदासोत चापावत।
- 1 राठोड गोक्लराम सुजागमिष्य आसकरणोत भउतियो।
- 1 राठोड अखराज दयालनास हरदास परमसिंधोत करमोत।
- 1 राठोड खीहारीदास मान खीवावत रा कू पावत।
- 1 राठोड सेखो दुरज्ञासलात पातो।
- 1 राठोड खेतसी जमल भाणोन रो पातो बीकानेर रे साथ उपडियो थो सो मूदो।
- 1 राठोड सिंध हरोदास नरहरखातात रो मेडतियो।
- 1 ऊहड उरजन गोपालदासोत ने बीकानेर रे साथ उपाडिया था। बीकानेर जाय मूदो।
- 1 राठोड वल्याणुनास केसोदासोत।
- 1 राठोड पिरावदास सखावत रो।
- 1 राठोड नरहरनास भाण ईसरदासोत।
- 1 मोनगरो जगनाथ जमवत मार्नासधोत।
- 1 चौहाण माधवदास लिखमीदासोत।
- 1 भाटी किशनदास सहमलात।
- 1 देवडो मनोहर किशनदासोत।
- 1 वाहडमरो प्रयोराज खीवकरणोन।

1 रविवार अक्टूबर 9 1642 ई०।

1 धायमाई कल्याणदास नरसिंघदास जी रो रावजी रो धाय भाई ।  
 1 बछवाहो मुक्कदास माघोदासोत ।  
 1 गोहिल उगरो बरमावत रो ।  
 1 राठोड कल्याणदास रायमलोत ।  
 1 बाहरठ चादा चारण ।

---

24

58 इतरा ठाकुरा रा रजपूत काम आया—

2 राठोड केशरीसिंघ नरसिंघदासोत रा ।  
 9 राठोड करण भोपतात रा ।  
 7 राठोड साहिब खा भोपतोत रा ।  
 7 राठोड गोवदास खीवावत रो ।  
 9 राठोड बिहारीदास मानोत रा ।  
 7 राठोड गोकुलदास मनोहरदासोत रा ।  
 2 राठोड मावसिंघ कानोत रा ।  
 2 राठोड हरराम आसकरणात रा ।  
 4 राठोड रतन रामसिंघोत रा ।  
 2 राठोड भगवानदास दयालदासोत रा ।  
 4 राठोड मोहुणदास बीकावत रा ।  
 2 सिंधबी सिंहमल मरावत रा ।  
 1 धाय भाई कल्याणदास रो ।

---

58

इतरा रे लोहडा लागा ।

14 सरदार मुतसदिया र धाव लागा ।  
 1 सिंधबी सीहमल र तीर 3 लागा ।  
 1 दूहतो मेपराज रामोत र झटको 1 नं तीर 2 लागा ।  
 1 राठोड अखराज दलपतोत र तीर 3 लागा ।  
 1 राठोड गोकुलदास मनोहरदासोत र बरद्धी 2 तीर 3 लागा ।  
 1 राठोड मधराज उरजनीत र गोक्की 1 झटको 1 लोह 9 लागा ।  
 1 राठोड फरसराम सगतावत र तीर 1 लागो ।  
 1 राठोड दयालदाम हरदासोत र तीर 3 लागा झटको 1 लागो ।

- 1 राठोड तेजसी हरदासोत र तीर 2 लागा ।  
 1 राठोड मंथराज रामसिंघोत रे भटवो 1 लागो ।  
 1 इदो दयालदास हरदासोत रे तीर 2 लागा ।  
 1 बद्धवाहो मनोहर भाघवोत रे तीर 1 लागो ।  
 1 सु हो स्यामदास वरद्धी 1 भटवो 1 लागो ।
- 

14

---

- 46 सरदार मुतस्दियों रा राजपूता र धाव लागा ।

- 10 भिधवो सीहमल रा रे ।  
 5 राठोड प्रतापसिंध गोपालदासोत रा रे ।  
 4 राठोड विहारीदास भोहणदासोत रा रे ।  
 3 राठोड भोजराज विशनदासोत रा रे ।  
 3 राठोड विहारीदास विठ्ठलनासोत रा रे ।  
 10 राठोड मोहनदास बीकावत रा रे ।  
 3 राठोड भोजराज गिरधरदाम खीवावन रा चावर ।  
 1 राठोड चमचढ़ कानात रा गावा मे रहा ।  
 1 राठोड द्वारकादास सुरावत रा रे ।  
 6 इ दा दयाल द्वारकादासोत रा रे ।
- 

46

---

60

---

काम आया ने जर्खी हुवा तिणारी कुल विगत—

| जुमले 1 | सरदार 1 | रजपूत 1 | आमामी                   |
|---------|---------|---------|-------------------------|
| 1---    | --1     | 1--     | 1-- ---                 |
| 83      | 25      | 58      | काम आयो सो खेत पड़िया । |
| 60      | 14      | 46      | लोहडा लागा ।            |

राव भमरसिंघ जी धामरे पातमाह माहजहा जी र मुजरे हवेसी था जिन 15 गया (नहीं)। सम्बत् 1701 रा मावण मु<sup>२</sup> 2 विरसपतवार<sup>1</sup> रात घटी 1 गया। जमनाजी ऊपर शहजाला दाराशिंहोह री हृकली पातसाह जी था जठ गया। सादिक सा रा वेटो सलावतगान पातसाही बखशी थो। तिए नू राव भमरसिंघ जी क्यो— थ्री पातसाह जी नू मुज्रो गुरावा। तर सनावनगा क्यो। ‘गुदराऊ’ यू वह सलावत सा पातसाहजी री हजूर गयो। घडी दोय ताई राव जी थाट जोई, सलावत सा गुरावो—पिण नहीं पाथो जाव ही मलियो नहीं। तर राव भमरसिंघ जी धाप थी गुगलसाना म जाय मोहर 9) थ्री पातसाह जी रे निजर री आपरे हाथ सू पातसाह जी नू इबो ने राव जी पापनी मिसल थी तठ जाय ऊभो रहया। जिनर सलावतगा बर्सी रावजी न आय ने क्यो ‘म्ह दीवाण बट्सी बेरा? राव आप थी ही जाय ने पातमाह ने मिल नजर दयो। तो तर रावजी बया ‘म्ह तो था नू बया था। थे न गुदरावो तर म्ह जाय मुजरो किया। तर सलावतसा निसचे गिवार हो बीजा ही बुवचन बया। सा मास दोय हुवा था। राव रो चित पिण इकाए न थो। डीन करार न थो। राव कटारी थाढ मनावत सान नू बाही। पातसाह री हजूर मनावतसान तो गोड रया। पातसाह भमरसिंघ जी न विपरीत कुमा (ऊभा?) देखने क्यो जा परो। राव मुसल होय ने वारा नू निवलिया।

राव बार निवलिया तर भहजादा ने बीजा भुरासाणी ऊभा था त्या क्यो राव हजूरत री हजूर बहशी ने मार इसी थपदवी बरने जाय था बाबत झडा नही। तर थ्री पातमाह जी हजूर ऊभा था त्या नू क्यो मारा राव जावण न पाव। तर खलीन सा जाय न राव जी न भटको वायो। हाथ र थोडो लागो। गोड उज्जन विठलदास र वेटे पाथे जाय न भटको वायो तर राव छिटक पहियो। जितर गुरजवरदार ऊभा था, बीजा ही जिको ऊभा था, त्या राव नू सगना लोह कियो। राव कटारी जणा दोय तथा तीन नू पोहचाई। कटारी था गोड अरजन रो कान कट थाभा र लागी। पातसाह जी हुक्म कियो राव रा रजपूत बार घ त्या नू राव री लाय<sup>3</sup> ले जाय सापो सो मीर तुजक काईय मलूकच द मुसरफ थो। त्या नू क्यो तर गुरजवरदारा ने या भाथ लोण आण राव रा रजपूत आगे नाखी। तर रजपूता लाह उडायो। मीर तुजक बाईय मलूकच द अ तो सरदार मारिया। गुरजवरदार कर बीजा ही लोव पातशाही जणा 36 छत्तीस मार लिया ने जणा 13 तेरह रावजी रा उठे काम आया। तिके नीच्ये पान लिलिया छ। पातसाह जी न खबर हुई। राव रा रजपूत तो लोहडो कियो न मारिया छ। तर

1 जुलाई 25 1644 इ।

2 अच्छी।

3 लाश मृत देह।

पातसाह जी क्यो—‘राव री लोथ राव रा चावर मूवा छ, त्यारी सगली लोथा जमनाजी मे बहाय देवो । तर सारी लोथा जमनाजी मे आधी रात रा बहाय दीनी ।

सावण सुद 3<sup>1</sup> तीन राव जी र राजलोक खवासा आगरे था तिके सती हुवा—अहाडी वासवाला री कछवाही खडेला वाली, ने सवासा 5 पाच बली ने । पातसाह जी ने किए ही क्या राव रा रजपूत भेला हुवा छ । घोडा ऊपर चढ दरवार प्राय मरण मते ध्य<sup>2</sup> । तर पातसाहजी सूर खानजहा न विदा कियो । तिण आय ने राव रा रजपूत मारिया त्यागी विगत नीचे छ । पातसाही नोब 105 एक सौ पाच मरण गया । राव र घोडा वित वयु थो सो राठोड भावसिंघ काढ ने राव रा बेटा रायसिंघ नू पोहचायो । ने हथरणी । न रया यया पूरण<sup>3</sup> था सो बाट्या, ने हवेली वाल दिवी । रया गयो असवाव हवली मे सो लूटिजियो । जाधपुर खवर सावण सुद 9<sup>4</sup> बकीला रा कागद सू आई । राव जी काम आया, तिण री खवर नामौर सावण सुद 8<sup>5</sup> आई । सो राव रो माय बोकनेर ऊपर चढियो थो । गाव माडेलिया डेरा था । तठ खवर आई । साथ सोह पाढ़ी नामौर आयो । नामौर रा राव री बहुवा सतिया सावण सुद 9<sup>6</sup> हुई—भटियाणी । जाडेची 2 आहडी हूगरपुर री 3 खवासा 5 पाच ।

राव अमरसिंघजी सम्बत् 1701 रा श्रावण सुद 2<sup>5</sup> बहस्पत वाम आया नेर इतरी सतिया हुई तिणी विगत—

7 आगरे श्रावण सुद 3 सुकर<sup>6</sup> आगरे हजूर थी सो वली ।

2 साक्षवाणिया<sup>7</sup>

1 आहेडी अतरूपदे रावल री बेटी वासवाला री ।

1 कछवाही लाडी, कुमलसिंघ रायसलोत री बटी खडला री

2

1 शुक्रवार जुनाई 26 1644 ई० ।

2 घोडे ऊट आदि पशुधन ।

3 शुक्रवार अगस्त 2 1644 ई० ।

4 शुक्रवार अगस्त 1 1644 ई० ।

5 शुक्रवार जुलाई 25 1644 ई० ।

6 शुक्रवार जुलाई 25 1644 ई० ।

7 सुकुलोत्पन्न ।

5 खवासा ।

- 1 रणभौहन गायण ।
  - 1 चाद्रकला गायण ।
  - 1 कनक भजरी खानाजाद गायण ।
  - 1 गोवरधनी निरतकला खानाजाद ।
  - 1 निरतकरण लाहौर खरीद करी सो ।
- 
- 5
- 

7 नागोर सावण सूद 9<sup>1</sup> नागोर थी सो सतिया हुवा ।

3 साऊदाणिया

- 1 भटियाणी सवसुखदे जगनाय री वेटी ।
  - 1 जाडेची बहुरगदे वीभा अजावत री वेटी ।
  - 1 आहडी अजायदे रावल पूजा री वेटी
- 
- 3
- 

4 खवासा ।

2 नाचनी ।

1 समीत कला ।

1 रण सूरत ।

---

2

---

1 पखावजण मनमाहन ।

1 तीवणी

---

4

---

7

1 सीसोऱ्णी अनूपदे पीहर थी सो भादवा बद 5<sup>2</sup> सती हुई ।

---

15

---

1 शुक्रवार, अगस्त 2, 1644 इ ।

2 सामवार, अगस्त 12 1644 इ ।

राव अमरसिंघ जी साथे पातसाही दरवार में रावजी रा चाकर इतरा जणा  
बाम आया बलशी सलावतखा ने मारियो तर। जिणा री विगत—

- 1 राठौड़ स्यामसिंघ कानोत कू पावत ।
- 1 राठौड़ देईदास भगवानसोत करमसीयोत ।
- 1 राठौड़ महेस नतावत जतमाल ।
- 1 राठौड़ गालकदास मनोहरदास चापावत ।
- 1 राठौड़ मोहकमसिंघ जगतसिंघोत पावा पडिया उठायो ।
- 1 राठौड़ द्वारकादास मनोहरदासोत ।
- 1 राठौड़ विश्वनसिंघ गोवधन भगवानदासोत जेनोरएण्यो ऊदावत
- 1 भाटी बलू केसोदासोत ।
- 1 भाटी रामचन्द्र जसवातोत ।
- 1 भाटी हरनाथ जगनाथोत ।
- 1 भाटी अमरो भाखरसिंहोत ।
- 1 भाटी नाथा सुंदरदासोत ।
- 1 भीवात जगनाथ साढूल किसनावत राठौड़ ।
- 1 चतुर्वाण गोवादास रामसिंघोत ।
- 1 चौहाण जोगीदास राम सूजावत ।

1 डेरे काम आया ।

- 1 राठौड़ बलू गोपालदासोत चापावत, 5 सू ने ने टाकणी बली ।
- 1 राठौड़ भावसिंघ कानोत कू पावत रजपूत 9 सू काम आयो ।
- 1 राठौड़ भानीदास करणोत चापावत रजपूत 4 सू ।
- 1 राठौड़ मुकनदास महसिंघ भाघोदासोत रो राजावत ।
- 1 राठौड़ हरनाथ सुंदरदासोत मेडतिया रा रजपूत 2 काम आया ।
- 1 राठौड़ नरहरदास रायसिंघोत मेडतियो ।
- 1 राठौड़ रिण्योड़ हरीदासोत मेडतियो ।
- 1 राठौड़ दुरजणासाल अमरा रामसिंघोत ।
- 1 राठौड़ चंदो जसा लखमणोत रो ।
- 1 राठौड़ माधवदाम बलावत माडणात ।
- 1 राठौड़ गापीनाथ सूरजमल महेसासोत रो सालदे रो पोओ ।
- 1 राठौड़ द्वारकादास नरहरदासोत करमसीयोत ।
- 1 राठौड़ बलू सुरताणोत माडणोत ।
- 1 साहू भाखरसी जसवातान ।
- 1 साखलो खगार देईदासात ।
- 1 भाटी जसवात भोपतान बेलण ।

- 1 भाटी हरदास नारायणदासात जसड ।  
 1 चौहाण हरीदास कचरावत ।  
 1 चौहाण हरीदास जगभालोत ।  
 1 चौहाण तिलाकसी महकरणोत ।  
 1 इदो सहसा सावलदासात ।  
 1 इदा बीजो मेषराजोत ।  
 1 सासला रूपमी पिरागोत ।  
 1 सोहड जसवात सनावत ।  
 1 सूढा बीरमदे रामनासात ।  
 1 मूथा जोधो बछावत ।  
 1 दपनरो सुदरो नवासदो धो ।  
 1 व्यास गिरधर ।  
 1 व्यास जगनाथ थो माली ।  
 1 जोसो ।  
 1 सोहड भोजराज जगनाथोन राव शत्रशाल रो चाकर ।  
 1 सा नाथो मानावत ।  
 1 भाटी ।  
 1 तोपची ।  
 1 अजीत ।  
 1 पीरो ।

पातसाही लोक काम आया आगरे 35 रावजी पातसाह जी री हजूर काम आया तर माराए ।

- 4 मनसवदार ।
- 1 बख्शी सनावतवा ।  
 1 मीरखा ।  
 1 कायथ मलूको ।  
 1 गुरजबरदार ।

150 राठोड वलू भावमिथ काम आया, तर मारणा सेद मानजहा नू पातसाह जी मेलियो थो तिण रा तथा दूजा रा कर जणा 150 मारिया, ने जणा 100 चायल हुया ।

राव अमरतीर्थ जी रे राजसोका बद्रा रो विगत

- 1 सीसोदणी अनूपदे राणा बरण री वेटी । सम्बत् 1670 रा मिगसर सुद 14<sup>1</sup> रो जाम । सम्बत् 1689 रा माह वट 11<sup>2</sup> उदयपुर जाय परणिया । ने रावजी आगर काम आया तर पीहर थी सो पीहर म सम्बत् 1701 रा भाद्रवा वद 5<sup>3</sup> पाच सती हुवा ।
  - 1 वेटी एक मास च्यार रो हुय मूओ ।
  - 1 वेटी भद्रासिध मास 8 रो हुय मूबो ।
  - 1 वेटी बल्याण बवर हुई ।
  - 1 आहेटी अजायदे रावल पूजा रो वेनी सम्बत् 1674<sup>4</sup> रो जाम । स 1684<sup>5</sup> म डूगरपुर जाय परणिया । सम्बत् 1701 रा सावण सुद 9<sup>6</sup> नागोर भ सती हुई ।
  - 1 बवर जगतीर्थ मूबो ।
  - 1 वेटी दीप बवर सम्बत् 16(?) रा माह सुद 5 रो जाम ।
- 

1 आहडी जसरूपदे, रावल अप्रसेन रो वेटी, वासवाले सम्बत् 1684 में परणिया । सम्बत् 1701 रा सावण सुद 3<sup>7</sup> आगरे रावजी साथे सती हुई ।

1 भटियाणी सदसुखदे जगनाथ जोगीदासात री वेनी । सम्बत् 1685 रा फागण सुन् 28<sup>8</sup> परणिया गाव बावडी जाय ने । सम्बत् 1701 रा सावण सुद 9 नागोर सती हुवा ।

1 वटो मूल नक्षत्र मे जायो, सो बडोद री नदी में बहाया ।

1 मणिवार, नवम्बर 16 1613 है ।

2 शुक्रवार दिसम्बर 27 1632 है ।

3 चौम्बार अगस्त 12, 1644 है ।

4 सन् 1617-18 है ।

5 सन् 1627-28 है ।

6 शुक्रवार अगस्त 2 1644 है ।

7 शुक्रवार जुलाई 26 1644 है ।

8 रविवार फरवरी 15 1629 है ।

1 जाड़ची बहुरगदे बीभा अजावत री वेटी । सम्बत् 1685 रा जेठ वद 5<sup>1</sup> जोधपुर मे ढोलो आयो थो सो परणिया । सम्बत् 1701 रा सावण सुद 9 आगौर सती हुवा ।

1 वेटी बदन कवर ।

1 बद्धवाही आएउददे राजा महासिंध जी री सम्बत् 1689<sup>2</sup> आवेर जाय परणिया ।

2 वेटा 2 हुआ ।

1 कवर रायसिंध ।

2 कवर ईसरीसिंध ।

2

1 वेटी अनूप कवर ।

1 बद्धवाही गिरधर रायसलोत री वेटी सेखावत । सम्बत् 1690 रा चसाख वद म परणिया । सो बटो ज-मताई मूह ।

1 बद्धवाही लाडी कही जाती बुशलसिंध रायसलोत री वेटी खडेले परणिया । सम्बत् 1701 रा सावण सुद 3<sup>3</sup> आगरे रावजी साथ बली ।

10 खवासा गायणा लाहौर जाता सम्बत् 1697 रा चत वद<sup>4</sup> । गाय जायल बठौती कन गरदन मार खाडा बूज किवी<sup>5</sup> ।

9 सतिया हुई—

5 आगरा मे सम्बत् 1701 रा सावण सुद 3 रावजी साथे—

1 गायण रग माहन ।

1 गायण चाद्रकला ।

1 गायण बनक भजरी खानाजाद ।

1 निरतबला गोवरधनी खानाजाद ।

1 निरत करत करण, लाहौर खरीद करी सो ।

1 शनिवार मई 2, 1629 है ।

2 सन् 1632 है ।

3 जुक्कवार जुलाई 26 1644 है ।

4 फरवरी 1641 है ।

5 भूमि म गाड दी ।

4 नागौर म रावर आई तर सम्बत् 1701 रा सावण सुद

9<sup>1</sup> हुई—

2 नाचती ।

1 मगीतवला ।

1 राममूरत ।

1 पक्षावजण मनमोहन ।

1 जीवणी ।

4

9

19

राव रायसिंघजी सम्बन् 1690 रा आसोज सुद 10<sup>o</sup> रो जाम । सम्बत् 1701 म पातसाह र चाकर रया<sup>3</sup> । तर पातसाह साहजहा पटी 4 नागौर री पटे दिवी—1 रुण री पटी, 2 जायत री पटी, 3 कोलिया री पटी 4 उदपुर ।

पद सम्बत् 1715 औरगजेव ने साह सूजा र पटना कन गाव कुरडे लडाई हुई<sup>4</sup> जिए भ रायसिंघजी बड़ी बहादुरी कियी । जिए सू औरगजेव महरवान होय हाथी 1 हथएणी 1, मोतिया री माला 1, धुग धुगी 1 घोडो 1, सिरपाव 1 इनायत कियो । जाधपुर दिरावण मुदे महमद अमीला उमराव र साथे 22 उमराव दे रायसिंघ जी र साथ विदा किया<sup>5</sup> जितरे महाराज जसवंतसिंह जी ने सामल ल साहजादा दाराशिकोह अजमर आयो । तर आरगजव ही अजमेर छपर आयो न महाराज जसवंतसिंह जी सू तो विसटालो कर जाधपुर मया रख कियो तिए सू

1 शुब्बवार अगस्त 2 1644 ई ।

2 बुधवार अक्टूबर 2, 1633 ई ।

3 पौष सुदि 14 (बुधवार जनवरी 1, 1645 ई) के दिन रायसिंह को हजारी जात 700 सवार का मनसद मिला । पा ना 2 पृ 403 ।

4 यह सज्जवा वा युद्ध मगलवार जनवरी 4 1659 ई का लडा गया था ।

5 सोमवार जनवरी 17, 1659 ई का उसका मनसद बढ़ा कर राजा का विताव आदि दे रायसिंह को जोधपुर पर अधिकार करने के लिये ससाय मुहम्मद अमीन खा के साथ भेजा । प्रा ना पृ 288 ।

गाव रावडियाक रा डेरा सो महाराज जसवतसिंह जी तो पाण्डा जोधपुर ने दूच कियो ने दाराशिकोहर ने औरगजेवर अजमेर लडाई हुई। जठ ही रायसिंह जी घणी बहादुरी किंवी। घाडा उठाय आछी तरवार बजाइ। दाराशिकोहर भागा ने औरगजेवरी फतह हुई। तर आरगजेवर महरवान होय साना च्यार हजारी रो मनसब दियो राजाई रो खिताव नियो न मनसब म नागोर लिख दियो। पछ राजा जसिंह जी साथे दिखण मेलिया।

पछ सम्बत 1727 दलेलखान साथ गुजरात मेलिया<sup>1</sup>। सो दलेलखान र पोहचाय ने मुरड ने घरे उरा आया जिग सू पातसाहजी नाराज हुवा। तलब लागी। पछ सम्बत 1727 रा फागण बद 7<sup>2</sup> नागोर सू बहादुरखान री तावीन म दिखण नू चलिया। मामला पाच सात दिखणिया सू हुवा तठ फते हुई।

पछ मुहगान करमसी नू चावर राखियो। देस सारो ही भोलायो। पछ सम्बत 1732 रा आसाढ बद 12 सोमवार<sup>3</sup> दिखण म गाव पेड सोलापुर माहे देवलोक हुवा। कुजस मुहणोता ने आयो जहर नियाणो तिण सू मुहणोत करमसी नू मारियो। खवासा 3 हजूर बली ने खवासा च्यार 4 आरगावाद ही सो उठ बली। आसाढ सुद 14<sup>4</sup> नागोर सुखावसी आई। तर राणिया 5 सतिया हुई चादावत जी 1 सखावतजी छोटा 2, सोढी जी 3 तीन गोड़जी 4 ।———5। खवासा—छोकरिया 21 सती हुई। त्या मे तीन दूजे दिन बली उण निन रजस्वला थी तिण सू। आसाढ भुद 15<sup>5</sup> नागोर माहे मुहणोत रा गरदन मारिया त्यारी विगत—

- 1 मोहणदास ।
  - 1 परतापमी, करमसी रा ।
  - 1 गोवलचार मोहणदास रो वेटो वरस च्यार रो ।
  - 1 कना रो बेना, नरायणदास करमसी केन मारिया ।
  - 1 तजमाल ।
  - 1 हरिदास, मोहणदास रा सालो ।
  - 2 मोहणदास वेटा 2 था सो ।
- 

1 1670 इ ।

2 रविवार जनवरी 22, 1671 इ ।

3 मई 29 1676 इ ।

4 बुधवार, जून 14 1676 इ ।

5 गुरुवार जून 15 1676 इ ।

मोहोणाता रा माणग बद मे छ ने समरसी री वहु न तेजमाल री वहु ने तेजमाल रो वेटो वरस 2 रो थो सिधवी विठलदास रो दीहीतरो थो, सो कवर इन्हसिंघ था अरज कर ने घरे ले आयो । ने समरसी वरसी दोनू भाई संरावाद था । तठा सू खबर पाई तर नास गया । रुपया 14000) घोडा 15 ऊट 13 सरकार रा ल गया ।

पछ दिलए मे रायसिंघ जी र डेरे सम्बत 1732 रा ग्रासाढ बद 13<sup>1</sup> नवाब वहादुर खा आय सगला रजपूता ने दिलासा दी थी । जमीन राखी । राठौड़ प्रतापसिंघ ने सिरे चोकी कीधो । बीजा नू दिलासा दीधी । रुपया 21000) दीधा खावण सारू । उमराव आसामी 22 थी । अस्वार 500 राख ने नवाब डेरे गयो । रजपूत ठाकुर सकोई दोरे बठा आलोच कर थ । आपा हृसम देसा नही । कोई कह छ 'देसा' जितरे वहादुरखान नू खबर आई के बीजापुर रा पातसाह रो उमराव वहलोलखान 20 000 बीस हजार घोडा सू मीवडा नदी री पेली तीर आय उतरियो डे । तर छोटा मोटा सगला पातसाही उमराव भेला कर वहादुरखा पूढियो । क्यो माह री सरम थाने छे" । तर सारा ही क्यो— पातसाह रा भाग छे ने माहा रा हाथ छे ।" तर सगला हरवल हुवा । वाप बटा दोनू तुरक हृषी था—अर बीजा ही तुरक घणा हरवल किया । इतरा हिंडु हरवल निया ।

- 1 रायसिंघ रो साथ अस्वार 500 ।
  - 1 बीकानेर राजा अनोपसिंघ करणसिंधोन ।
  - 1 राठौड़ केशरीसिंघ करणोत
  - 1 का भोजराज खण्डोत ।
  - 1 राठौड़ पदमसिंघ करणोत ।
  - 1 राठौड़ गोवरधन चादावत रा पोतरा 2 ।
  - 1 चाँ जगतसिंघ ।
- 

इतरो साथ नदी पार भेलो हुवो । पते पिण आय लोहे मिलिया । तठ तुरका र मणी ऊपर भार पडियो । सभी वाप बेटा काम ग्राया । पातसाही साथ रा पग छूना । तर हाथी धेर लियो । तठ रायसिंघ जी रो साथ ने अनोपसिंघ घोडा उठाया, अर पेली कौज मे घोडा नाखिया । पतो साथ पावडा 50 पाछो मुडियो । हाथी इणा छोडाय लियो । तठ इतरो साथ रायसिंघ जी रो काम आयो ।

---

<sup>1</sup> मगलवार, मई 30, 1676 ई ।

- 1 चापावत माघोदास साहिवखानोत ।  
 1 चापावत बिहारीदास गोकुलदासोत ।  
 1 चापावत भगवानदास करण भोपतोत ।  
 1 चापावत उदभाण साकरदासोत ।  
 1 चादावत किशोरदास अमेराजोत ।  
 1 करमसोत चतुरमुज ।  
 1 चोवाण सुरताण भानीदासोत ।  
 1 ऊहड इद्रभाण गोयददासोत ।  
 1 वासो रूपसी नाराणदासोत ।  
 1 सोनगरो जोधो स्यामसिंधोत ।  
 1 भाटी रामचंद्र नरहरदासोत ।
- 

पातसाही चाकर काम आया—

- 1 राठोड करण रतनोत ।
- 

इतरो साथ काम आया न इणा सरदारा रा रजपूत 100 एक सो काम आया । इण ताढ़ पेली फौज म घोडा नाख हाथी छोड़ाय रायसिंघ जी र साथ नाम कियो—

- 1 धावा पडिया त्यारी विगत—  
 1 राठोड दलपतराय ।  
 1 सावलदास रुगनाथोत ।  
 1 राठोड रायसिंघ रतनोत ।  
 1 ऊनावत रिदेराम अणदरामोत ।  
 1 राठोड अखराज रतनोत ।  
 1 राठोड किशनसिंघ ।
- 

सेत पला र हाथ आयो । वहादुर खा इण वेड माहे आयो नही । पढ़ नवाव वहादुर खा श्री पातसाह जी ने अरज हकीकत लिखी के रायसिंघ रो साथ घोडा नही उठावतो सो गनीम<sup>1</sup> घणो जोर करतो अर पातसाही लोक घणा मारियो जातो हाथी सिकार रो जातो रहता । इद्रसिंघ न घरती वरकरार रखाय ने अठ मेल देसी । पछ पातसाह नागोर दे हृष्म इद्रसिंघ न बरुण दियो । अर दिलण म इद्रसिंघ जी न मेल दिया ।

---

राव रायसिंघ जी र राजलोका कवरा रो विगत—

- 1 बड़ी वहु सीसादणी, राणा जगतसिंघ री बेटी मूर्ई ।
  - 2 वहु सेखावत टोडरमल री बेटी रही ।  
1 बेटो इद्रसिंघ हुवो ।
  - 3 वहु चंद्रावत रामपुरा री तिण र बेटी 2 दोय हुर्ई ।  
1 बाई उदेकवर ।  
2 बाई जसकवर ।
- 
- 4 सेखावत लोहडी<sup>1</sup> सती हुर्ई ।
  - 5 वहु, गोड अरजन री बेटी, सती हुर्ई ।
  - 7 वहु सोडी सती हुर्ई ।
  - 7 वहु हाडी मुखादसिंघ री बेटी ।
  - 8 वहु मलणवास सती हुर्ई ।
- 

राव इद्रसिंघ जी रे बेटा 2 दोय, मोहकमसिंघ जी 1 मोहणसिंघ जी 2, जिणा ने महाराज अजीतसिंघ जी चूक कर मराया<sup>2</sup> । न इद्रसिंघ जी कन मू महाराज अमर्सिंघ जी रा बस रा र दीलतपुरा<sup>3</sup> रा परगना रो गाव सेवा<sup>4</sup> पटे है ।

## ॥ महाराजा थो अजीतसिंहजी ॥

महाराजा थो अजीतसिंहजी स 1735 रा चेत बद 4<sup>o</sup> रो जम लाहोर म हुमो । स 1736 लागत समत 1763 ताई<sup>5</sup> विषो रयो । पछ माराज सनरे सो

- 1 छोटी ।
- 2 भादो सुदि 5, स 1770 वि (शनिवार, अगस्त 15, 1713 ई) को कु वर मोहकमसिंह की हत्या दिल्ली म की गई । मोहनसिंह को कुछ समय बाद दिल्ली जाते हुए मरवाया गया । (बीर, 2, पृ 841, रऊ मारवाड, 1 पृ 305-306 309 ।
- 3 दीलतपुरा डीडवाना से कोई 5 मील पूव मे । तब नामीर सखार के माधीन परगना थब एक छोग घस्वा ।
- 4 सेवा डीडवाना ले 7 मील उत्तर-पूव म ।
- 5 बुधवार, फरवरी 19 1679 ई ।
- 6 1679 ई से 1707 ई तब ।

तेस्टे चेत वद 13<sup>1</sup> मे जोधपुर अमल कियो ने स 1780 असाढ सुद 13<sup>2</sup> बकु ठ वास ।

स 1735 रा पोप वद 10<sup>3</sup> माराज जसवत्सिंहजी पिसोर मे देवलोक हुआ । पास वद 11<sup>4</sup> राठोड रिणछोडदास, सूरजमल, संगरामसिंह उद्देसिंघ, दुर्गदास पचोली अणदरूप रघनाथ, हरकिशन हरीदास पचाअरणास वगरे सारे साथ सलाह वर पातसाहजी सू सुलह राखण वास्त सलूखा राहिलाखा रो बेटो ने भतीज “— — — — ” काजी वाकानवेस ने बुलाय ने सभालो दिरायो ने कारखाना ऊपर मोहरा कराई । न देस नू बागद लिखिया पातसाही अमीन किरोडी आवे त्या ने अमल दे ज्यो बिगाड ज्यो भती । उकील सामदास नू लिखिया के ‘जोधपुर न दे ता साजत जतारण री अरज कीज्यो । थी जी रे बटा हुवे जितरे वरण ज्यु बणावज्यो ।’

माराज रे वाका री खबर पोस सुन् 13<sup>5</sup> आयण रा जोधपुर आई । महता सू भडारी रघनाथ पचोली बेसरीसिंघ आया ।

पास सुद 14<sup>6</sup> बडी फजर<sup>7</sup> गढ ऊपर जाय ने सुणाया । तर रामपुरा रा राव अमरसिंघ री बटी चाद्रावत जी ने खवासा 20 सता हुई ।

अजमेर रा सोबायत रो लिखो आया के जोधपुर भेडतो अमल पातसाही होसी । तरे आ लिखियो के मैं बड़ीला नू लिखियो छ सु मालम बरसी । ने थे ही लिखो । थी जी रे महला<sup>8</sup> नू आधान छ मास 4 नू दावर प्रावण छ जितरे राखो पछे पातसाही मुलक छे । ने हमार तो मारा माथा सट छे<sup>9</sup> । ने देस म साथ भेलो बीयो । जिए समे देस म सिरदार मुतसनी इतरा था—

- 1 भाटी रघनाथ सुरताणोत ।
- 1 उदावत रुपसिंह पिरामदासात ।
- 1 उदावत राजासिंह बलरामोत ।
- 1 उदावत नरसिंधदास द्यालदासोत ।

1 गुरुवार माच 20 1707 ई ।

2 मगलवार जून 23 1724 ई ।

3 गुरुवार नवम्बर 28 1678 ई ।

4 शुक्रवार नवम्बर 29 1678 ई ।

5 रविवार दिसम्बर 15 1678 ई ।

6 सोमवार दिसम्बर 16 1678 ई ।

7 प्रात काल मे जल्दी ।

8 रानिया ।

9 सिर के बदले म ।

१ चापावत सोतग विठ्ठलदासोत ।  
 १ भाटी राम कु भावत ।  
 १ पचोनी वेसरीसिध गमचदोत ।  
 १ व्यास नायावत द्रोणाचारज ।  
 १ सोबायत खोजी फरासत ।  
 १ — — — — —

और ही घणो साथ थो । पातसाहजी ने खबर पहुंची 'मारवाड में साथ घोड़ी हजार 20 000 बीस पचोन एकठो हुवो थे ने भेलो हुनो जाय छ ।' तरे खोजो अगर बड़ीम थी राजाजी रो चाकर थो न उजीए रा भामला मे दोलत घणी लेने भागो था सो पातसाहजी रे हजूरिया भ चाकर थो उण नु पूछिया 'राजा रे साथ ने दोलत कितरीइ थे । तरे इए साथ ही घणा बतायो ने दालत ही घणी बताइ । न हपोया सतावन किराड पाढ़ना गडिया बताया । तरे पातसाहजी मू ही भरम हुवो । सो पातसाहजी चलो संयद अद्वूला अमवार 50 नु मुलद री खबर न मेलिया । सा जोधपुर आयो दरवाजा बारे डेरा बीयो । घणो गाढे मू गढ़ देखायो । राठो॒ सानग विठ्ठलदासोत सेहर रा जाबता मे थो उहड भगवानेदास सुदरदामोत साहणी दाणीदाम रतनसिंहोत, गढ़ ऊपर था । अठे साथ घणो दीडो । राजपूता रो गाड देम ने आँडुला था पाढ़ा जाय ने पातसाहीजी मू अरज कीबी के रजपूत अजमेर साभर डीडवामा भारण मतो छ । न अजमेर रा सोबायत रो अरबी मालम हुई प्रभत दे नही छ । उपर अतराज होय ने मुलतान रा सोबा मू साहाजादा अबूबर नु बुलायो आगरा रा सूबा मू सासत था ने गुजरात रा सोबा मू महमद अमी सा ने उजीए मू असद था बाहदर था न बुलाया न राव अमरसिंह जी रा पोता राजा इदरसिंह जी न जोधपुर इनायत करण वास्त दिखण सू बुलाया । चेत बद ५१ पातसाहजी अजमेर आया । ने घोडा हजार दस 10,000 साथ दे वाहादर था न जोधपुर बिदा कियो । सो आ खबर सुणी, तर जोधपुर सू राठोड रूपसिंह भाटी राम कु भावत राठोड नरसिधदास घणा साथ सू सुतह करण वास्ते बहादर सो रे सामा चढ़ियो । सू अजमेर रा गाव गुडे मुलाकात हुई । नवाब पूछियो कठे जावो छो । तरे कहयो या कने बीकी किसी ठी॒ छ । तर नवाब कहयो, हमे आवण रो किसो बहन छ । यारे सुलह करणी थी तो थ साथ रो उडाबो॑ बरने पातसाहजी कू क्यू चढ़ाया । तरे इणा कही के हुई सो तो हुई । हम मैं हजरन रा बदा था तुले ज्यु करावो । 'तरे नवाब कहयो —श्री पातसाहजी रो खाल भलियो छ । थे पाढ़ा आवो पातसाह रो बोन ऊपर करमा ने थे राजी हो सा ज्यु करसा । सु इतरो साथ लेने नवाब मेडत प्रायो । अठी उठी रो सगलो साथ

भेला हुवो । देस रो ही साथ पगे लागो । एक दिन नवाब इणा कने कोल बोल लिखाय लिया ने आप कुरान ऊपर हाथ मेल ने सोगन कोनी के श्री महाराज वेटा हुसी ज्याने जोधपुर देस्था । जितरे थे जोधपुर मडते पातसाही अमल करण दो । इसी रदल बदल नवाब रे डरे करता रात पांछली गई । माराज रा उमरावा सगला ने सिरपाव दीना ने रजपूता रे डेर गप उठी<sup>1</sup> के सिरदारा नु चूक हुवो मारिया रजपूत एकण कलम निकल गया । तरे सिरदारा ने खबर हुई छाने तरे नवाब नु कहयो हम सुलह करो साय विलेर देसा । ने पातसाह नु अजमेर खबर लागी घोडा बीम हजार 20 000 राठोंगा रा छाने रह छ सो पातसाहजी ने नवाब मन म दोनू तरफा डर घणा राखता ।

नवाब मेडता सू कूच कीया सो चेत बद 12<sup>2</sup> गाव पाल्यासणी डेरा हुआ । तठे लाहोर म बवर जनमिया री खबर ल रेबारी<sup>3</sup> राधो आया । नवाब राजी हुवो । बारी राधो ने मोहर ।) ने बादलाई पाग<sup>4</sup> । दीवी । दाहूरवग पावडी 2 दिवी । बारी राधो जोधपुर आय बधाई दिवी । घणो उच्छाह हुवो ।

धरती री ग्रीर ही रूप हुवा ।

बारी राधो ने बधाई रा दिया तिका री विगत —

माहला री तरफ सू फावडी 2 ने रूपया 60) साठ ।

मिया फरासत रोकड रूपीया 10) ने पाग 2 दोय ।

पचोली केसरी सिंध मोर<sup>5</sup> 1) एक रोकड रूपीया 20) ऊट एक ।

राठोड सोनग ऊट ।

राठोड प्रणवसिंह भीवात ऊट ।

राठोड उदेसिंह चापो रूपीया 30 तीस ।

राठोड सगररामसिंह चापो ऊट ।

राठोड तजसिंह करण दुरगावत ऊट एक ।

उहड भगवानदास ऊट एक ।

साहारणी दाणीदास ऊट एक ।

भाटी रुधनाथ मुरताणोत रोकड रूपीया एक सो 100) न ऊट एक ।

भाटी राम कु भकरणोत सोना री साकली । रूपया बीस 20, ऊट एक ।

1 मिथ्या खबर फली ।

2 गुरुवार फरवरी 27 1679 ई ।

3 वही (पृ 308 334 337 338) म राधा को रवारी लिखा है । जो मधिक सही है । रवारी मागद्वक (रहवर) जाति बारी से सब्दा भिन्न होनी है । 4 बादलाई पाग = जरीनार पगडी ।

5 मोहर स्वण मुद्रा ।

श्री पातसाहजी ने कवर हृदय री खबर अगमेर म मालुम हुई तर हस ने फुरमायो के बदा बदू ही चाहे अर खुद क्यू ही चावे ।” पथ बादर खा जोधपुर आयो । ताहर वेग हरोल थो माये अराबो धणो थो । रातेनाडे डरा किया । जोधपुर मे माहाराजी रो धणो लोग थो, बीजू महर सूनो हृय गयो थो । पातसाहजी राणिया ने सिराव तीन मेलीदा था सो दिया । न नवाव आप री तरफ सू मिजमानी भेली । राणो जी सू धणी अपणायत जताई । हाडा री तरफ सू बेटी कह बतलाई ।

चेत सुद<sup>1</sup> पातसाहजी नु राजी करण बास्ते इतरा थोक किया—जाधपुर म पातसाही अमल बरायो । विगत—

ताहरवेग फौजदारी तलेटी रा मेहला ।

राखियो असवार 30 तीस सू ।

काजी हामिद सिपाही 50 ने तोपा 50 सू ।

बाकानदोस बोटवाल रहीम खा ।

बायमखानी दीनदारखा असवार 1000 सु शहर बाहर मदद ने रहयो ।

तोल बयालीसो 42 बीया ।

डाण टके रुपय बीयो ।

भाग दाह मन बीया ।

नवाव बहानुर खा आपरो इतवारी यादमी, ताहर वेग ने गढ ऊपर मलीया, तणा कोठार मु दिया न इण मुजबलिया —

सिद्दूङ जवाहर री तथा गहणा री खासी एक । ।

21 000) रोकड गपिया इक्कीस हजार ।

32 बबाण बदूका बतीस ।

गोला दोय हजार 2000 । तोपा बडी नग 27 सताईस ।

दाह मोर ।

न घोर ही ताजी बस्ता ही सो ले गया, ने देहरा यादी भीत चुगुआई ।

सस्कर रा लोक ने सहर मे भावण दीयो नही । नवाव बोत नीत कीदी ।

मुजर खा ने असवार 300 सो मु मिदाणो मेलीयो ।

फलोधी विरोडी 300 तीन सो मेलाया ।

पीहाकरण विरोडी 200 सा मलीया ।

नवाव महाराज उमरावा ने कहायो के ‘मुदो मारवाड रो म्हाने मु दिया दिल हमे पातसाहजी भजमर नजीबो हीज य न मन ही बुनाया दें, मो य ही मा साप चालो थान तातोडो निगाय देसू’ । तरे चेत मु<sup>2</sup> 8 बहादर खा थी जा रा

1 अुरवार माच 7 1679 ई ।

2 रविवार, माच 9 1679 ई ।

वाकरा ने साथे लन जोधपुर सु कूच कीयो । पातसाह जी राठोडा रे लडाई रो विचार नहीं देखियो तर दिन 18 अजमेर म रया, पाढ़ा अजनेर सु दिली साहमो कूच कीया । साइस्त खा पातसाह जी सू मालम करो, पाढ़ा चलिया सा मारवाड रा काई बदोबस्त कीयो । राठोड पाढ़ा सु किसाद करसी ।” राजा रा बेना पगा लागा पछ मारवाड माह सू फौज उठावो सो ठीक द्ये ।” तर बादरखा ने अजमेर रहए रो हुक्म लिखियो ।

पाढ़ा जावता पातसाह जी रा डरा किसनगढ हुआ तठ राजा इन्द्रसिंघ दिलण सु आय पगा लागा मोहरा 100) एक सो न रपया 1000) एक हजार निजर किया । बहादुर खा न थी — जी रा उमराव पहुचता पेली पातसाह जी रो कूच हुय गयो । जिण सू अजमेर जाय महाराजा रा उमरावा न कहयो के मनें तो अजनेर रहए रो हुक्म द्ये ने मारा बेटा नवसेरी खा नू थारी साथे भलसू । थान पातसाहजी रे पगे लगावसी ने तालीको लिखाय देसी । नवाब बाहदर खा ने महाराजा उमरावा रपीया 20 000) बीस हजार देणा भीना था जिण सु घणो मदद म थो । जितर उस्कर था भाटी रुघनाय, राठोड रूपसिंघ पचोली केसरीसिंघ बाहरह न महाराज रा बेटा रो लिखयो आयो के थे सारो साथ ले महाराज रे भेता हुजो सो मे थी पातसाहजी रे पग लागा । इणा आ खबर नवाब नू कही तर नवाब श्रापरो बेटो साथ दे वसाख वर्ष<sup>21</sup> अजमेर था निली नू बहीर कीया । सो समत 1735 रा वसाख<sup>22</sup> दिली पोहता ने किसनदास रे तलाव अबराई म उतरिया । नवसेरी या साथे इतरा जणा देस स गया तिण री विगत—

## 27 सिरदार

- 1 राठोड रूपसिंघ ।
- 1 राठोड राजसिंघ बलरामोत ।
- 1 राठोड अजवर्मिध राजमिहोत ।
- 1 राठोड नरसिंधदास ।
- 1 राठोड दुदा राजमिघोत ।
- 1 राठोड श्रान्दर्सिंघ भीवोत ।
- 1 राठोड काह गिरधरदासोत ।
- 1 राठोड प्रागदास बाला ।
- 1 राठोड सावतसिंघ जुगराजोत ।
- 1 राठोड फतेसिंघ ।

1 सोमवार माच 24 1679 ई ।

2 माच अप्रैल 1679 ई ।

- 1 प्रतापसिंध ।  
 1 राठोड लाखो गिरधरदासोत ।  
 1 सोनगरा मुकनदास ।  
 1 राठोड मोहवर्सिंध ।  
 1 राठोड फतेसिंध विजेसिंधोत ।  
 1 राठोड जगतसिंह रायसलात ?  
 1 राठोड पिरधीसींध मुजाणसिंधोत ।  
 1 दुवारकोदास ।  
 1 भालो भावसिंध ।  
 1 राठोड सिवदास रिणधोडदासोत ।  
 1 भीया परासत लोजो ।  
 1 राठोड मुकनदास स्यामसिंधोत ।  
 1 राठोड रुधनाथ सूरजमलोत ।  
 1 भाटी रुधनाथ ।  
 1 भाटी जगनाथ ।  
 1 भाटी उरजन ।
- 

27

## 19 कामदार

- 1 पचोली बेसरीसिंध दीवाण ।  
 1 पचोली चढ़भाण ।  
 1 प० नथमल रामचंद्रोत ।  
 1 प० महासिंध ।  
 1 प० तिलोकचंद दीनानाथ ।  
 2 प० रामनाथ गमादास ।  
 2 प० दुवारकोदास बछराज ।  
 2 प० रुधबद विरधीचंद ।  
 1 व्यास थीपत ।  
 1 व्यास गोकुलदास ।  
 1 पोतदार मनो ।  
 1 सा० नथमल गिरधरदासोत ।  
 2 मिसरी तुरक भइयो गोपाल ।  
 1 मिरजो सादक ।  
 1 सिंधवी दयालदास ।
-

नुहृत वेग देरे आयो थो फागण बद 4<sup>1</sup> ने । फागण बद 5<sup>2</sup> मुकाम साहाणी जागीदास, अबादार अखा नु तेस ने चलाया के "लडाइ बरजो मती मुलह राखउयो । फागण बद 7<sup>3</sup> कोस च्यार मधूरे डेरो । फागण बद 8<sup>4</sup> कोस 4 झीगरे रे नाल डेरा । फागण बद 9<sup>5</sup> कोस 5 हसन अबानाल डेरा राहाव मे हमवल हुकम आयो निजर वग ने तिण म लिखियो के— राठोड सुरजमल नू सीहनद था आगे ले आव । श्री जी रा फूल प्रोहित किल्याणदास पचोली जैसिध साढुलोद राठोड साथ रूपया 1000) एक हजार खावण नू दीना था । फागण बद 10<sup>6</sup> कोस 7 खडवूजा री सराह डेरा । फागण बद 11 भोम<sup>7</sup> मुकाम । नवाव वेग री सराह डेरा । फागण बद 11 भोम मुकाम निवाजवेग री पालखी रा बहार भूडा बोलिया ध्यानू कुटाया । तर नीवाज वेग रिमाय न काल पाणी रया तर पचानी जकरण नू मनावण नू मेलोयो । तर ना आयो । पछ्य फागण बद 12<sup>8</sup> मुकाम राठोड संगरामसिंघ मनाय न ले आयो आपरे डेरे राखिया ।

फागण बद 13<sup>9</sup> कोस 7 पालडी (रावल पीण्डी ?) डेरा । बद 14 तथा (30)<sup>10</sup> कास 7 रवत री सराय । फागण सुद 11<sup>11</sup> कोस 8 पके री सराय ।

फागण सुद 21<sup>12</sup> थी जी र उमरावा नू फुरमान आयो दिनासा रो । फागण सुद 31<sup>13</sup> कोस 9, राहितास गयो । फागण सुद 4 मेह<sup>14</sup> हुवो सो पाचम ताई मुकाम । रवारी रापो रूपया 128) गारव टीले मलीया था सो दु आसवा प्रसाद ले आयो । फागण सुद 6<sup>15</sup> कोस छव नदी वेहत डेरा । फागण सुद 7<sup>16</sup> खारिया सराहा । आठम

- 
- 1 सोमवार जनवरी 20 1679 ।
  - 2 मगलवार जनवरी 21 1679 ई ।
  - 3 शुक्रवार जनवरी 24 1679 ई ।
  - 4 शनिवार, जनवरी 25 1679 ई ।
  - 5 रविवार जनवरी 26 1679 ई ।
  - 6 सामवार जनवरी 27 1679 ई ।
  - 7 मगलवार जनवरी 28 1679 ई ।
  - 8 बुधवार, जनवरी 29 1679 ई ।
  - 9 गुरुवार जनवरी 30 1679 ई ।
  - 10 शुक्रवार जनवरी 31 1679 ई । प्रमावस्था क्षय हुई ।
  - 11 शनिवार फरवरी 1 1679 ई ।
  - 12 रविवार फरवरी 2, 1679 ई ।
  - 13 सोमवार फरवरी 3 1679 ई ।
  - 14 मगलवार फरवरी 4, 1679 ई ।
  - 15 गुरुवार फरवरी 6, 1679 ई ।
  - 16 शुक्रवार, फरवरी 7 1679 ई ।

न् (मुकाम)। फागुण सुद 9<sup>1</sup> शह 10, दोला री गुजरात। मुद 10 दशमै  
मुशाम। फागुण सुद 11 कास<sup>2</sup> 5, उज्जीरावाद डेरा। फागुण सुद 12<sup>3</sup> कोस  
7 तनोही डेरा। फागुण सुद 13<sup>4</sup>, बोस 10। फागुण सुद 14<sup>5</sup> कोस 9 नवी  
री सराय। होती रा मास्त विदा। फागुण सुद 15<sup>6</sup>, कास 8, लाहोर हबेनी म  
डेरा हुवा। इतरो साथ लभार म था तिण री विगत मिरदार।

- 1 राठोड सूरजमल नाहरणानोत आसोय रो घणी, २ पट्टा हजार 40,000) चालीस रो।
- 1 राठोड सप्तामसिध श्र जारमिधोत आउवा रो पट्टो, हजार 28,000) अठाइस रो।
- 1 राठोड चद्रमेण क्षवलसिधात, पोहोकरण रो पट्टो हजार 40,000) चालीस रो।
- 1 राठोड रिणचोहदाम गाईदासात खंखा रो पट्टो हजार 30,000।
- 1 राठोड प्रतापसिध देवकरणात जतावत पट्ट बगडी रो पट्टा हजार पचास रा।
- 1 राठोड उदेसिध लखधीरोन पट्टे पाली 25,000) रेख पचोस रा।
- 1 रावत हरीदास महेसदामोत रो, महेवा रो पट्टो, 22,000) रो।
- 1 रावत केसरीसिध भारमलोत बाप रे बदले आये महेवा-22,250)  
रो।
- 1 स्पामसिध सुजाधमिधोन, लवादर, पट्टो 20,000) रो।
- 1 राठोड विठलदाम विहारीदामोत कुड़वी पट्टे 20,000) बोस हजार रो।
- 1 राठोड पाहुकमसिध जगत्सिधोत, पटे बनुदो पट्टो 20,000)  
बीस हजार रो।

- 1 रविवार, फरवरी 9, 1679 ई०।
- 2 सोमवार फरवरी 10, 1679 ई०।
- 3 मंगलवार फरवरी 11, 1679 ई०।
- 4 बुधवार फरवरी 12, 1679 ई०।
- 5 गुरुवार फरवरी 13 1679 ई०।
- 6 शुक्रवार फरवरी 14 1679 ई०।
- 7 शनिवार फरवरी 15, 1679 ई०।

- 1 राठोड विटलदास गोकलदासोत आलध्यावास पटठो हजार 17 000) सतरे रो ।
- 1 दुरगादास आसावत झावर, पटो 17 000) रो ।
- 1 राठोड अखेराज — "दूदावत, विठोरा रो पटो रपया सोलह हजार 16 000) रो ।
- 1 राठोड भारमल दलपतोत ऊदावत पटठो 12 000) रो ।
- 1 राठोड अनोपसिध अजवर्सिधोन, बातो, पटठो 24 000) चावीस हजार रो ।
- 1 राठोड मुकर्नासिध गोरधनोत जोधो, सेणे रेख 13 000) ।
- 1 राठोड जुझारसिध राजसिधोत कू पावत रजलाणी रेख 8 000) रा ।
- 1 राठोड भीव गिरघरदासात चापावत पटटे गागरडो 10 000) ।
- 1 राठोड हरनाथ भीबोत ने जसकरण हरिसिधोत पटे खीबसर रेख रुपीया 16,000) री ।
- 1 राठोड सबलसिध विसतसिधोत कू पावत पटटे बटालिया 12 000) रो ।
- 1 राठोड चाद्रभाण द्वारकादासोत जोबो पटटे (एचला) रेख रुपिया 9,000) री ।
- 1 राठोड अचलसिध जमझरणोत जोधो परो गयो ।
- 1 राठोड हरिसिध मोहमदसिध चादावत रेख 8000) री ।
- 1 राठोड हरिसिध महेसनासोन चापावत पटे बिराणी रत्न रुपिया 5 000) री ।
- 1 राठोड महसदास नाहरखानोत कू पावत रेख 6 000) ।
- 1 राठोड बरमसेण माघोनासोत कू पावत पटटे राणावत रत्न रुपिया 7 000) री ।
- 1 राठोड शिवदान विटलदासोत चापावत पटट हरियाढाणो रेख रुपिया 12 000) री ।
- 1 राठोड विजेसिध मोहणदासात महेचो पट याव रेख रुपिया 6 000) छव हजार री ।
- 1 राठोड हिंदूसिध मुजाणसिधोत पटटे नाहडसर रेत रुपया 8 000) री ।
- 1 राठोड इद्रभाण उदभाणोत जतावत पटटे माढो, रेख 9 000) री ।
- 1 राठोड हरनाथ बेसोदासोत, रेख रुपया नव 9 000) ।

- 1 भाटी जेसिध रामोत, पटे गाव रामपुरो, रेख 15,000) रा ।  
 1 भाटी भीव रूधनाथोत ।  
 1 भाटी उदभाण केसरीसिधोत, खेजडलो, रेख रुपिया 8,000) ।  
 1 भाटी सुरजमल नरहरदामोत, रेख रुपिया 5,000) ।  
 1 भाटी सकतसिध हरदासोत, रेखे रुपिया 6,000) ।  
 1 ऊहड अन्वराज जगनाथोत पटटे गाव वाधावास, रेख रुपिया 6,000) हजार री ।  
 1 गोड सग्रामसिध हिरदेनारायणोत, रेख 1,000) री ।  
 1 राय लिखमोदास नाथावत, खाप मडला, रेख 5,000) ।  
 1 बा जगतसिध विजसिधोत, पटे गाव अलतवा रेख रुपया 9,000 री ।  
 1 राठोड तुलद्वीदास मधराजोत जोग भालता, पटिया वारगोर पावतो ।  
 1 वेहरवर अजमेरी खा रा देस री सीख करने गयो थो, सा हजूरा साथ भला खबर सुणी तर पूठा आया । बडो चाकर था । मास 1 रा रुपीया 700) पावता ।

### 1 शारठ आमो नाथावत चारण—

- 1 साढू सूरजमल नाथावत चारण ।  
 1 बारठ कसरीसीध भीवोन चारण ।  
 1 जोलो जेसो ।  
 1 मडलो केसरीसिध करणोत, मोजामर गे ।

### 49 कामदार—

- 1 पचोली हरकिसन रामचनोत दीवाण ।  
 1 पचोली रुधनाथ विहारीनासोत यानमामा थो ।  
 1 पचोली हरीदास राधादासोत ।  
 1 पचोली अण्ड रुपकरणोन ।  
 1 पचोली जगनाथ रामचनात ।  
 1 पचोली हरकरण गोरघनोत ।  
 1 पचाली जचद अखेराज रो ।  
 1 पचीली जकरण भगवानदास रो ।  
 1 पचोली मुरलीधर तीक्ष्मदास रा ।  
 1 पचोली सबनसिध ।

१ पचोली शिवराज फचरदासोत ।  
 १ पा पचायणदास तिलोवचदोत ।  
 १ पा जगतराय बनुयोत ।  
 १ पा हरराय दलीचदोत चौकीनवेस ।  
 १ पा जराम लाडूराय रो बानूगो ।  
 १ पा दीनानाथ बद्धराज रो ।  
 १ पा भणदराम दुलीचदोत ।  
 १ पा जराम असराजोत ।  
 १ प जगजीवण्णास गोक्कलदास ।  
 १ प वस्तराय घोडा रो मुसरफ ।  
 १ प दीनानाथ जगजीवण्णासोत ।  
 १ प उदकरण दप्तर लिख ।  
 १ प गगराम भीवाणी, परमेसरीदास ।  
 १ प अजवसिध सुदरदासोत ।  
 १ प शोभाचद ।  
 १ सिधबी सुदरदास प्रतापमलोत ।  
 २ मडारी भगवानदाम, म लालचद ।  
 १ मुहतो भगवानदास रोकड रो दप्तर लिखतो ।  
 १ बद रामराय ।  
 १ भइयो मुकनदास गापालदासात ।  
 १ कलो जीवन नेमा रा ।  
 १ पचोली जालमदाम ।  
 १ प जेसिध साढ़ुलाल ।  
 १ आइ दान दप्तर लिख ।  
 १ प बालमुकन रूपजी रा ।  
 १ प ताराचद ।  
 १ प उदेमिध ॥  
 १ प गोई ॥ रो ।  
 १ सिधबी ॥  
 १ मडारी ॥  
 १ मूतो भ्रष्टा  
 मूतो भगवान  
 कवाढ वैद्वदास

१ वेद लघोराम ।  
 १ मुक्तीम भोहनदास ।

49

## 39 खास पासवान—

१ धाधल उदकरण बोडा गगाजल अरोगावे ।  
 २ आसायच भागचद कोठार बापा रे ।  
 १ गेहलोत जुगराज ढाल बरदार ।  
 २ सा । उदकरण न खीची उदकरण निसाण भालतो ।  
 २ गलोत बाधो ढाल बरदार ने रूपनाथ ।  
 ४ आसायच भारमल सग्राम धाधल जसा खीची मुकनदास बलावत तरवार बधावे ।  
 ३ पवार नारायणदास सोदाखान गुजर लखमण मयापात्र ।  
 १ सा । जगनाथ ।  
 ३ गूजर उदकरण खीची मिवराम असायच सधो ।  
 २ अबदार अखो धाधल जगनाथ रमोडे ।  
 ३ धाधल स्याम धाधल मुकनदाम धाधु दुला ।  
 २ सा । दयालदास गूजर गिरधर नोढी खासी ।  
 ३ बानर डूगरसी, पलाणिया मना पलाणियो भाटी बीलो ।  
 २ जादम पीथो महेसदास रो पवार विट्ठलनास ।  
 २ पलाणिया भरु नथमल राधाकाशोत सजखान ।  
 २ सा । रूपनाथ, जोगीदास कुसलावत मादीखाने ।  
 २ केसोदास भगवान रो, पलाणियो जोगी ।  
 २ बानर चतुमु ज बानर जोगीदाम ।

39

## 22 द्राह्यणा रा साय रा

१ व्यास लिखमीचद द्वोणाचारज रा देरासर—पट्टे गाव आगोताई ।  
 १ व्यास जगरूप मुरारदास रो खजानो जवाहरखानो हवाले ।  
 १ व्यास गोपीनाथ श्रीपत रो ।  
 २ जोसी गगाधर शिवराम । रो प्रोहित कल्याण ।  
 २ वासो जागश्वर मुक्ति भवानीदास ।

- 2 जोसी धनो भस्त्रो कल्याण पाठक ।  
 2 व्यास मधुरादास, बद फरसा निरखो गणेश रो ।  
 1 मु 'भागचद चोतरा रो पातो ।  
 1 तिरवाडी बलराम काहा रो जोशी लालो सती दास रा जोशी  
     रामसिंघ ।  
 2 सोलखी लखो विशार व्यास कलो जरजर खाने दरोगा ।  
 1 तिवाडी दयादेव सुखमेव चुत्रमुज ।  
 3 जोशा मुरसीधर विनावन रो, चूरा घडियाली हरदत घरणीधर ।  
 1 तिवाडी रिणछोड पोहोङ्कर रो ।
- 

22

## 32 हीडागर—

- 1 राठोड दईदास हजूरिया रो दरोगो ।  
 1 राठोड बरदा भारा बरन्नार ।  
 1 इ दो गोकल खेतरा रो राटिया देवे बरकन्नाजा म ।  
 1 नदू नगारखाने, अधोलियो हरनाथ तातेडखाने ।  
 2 चीतारो नगो बदररो पेल रुखी दरवान ।  
 2 जलेबदार चादसा, मिरधो बगरह ।  
 2 हरनाथ दोडी खासी घोबी मोगो ।  
 2 गोड भगवान तोपखाने, क्षुत्रतरवाज साहमहमद ।  
 2 जलेबदार मिया साह चौ रूपो मोहण रो खासी दोगो ।  
 2 चितारो नारायण बाधावत छडीदार मिरधो मानतलो ।  
 1 जलेबदार मिरगो पीरखा ढूगर दोगी बेसे ।  
 3 दरडी बानो बला रो चितारो करीम सो । बेलो ।  
 2 छडीदार अली मेहमद, पा नारायणदास दोडी खासी ।  
 2 बेद अखो दाढी सुधारें चितारो नाथो ।  
 2 सा । बलो रतनसीरो, छडीदार खानमहमद ।  
 2 नारण हरावत खासी दोडी बेद दानो बाता करतो ।  
 3 तबोली दलो, सा खेतसी भोजावत ढूगर डोडो बसे ।
-

चौजोलोक —

- 1 बाधे लो नहू गाव बाधेला रो बाहणी रो ।
- 2 देवीदास गावेती, पु ॥ विठ्ठलदास ।
- 2 बधेलो भगवान सेऊ रो, वा ॥ डू गरसी गावेती ।
- 2 मागलियो बाधो गावेति, गोड बानो चोया रो ।
- 2 पडियार हपो खेता रो, खीची भगाचद ।
- 2 घाय भाई गिरधर, चो ॥ नारायण रे ।
- 2 वस कल्याण भगवान रो, वा । चतुभुज ।
- 2 खीची नरसिंह गावेती बानर रामचद ।
- 1 तिवडकिया देसोदास बलू रो गाविति ।
- 1 कल्याण बीरदास रो व्यास हरीदास पा मानीदास भोजा रो ।
- 3 चो रिणछोड गोपाल रो, चो जगन्नाथ बद्धा रो प ठाकुरसी वरमसी रो ।
- 3 चो रासा नारायण रो तु बर गिरधर ईसर रो, दा दुरगा रामदास रा ।
- 3 पडियार ग्रासो बोका रो, गोड राधो रामा रो, सालखी रूघनाथ ।
- 1 नगजी भोगी रो मारग मे भूग्रा ।

19

- मूसलमान हाजर दिल्दार वेग दिली मे गया ।
- 2 हसनवेग पिसार मे गयो सेरन्ति वग ।
  - 5 बहादरवेग ममारख मुस्की नाजर उमैद खाजो, इलतयात खाजो ।
  - 3 माकुल खाजा साहब खा मिसरी रा, मुरादवेग मुरताणवेग रा ।

11

- 5 पडदार वेभर खा, मुराद खा नमीर खा सवाज खा ताज नायक ।
- 5 हबीब खा खिलची लतीफ मैहमद, जीवाण सायर खा रो, सूरत खा लाल खीवा रो ।

10

पिसोर सू आवता फागण सुद 15<sup>1</sup> लाहोर हवेली ढरा हुआ। नर्सीजी ने क्वर होवणा री आस हुई जिणसू मुकाम कियो। चेत बन 4 बुधवार पाछ्नी रात घडी 7 सात थी तिण वेळा रा राणोजी आदमजी रे क्वर महाराज अजीतमिह जी सतमासिया जनमिया<sup>2</sup>।

सियासी रिष्टिधपुरी और रामपुरी रो चेलो अलव पथ<sup>3</sup> हिंगलाज जी<sup>4</sup> रा हुकम या गोरख टीले हुय न समन 1735 रा भाद्रा बद 9<sup>5</sup> पिसोर भ आयो राठोड दुरगादास जी साथे महाराज जसवतसिंह जी नू बेवाया के माने हुकम थे हु थारे पेट जनम लेसू माने भाटी दिरावा। न ये दरसण नू आवा। सू दरसण ने पिछा नहीं गया न दुरगादास जी न मेलिया। सो घणी उछाव सू रिष्टिय पुरी जी न समाघ दिराई। दुरगादासजी ने कहयो के जादमजी रे पेट आवसू ने बभूत रो गाठो पोथी माला सू पीछ सो थान माग लेसू। महाराज अजीतमिहजी जनमिया पछ घडी। पल 40 सू राणी नहकी जी र क्वर दलथमण जी हुवा नोबत बाजी देम मे बधाई देण सारु नेवारी राधो गोरधन ने मेलिया चेत बद 5<sup>6</sup>। पगलिया बारी तुलच्छा साथे म्हलिया। कासीदो री जोडी पातसाहजी री हजूर मैली। मीरखा कन सग्राममिह जी रा कासीद मेलिया। जाम हुआ री भुजाई हुई तिण री विगत —

| बाट <sup>7</sup> | गुन | पत' | आसामी                                            |
|------------------|-----|-----|--------------------------------------------------|
| 11)              | 8)  | 6)  | चेत बद 5 <sup>8</sup> बृहस्पतिवार हजूर री तफ सू। |
| 14॥)             | 8॥) | 6)  | बद 6 <sup>9</sup> सुकर जादमजी री तफ सू।          |

1 शनिवार फरवरी 15 1679 ई।

2 गुरुवार फरवरी 20 1679 ई।

3 अलक पथ अलवख अर्थात् गोरखनाथ सम्प्रदाय वा दल विशेष।

4 हिंगलाज (20 30' उत्तर 65 31° पू.) की देवी बाली माता।

5 गुरुवार, अगस्त 1 1678 ई।

6 गुरुवार फरवरी 20 1679 ई।

7 बाट=गेहूं वा दत्तिया।

8 11)=11 मण। ये सारे वजन मणों म है। आगे की प्रत्येक खड़ी लक्षीर 1) से पाव मण का निर्देश होता है।

9 शुक्रवार फरवरी 21 1679 ई। वही (पृ 334) के भनुमार शुक्रवार को नामा रही। अत आगे के दो दिनों वे आयोजन एक एक दिन बाद होते गये।

|       |                   |        |                                                                   |
|-------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 19)   | 811)              | 6)     | चेत बद 7 सन <sup>1</sup> नहकी जी री<br>तरफ सू ।                   |
| 12)   | 811)              | 5)     | चेत बद 8 <sup>2</sup> राठोड गूरजमल जी<br>तरफ सू ।                 |
| 12)   | 811)              | 5)     | चेत बद 10 <sup>3</sup> राठोड परतापकरण<br>करणोत तफ सू ।            |
| 1211) | 711)              | 5)     | चेत बद 12 <sup>4</sup> राठोड उदेसिह<br>लखधीरोत री तफ सू ।         |
| 13)   | 811) <sup>5</sup> | 5111)  | चेत बद (11) <sup>6</sup> राठोड रिणछोड<br>दास गोपनदासोत री तफ सू । |
| 90)   | 58)               | 38111) |                                                                   |

इतरी तो मु जाई हुई बाकी रा कूच री ताकीद मुद नहीं कर सकिया ।

चेत बद 13 सुकर<sup>7</sup> दसोटण<sup>8</sup> रो जलूस हुयो । दफतर कागज बगेरह हजूर  
रा था स। लाहार म बाल दिया । न चेत बद 13 तरस पाढ़ले पोहर कूच हुयो  
सारती बाग कने डेरा हुया । चेत बद 14<sup>9</sup> दसोटण री भू जाई हुई । साथ सारो  
पातिये जीमिया बीच म श्री जी रे पातिये थालपहस मेलियो । कामदारा ब्राह्मणा  
ग साथ नू पटिया दिया । चेत बद 30<sup>10</sup> र मुकाम राठोड सग्राममिह रा पेट  
हूखिया तर हपिया 20) बीस श्री जादमजी नहकी जी सरायत कराया । चेत सुद

1 शनिवार फरवरी 22 1679 ई ।

2 रविवार, फरवरी 23 1679 ई ।

3 मगलवार, फरवरी 25 1679 ई ।

4 मुख्यार फरवरी 27, 1679 ई ।

5 811)<sup>5</sup>=साढे आठ मण और पाच सेर अर्धात् आठ मण और 25 सेर ।

6 चतुर्थ बदि 11 बुधवार फरवरी 26 1679 ई ।

7 चृत बदि 13=शुक्रवार फरवरी 28 1679 ई ।

8 दसोटण=दसोठन=जम के दसवें दिन ।

9 शनिवार, माच 1, 1679 ई ।

10 रविवार, माच 2, 1679 ई ।

२<sup>1</sup> राजा रे तलाव डेरा । चेत सुद ३ तथा ४<sup>2</sup> नूरदी बुवा री सराही कोस ८  
चत सुद ५<sup>3</sup> कोस ९ फतियावाद । चत सुद ६<sup>4</sup> कोस ९ गोयदलाव ।

चत सुद ७<sup>5</sup> कोस ८ मुकरव खा री सराही । चत सुद ८<sup>6</sup> कोस ७ नूरमहल  
री सराही चत सुद ९<sup>7</sup> मुकाम दसरावो हुवो ।

श्री जी रा वेटा बारे पधार घडी २ दरवार जलूस कीया । निबाज वेग के  
सको उमरावा मुजरा कीया नजर निछ्करावल रा इतरा हुआ माहरा)) रपया) । चत  
सुद १०<sup>8</sup> फ्लोर री सराही । चत सुद ११<sup>9</sup> सतलज उतर ने गाव लेधाणे<sup>10</sup> डेरा  
हुआ कोस ५ । तठ पातसाहजी रो हसबुल हुकम लिखिया पायो थो भाराज के  
बटा हुआ म खुसी हुआ । म अजमेर था दिल्ली आवा छा । थई दिल्ली आज्यो ।  
यारो नामदे मनसब करसा । चत सुद १२<sup>11</sup> कोस ८ दुरोह री सराही । तठ  
अजमेरीखा पातसाही चाकर थो तिण न पातसाहजी हजूर रेसामो मलियो, तिण सू  
थ्री जी बारे पधार न अजमरी खा न सिरपाव रुपिया ५००) न धोडा २ इनायत  
किया सो धाढा २ रा रुपीया ३००) तान सा राकडा दिया । चत सुद १४<sup>12</sup> कोस  
६ ग्रन्ती री सराही ढरा । चत सुद १५<sup>13</sup> मुकाम । पचाली बकील रामदास रा  
कागज आया त्या मे लिखियो जाम हुवा री मोहरा २००) दोष सो नार किबी  
सो महरवानगी सू लीवी । ने लाहार रे सूवाइत कामदीखा करो लिखी थी वे राजा  
रा लाव लूट करता आव छे । तदहीज निबाजवग री अरजदास्त पहुची तिण मे  
घणी सुपारस लिखी थी वे खास व दा छे हुकम छे त्या । चलिया आवे छ ।  
तर फुरमायो कामदी खा कूढ लिखियो । लाहोर रा सूचा थी दूर कीयो ।

- 
- 1 मगलवार माच ४ १६७९ ई ।
  - 2 बुधवार, माच ५ १६७९ ई । (चतुर्थी क्षय) ।
  - 3 गुरुवार माच ६ १६७९ ई ।
  - 4 शुक्रवार माच ७ १६७९ ई ।
  - 5 शनिवार माच ८ १६७९ ई ।
  - 6 रविवार माच ९ १६७९ ई ।
  - 7 सोमवार माच १० १६७९ ई ।
  - 8 मगलवार माच ११ १६७९ ई ।
  - 9 बुधवार माच १२ १६७९ ई ।
  - 10 लोधाणे=लुधियाना ।
  - 11 गुरुवार माच १३ १६७९ ई ।
  - 12 रविवार माच १६ १६७९ ई ।
  - 13 सोमवार, माच १७ १६७९ ई ।

बसाल बद<sup>1</sup> 12° वारे पधारिया घडी 2 बेठा निवाजबेग ने विदा दीया। बसाल सुन् 1 भोमदार<sup>2</sup> कोस (II) बादली ऊरे मदल। अजमेर था पातसाहजी रा डेरा बादली हुण री खबर थी, तिण बास्त उठें रखा। बेसाल सुद 3<sup>4</sup> उमराव सेरविनदवार रे ढेरे गया था। घडी 11 दिन चढता पातसाहजी शहर दाविल हुग्रा। बकील श्यामदाम बगरे कना मु मुचरका<sup>5</sup> लिखाय लाया था के उणा ने खबर देण न पावा, न हवली मु बारे काढ दिया था। बसाल सुद 4<sup>6</sup> भील ढरा। बठ राठोड प्रतापसिंह सप्रामसिंह दुरगदास, स्यार्मसिंह भारमल व पचोली रघनाय सिरवदल खा ढेरे गया था, नवाय वगम रा (महन) स हथणी बठा आवे थो या मुजरा कीया म्हार 2)। ने इयिया 9) निजर रा दिया हक्कीवत पूढी दिसासा दिवी। बसाल सुद 5 सन<sup>7</sup> बादली मू हू च चर दिन घडी 18 चढता दिल्ली म हवेली दाविल हुणा।

1 बसाल बदि 1 मे बसाल बदि 15 तक का वृत्तान्त जो स्थान म उपलब्ध नहीं है जोधपुर हडुमत री बही (पृ० 337) म दिया गया है। वह तिन्ह प्रकार से है —

बसाल बदि 1 = मगलवार माच 18 1679 ई डेरा राजा की मराय कोस 3।

बसाल बदि 2 = बुधवार, माच 19, 1679 ई डेरा मुगल सराय काम 4  
बसाल बदि 3 = गुरुवार, माच 20, डेरा भावले (भवाला) कोस 3

बसाल बदि 4 = गुरुवार माच 21 1679 ई डेरा शाहवाद कोस 10

बसाल बदि 5 = शनिवार माच 22, 1679 ई डेरा कुर्क्येश थननर काम 8  
बसाल बदि 6 = रविवार माच 23, 1679 ई डेरा तरावडी कोस 7

बसाल बदि 7 = सोमवार माच 24 1679 ई डेरा करनाल कोम 7

बसाल बदि 8 = मगलवार माच 25, 1679 ई डेरा धराहादे कोस 7

बसाल बदि 9 = बुधवार माच 26 1679 ई डेरा पाणी पदा कोम 7

बसाल बदि 10 = गुरुवार, माच 27, 1679 ई डेरा मभाले काम 8

बसाल बदि 11 = गुरुवार, माच 28 1679 ई डेरा (गानीपत) काम 12

बसाल बदि 13 = शनिवार माच 29, 1679 ई डेरा (नारनान) काम 7।

बसाल बाद 14 = रविवार माच 30 1679 ई डेरा भीपय कोस 3।

2 बसाल बदि 11 क साय सरिमिन एव मुर्झार माच 28, 1679 ई।

3 मगलवार भप्रेल 1 1679 ई।

4 गुरुवार भप्रेल 3, 1679 ई।

5 मुचरका = मुचतरा।

6 गुरुवार भप्रेल 4, 1679 ई।

7 शनिवार, भप्रेल 5, 1679 ई।

वेसाख सुद 7 साम<sup>1</sup> देश रा साय — भाटी रघनाथसिंह  
पचाली केसरीमिह बगरह बहादरखा रा वेटा नवेसरी खा साथे आया सो राजा रे  
तलाव डेरा जुदा किया । देश रो साय (वेसाख) सुद 13 रिव<sup>2</sup> बहादुरखा रो वेटो  
देस रा साथ रा ने पातसाहजी री हजूर लं गयो लाल कठेरडा मे मूजरो कीयो  
घडी 11 आधी ताई । वेसाख सुद 14<sup>3</sup> देस रा ने लस्कर रा सारा उमराव मुजरे  
गया था त्या म जणा 10 आम खास मे गया जणा 2 राठोड रिणछोडदास न  
सुरजमल ने बडे अब खास मे दुलाया ने सिरपाव दिया ।

लस्कर रो ने देस रो साय भला से मान सू ने घणी खुशी सू दाह चबडे  
पीव ने अछक थका रहे । न बडेरा रो साय पातसाहजी रे अब खास मुजरे जावे  
दीवाण बगसी वेगमा कुल पातसाही अमलो इणारा भला म थो । राठोड रिणछोड  
दास सूरजमल, दुरगादास बगरह सारा अस्थ खा (असदखा) दिवाण ने  
सिरविलदखा वक्षी रे हमेशा जावता सो इणा नू 1 दिन कहयो पातसाहजी सोजत  
जतारण राजा रा वेटा ने देव छ सो असवार 500) सू हजूर री चाकरी करा ।  
राजावा रा बडा उमराव है त्यान जुदा मनसब देसा । सो आ बात रजपूता मजूर  
नहीं कीवी कहयो— जितरो ही दबो सा राजा जी रा बटा नू देवो । मैं सगला  
बाट खासा, ने राजा रा वेटा चाकर थका पातसाहजी रो हुकम हुसी जठे चाकरी  
करता । ओ मजकर घणा दिन रया । महाराज रा उमराव बहादुर खा ने अजमेर  
लिखीआ थे म्हा सू कोल करने इतरा थोक कवूत कराया था सो ग्रन्थ तो आ  
सूरत छ । मा सू कोल किया थो । महाराज रे वेटा हुवा जोधपुर देसा । तर नवाब  
बहादुर खा पातसाहजी नू अज लिखी जसवतसिंह जी रा बटा नू जोधपुर दिरायो  
चाहीज । मोह तो हजरत रा फुरमावणा सू इणा न बधन दियो था । सो हजरत  
इणा नू जोधपुर नहीं दे मो तो हू मनसब छोड देसू । हुकम हुव ता हजूर आय  
मालम कह । तर पातसाहजी जठ सुद 4<sup>4</sup> कावली खा अरज करा बहादुर खा दिलगीर हो सी ।  
दिखण सू सोबो छोड ऊरो आयो था ज्यू सोबो छोड ऊरो आवसी । घणो कहया  
तर फुरमायो बहादुरखा ने लिखो छडे साथ सू हजूर आव । जठ सुद 5<sup>5</sup> करमाण  
चलायो । सु दूतीक जठ वद 11<sup>6</sup> बहादुर खा दिली आय हजरत रे पग लागो ।

1 सोमवार अप्रैल 7 1679 ई ।

2 रविवार अप्रैल 13 1679 ई ।

3 सोमवार अप्रैल 14, 1679 ई ।

4 शनिवार मई 3 1679 ई ।

5 रविवार मई 4, 1679 ई ।

6 रविवार मई 25 1679 ई ।

पातसाहजी जोधपुर देण री अरज मजूर नहीं वरी। राजा अनोरतिंह करणसिंहोत राजा रामसिंह रत्नोत इणा रा उकीला जोधपुर दिसा अरज करी। तर फुरमायो थो “मुहम साजी छ, खरच मत कीजो। मैं जोधपुर रा राजा रा बेटा ने देसा। सोजत जतारण बगरह माराज रा उमरावा कबूल नहीं किया तर पातसाहजी फुरमायो राजा रो हसम<sup>1</sup> ने खजागो समलाग्रा। तरे पचाली केसरीसिंह खजानोह सभलायो, ने कीमत कराई। पचोली रुपनाथ बिहारीदासोत खानसामाँ थो, सोई केसरीसिंह रे सामल पातसाही कचेडी म मताह<sup>2</sup> सभनाथ कीमत कराय ने सू पता पचोली केसरीसिंह उठे हीज रहता। कपरा<sup>3</sup> जुहार हाथी — घोड़ा ऊट तोपा<sup>4</sup> कवाणा गढ़िया बगरह भगला कारखाना सभलाया। देवसथाना रा गाढा सभलाया। पचोली जगन्नाथ रामचदात — काजी<sup>5</sup> मू वात बणाय आया मारवाड परगना राजा जी रा बना न सगलाई देवो ने बाईस लाख रुपया 2200000), 2600000) पेसकसी रा देसा। तिण म माहरो माल पूगो हुवे भो मुजरे देणो। वात बन गई थी। डेरे आय ने जगन्नाथ वात कीदि सो पचाली रुपनाथ खानसामा थो, तिण रे दाय नहीं आई। सो काजी नू बेह आयो, ‘म इण वात म न था। जगन्नाथ रो कहया मत मान ज्या।’ तर वात नहीं बणी। पछे देस री दोलत रा कुछ भरम केसरीसिंह मे बतायो, तर दोलत री कुचल हुई। पातसाह जी रे दोवाण कहया देम रा ने लस्कर रा सारा कामदार लावो सा आप आप रा जुवाय कर। तर केसरीसिंह कहया सारी ही मुद्दो मालक बी। मारा महाराज रा हुकमी था पूळ सो त्रिण रो जबाब देमू। इण वात मू सिवधी महारी मोहणात मुहता यास, सारा रो छूटको हुवो अर केसरीसिंह तू कर किया। सिवधी मु दरदास इ इरसिंह जी मारफत पातसाहजी मु मिल गयो। माल बतायो, उमरावा मुसद्दीया रे रुवह भगन्नियो थो। दिन 25 केसरीसिंह केद मर्यो तस्ती निवाई निला मु जठ मुद 2 जेहर<sup>6</sup> खाय मूम्रो। तर कामदार उकीला मु धा नास गया।

वैगम सासत था बाहुदरवा मोकली भरजा कीबी पिण पातसाहजी मजूर नहीं कीबा — — — न महरवान होय पातसाहजी राव अमरसिंहजी रा पोता राजा इ-दरसिंप रायसिंघोत ने दूतिक जेठ बद 12 सोम<sup>7</sup> जोधपुर इनायत कीयो। हाथी — — — घोड़ा सान री सागत मू सिरपाव — भोती या री जोड़ी — — —

1 सम्पत्ति ।

2 सामान ।

3 दूमरा ज्यष्ठ = शनिवार मई 31 1679 है ।

4 गोमवार मई 26, 1679 है ।

पुणाचिया री जोडी मोतिया री माला धुगधुगी तरवार खजर नोबत इनायत किया। दिल्ली री हवेली मे महाराज जसवतसिंह जी रो साय हा। त्या तू हुकम पाहता कि हवेली साली कर दो। तर हवेली खाली कर दीवी ने राजा रूपसिंह भारमलात बिसनगढ वाला री हवेली मे जाय रहया।

महाराज जसवतसिंह जी रो इतरा साय दिल्ली मे राठोड रूपसिंह भारमलोन री हवेली मे थका समत 1736 रा सावण बद 3<sup>1</sup> ताइ —

विगत—

### 818 सिरदार—

| पिडा | असवार | आसामी  |
|------|-------|--------|
| 1    | 18    | 225    |
| पिडा | असवार | आसामी  |
| 5    | 60    | दूपावत |

खोप कू पावत

|   |    |                                      |
|---|----|--------------------------------------|
| 1 | 40 | राठोड सूरजमल नाहरखानोत।              |
| 1 | 8  | राठोड जूभारसिंह राजसीहोत काम आयो।    |
| 1 | 6  | राठोड महेसदास नाहरखानोत काम आयो।     |
| 1 | 6  | राठोड हिंदूसिंह सुजाणसिंहोत काम आयो। |
| 1 | 0  | राठोड मोहणदास घनराजोत काम आयो।       |

5 60

3 59 खोप जोधा—

|   |    |                                                          |
|---|----|----------------------------------------------------------|
| 1 | 30 | रिणछाडास गोपदासोत पातसाही चाकर हुवो।                     |
| 1 | 20 | चिठलदास विहारीदासात काम आयो।                             |
| 1 | 9  | चाढ्रभाण द्वारकादासोत खगरोत। गाव सोनेहरी लडाई म काम आयो। |

3 59

|              |         |                                              |
|--------------|---------|----------------------------------------------|
| 2            | 28      | खाप मेडतिधा                                  |
| 1            | 20      | मोहकमसिध जगतसिहोत घायल ।                     |
| 1            | 8       | स्यामसिह मुजाणसिहोत मोत मूमो, तिणरा साथ थो   |
| <hr/>        |         |                                              |
| 2            | 28      |                                              |
| <hr/>        |         |                                              |
| 1            | 12      | खाप ऊदावत                                    |
| 1            | 12      | भारमल दलपतौत काम आयो                         |
| <hr/>        |         |                                              |
| 1            | 12      |                                              |
| <hr/>        |         |                                              |
| 1            | 17      | खाप करणोत                                    |
| 1            | 17      | दुरगदास आसवरणोत घावा पडियो                   |
| 1            | 17      |                                              |
| 1            | 4       | खाप मढला —                                   |
|              |         | लिखमीदास नायावत काम आया                      |
| 1            | 17      | खाप उहड अखराज जगनायोत ।                      |
| 4            | 38      | खाप भाटा ।                                   |
| 1            | 15      | जसिह रामोत बदले सावण बद 1 <sup>1</sup> गयो । |
| 0            | 10      | भीब रघनायोत सावण बद 1 <sup>1</sup> गयो ।     |
| 1            | 8       | उदभाण केसरीसिहोत काम आयो ।                   |
| 1            | 5       | सकतसिह हरदासोत काम आयो ।                     |
| <hr/>        |         |                                              |
| 4            | 38      |                                              |
| <hr/>        |         |                                              |
| 18           | 225     | जुमले 242                                    |
| देस र साथ रा |         |                                              |
| 1            | पिंडा , | असवार ,                                      |
|              |         | असामो                                        |
| <hr/>        |         |                                              |
| 6            | 35      | खाप कू पावत ।                                |
| 1            | 10      | रघनाथ गोरखनोत ।                              |
| <hr/>        |         |                                              |

|    |    |    |                                           |
|----|----|----|-------------------------------------------|
|    |    |    | जोधपुर राज्य की स्थात                     |
| 1  |    | 12 | महासिंह जसिंहोत वाम पायो ।                |
| 1  |    | 3  | खडगसिंध फतेसिंधोत ।                       |
| 1  |    | 4  | मोहणदास घनरादासोत ।                       |
| 1  |    | 3  | जतसिंह हमीरोत ।                           |
| 1  |    | 3  | तुंडरा भावतिहोत ।                         |
| 6  |    | 35 |                                           |
| 6  |    | 40 |                                           |
|    |    |    | राप चापावत                                |
| 1  |    | 16 | रुद्रो राजसिंहोत ।                        |
| 1  |    | 15 | महासिंध बेसरीतिधोत ।                      |
| 1  |    | 1  | महासिंह जोगीदासोत ।                       |
| 1  |    | 3  | विलाणसिंह स्वनाथोत ।                      |
| 1  |    | 4  | नाहरखा सतनिधोत ।                          |
| 1  | 1  |    | नाहरखा मयुरादासोत वाम पायाडो वारगीर पावतो |
| 6  | 40 |    |                                           |
| 13 | 61 |    | गान जोवा                                  |
| 1  | 8  |    | मध्यरात्रि हिरदेनारायणोत ।                |
| 1  | 7  |    | उदेभाग्य स्वनाथोत ।                       |
| 1  | 5  |    | बुभारमिह कुसलमिधोत ।                      |
| 1  | 5  |    | कु भो विरतसिंधोत व्यगारोत वाम पायो ।      |
| 1  | 4  |    | महासिंह जगनाथोत वाम पायो ।                |
| 1  | 4  |    | जगतगिह रत्नोत वाम पायो ।                  |
| 1  | 4  |    | देवीगास हरदासोत ।                         |
| 1  | 5  |    | प्रविराज बलूष्ठोत ।                       |
| 1  | 4  |    | दीप बेमानसोत वाम पायो ।                   |
| 1  | 5  |    | पिरपोराज विरमेवोत वाम पायो ।              |
| 1  | 4  |    | रामगिह स्यामगिहोत वाम पायो ।              |
| 1  | 4  |    | जोगीदास विस्याणदासोत ।                    |
| 1  | 2  |    | इटभाण हिरदेनारायणोत ।                     |
| 13 | 61 |    |                                           |

## 11 65 साप मेडतिया

1 10 भावरसिंह गोपालदासोत ।  
 1 17 विठ्ठलदास गोरघनोत ।  
 1 6 पिरागदास दू भरसिंहोत ।  
 1 5 साडखान गोवलदासात ।  
 1 5 चुतभुज विजेसिंहात ।  
 1 5 किसमन्मिह बहादुरसिंहोत ।  
 1 5 नाथो देइदासोत ।  
 1 4 भीव केसरत्तानोत वाम आयो ।  
 1 4 भीव करणोत ।  
 1 3 सूरतसिंह दुवास्कादासोत ।  
 1 1 जगरूप भीबोत ।

11 65

## 12 65 खाप ऊदावत

1 30 रुपसिंह प्रागदासोत ।  
 1 6 गोइदनास भनोहरदासोत काम आयो ।  
 1 5 भावलदास सूरजदासोत ।  
 1 2 फरसराम सूरजमलोत ।  
 1 3 आसवरण बाधोत काम आयो ।  
 1 3 जमू अजवर्सिंहोत काम आयो ।  
 1 3 किसमन्मराम सूरजदासोत ।  
 1 2 भीव साहिवखानोत ।  
 1 2 कहाराम सूरदासोत ।  
 1 1 स्यामदास भनोहरदासोत ।  
 1 1 मानसिंह जगमालोत ।  
 1 5 गोरघा भनरामोत वाम आया ।

12 65

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| 3 | 3 | खाप करणात        |
| 1 | 1 | भीव राघोदासोत ।  |
| 1 | 1 | दलपत राघोदासोत । |
| 1 | 1 | बलू जसिधोत ।     |

---

3      3

---

## खाप जतमाल

|   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
| 1 | 4 | मुकनदास खेतसिहोत ।        |
| 1 | 4 | महदास खेतसिहोत काम आयो ।  |
| 1 | 5 | सुरताण अमरावत ।           |
| 1 | 3 | जोगीदास जसवत्तोत ।        |
| 1 | 2 | पूरणमल ठाकुरसीहोत ।       |
| 1 | 2 | जगतसिह सहस्रमलोत ।        |
| 1 | 2 | डूगरसी लाडसानोत काम आयो । |

---

7      22

---

## खाप पतावत

|   |   |                                                 |
|---|---|-------------------------------------------------|
| 1 | 3 | जाधो भगवानदासोत ।                               |
| 1 | 3 | राजसिह ईसरदासोत काम आयो ।                       |
| 1 | 2 | गोरधन जगनाथोत ।                                 |
| 1 | 2 | भगवानदास गोरधनोत ।                              |
| 1 | 2 | हेमराज गोयनदासोत आसाद सुद 14 <sup>1</sup> गयो । |
| 1 | 2 | नाहर खान तजमलात ।                               |

---

6      14

---

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| 3 | 5 | खाप मडला          |
| 1 | 2 | उदेसिह देईदासोत । |
| 1 | 2 | वेसरीसिह करणात ।  |

|    |     |                                                               |
|----|-----|---------------------------------------------------------------|
| 1  | 1   | मेघराज हरीदासोत ।                                             |
| 3  | 5   |                                                               |
| 1  | 1   | राठोड़ कुसलसिंह सचलसिंहोत नरो असाढ़ सुद 14 <sup>1</sup> गयो । |
| 1  | 7   | राठोड़ सु दरदास हरीदासात भोजराजात काम आयो ।                   |
| 1  | 3   | राठोड़ रूप कल्याणदासोत भारमलोत ।                              |
| 1  | 7   | राठोड़ भोजराज जगमालोत बीदावत राठोड़ प्रवतसिंह                 |
| 1  | 2   | मेहवाजसामोत ।                                                 |
| 31 | 105 | पूरविया ।<br>खाप भाटी ।                                       |
| 1  | 38  | एथनाथ सुरतालोत काम आयो ।                                      |
| 1  | 3   | अखराज रघनाथोत ।                                               |
| 1  | 4   | नारायणदास सूजावत ।                                            |
| 1  | 3   | गिरधरदास हरदासोत काम आयो ।                                    |
| 1  | 3   | किसनदास भीवोत ।                                               |
| 1  | 3   | प्रानद साहूलोत ।                                              |
| 1  | 3   | द्वारकादास भाएरोत काम आयो ।                                   |
| 1  | 3   | साहब खा भीवोत ।                                               |
| 1  | 3   | राजसिंह भोहणदासोत ।                                           |
| 1  | 3   | सबलसिंह करसरामोत ।                                            |
| 1  | 2   | जगनाथ विठलदासोत काम आयो हज़रिया मे ।                          |
| 1  | 2   | रतनसिंह नरहरदासोत ।                                           |
| 1  | 2   | भावसिंह द्वारकादासोत ।                                        |
| 1  | 2   | उरजन भीवोत ।                                                  |
| 1  | 2   | करण मानसिंहोत ।                                               |
| 1  | 2   | रतनसिंह माधोदासोत ।                                           |
| 1  | 3   | वैष्णवीसिंह फरसरामात ।                                        |
| 1  | 2   | सबलसिंह धामकरणोत असाढ़ वद 2 गयो ।                             |
| 1  | 2   | मनोहरदास उद्देसिंहोत ।                                        |

1 शनिवार, जुलाई 12, 1679 ई ।  
 2 शनिवार, जून 14, 1679 ई ।

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | गावरघन लिखमीदासोत ।            |
| 1 | 2 | स्यामसिंह सुदरदासोत ।          |
| 1 | 2 | जोगीदास नरहरदासोत ।            |
| 1 | 1 | पीयो पूरावत ।                  |
| 1 | 5 | सकतसिंह कील्याणदासोत काम आयो । |
| 1 | 1 | द्वारकादास मानसिंहोत ।         |
| 1 | 1 | अखराज जगनाथोत ।                |
| 1 | 1 | शिवदास नरसिंहदासोत ।           |
| 1 | 1 | नाहरखान दयालदासोत ।            |
| 1 | 1 | हेमराज नरावत गया ।             |
| 1 | 1 | धनराज बीकावत काम आयो ।         |
| 1 | 1 | जागीदास करमस्योत ।             |

---

31 105

---

1 35 भालो भावसिंह रायसिंहोत रोषट रो पटो ने राणा री  
पदवी थी

---

104 468

---

122 694

जुमले 818

43 कुटकर रजपूत देश रा साथ माहला  
पिडा 4 असवार आसामी

|   |   |                                                     |
|---|---|-----------------------------------------------------|
| 1 | 1 | बस रामचन्द्र जसमालात ऊट चढणा नू ।                   |
| 1 | 1 | साक्षलो मनोहर रूप स्योत सावणा व <sup>21</sup> गयो । |
| 1 | 4 | चु पत्तेसिंह पिरथीराजोत ।                           |
| 1 | 2 | सोनगरो विठ्ठलदास करगदासात ।                         |
| 1 | 3 | चौ मुरारदास हरीदासोत ।                              |
| 1 | 2 | चौ अखराज कल्याणदासात काम आयो ।                      |
| 1 | 2 | भा पिरथीराज दयालदासात ।                             |
| 1 | 3 | भा विद्राविद देवकरणोत ।                             |

|   |   |                                         |
|---|---|-----------------------------------------|
| 1 | 1 | हूल भुभार्सिह भानीदासोत सावण वद 2 गयो । |
| 1 | 1 | हूल साहूलसिह राधादासोत ।                |
| 1 | 1 | हूल तजसी सावण वद 2 <sup>1</sup> गयो ।   |
| 1 | 1 | गोड बुसजो ।                             |
| 1 | 1 | खेतस्योत नाथा नरहरनासोत ।               |
| 1 | 1 | खेतस्योत विजो वलूब्रोत ।                |
| 1 | 1 | पीपाढो दलपत आगावत रो ।                  |

---

16 27

जुमले 43

चारण—

|   |   |                                                              |
|---|---|--------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | लस्कर रा साथ माहला सादू मुरजमल नाथावत एकडाणा<br>सू पछ मुवा । |
| 1 | 2 | चारण ईसर ।                                                   |
| 1 | 2 | सादू जोगीदास ।                                               |
| 1 | 1 | बीठू गोइयद माधावत ।                                          |

---

4 7

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| 1  | मीया फरासत खाजो देसरा साथ माहलो । |
| 15 | कामदार बारगीर सरकार सू पावे ।     |
| 10 | कायस्थ                            |

---

|   |                                                     |
|---|-----------------------------------------------------|
| 8 | लस्कर रा साथ माहला—                                 |
| 1 | पचोली पचायणदास तिलोकचदोत ।                          |
| 1 | पचोली जगतराय बलूब्रोत ।                             |
| 1 | पचोली हरराय दुलीचदोत बाम आयो ।                      |
| 1 | पचोली अनंदराम दुलीचदोत ।                            |
| 1 | पचोली मुरलीघर तीकमदासोत ।                           |
| 1 | पचोली सबलसिह गगारामोत सावण वद 11 <sup>1</sup> गयो । |

---

- 1 मगलवार जुलाई 15 1679 ई ।  
2 बुधवार जुलाई 23 1679 ई ।

1 पचाली जगजीवणदास गोरघनोत सावण बद 1<sup>2</sup> गयो ।  
 1 पचोली उदेकरण गोरघनोत सावण बद 1<sup>2</sup> गया ।

---

8

2 देस रे साय माहला  
 1 प० शिवदास विहारीदासोत ।  
 1 प शिव्यादास ।

---

2

10

5 वाणिया कामदार  
 3 लस्कर रे साय रा—  
 1 मडारी भगवाननाम रायमलोत मडारी ।  
 1 मडारी लालचद मुखमलोत ।  
 1 मुहतो भगवानदास कितावत सावण बद 1<sup>2</sup> गयो ।

---

3 ]

2 देस रे साय माहला  
 1 मिहबी नयमल मुखमलोत रो असाढ<sup>3</sup> म गयो ।—  
 1 कोठारी सीहमल मोदी याना रो ।

---

2

5

15

3 पुटकर

---

1 सोमवार जुलाई 14, 1679 ₹ 1  
 2 जून, जुलाई—1679 ₹ 1

- 1 लक्ष्मण रे साथ माहलो — “मुहूर्तो अखो वीजावत ऊट  
चढण नू सावण बद 1<sup>1</sup> गयो ।
- 2 देस रे साथ माहला —
- 1 मुहूर्तो विशनदास वेसोदासोत काम आया ।
- 1 मूर्धा धनराज सूजावत ।
- 
- 3
- 

14 ब्राह्मणा रे साथ रा बारगीर पावे—

- 9 लक्ष्मण रे साथ माहला । —
- 2 व्यास लिखमो द्रोणाचारज रा ।
- 2 तिवाडी बलराम काह रा
- 2 जोशी गगाराम वस्ता रा ।
- 2 चूरो हरदत्त गोरघन रा ।
- 1 मु भागचद विराग रो सावण बद 1 गयो ।
- 

9

- 1 “यास जग्छप मुथरादास रो पहले गयो
- 1 जोशी लालो सतीदासोत रो ।
- 1 जोशी गगाधर शिवराम रो मेल रो चाकर ।
- 2 छागाणी फरसा गणेश रो निरन्वो ।
- 

14

5 देस रे साथ माहला

- 1 व्यास श्रीपत नाथावत सावण बद 2<sup>3</sup> गयो
- 2 सालखी लखा मलू रो सो केशो ।
- 1 जोशी विद्रावन कल्याण रो ।
- 1 छागाणी ऐवजी मोदी खाने चाकर ।
- 

5

---

14

---

- 1 सोमवार जुलाई 14 1679 ई । 2 सोमवार, जुलाई 14 1679 ई ।
- 3 मगलवार जुलाई 15, 1679 ई ।

## 15 खवास पासवान वारगीर पावे—

## 5 लस्कर रे साथ माहला

- 1 गहलोत बाघो मनोहर रो ढाला रो कारखानो हवाने—  
 1 सहाणी उदकरण तोगा रो ।  
 1 आबदार अखो राधा रो असाढ़ सुद 2 गयो ।  
 1 सोभावत जोगीदास कुशलावन मोदीवाने हवाले दोनी हवाले ।  
 1 असाढ़ सुद 2 फावडी ओढाई ।  
 1 घायियो भेष आनांद रो पलाणीयो वारगीर ।
- 
- 5
- 

## 10 दश रे साथ माहला—

- 1 असाधच जगनाथ जसावत भागचद गयो तर काणा रो काठार सूर्यो  
 थो असाढ़ सुर<sup>2</sup> ।  
 1 खीची सु दरदास धर रा धो राखता पुराखदास गयो तर तरवा  
 रो कोठार सूर्यिया । वो आसाढ़ सुद<sup>3</sup> गयो  
 2 ढाल रो कारखानो हवाल ।  
 1 गेहलोत धनराज चुतरा रो ।  
 1 गेहलोत विट्ठलदास माधोदास रो
- 
- 2

- 1 खीची नरसिंह सलेखाने ।  
 1 सहाणी जोगीदाम अणदा रो ।  
 2 फोजदार—  
     1 मेघराज जगावत ।  
     1 रामचद जगावत ।
- 
- 2

- 1 आबदार चुहाण सादो सादूल रो ।

---

1 रविवार जून 29 1679 ई ।  
 2 रविवार जुनाई 6, 1679 ई ।

१ धाधू हरदास उरजन रो ।

10

15

६ चीषड महीनदार गावेति वारगीर पावे ॥

देस र साथ माहना —

१ देवराज वरसिंह परवतोत महीनदार ।

१ मानगलियो नैपत वमावत कोठार रा पोहयाइत । मावण वद २<sup>१</sup>  
गया ।

१ मानगलियो साभो माधा रा इसह रो, कोठार चोकी ।

१ मानगलियो चढो काह रो, गाव वेल रा कोठार चोकी ।

१ राठोड भावसिंह कन्नावत वेठवासियो महीनदार ।

१ राठोड फनमिह गोरधनोत राणावन घर रो उट थो । पद्मे धोडी  
वारगीर भाटी हथनाथ जी दिराया ।

6

१० रवारी झट वारगीर                    देस रा साथ माहना

१ राधा रामदास रा ।

२ मूजो देदो वीरम रो ।

१ सुरताण भोज जाम्भा रो ।

१ राणो भाणुद हीगोला रो ।

१ कु भा पात रो ।

१ तेजी राहसिंह रासावत ।

१ जसो नेतावत ।

१ दइदान वरभल सागावत ।

१ राधा देवावत । झट २ लं गयो भसाढ सुद १०<sup>३</sup>

10

१ मगलवार जुलाई 15, 1679 ई ।

२ मगलवार, जुलाई 8 1679 ई ।

15 मुसलमान वारगीर पावे—

8 लस्कर रे साथ माहला—

5      खोजा ममारख । मुस्की । ईलफात । उमद । माझूल । ।  
 1      दिलदार वेग हजूर मथा रो चाकर ।  
 2      पडदार छडीदार 2  
 0      पडदार सेवाजमाई रो पडदार नसीर कसर रा ।

---

2

---

8

7 देश रा साथ माहला—

1      अलेह वरदी अवदाल वेग रो  
 3      दलल गिल । सीदी विलब । खिरदपा पसह । ।  
 1      वेग महमद ।  
 2      छडीदार ।  
 1      नामततुला घर रो घोडा ॥  
 1      अली महमद घर रा घोडा

---

7

---

15

5 हीडागर वारगीर पावे—

1      लस्कर रा साथ माहला—गोड भगवान चोय रो' तोप खाने ।

4 दश रा साथ माहला—

1      आनाद सामदास रो तबोलखाने ।  
 1      मा ॥ धनो सिलेखादा खास बखतर जाखोडो<sup>1</sup> लिया हालता ।  
 2      चोयरी जेजो बेसा रो सिलेखानो  
       चापरी जेतो बेसा रो ।

---

4

---

5

1 जाखोडो = ऊट ।

41 वर्षांश वारमीर घोडा चढे ॥

8 लस्कर रे साथ माहला

- 1 गिरधर इसर रो ।
  - 1 पाटी बिलहो ।
  - 1 बोहलीम चाद समद खा रो ।
  - 1 पडदार ताज ममद खूबमहमद रो ।
  - 1 गोड बाहा चोया रा ।
  - 1 नायक जीवण सापेख खा रो ।
  - 1 वानर देईदास ।
  - 1 वानर रामचंद ।
- 

8

33 देश रे साथ माहला—

- 3 राठोड मुदर रायपाल रो 1, म ॥ बहादुर ॥ 1, राठोड जीवो नारण रा ।
  - 2 दहियो रिणछोड 1 दीचो बीजो 1
  - 3 अगोलिया कमो सादा रो 1, इनायत खा खीदर खा रो 1, तुलछो 1
  - 3 मीर हुसेन कासमीरी, पवार करमसी नो ॥ तराहर ।
  - 3 मू ॥ झडो बाधा रो 1 साखलो प्रान्तद 1 प ॥ राजसी 1 ।
  - 3 पडियार जगनाय 1, पवार जोधो 1, सेखो 1 ।
  - 2 भाईल इसर 1 लस्करी अबदाल बेग रो । ।
  - 2 हुयातखा साहिखा रो 1 मिरजो चाद । ।
  - 3 सेख जलाल 1, झडो जीवो 1 पडियार जोधो । ।
  - 3 आहेडो बलो लिखमीदास रो 1, तुवर झवो ।, सापलो तेजो । ।
  - 6 नायक
    - 1 लाड खा चाद खा रो ।
    - 1 साढुलो चाढुला रो ।
    - 1 केमर खा सेख रो ।
    - 1 सलेमा सुलतानरो ।
    - 1 दोस महेमद दाऊन रो ।
    - 1 भिकदर सुरताण रो ।
- 

6

33

41

997

राठोड रूपसिंह भारमलोत री हवेली मे डेरा किया पछ राठोड रिणछोडदास गोयनदासोत भाटी रुधनाथ सुरताणोत दुरगदास आसकरणोत, इण सलाह कर सारा ने कहया— अठ मरण मे क्यू ही मूदा नीसरे नही जीवता रहसा तो विवा कर घरती चालसा चोकी बठ जासी पछ निसर नही सकसो ।” इण ताछ धणा हठ सू रजपूता न देस मलिया । राठोड सूरजमल नाहरखानात राठोड सप्रामसिंह महेसदास रो पोतो चापावत उदेसिंह लखधीरोत जतावत प्रतापसिंह देवकरणोत राठोड राजसिंह बलरामोत ऊदावत नरसिंहदास दयालदासोत खोजो फरासत वगेरे बडा बडा उमराव था, सो देस ने चटिया । राठोड मोकमसिंह जगतसिंहोत रा खटला भेला खीची मुकनदास बलावत साथे माराज रा दानू बवरा ने छाने काढिया । सो दलथभण जी तो रसता म चल गया, न खीची मुकनदास जी अजीतसिंह जी ने लेने सिरोही रा इलाका मे आया । सो गाव कालि द्री मे पुस्करणा ब्राह्मण जदेव रहतो । सो बहुत मातवर ने उणा रे लुगाइ पिण बड़ी पतिव्रता सो जदेव जी न सारी हकीकत केने अजीतसिंहजी ने सू पिणा सो जदेवजी आपरे घरे पोसीदा राखिया न जदेवजी री वहु आपरो दुष पाय न मोटा किया ।

पातसाहजी जसबतसिधजी रा चाकरा ने बेवायो क राजा रा बेटा नू मानू सूपो भह तरवियत करसा । थे सलेमगढ म डरा करो । तरा इण जाएियो के धेरा म देव थे । सो पाच निया सर मारसी । रजपूत सारा तजिया भरण मत्ते हुआ । निकलण बाला तो निकलीया खरा था सो रहया । सीदी फौलाद कोटबाल थो, तिण ने हुक्म पोहतो सो समत 1736 रा सावण बदि 3<sup>1</sup> घोडा हजार 20 000 बीस न तोपखानो ले हवेली ऊपर आयो न कहयो राजा रा बेटा जोरुवा सूपो । पातसाहजी को ओ हुक्म थे । तर राठोड रिणछोडदास गोयदासोत भाटी रुधनाथ सुरताणात राठोड रूपसिंह, पिरागदासोत राठोड दुरगदास आसकरणोत वगेरे सारा असवार अडाई सो 250 तीन 300 सो साथ सा सिनान दान कर तुलछी मजर टाक चढ उभा रिया ने राजा लोका न घोडा चढाय पचोली पचायणुदास तिलोकचद ने पाचला रो जोघो चद्रभाण द्वारकादामोत न बने रायिया ने वहयो क भगडो सुह हुवे तर जादमजी नरुवी जी नू चद्रभाण जी रा हाथ सू लोहा करावजो । राठोड रूपसिंह जी दुरगदास जी अब्बावर आमा सामा विसठा न पिर ने साथ ने कहया ‘हम म्हे जाय ने कावू बरा द्या थ पछे भेला हूमो । यू वहने चलाया न पोतियो मिरियो । तर कोटबाल न तोपखाना रे दरोगे मना विया जिण सू तोपखानो छाडिया नहीं । इण तोपा ऊपर जाय कहयो अ तो माहारा माया सटे थे लसी माहारा सू समझ ने लेसी । एण हूणा भ तोपखाना रे मुहाणो पिर गयो सो गोला ऊपर होय निसर गया ने राठोड तरबारा जाय मिलिया ।

राजलोक घोड़ा चिंचा ऊभा जिए। रो पापा बाट न चाढ़भाग जो घोड़ा उठाय साधन हुया। लडाई भारी हुई। पावसाह जी फैत्र रा 500 पाच सातों बाय प्रापा न मात 700 सात पापा भाठ सो पापन हुया।

महाराज जमवतसिंहजी रा रजतूत बाय आया तिणा री विश्व—

#### ५ खाप जोधा बाम आया

- १ राठोड रिणद्युइदास गोपनदास भगवानदासोन माटा राजा रो खेरवा रो पटो रप्या ताम 30 00) हजार रो।
  - २ राठोड बिठ्लदास विहारीदास इसरदास बिल्दास रायमलोत पट गाव कुडवी रेख रप्या हजार 20 000) रा।
  - ३ राठोड चाढ़भाण डारकादास आमवरण मानसिंह खगर जोगा जाधा रे पटे गाव पाचलो रेख रप्या नव 9 000) हजार री।
  - ४ राठोड कू भा विरतमिह रख 5 000) राठोड दीपो वेसोदास रेख 4 000)।
  - ५ राठोड प्रथीराज वीरमदव रख 5 000)।
  - ६ राठोड महामिह जगनाथ, रेख 4 000)।
  - ७ राठोड जमतसिंह रतन रो रेख 4 000)।
  - ८ राठोड रामसिंह श्यामसिंह रख 4 000)।
- 

9

#### ५ खाप कृ पावत

- १ राठोड महामिह जमिह राजमिह खोबावत रो, रख 12,000) रप्या।
  - २ राठोड जू भार्तसिंह राजमिह गीबावत पट रजलाली रेख 9 000) रप्या।
  - ३ राठोड महेशदास नाहरवान राजमिहात रख 6 000) रप्य।
  - ४ राठोड हिंदुसिंह मुजाणसिंहात, पट गाव नाडमर रेख रप्या 9 000)।
  - ५ राठोड मोहणदास धनराज नारायणदास उमेसिंह कू पावत रे पटो, रप्या 4 000)।
- 

5

#### ६ खाप उमामत—

- १ राठोड भागमल दतपत भीब बायाणदासोन रेख रप्या 12 000) री।

- 1 राठोड गोयन्दास मनोहरदास रामा खीबो सूजो जावा रो पटे  
गाव रेख रुपया छव हजार 6 000) री ।
- 1 राठोड रघनाथ मूरजमल मनोहरदास किशोरदास राम खीबो उ ना  
जोधा रो पटे गाव रख 5 000) ।
- 1 राठोड आसकरण वाधो नारायणदासोत रख रुपया 3000) ।
- 1 राठोड गोरथन मनराम रेख रुपया 5000) ।
- 1 राठोड जसू अजवसिंहोत पठो रेख रुपया 5000) री ।
- 

6

## 2 खाप मेडतिया—

- 1 राठोड भीव केसरखान रेख 4000) रुपया ।  
1 राठोड किशनसिंह चादमिहोत पठो रेख 5000) रुपया ।
- 

2

## 1 खाप चापावत—

- 1 राठोड नाहर खा मथुरादास रतन सीब रो जसावत वारगीर  
पावता । गर चाकर राठोड सुदरदास हरीदास  
ठाकुरसिंहोत ।
- 

1

## 1 खाप भोजराजोत—

- 1 राठोड सुदरदास हरीदास ठाकुरसिंहोत पटा रेख रुपया 7000) ।

## 1 खाप मडला—

- राठोड लिखमीदास नाथावत, पटे गाव ~ रख रुपया  
5000) पाच हजार री ।

## 1 छूगरोत—

- राठोड मानसिंह जगमालोत ~ ~ ~ ।

## 4 जेतमाल

- 1 राठोड भेहनाम खेतमिहोत पटो रेख रुपया 4000) ।  
1 राठोड छूगर्सी लाल्खानोत, पटे गाव रुपया रख 2000) ।  
1 राठोड ल्लेसिंह जगलाथोत पटो रेख रुपया ~ ~ ~ ।  
1 राठोड पूरणमल रे पगो रेख रुपया ~ ~ ~ ।
- 

4

1 खाप चूद्वाण—अखेराज कित्याणदासोत, पटे गाव रेख रूपया दो हजार री 2000) ।

## 9 खाप भाटी

- 1 भाटी शगनाथ मुरताण मानावत पटे गाव सवेरा पटो रेख तीस हजार 30 000) री ।
  - 1 भाटी उदभाण कंसरीसिंह दपालदास गोपालनास आसावत रा, पटे गाव खेजडलो रख रूपया आठ हजारी 8 000) री ।
  - 1 भाटी जगत्सिंह हरदासीत कानोत पटे गाव—रेख रूपया 5000) पाच हजार री ।
  - 1 भाटी जगनाथ विठलनास हरदास काना पटे रेख तीन हजार री 3000) ।
  - 1 भाटी सकतमिह कित्याणदासो॑ रेख रूपया एक 1000) हजार ।
  - 1 भाटी दुवारकादास भाण भाऊहर रख रूपया 3 000) री ।
  - 1 भाटी धनराज विकावत पटे गाव रख रूपया 2 000) री ।
  - 1 भाटी दुवारकादास — —
  - 1 भाटी गिरधरदास हरदास कानोत रख रूपया 3 000) ।
- 

9

- 1 सिकदार साभावत जोगीदास कुशलावत ।
- 1 साढूल सूरजमल नाथावत, पातसाही बद पडियो<sup>२</sup> पञ्च ग्रमल खाय मूवा ।
- 1 कुटबर— —नारायण पातावत ।
- 1 खाप पचालो हरराय हुलीचद कचरावत जात भीवाणी, चाकनीवस ।
- 1 खाप मुहतो विसनदास केसोदासोत, रेख रूपया 2000) दो हजार री ।

## 18 रजपूता रा चावर काम आया

- 2 राठोड रामसिंह स्यार्मसिंहोत या ।
  - 1 वीरम लखा रा ।
  - 1 धरमो ।
- 

2

<sup>1</sup> गिरफतार हो जाने पर ।

1 राठोड प्रधीराज वीरमदेहोत रो सौ सकतो ।

6 राठोड भारमल दलपतोत

1 साखलो प्राग ।

1 मागलियो जसो ।

1 मागलिया सुदर ।

1 पडिहार गीधो ।

1 ए गोयदास डूगरोत ।

1 दरबी भूदर ।

6

2 राठोड उदभाण रुधनाथोत रा—

1 इ दो रामसिंह

1 जतमालोत सकतो भोपतोत ।

2

1 भाटी रुधनाथोत राठोड पतो लखमीशमोत ।

1 राठोड आसवरण वाधात रो पडियार जेसो ।

1 राठोड रुपसिंह प्रागनासोत रो कार्दथ दीपचद जात भाणव मडारी डीढवाणा रो ।

1 राठोड रिणछोडदास राहूल फरसराम क्लावत ।

2 राठोड महासिंह जगनाथोत रा—

1 सोनो जोगीदास लूणा रो ।

1 स्वा अमरो, जात सहाणी ।

2

(1) केसरीसिंह रा नगारवी डूम रेखला ।

18

2 बरकदाज—

1 तू बर गिरधर ईमर रो वास साजत रो ।

1 साखलो श्रान्तद ।

2

## 2 रेवारी—

1      कुभो ।

1      सुरताण ।

धायल हुआ आया तिलो री दिगत—

1      राठौड़ दुरगदास प्रासकरण नीवावत खाप करणोत ।

1      राठौड़ रूपसिंह पिरागदासात खाप ऊदावत ।

1      राठौड़ मोहब्बमसिंह जगतसिंहोत मेडतियो ।

1      राठौड़ भोजराज खाप बीदावत ।

2      खाप चापावत

1      राठौड़ दूदो राजसिंहोत ।

1      राठौड़ महार्सिंह केसरीसिंहोत ।

2

1      पचोली पचायणदास तिलोऽचोत रो घोडो इटियो तरे  
आप दुरगदास करें गयो—

7

लडाई हुआ पछ वचिया सो देश आया । पातसाहजी ने खबर पहुंची, राजा जी रा राजलाक मरदानी कपडा पेहर घोडा असवार होय काम आया ने राजाजी रा बेटा ने परा काँचिया । तर दिल्ली रो घर घर जोकायो सो लडको एक बिणी रो ही कोटवाल पकड़ ले गयो । तिण रा नाम महमदी राज दियो । राजाजी रो बटा जाए घणा जतन करता, सो पछ कईक दिना सू मर गयो ।

लडाई रो खबर जोधपुर मे सावण बदि 11<sup>1</sup> तु आई । ने पातसाही लाक जोधपुर मे था फौजदार ताहरवेग कायमखानी दीनदार खा काजी मुफ्फी असवार हजार दोय त्या मे दीनदार खा रें तो पेहली रात खबर आई सो भाग न नागोर परो गयो, ने फौजदार ताहरवेग काजी रहीमखा था तिण तू घेर लिया, तर इणा कवायो मा कन माल असवाव है उरो लेवा न मारू जीवता जावण दो । तर राठौड़ सानग विठलदासोत ने भानी राम तु भावत माल असवाव तो उरो लियो ने ऊनवन सूरजमल भीवोत ने साथे मल ताहरवेग, न काजी रहीमखा अजमर पहुंचाया । मडते किरोड़ी साढूलो थो तिण मडता री हासल सावण उनालू रो धान

1 दुधवार जुनाई 23 1679 ई० ।

आयो थो तिण सू हीटा घर देवरा पोसाला साही भरिया था सो मेडतिया प्रतापसिंह गोकलदामात, राठोड शिवदार्नसिंह चापावत अजर्बसिंह विठलदासोत औ मेडता ऊप आय भालकोट रे निसरण्या लगाय किरोड़ी सादूला ने पकड़ लिया न दोलत कूब म नाखी थी सो बताई तर काढ लिकी ने सादूला ने बुर हवाला मारीया । न धा दोलत सारो भाल लूट लिया ने भसीता पाड़ी ।

सिवाणो ताहरवेग रा जवाई कुचक्कवेग थो सू घवेचे सुजाएसिंह वीरमदेवा साथ भेला कर कुचक्क वेग ने भार मिवाणा रो गढ उरो लीना ।

### मेडते साथ भेलो हुयो

ऊदावत नरसिंहदास दयालदासोत मठथो राजसिंह प्रतापसिंहोत ऊदावत राजसिंह बलरामोत वगरे घणा राठोड था सो अजमर रो सोबायत तहवरखा अडा हजारी, तिण रा डेरा पोहवरजो था तिणा ऊपर गया कोज री प्रणी 2 करी एक तो ऊदावता री ने एक मेडत्या री । समत 1736 रा भादवा बद 11<sup>1</sup> हु लडाई । तेवरखा भागो मेडतिया भना लडिया ने ऊदावत नूट कर आपरे धे आया । इण लडाई मे बाम आया तिणा री विगत—

- 1 राठोड महासिंह केसरीसिंहात चापावत । दिल्ली री लडाई से धायल थका उपाडिया रेख 5 000 ) ।
  - 1 राठोड राजसिंह प्रतापसिंहात मडतियो ।
  - 1 राठोड आनादसिंह ने चतुरसिंह रूपसिंह प्रतापसिंहोत ।
  - 1 राठोड रूपसिंह प्रतापसिंहात मेन्तियो ।
  - 3 राठोड कंसरीसिंह राठोड हठीसिंह राठोड गारलदास प्रतापसिंहोत ।
  - 3 राठोड सादूल राठोड जगतसिंह कानलोत नाथो ।
  - 2 राठोड विश्वनाथसिंह चापावत ऊदावत हिमतसिंह ।
  - 3 ऊदावत जगतसिंह । भोजरात । मा । —
- 
- 

महाराज जसवतसिंहजी रा राजलोड हाड़ी जी शक्कावत जी जात्मनी दवडी जी चहूवाण जी इणार साये उमराव जाय आप भाष रे पीढर पदुचाप आया । माजी बधेली जी न खवामा सहर म मुहखोत नणसी रा घर म जाप रह्या । इदरसिंहजी आया तर इणा र खावण रो बर टियो था ।

समन 1736 रा — महाराज इद्रसिंह जी निर्दी मूर विदा हुपा मु रीणी रे मारग हाय नागोर होय जाघपुर आया ने रातनाडे डर

किया भादवा सुद 5<sup>1</sup>। जोधपुर रा गढ़ मे सहर मे इतरो साथ थो—ऊहड भगवानदास, राठोड सवलसिंह गढ़ ऊपर था। ने सहर भ चापावत सोनग विठ्ठल दासोत, जेतावत प्रतापसिंह देवकरणात राठोड हरनाथ गिरधरदासोत राठोड उदैपिंघ लखधीरोत भाटी राम कु भावत राठोड मुकनदास सादूलात हरीसिंघ सावलसिंधोत, राठोड सूरजमल भीबोत, भाटी रामसिंह मकुनदासोत राठोड प्रागदास भीबोत बालो, इदो रथनाथ पूरावत भीयो परासत पचोली गिरधरदास पचोली हरीदास अखराज जगतराम पचोली चढ़भाण व्यास द्वाणाचारज नाथावत व्यास जगरूप, प्रोहित अखराज हजार दोय अमवार था सो गढ़ सहर समझियो थो। इद्रसिंह जी ननरा जणा नें बात करण साढ मेलिया था—कू पावत सुदरसेण भावर्तिहोत जाधो रतन हरीसिंहोत, चोहाण मनोहरदास वरमसोत कुमलसिंह विरतसिंहोत, चारण साढु गोपददास व्यास सतीदास गिरधरदासोत। इणा आय ने कहया महाराज जसवतसिंह जी रे वेटो हुवे जद तो था रजपुता रो झो धरम हीज है नही जद ये ही माराज गर्जसिंह जी रा पोता छे सो घणी हीज है।<sup>2</sup> तर इणा विचारिया महाराज जसवतसिंहजी रे वेटा री पूरी खवर तो नही ने ये महाराज गज सिंह जी रा पाना छे माहो माह मुवा मे फायदो बयू ही नही। जतावत प्रतापसिंह देवकरणोत, न राठोड हरनाथ गिरधरदासोत, सोनगजी वयरे सारा रजपूता पटा कबूल किया। दूजे दिन इद्रसिंह जी रा कवर अजबसिंहजी तलहेटी रा मेहला मे आया सारा सिरदरा कामदारा ने रातनाडे डेरा था जठे ल गया महाराज इद्रसिंह रे पगे लगाधा। समत 1736 भादवा सुद 7 मगलबार<sup>3</sup> तीजे पौहर रा घणो जलूम था महाराज इदरसिंह जी जोधपुर र गढ़ चढ़िया। नोबत बाजी। इद्रसिंह जी इतरा योक जोधपुर म आय किया। देहुरा पडाया। गाया बद हुई। गढ़ स मेहल पड़िया। दिलए दिशा न मुरज री त्रफ दोही कीवी। सिण्यार चोकी ठाटी कीवी। भाटी गोयननाम री हवेली म राठोड साहूबाल विरतसिंहोत परधान था तिए साल कराइ। धगत्ताम रमोइये काये कु ड बणायो। ने एक गेहलोत डूगरमिंह कोटवाल बधायो, ने जोधपुर रा लोका कतामू दोय बार करने विया सतीस 37 000) हजार लीना। श्री आराधणाजी ठाकुरजी न घन र लालच सु नामोर ले गया। माता जी श्री नामणुची जी री मुहरत नामोर पोहोचाई। जवाहर रो हावो—यास जगरूप रे हवान थो मी लियो। रावजी जाधाजी रो हात रो दुधारो लाडो थो सा नियो। पेर ही कोठार सभाल न घणी बस्ता नामोर पोहोचाई। राठोड साहूव था र यास हरदेव रे सिंधी चूहडमल रे पचोली सतादास र घर बस्ता पोहोती। राजा बेनवर थो जिण गु धणी बस्ता लुटाणी —— —।

1 रविवार अगस्त 31 1679 ई।

2 मगलबार तितम्बर 2 1679 ई।

महाराज जसवतसिंह रा राजलोका नू तो उमरावा पहला ही पाहोचाय आया हा । हाडी जी ने चहुवाण जी तो बू दी गया । सखावत जी खडेल गया । देवडी जी सिरोही गया भटियाएँ जी जसलमर गया । जादमजी न राणाजी गाव दीनो तठ गया ।

इद्रसिंहजी गढ चदिया पछ्द दिन चार पाव बने राठोड सोनग उद्देसिंहप्रताप सिंह, इणा आदर हृदीठो ने राज रो बरतण आद्यी नही दिठी<sup>1</sup> तर घड गया । राठोड दुरगदास आसकरणोत दिल्ली री लडाई माह स घायल हुय ने आया था सो गाव सालवा मे विखा री त्यारी करता था सो राव इद्रसिंह जी बुलाया, तर पाढ़ी लिखियो हु त्यारी करने आऊ छू पढ़े विखा रो सेमान कर खीची मुकनदास ने साय ले सीराही र गाव विसलुपुर गया । समत 1736 रा आसोज<sup>2</sup> मे राठोड सोनग विठ्नदासोत राठोड प्रतापसिंह देवकरणोत राठोड उदभाण मुकनदासोत नरसिंह दास दयालदासोत राजसिंह बलरामोत सरा भेला हुया । उन्पुर र राणो राजसिंह जी सो दयाल राठोड गोपीनाथ दुर्जणसिंहात मठतिया तिणा ने मेल राठोडा ने केवायो के 'पातसाह हिंदुस्थान सु बोप मे छे हिंदुस्थान लूटियो चावे छे ये भला रजपूत छो सो सभावो, तो आछी हुव । तर राठोड ने राणाजी रा साथ भेलो होय ने जालोर ऊपर गया जालोर मे विहारी फतेखा थो सो सभियो । लडाई म राठोड लाडखान हू गरात बाम आयो । समत 1736 रा आसोज सुद 13<sup>3</sup> इद्रसिंह जी सिवाणा दिया असवार हुमा । यास देवदत्त सोजत हाकम थो तिण न सिहबी सु दरदास रे केहणे सु राठोड बीका सुआएसिंहोत कना सू गाव सीसरचाव मरायो ।

समत 1736 रा मिगसर मे पातसाह जी अजमेर आया<sup>4</sup> न राणा राजसिंह जी ऊपर मूहम कीवी दहवारी सागा । तठ राठोड उगरा सावलदासोत बाम आया । जलोर था विहारी फतेखा पातसाहजी न अमेर तिखीयो राठोड सीसादिया ऊपर आया छे सो मदत कराईजो । तर पातसाहजी मुकरबखा न मदद मनिया सो मकरब था विमटानो कर ने रुपिया हजार 10 000) दस पेसकसी रा राठोड न दिराया जलोर रा थणी फतेखा कना सू । पछ्द सोजत जेतारणी री जफ आया । मुलक म पेसकसी लीकी । सीसादीया रा ने राठोडा रा साय भतो रहे । महाराज इद्रसिंहजी भाटी राम कु भावत ने पटा रो उमेदवार सू राखियो थो । न पातसाहजी री हजर 17 सनेरे भाथा उमरावा रा मेलण कबूल कर दगा किया था त्या न आहीज हाथ आयो । सा इद्रसिंहजी तो पातसाह कन अजमेर था ने परधान साहव

1 यवहार अच्छा नही देखा ।

2 सितम्बर अक्टूबर 1679 ई ।

3 मगलवार अक्टूबर 17 1679 ई । 4 नवम्बर 1679 ई ।

खा जोधपुर मे राठोड विसनसिंह बैसरीसिंहोत पोस बद 8<sup>1</sup> भाटी राम रा डेरा उपर मलिया गोली चुही । तर भाटी राम रो साथ तो कपडा धोवए गयो थो, ने राम एकलो थो । सो खबर हुई तर सिनान सवा कर तुलच्छी दल तिलक बर धोडा बाढ ने पर छोड ने सामो राम पाल धाटी चढियो न उघाडी तरवार कर राठोड किसन सिंह सामो दोडियो सा गोला तीर सू राम नू मार लिया माथो बाट पातसाह जी री हजूर जोधपुर सु मेलियो । पछे भाटी लिखमण्ण ईसरदासोत न सूपियो । रजपूत बीका बालिया खवास ने पढ़सर मे खबर हुई । तर दाडियो भीया सुदर रा बाथ कने बालिया कने तरवार मोल ले ने बदा रा बड कने किशनसिंह ने आय पोहोतो, जणा दोय रे तरवार बाही पछ्य काम आयो । ठाकर चाकर दोना नू दाग रामपोल सामा दिया, माथ चोतरा बराया । महाराज इ-द्रसिंहजी रा रजपूत ईदा रुदनाथ रे बीका कलिया रे हात री तरवार लागी सो पछ्य मूवा । राठोड प्रतार्पिंहि प्रथी-राजात भाटी राम रे जवाई थो, सा राम का काम आयो पछ्य चाकरी छोडी । भाटी राम प्रतार्पिंहि रा बचन सु उमेदवार हुवो थो । कानो कुसलावत नू घर रे बास्ते गोली सू मारियो ।

समत 1736 रा जेठ बद 10<sup>2</sup> राठोड दुरगदास जी सोनग जी बीलाडो पेरियो महाराजाजी रा धोडा साढा कट हसम थो सु लियो । बीलाडा मे पबार गोयनदास था तिण नू खोस लियो । तर गोयनदास नाम ने बधनोर इ-द्रसिंह जी कने जाय नै खबर दीबो । पछ्य गायनदास जी ने पातसाहजी कन मेलियो । सीख मगाय दूच करने जठ सुद 10<sup>3</sup> जोधपुर आया । राठोड दुरगदास सोनग गाव नालावास था, त्या रो पीछा बीयो सो गाव खेतासर<sup>4</sup> तफे ओसिया तठ जठ सुद 14<sup>5</sup> लडाई हुई तठ काम आया तिण री बीगत—

महाराजा श्री अजातसिंह जी री फौज रा काम आया—

- 1 राठोड साहबखान मुथरादासोत चापावत ।
- 1 राठोड खगार द्वारकादासोत बालो ।
- 1 राठोड गोयनदास बीरमदे लुणावत धवेचा ।
- 1 राठोड भावसिंह प्रथीराज लूणावत धवेचो ।
- 1 राठोड मनाहरदास राधोदासोत अत्तराजोत ।

1 सोमवार दिसम्बर 15 1679 ई ।

2 गुरुवार, मई 13 1680 ई ।

3 गुरुवार मई 27, 1680 ई ।

4 खेतामर-ओमिया स 6 मील दभिण पश्चिम म ।

5 मगलवार जून 1 1680 ई ।

- 1 राठोड अखेराज लाडखानोत ।  
 27 रजपूता रा चाकर वाम आया
- 
- 

राव इद्रसिंह जी रा वाम आया

- 1 राठोड किशनसिंह प्रागदासात ऊदावत रेख रपया 20 000) ।  
 1 राठोड गोवीनाथ केसरीसिंहोत जोधा, रेख रपया 10,000) ।  
 1 राठोड राजसिंह स्यामसिंहोत इसरात रख रपया 13 000) ।  
 1 राठोड जसवतसिंह नाहरखानोत मेडितियो, रेख रपया 4 000) ।  
 1 राठोड रतन किसोरसिंहोत मेडितिया गर चाकर थका ) ।  
 1 राठोड हरराम भनोहरदासोत करमसोत रख रपया 4 000) ।  
 1 राठोड हरनाथ गिरधरदासोत करमसोत रख रपया 4 000) ।

30 बाजे लोक वाम आया—

- 19 रजपूतारा चाकर ।  
 8 गोलमदाज ।  
 2 मुहना ।  
 1 प्रोहित ।
- 
- 

30

---



---

110 चायल हुधा—

सिरदार 25 ।

रजपुत बगरह और लोक 85 ।

राठोड दुरगदास जी सोनगजी री फने हुई, भालुरदारी रा ऊट वहीर  
रा पोठिया घोडा स गया ।

149 ऊट सिरकार रा 17 बजार रा 12 रजपूतारा 80, पडतल 40 ।

---



---

149

---



---

ऊट लिया पद्ध नडाई हुय चुका पद्ध गाव मेनासर रे तालाब ऊपर महाराज  
थी अंजीतसिंहजी गी फोज रा डेरा था ने अधशीम ऊपर इद्रमिह जी ऊभा था ।  
तर चारण खिंचा गोरघन ने पाणी रे वास्त मेडियो न विसठाना करायो ।  
तर महाराज थी अंजीतसिंह जी री फोज गाव चेराई डरो किया ने राव इद्रसिंह

जी तलाव ऊपर डेरो कियो । दुसरे दिन सुद 15<sup>1</sup> नू कूच करने असाढ बद 10<sup>2</sup> जोधपुर आया । ने पातसाहजी नू खबर मेली सो मुकरव खा नू मदद मेलियो । सो जोधपुर रे गाव देहीजर<sup>3</sup> असाढ सुन 13<sup>4</sup> आयो । तर इद्रसिंह जी मुकरवखा रे सामल हुय राठोड दुरगदासजी सोनगजी रो पीछो कियो । सो मुकरवखा गाव नवाई सू किर ने गाव रोहेहे डेरो कीयो, ने इद्रसिंह जी गाव बानोतरे जाय डेरो बरन मलीनाश जी रो दरसण कीया । रावल भारमल हरीदास मिलियो न महाराज अजीर्णसिंहजी री फौज लेड माहे छै ने राणा रा पाठा मे पेठा ।

समत 1737 रा आसोज<sup>5</sup> मे पातसाहजी अजमेर था साहजादा अकबर ने, न तेबर खा न फौज दे राणा राजसिंह ऊपर विदा किया सो मारग मे ऊदावत री चसिया ऊपर दीडिया सो गाव कुडाडह लडाई हुई । लठ ऊदावत स्पसिंह कु भवित चलरामोत आदमिया चालीस सु 40 सु काम आयो । सोजत मे होय गांव नाडोलाई डेरा हुआ । तहवर खा गस्त मे चढियो थो सो आसोज सुद 14<sup>6</sup> गाव नाडोलाई<sup>7</sup> लडाई हुई । एक अणी मे तो राणो भाव राजसिंहोन थो ने एक अणी मे राठोड दुरगदास जी सानगजी था सो राठोडा री अणि था लडाई हुई राठोडा री फते हुई । दतरा काम आया तिणा री विगत—

- 1 राठोड सूरजमल भीव भोजराजोत ऊदो ।
  - 1 राठोड इद्रभाण मुकनदाससोत साहूलोत जोधो ।
  - 1 राठोड रूपसी राठोड अजर्वसिंह बीरमदे श्यामदासोत ।
  - 1 रा बान विठलदास जनो बरसलोत दूपा ।
  - 1 रा श्यामसिंह माधोसिंहोन भोपतोत जेतो ।
- 

## 6

पातसाही फौज रा आदमो 150 दोढ सो काम आया न 80 असो आदमी थायन हुआ । तबर या हठ न कोस 5 पाछो डेरो किया । पातसाहजी सुणियो तर एतराज होय फुरमायो के तो हाया मे चूडिया पहरो के घाना मे पेठा ।

समत 1737 रा काती सुद 10 सुक्कर<sup>8</sup> राणा राजसिंह जी देवलोक हुवा ने जैसिंह जी टीके बठा । दुरगदास जी सोनगजी गोहरम रा पहाडा म हाय ने

- 1 बुधवार जून 2 1680 ई । 2 शुक्रवार जून 11 1680 ई ।
- 3 दहीजर=जोधपुर से 9 मील उत्तर म ।
- 4 मगलवार जून 29 1680 ई । 5 सितम्बर 1680 ई ।
- 6 साप्तवार सितम्बर 27 1680 ई ।
- 7 नाडोल—देसूरी से 10 मील उत्तर पश्चिम म ।
- 8 शुक्रवार अक्टूबर 22 1680 ई ।

मिगसर<sup>1</sup> मे मेडत आया । सो राह मारी<sup>2</sup> व्योपारिया कना सू मोहरा लिवो । मिसरी खाड किरणो लूटियो । मेडता कना सू रुपिया पचीस 25 000) हजार त्रिया । पछ डीडवाण सहर बने रुपया 51 000) इकावन हजार लिया । दीननारखा रो थाणो थो सो किंहुक उणा कना सु लिया । धरती घणी लूटी । पातसाहजी अजमेर था फोज म्हेली थी । सो पाछ पाछ किरी । राठोड नागोर रे गाव ॥

राठोड आईदान बनमालीनासात रे गाव आया तठ क्यू हीक बोलाचालो होय सडाई हुई चापावत हरीसिंह महेसदासोत काम आया । पातसाही फौज तागोर था किर हजूर गई । गाव जालीबाडे साहजादा अक्वर रा लिदमतगार ताजमहम्म चोहाण भावसिंह राठोड कने आया कहयो य माहो भेला हुवा जाधपुर राजाजी रा बेटा न ममारक (मवारक) मा न दिल्ली बेसाणो तहवरखा न राठोड रामसिंह रतनोत रा बचना सू देसूरी भ साहजादा सू मिलिया । गाव चाचोडी तहवरखा रो बेटा मिरजा मानी राठोड रामसिंह रतनोत साहमा आय राठोड ने ल गयो । गाव खोड भे साहजादा अक्वर तखत बठो आमवास कीय महा बद 93 राठोडा ने सिरपाव 2 घोन 2 तरखार 2 हाथी । एक मोहरा हजार 1000) इनायत किवी । न पातसाही चाकर मोसमखा तीन हजारी मुदे थो तिण ने कद कीयो ने अजमेर पातसाही ऊपर चलाया सा कोस दोड ॥। डेड रे गाव बुधवाडो तठे डेरा किया ।

मटामुद 8<sup>4</sup> । पातसाह ग्रीरगजेड कने घोडो हजार 4 000) चार ने नवी सदा उकीन लोक था । भ्वे री झडी हुई । पातसाह इनायतखा खालसाह रो दिवाण था तिण न तेहवर खा री जोह लडकी ने मारण रा फुरमाया । तर न्नायत खा आप र जवाई तेहवर खा न हकीकत लिखी । पातसाह रो पजो बाल भेलियो । तर तहवर खा राठोडा ने केवायो हम थासू माहरो बचन नही द्य । आ कहेन पातसाहजी बन गयो । हुक्म हुवा हतियार खोल हजूर आओ । इन सस्तर नही खोलिया । तर मराय नखायो । नूजो ही लोक साहजादा सू बटन पातसाहजी बने गयो । साहजादा आलम रा डरा राजसागर ताजाव था, सा आ खबर सुण सिताव अजमेर आया । माहजादा बन ली फौज सारी विखरी । राठोडा अक्वर ने खबर दिवी । अक्वर नीद म सूतो सा ना तो दुरसत खबर पहुचे ना पाढ्यो जाव आव तर राठोडा जाणियो तोत दीसे थे । जिएमू नगारो दे ने चढ गया । लारा सू अक्वर ने राठोडा री खबर दुष्ट पहुची । तर हुरम 2 खवासा 25 घोडा चनाय हाय आयो सो गऱ्यो जवाहर ल राठोडा रे पासे चलाया । मारण मे भरा सू मुरावलो हुप्रो ।

1 नवम्बर 1680 ई ।

2 राहमारी-मार्ग कर ।

3 सामवार जनवरी 3 1681 ई ।

4 मामवार जनवरी 17 1680 ई ।

साहजादा ने जनाना मरदाना सोका तीरदाजी कीवी । सो सेवट गेणा रो डब्बो मेरा न देने निकलिया सो गाव राबडिया भे राठोड रे भेला हुवा । राठोड असवार मेल मरा कनासू गहणा रा डब्बो मगाय दीयो । पातसाहजा हजार 30 तीस घोड़ा दे साहजादा आलम कने लारे विदा कियो । राजा इंद्रसिंहजी राठोड रामसिंह रतनोत नवाब कीलचखा वरेरे ने माथे मेलिया । अे हरोल था । जालोर कने जावता पातसाही कौज री भारवरदारी हाथी भारा ही राठोडा खोस लिया । इण गेर चाकरी सू कीलचखा रा सूबा तागीर कर बद कियो । जालोर कना सु पेसवसी ले राठोड ने साहजादा अकबर साचोर री तरफ आया । ने अकबर ने राठोडा रा लोक रस्ते साचोर भाह मु ल्यावे था तर इतरा काम आया समत 1737 रा फागण बद 9 भास<sup>1</sup> ।

- 
- 1 पचोली भोपत साढ़लोत ।
  - 1 पचोली बालमुकन रूपचदोत ।
  - 1 देरासरी पोहकरणो सहदेव ।
- 

## 3

गाव कोट कोलर रा डेरा साहजादा आलम बात कराई । राजा रा बटा ने मुनसब मे जागीरी उतन छे सु बहाल अकबर ने गुजरात रो सोदो दो छा । आठेहराय खरची री मोहरा हजार 4 000) चार खरची मे राठोडा न दीवी । तिके राठोड हरी सिंह मोकमसिंहात बाघ मुरारदासोत, जुझारसिंह कुसलसिंहोत अे जामन होय न ले आया धरती रो विगाड मत बरो जिते पातसाह जी कना सु फुरमान मगाया ने मोसम खा रो बेटो ओल दाखल मेलियो । असवार 200 दोय सो सु तिका पारवती डेरो कीनो । ने राठोड सोनग रे मिलण रो करार हुवो थो, सो आ बात अकबर दुरगदास रे मन भाई नही ने सोनग मिलण ने तइयार हुवा । तर दुरगदास जी कवायो 'ओलमे मोसमखा रा बेटा नू ल्याया छ अकलो अकबर कने लावो' । ने सोनगजी असवार हुवा सो आ बात मोसमखा रा बेटा ने राठोडा कबूल नही कीवी । तर इण बहयो नही कबूलो तो मेल किसो । जद बान बोहत<sup>2</sup> रही । तर बाघ ने हरीसिंह वरेर साथ कहयो मेल नही करो तो मोहरा पाढ़ी दो । मै मोहरा रा जामिन या' । तर अकबर ने दुरगदास जी कहयो मोहरा तो साथ ने बाट दीवी । कहो तो साभर डाडवाणी ऊपर माहरी पसकसो रा बाबी छे सु लिख देवो । तर राठोड हरीसिंह बाघ जुझारसिंह वरेरे घणो गाँ<sup>3</sup> कीया मरण माडिया तेर दुरगदास जी कहयो मरसो तो जीव सु जासो । पिण इसा रजपूता खादा सु

---

1 मगलवार फरवरी 1, 1681 ई ।

2 निरस्त ।

कठा सू देवा' । तर बाघ हरिसिंह वगरे मोसम रा वेटा तू साथ लेने साहजादा आलम सू हकीकत कही, ने इणा बूच कीना । तठ पचोली पचाइणदास तिलोकचदोत पेहला अजमेर मे पातसाहा री खबर रे वास्त उकील कर राखियो थो बुलाया आया । राठोड दुरगदास जी न साहजादा अक्बर था मिलिया इतवारी दानाई री हकीकत मालम कीवी । तर घोडो । खासो दीयो मोहरा 13) तरे खरची री दीवी लस्कर मे मुदे किया समत 1737 रा चेत बद 5<sup>1</sup> ।

समत 1737 रा वसाख सुद 10<sup>2</sup> इनायतखा खानसामा दोष हजारी — नव सदी मुनसपदार ने पातसाही जोधपुर रे सूबे मलिया सो आयो । राव इद्रसिंह जी रो खट्टो<sup>3</sup> जोधपुर सू नागोर गया ।

समत 1737 रा वेसाख बद 3<sup>4</sup> साहजानो अक्बर राठोड दुरगदास महेवा रे गाव आया । तठ साहजादा आलम रा हरोला सु लड़ाई हुई । तर इतरा काम आया—

- |   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | राठोड अचलसिंह जसकरणीत जोधो ।              |
| 1 | राठोड हरीदास तू एवत जतमलोत ।              |
| 2 | प्रोहित नारायणदास प्रो रुधो ।             |
| 2 | राठोड भोजराज क्लावत जोधा भाटी श्यामसिंह । |
- 
- 

6

पालणपुर धिराद बन पेसकसी लीवी ने आवू सिरोही हुय अक्बर न दुरगदास जी राणा जपुर कने आया । सो उठे रहए रो विचार नही दीठो । तर दिखएने चालिया । राणा जी रूप्या 1500) पनरे सो ने धोया 80 दिया । भाला जता ने पोहोचावण मलिया सो वासवाढा सू घोडा सिरपाव दे पाछी सीम दीवी । राज पीपले होय दुरगदास जी प्रक्बर न से दिखए मे गया । साहजादा प्रक्बर रा जनाना ने खरची वरस दस री दे ने राठोड रुधनाथ पूरावत पचोली जगनाथ रामचदोत, ने बाडमर राखिया ने उठा रा भोमिया न घणी भोलावण दीवी, सो घोकी पोहरा रो घणो जावतो कीयो ।

मारवाड ने राठोड रो घणो साथ भेलो हुवो । तर जोधपुर रे सोबायत इनायतखा साहबदी खा ने मदत रे वास्त बुलायो सो आयो । न चापावत सोनग

- 
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | रविवार फरवरी 27 1681 ई ।  |
| 2 | रविवार अप्रैल 17 1681 ई । |
| 3 | परिवार ।                  |
| 4 | रविवार माच 27, 1681 ई ।   |

विठलदासोत भाटी किसोरदास महेशदासोत भाटी रामसिंह मुकनदासोत ऊदावत राजसिंह बलरामोत, वगेरे जोधपुर ऊपर आया । तर लडाई हुई । ताँ काम आया

" तिरंगरी विगत—

विगत—

- 1 राठोड लालसिंह दिणधोडदास कू पावत ।
- 1 राठोड राजसिंह सबलसिंहोत मालदबात ।
- 1 भट्टारी किसोरदास महेशदासोत ।
- 1 भालो भावसिंह मुकनदासोत ।
- 2 भालो फतेसिंह भावसिंहोत हूल खेतसिंह ।
- 1 धाधल मुकनदास सुदरदासोत ।
- 2 राठोड झेतराज, रा ॥ श्यामसिंह विहारीदासात छदो ।
- 1 भट्टारी आसो प्रागदासोत ।
- 2 भट्टारी भोजराज, भ ॥ उदराम रामचदात ।
- 2 भट्टारी रामचद नायावत, खीची सुदरदास रूपसिंहोत ।
- 2 चोकी घरो घरो दोतो भाई पुकरणा ।

16

ने आदमी 70 और काम आया । दिल्ली री हकीकत दें—

नरवदा भरवर्द्यारे घाट साहजादो अकबर रो ने राठोड दुर्गदास रो साय तो पार हुवो ने लारे अहमदाबाद रे सयद हासू रो बेटो मुहमद सेवा करता । राठोड जतसिंह न पछड तियो ने कछवाहा उदेसिंह नू मारियो । पछे शिवाजी रा शम्भूजी मुलक सालर समत 1737 रा जेठ बद 5<sup>1</sup> पोता तर पडित चिट्कुजी साहमो आय घोडा । न रुपया 500) पाच सो निजर कीया । पछ आगे 2 सिभू जी रा गढ आणा आयो तिणा रो पाणेदार घोडा रोकड न मेवो निजर सारा लाया सालर रा डेरा बासेर पाथ सो पातसाहजी पकड लिया । सा छाडिया । चारण आसियो घनराज राठोड मुथरदास मनोहरदासोत ने रजपूता 1 काम आयो

सिन्न जी खुदानपुर था । तर कायमखा ने पिडित नाहजी ने भेलिया हकीकत वही तर सिभू जी आप रा उमरावा मु कामदारा मु सलाह मसलहत किवी । सो बीजा तो सलाह राखण री दिवो नही ने छाहण कलस तइलिंग<sup>2</sup> ने राठोड

1 गुरुवार अप्रैल 28, 1681 ई ।

2 यह शम्भाजी का प्रधान था ।

नेतृजी पच हजारी था, त्या ने कहयो— पातसाहजादो ने राठोड भेला हुवे ने थारे कने आया छ । सबा जी चाहता था पिण मू हुई । राखी जे । पातसाह आया धरती माय विखा हुवे तो हुवे, पण इण बात सू चूक्जे नही । इण बात मे बडो जस छ । पछ सारा नू भेला कर बात ठहराईजे न पवार हिन्दू जी, ने साहजादा अकबर जी कने रेहण वास्ते मुक्कर कर मेलिया । ने कारतलब खा नू घोडो सिरपाव पालखी रोकड दे ने विदा कीयो । सो आयो । न कहयो याहरो घर छ माहरा घर मे छ । सो याहरा काम नू छ मेह चाकरी करसा । ने खालादाणा री घणी जावता कीवी रुपया खरचा ने दीया ।

समत 1738 रो पौष बद 2<sup>1</sup> सीयाला री छावणी कीवी ने रायगढ था कास 17 पातसाहपुर थे तठ सिभूजी सू साहजादा अकबर जी दुरगदास जी पहली पहल मिलिया । दुतरफा पावडिया दोनू सिरदारा चढ ने ढाती सू हाथ लगाय जुहारकर तकीना<sup>3</sup> रे छेडे दोनू सिरदार वेस बाता घडी 2 ताई करन आप आपरे डेरे आया ।

साहजादो अकबर ने दुरगदास जी दिखणे मे गया ने सिभू जी था एकठ किया री पातसाह जी ने हरकारा खबर दीवी । तर राणा जी सू सुलह करने पातसाहजी दिखण री मुट्ठम री तथारी कीवी ।

जितरे लबर आई के मेडतियो मोखमसिह किल्याणदासोत तोसणी रो धगी पातसाही चाकर थो तेहवर खा तालवे । सो तेहवर खा ने मारिया पद्ध घर वेस रयो जिण सु पातसाहजी खेचल कीवी । तर थो ही सोनगजी सामल हुवा । ने राठोडा बगडी लूटी । सोजत मे सिरदार खा हाकम थो तिण सू लडाई हुई । सिरदार खा नास गयो ने इतरा महाराज रा काम आया—

- 1 चापावत कान गिरधरदासोत ।
- 1 चापावत हरनाथ गिरधरदासोत ।
- 1 चापावत चुतरो हरिदासोत ।
- 1 सोहङ विशनो बाधावत ।
- 1 सीधल दलो गोदावत ।
- 1 राठोड विजो चुतरावत ।
- 1 सायासी सिमुपुरी ।

1 शुक्रवार दिसम्बर 16 1681 है ।

2 पादशाहपुर (पानी के किले से 6 मील पूर्व म) अकबर ने सम्मान मे बसाया गया था ।

3 तकीना—।

तर इनायतखा ने जोधपुर सु बुलायो । वासम खा न लारे रातियो । साहजादा आलम रा बेटा अजीमुद्दीन दीवाण असदखा न अजमेर राखियो । ने फुरमायो वे राठोडा ने लगाय लोजो । ने पातसाहजी समत 1738 रा आसोज सुद ६<sup>१</sup> दिवण ने हूच कीयो । असदखा राणा भीवसिंह राजसिंहोत री मारभत राठोडा सु बिसठातो करायो । सोनगजी बेसेरे नवा सिरदार अजमेर ने चालिया, सा गाव पुनलोता<sup>२</sup> रा ढरा सोनगजी अजाणचक मर गया । गोड सतो हृई । असद खा युएयो, तर बिसठातो मोहुब राखियो । तरे राणो भीवसिंह सोनगजी रा भाइ अजवसिंह नू बेवायो के सोनगजी रा मरण सू मारबाड री बात हलकी सी बही । तिण सु जेज पढ़ी थ । ये किसो बर क देखा सा तर देसी । तिए ऊपर राठोडा होडवाणा कन पेसकसी ले, मबराणो लूट, काती बद 14<sup>३</sup> मडतो लूटीयो । दिन 2 इदावद<sup>४</sup> रहया । पातसाही फौज ल असदखा रो बेटो ईतना खा ने सिरदार आया । काती सुन<sup>५</sup> । सोम<sup>६</sup> लदाई हृई तरे इतरा काम आया—

#### 5 खाप चापावत—

- 1 राठोड अजवसिंह बिठलदासोत ।
  - 1 राठोड सबलसिंह खानावत ।
  - 1 रा रामनिह करण बलूभ्रोत ।
  - 2 रा नाहरखा रा हरीसिंह महेमदासोत ।
- 
- 5

#### 6 खाप महतिया—

- 4 राठोड गोपीनाथ राठोड साटूल, राठोड अरजन गोपीनाथोत, राठोड घासीराम ।
  - 2 राठोड अनोपसिंह राठोड कुसलसिंह ।
- 
- 6

#### 3 चारण जला तीन

14

- 
- 1) शुक्लार सितम्बर ४ 1681 है ।
  - 2) पुनलोता—डगाना रलवे स्टेशन स 7 मील दक्षिण मे मेडता से 24 मील चत्तर-पूव मे ।
  - 3) शनिवार, अक्टूबर 29, 1681 है ।
  - 4) इदावद—महता स 8 मील दक्षिण पश्चिम मे । विगत 2, पृ 132 ।
  - 5) सोमवार, अक्टूबर 31 1681 है ।

समत 1738 रा काती<sup>1</sup> मे राठोड उदेसिह लखघीरोत, विठलदासोत चापावत ने राठोड खीवकरणे आसकरणोत, राठोड मोहकमसिह कल्याणमलोत, पुर माडल लूटी ने कासमखा दिखणे जाता था तिण सू रोलो कियो। ने पातसाही नगारो निसाण खास लिया। राठोड मुलक रूट पहाड़ा मे रहता। लारे पातसाही लोक घडतो सो हाथ नहा आवता।

पछे समत 1739 लागा पछे ऊदावत जगरामजी राणाजी रा मेवाड मे चाकर हा पछे पातसाही चाकर रहया सा छाड ने राठोड सामल होय ने जेतारण याणा मारिया घणो मुलक लूटिया। चापावत बीजा जी बगेरे सारा सरदार यारा यारा फट न यारो यारो विगाड कियो। जोधा उदेसिह जी भाद्राजण सु मुलक मे दोडता। पछे उदेसिहजी खीवकरण जा, दुरगदास जी र भाई साथ भेलो कर दाढा करण गया। लारे सर महमद आणे पोहोता सा राड हुई तरे इतरे आसामिया काम आई—

- 
- 1 भाटी भगवानदास विठलदास रो।
  - 1 भाटी जोवराज पीथा रो।
  - 2 प॥ शिवदास, भा रायचद रुषनाथोत।
  - 1 प्रोहित सुदर राहण रो वासी।
- 

5

और रापूत घणा काम आया।

राठोड मुकनदास साढूत रतनसी मालदेवोत जोधो विखो हुयो तिण दिन सू भाद्राजण मे रहतो। तिण उपरा जोधपुर था नवाब इनायत खा रो वेटो उमरली (नूरग्रन्थी) घोडा हजार 4 000 सु समत 1740<sup>2</sup> आयो।

तर राठोड मुकनदास आपरा साथ सू बडी लडाई कियी। नाल 1 बडी ने मुरतनाल रा ऊट 20 लोक लिया। सिपाही 30 शारीया उमरली। (नूरग्रन्थी) नाठो ने खीची रथा दासावत आदमी 4 च्यार सु काम आयो। दूजी बार उमरली (नूरग्रन्थी) पर आयो तर काम आया तिणा रो विगत—

- 5 देवडी हरीदास आदमी 50 पचास सू।
  - 3 सीधत भीव रो रजपूत देवडा झगरसीरा।
- 

1 घरकूवर-नवम्बर 1681 ई

2 जुलाई 1682 ई के बाद। 3 1683 ई।

- 13      मसायव सीता रो भादमी ।  
 17      बालोत माधा रा दूजा भादमी 15 ।

— —  
38

पछे इतायदया सूजायत था गया था सो मामलो ही कीयो न पेसकसी ही दीवी, ने भाद्राजण मे भेतीभांत भू वेठया रहया ।

समत् 1740<sup>1</sup> लागो मेडता कानी मोखमसिह मेडतियो धूम मचाई, ने जतारण कानी उदावत जगरामजी दीडिया । उदेसिह जी सारण रया, दीडिया । पथ पातसाही सोबादार मोखमसिह मेडतिया ने मनाय पाथो तोसीणे वेठाणियो । फेर दधारो दीयो । जोधा उदेभाण मुकनदासोत न भाद्राजण री चोरासी मे बसाए दीयो । दूजा सिरदार मुलक लूट सियो । खीवकरण भासकरणोत, तेजकरण दुरगदासात, वगेरे साथ भेलो कर फलोधी री तरफ लूट कीवी । पथ चांपावत सावतसिह भाटी राम वगेरे गाव चवाल वगेरे मारिया । पछे ऊदावत जगरामजी ने भेला ले मेडतियो साढूल तुरका सू मिलतो जिण ने मारीयो । पथ जोधपुर सोजत दिवे परणा गाव मारिया, न सोजत ऊपर चलाय ने गया, तर सोजत रो थाणापत वेहलोल खा साहभो आय लडाई किवी, तर काम आया—समत 1740 वैसाख<sup>2</sup> म तिणा री विगत—

- 1      राठोड सावतसिह जोगीदाम विठलदासोत ।  
 1      राठोड हिमतसिह सक्तसिह सुदरदासोत मेडतियो ।  
 1      राठोड विहारीदास मोहुण्डासोत ऊवत ।  
 1      सोनगरा अनापसिह तेजसिह माधोसिहोत ।  
 1      राठोड धनराज भीरतसिहोत गागावत ।  
 1      भाटी रामसिह मुकनदासोत जेसा ।  
 3      रजपूता काम आपा राठोड सावतसिह जी रा—  
     1      राठोड मेघराज बीरमदेयोत चांपावत ।  
     1      हाक स्यामो सूजावत ।  
     1      आसायच गोक्ल गागावत ।

— —  
3

— —  
9

समत 1740<sup>1</sup> मे करमसोत प्रतापसिंह प्रथीराजोत दोडियो । अनो कू पावत तुरका री तरफ सू बाले हो जिण सू कियो । पछे इनायतखा सिवाणा री तरफ फुँदलखा ने मेलियो । भेडतियो मोहमसिंह तुरका कानी सु मेडत हो सू मेहमद अली न मेडत मल बेबचा ऊपर चूक करायो । आ नवदर पातसाह कने गई तर पातसाह ओलोमो लिखीयो क ‘राठोडा ने फाड चाकर राखो । घरती रो भेद लेवो । सारा न बेराजी बर बेंडो बरजो भती । पछ सुजाणसिंहजी ने बुलाय सोजत जावता सारु इनायत खा ने मेलियो ।

समत 1741 रा भाटी रिणछोडदास राम हुरदासोत साथ भेलो बर दोडियो । पछ भाटी उदेभाण दिखाए दुरगदास जी कना सु धरे आवतो सो साजत सुजाणसिंह जी रा साथ मु केनीजिया<sup>2</sup> सो भगडो हुम्रो, तठ काम आयो । सगराम सिंह जुभारसिंहोत पातसाही पटो छोड विला कीयो । पछ सारा सिरदार बराइक भेलो होय दोडता तर जोधपुर सु इनायत खा लारे चत्तो । आगे जाता कानी कानी बिल्वर विल्वर जुदा जुदा तुगा बर च्याह तरफ सू मुलक विगाडता । तर तुरका सू कए ही बदोबस्त हुतो नही । या सिरदारा रा कबीला मगरा मे ने सिवाण रा ढूगरा मे रहता जठे सिरदार पाछा परा जावता । जोधा उदभाण मुकनदासोत भाद्राजण रो तुरका रे जाकर थो, सो तुरका नूरअली फौज देर मेलियो भगडो हुवो जठे नूरखा पोचो पढीयो ।

पछ फेर तुरका री सावठी फौजा गई । उदेभाण जी भाद्राजण छोड निसरीया । मगरा म जाय मुलक विगाड कीयो । पछ भगवानदास जोगीदासोत मुकनदास सुजाणसिंहोत जेतसिंह आईदासीत सारा भेला होय फेर जोधपुर री तरफ घणो कीयो ।— गठिया गगराणा रो मान सावठी पाडियो ।

जतावत उरजनसिंह प्रतापसिंहोत दलथभण जी रो फितूर उठायो न तुरका सु मिलवो चालतो नागोर रो गाव कूचेरो पटे हो, सो छोड मगरा मे आय मुलक रो विगाड कियो ।

राठोड लिखमीदास पता सागा नगराज धनराज करमसोत साथ भेला बर खरची सवाय सिवाए पुडदल खा फौजदार थो पातसाही मुनसवदार तिग ऊपर जाय ने समत 1741 रा चत मुट<sup>3</sup> 2<sup>4</sup> मारियो न आदमी 180 बीजा मारिया बडी फते कीवी ।

1 1683-84 ई ।

2 1684 ई ।

3 मुरभेड हो गई ।

4 गुद्वार माच 26 1685 ई ।

सारा सिरदारा भेला होय समत 1741 रा चेत सुद 4<sup>1</sup> गाव काकाणी पातसाही लोक सु भगडो हुवो ।

नूरगली जोधपुर मूँ जोडी री ब्रफ जावता मारग मे सोजत री गाव महेव भाटिया री मारी । भाटी सबलसिहजी री 2 दोय ठाकुराणिया काम आई, ने दोय ठाकुराणिया ने सबलसिहजी पकडिजीया । पछ सबलसिहजी बेडिया घका दोनू ठाकुराणिया ने काट धणा तुरका र मार समत 1741 रा चेत सुद 1 काम आया<sup>2</sup> । नूरगली तोडा री तरफ गयो सो ऊठे काम आयो ।

करणोत खींचकरण साचोर मारी ।

समद् 1742 लायो<sup>3</sup> पछ जोधो हरनाथ चद्रभाणोत देखाणा रो, पठाण कुसालखा भेडते जोधपुर सु जावतो थो जिए नू मारियो । पछ सारा सिरदार भेला होय जालोर री तरफ जाय मुलक लूटियो । मुहयो उगरो कबीला ले जालोर जावता, सो बिहारी फतेखा मारग मे गाडा लूटिया तर मुहतो कबीला काट काम आयो सबद् 1742 रा वसाख बद 14<sup>4</sup> ।

राठोड विसनदास केसोदासोत जेतसिहोत बालो गाव मोकलसर आपरा साथ मूरहतो ने जोधपुर मूँ सोबायत ऊपर आयो । तिण मु लडाई कीवी, जायगा छूटी नही । राठोड मलक मे बिगाढ करता रहता न टाबर कबीला पहाडा मे रहेवो क्या ।

### दिखण री हकीकत

साहजादा अकबर ने राठोड दुरगदास जी लारे पातसाह औरंगजेब दिखण मे गयो । मुरतबेखा यामतदारखा रो राव इद्रसिह रायसिहोत, अहमदखा काकर खा, नाहरखा इणा ने घोडा 5,000 दे साहजादा ऊपर मेलीया । भगडो हुवो । पातसाह फोज रा आदमी 400 चार सो काम आया ने दिखणी सिमूजी री तरफ जादम पनो साहजादा सामल थो तिण रा आदमी 9 काम आया । सिमूजी री तरफ सकर राम<sup>5</sup> थो तिण पातसाही फोज री वहीर लूटी । ——मध्यन्दर नीचे गाव आसटे (आष्टा) कारखाने थी, राठोड विजसिह कचरावत बगेरे उठे था, ने गाव मछरोड नागो जी मानियो ऊपर आयो (स० 1739 रा) जेठ सुद 3<sup>6</sup> तर काम आया—

1 रविवार माच 29 1685 ई ।

2 बुधवार माच 25, 1685 ई ।

3 जुलाई 1685 ई ।

4 रविवार—अग्रीत 11, 1686 ई ।

5 शक्तर नारायण ।

6 शनिवार, मई 19, 1683 ई ।

1 इदो गीगो चोरासियो छडीदार । ।  
 1 समीसाह ।

---

धायल हुग्रा—

1 स्त्रीची मोहोका र लोहो 10 लागा ने धाओ बडियो ।  
 1 मटेवचो तजमाल र भालो 1 लागो ।  
 1 पडियार हीरा र तीर 1 लागो ।  
 1 माडल भीवला र लाहो 1 लागो ।  
 1 पीपडा सुजाण र लोहो 2 लगा ।  
 1 भाटी बजूर र लोहो 2 लागा ।  
 1 राठीड विजेसिह बचरावत रे चाकर र लोहो 1 लागो ।

---

7

समत 1740 जेठ<sup>1</sup> मे पातसाह जी वेग नी री दाई नदाई रा वेटा मीर खसील न साहजादा अबबर कन विस्टाले मेतियो । सा साहजादे कहयो हजूर ता नही आऊ । ने सुबो अहमदाबाद रो ने माहरा धन असदाव तिया सा दवा तो कबूल करो । आ विस्टालो पार पडिया नही ।

समत 1741 रा आसोज मुद 8 व्यास लिखमीचंद द्वाणाचारजात सिभूजी कना मु खरची री हुडिया लने आवतो था सो गाव माटा मे हवसी उपर आय पडिया । बास रा आदभो 2 काम आया न व्यास लिखमीचंद ने पवन पातसाह जी कन मूरत ले गया ने कद बीयो । सो राजा अनोपसिहजी पातसाह जी मु घरज कराई 'मारो गुह छे । तर महाजना न जामन से ने छोडिया ।

पातसाह भोरगजेव बीजापुर रा पातसाह ने पकड कर किया बीजापुर तियो ।—

समत 1743 रा वास मुद 5<sup>2</sup> भोवना नदी र बीनार नीवगाव<sup>3</sup> ढरा हुग्रा न पातसाही मनसबदार मुरतब खा फैज से उपर आया तर जाहजादा अबबर र मुहादा आग लहाई हुई तठ इतरा वाम आया—

- 
- 1 भग्नेश-मई 1684 ई ।
  - 2 सोमवार भक्तवार 6 1684 ई ।
  - 3 गुरुवार निसम्वर, 9 1686 ई ।
  - 4 नीमगोव—चाकन स 5 मीन उत्तर पूर्व म स्थित ।

राठोड जोधो भारमलीत १ ने ।

कू पो सुरताण रामचादोत ।

### 3 खाप ऊदावत—

1 राठोड उदेभाणसिह श्यामदासोत ।

1 राठोड रूपसिह श्यामदास नाराणदासोत ।

1 राठोड टा राम (१) अणदराम द्वारकादासोत ।

---

3

1 खाप चापावत—राठोड उदेसिह महासिह वेसरीसिहोत ।

3 खाप जेतमालोत—

1 राठोड गोपीनाथ अमरावत ।

1 राठोड खीवसी सुरताणोत ।

3 राठोड विजेराम सबलसिहोत ।

---

3

1 बीको राठोड भारतसिह रतनोत धायल हुबो पडयो, सो पकड पातसाह कन ल गया ने करहो जाव कीयो, तर मारियो ।

2 मागलियो राजसिह जसवतोत, १ पवार मेहाजल रो ।

1 बीडाणो जीवावत कलो ।

3 विरामण रे साय रा—

1 सिरीमाली जोसी लाल सती दासरो ।

1 पाहकरणो सिंवजी सहदेव रो ।

3 विरामण देरासंरी विदियाघर सारगधर रो ।

---

3

### 24 रजपूता रा चाकर काम आया—

1 राठोड किसोरदास दयालदासोत जौधा रो चाकर रा देईदास सु दरदास वरमसोत ।

1 चुहाण उदेभाण ईसरदास ऊदावत रो, रजपूत चीहान अमरा ।

1 राठोड रूपसिह रो रजपूत ढू गो धायल थो, सो पछ मूँदो ।

1 राठोड उदेसिह माहर्सिहोत रा ढूम बानो ।

2 राठोड दुरगदास आसकरणोत रा—

1 राठोड साढूल माडणोत ।  
1 भाटी राजो ।

---

2

18 दूजा फेर

24

4 साहजादा अवबरजी रा चाकर—  
1 अजमत खान ।  
1 .....  
1 विलद खान ।  
1 अजीम खान ।

---

4

44

राठोड दुरगदास जी दिखण में घणी लडाया कीवी ।

समय 1743 रा सावण भ<sup>1</sup> मारवाड म सु खीचो मुकनदास रो कागज  
आयो तिण म लिखोयो—

राठोड उदेसिह लखधीरोत बगर सारा सिखदारा मासू घणी ताकी<sup>2</sup> करे  
द्य के देस मे किर सका नही ने खाण त्रु मिला नही । त राजाजी पाव सू छे सो  
बारे पधरावो सो दरसण करे । तो जमीयत भेली हुव न खाण त्रु मिल । सो थे  
वगा प्रावज्यो । मासू हमे छिपाया राखिया जासी नही, तिण सू हमे चापर कर  
राज देगा” प्रावज्यो । सो मारवाड सू अे कागद आया साथ पिण घणा वरस हुम्हा  
जिण सु आखतो<sup>3</sup> हुको । तर दुरगदास जी साहजादा अवबरजी या श्ररज विवी  
ने “मासू वण आई सो ता चाकरी किवी फेर मारवाड म पधारो । मैं चाकरी सू  
हाजर था । तर साहजादे कह्या के “मारवाड ता मार देखीयोडी छ धारी तरफ सू  
काई बात री कमर राखी नही । पिण पातसाहनी भावे तरे ठर सका नही । सो  
हमार ता मद निहाज बठ विलायत री तरफ जावसी ने थे हिंदस्थान म जावो । मैं

1 जुलाई 1686 ई

3 उतावला ।

2 फुर्ती से ।

## जोधपुर राज्य की स्थान

हिंदूस्थान म आवा तर घणी जमींदत ले सामा आवज्यो । ने साहजादा मुलताने ने हुरम मारवाड मे घ तिणा नू भली भाँत मानू ज्यू जाए ज्यो त्रै ब्रदास पातसाह जी री फोज दोली आय फिर, ने वध पकडता जाणा ती गेले छुरो फेर दीज्यो । पिण श्रीरगजेव जी ने दीज्यो भती ।” इतरी बात कर फागण बद 8 माठम बुध<sup>1</sup> गाव टीटव राठोड दुरगदास जी न विदा देस ने किया ने आप उठ रया पथे ज्याहज वेठ ने विलायत नू गया ।

राठोड उदेसिंहजी मुकनदास जी भगवानदासजी तेजसिंहजी चांपावत ऊदावत जगरामजी राजसिंह जी जोधा उदेभाण जी, बगेरे भेला होय पहली तो मालपुरा कानी मुलब लूट पेसकती लीबी, पथ्य सिवाणा री गाव मोकलसर डेरो कियो । ने सारा विचारी दरवार आठ बरस रा हुय गया सो जाय बारे लावो । आ घणी ठीक घ । पछ उदेसिंह जी सिरोही जाय मुकनदास जी खीची सु मिलिया न कहयो “श्री दरवार सु माने मिलावो सारा राठोड भेला हुमा है सो ले जावसी ।” तर मुकनदाम जी कहयो “ये मानू सूपिया नही । दुरगदास जी सूपिया है सो उणां आव बताव सू । तर उदेसिंहजी आखता होय ने कहयो के ‘एकला दुरगदास जी सु गरज सजसी नही । घणा राठोड सु गरज सजसी । तर मुकनदास जी जाएरी के सारा राठोड बेराजी हुवे, सो करणो नही । पथ्य हाकारो भरियो । मुकनदास जी श्री दरवार सु सारी बात मालम करी “इण तर सारा राठोड कहे घ ।” तर श्री दरवार कुरमाया “ठीक छे ।”

पछ समत 1743 रा वसाख बद 5<sup>2</sup> सिरोही रा गाव पालडी<sup>3</sup> महाराज श्री अजीतसिंह जी वारे पधारिया । माताजी श्री नागणेचिधाजी री पूजा कीबी । उदेसिंहजी मुजरो कियो । डेरो वारे कीयो सारा सिरदार मालपुरा कानी गया । तर हाडा दुरजनसिंह जी ने साथ लाया । सो सिरदारा साभल मोकलसर था । सो समाचार आया के श्री दरवार वारे पधारिया है, सो ये अठे आवजो । तर सारा सरिदार श्री दरवार कन गया । ने आप आपरी मिसल मे डेरा किया । श्री हजूर दरवार कीया । सारा सिरदारा मुजरो कर निजर निछ्वावल कीबी । हाडा दुरजन सिंह जी ने दरवार कुरव दीयो । खातरी कीबी । हाड दुरजनसिंह जी मातिया री माला निजर कीबी । पछे साथ भेलो कर मगरा मे सोजत तरफ आय मुलक विगा डियो । ने सिवाणो दीयो । मुलक मे सारा गावा मे हासल म चोथ लगा दीबी । तर दरवार रिकाले यठ दाखल हुआ । मुलक भह लू चोथ आदणी सुर हुई । मुलक म ही चोथ लागणा सू आराम हुमा । तुरका जाणी मुलक आवाद हुओ ।

1 बुधवार जनवरी 26 1687 ई ।

2 बुधवार, माच 23, 1687 ई ।

3 पालडी आवू से 6 मील उत्तर म, सिरोही से 18 मील दक्षिण पश्चिम मे ।

राठोड दुरगदास मासवरणोत दिल्लण सु आवतो मारग म रतलाम सू जोधो अखसिह रतनसिहोत ने साथ लिया । पातसाही मुलब लूटियो । मागरा सू बास 20 या हमसार<sup>1</sup> रो मुलब लूटिया । जेठ बद 5° मालतुरो लूटियो । मालपुरे सेद कुतुब या सो साहमो आय लड़ियो । तठे राव घनोपसिंह ईमरसिंहोन रे वाण लागो सो काम आयो । तलाव उपर दाग दीयो । न धायल हुमा तिण री विगत—

- 1 राठोड मदनसिह मनरुपोत जोधा रे तीर 1 लागो ।
- 1 राठोड चुप्पमुज नाथावत रे तीर 1 लागो गोली लागी ।
- 1 राठोड फतेहसिह इसरदासोत छनावत रे तीर 1 लागो ने मद रा आदमी 60 काम आया ।

सद रो गाव रतनयल सूटियो तठे सहाई म धायल हुमा तिण री विगत—

- 1 राठोड नाहरसिह रामतिहोत जोधा रे तीर 1 लागो ।
  - 1 राठोड माधोसिह जोगीदासात रे तीर 1 लागो ।
  - 1 राठोड श्यामसिह बणीआसोत रे तीर 1 लागो ।
  - 1 राठोड मदनसिह र तीर 1 लागो ।
- 

#### 4

सिरमाली ब्राह्मण रामकिंगन काम आयो । सइदा रा आदमी भव 100 सो मारिया । घेकडी बगरे रा गाव सहर लूटिया ।

समत 1744 रा सावण सुद 10<sup>3</sup> महेवा रे गाव भीवरलाई<sup>2</sup> आपरो बसो रा गाडा था तठ आया । बाहडमर जाय साहजादा सुरताण रे पगे लाया । ने हजूर मे अरज लिखो के हु दिलए म छ्व बरस दोडियो । पछे मारग म आवतो तरे रतलाव सू जो धो अखसिह जोधा रतनसिहोत ने साथे ले मातपूरो बेकडी बगर लूटिया पेसकसी लीबी अनोपसिहजी काम आया सद कुतुब सू भगडो कर मारियो । मामू बणियो सू तो थी दरवार री बदयी कीबी हुमे ऊ टिन हुव थी हजूर आऊ दरसण करु । फेर समाचारा री अरज करणी है सो उठे आया कर सू अरजी थी हजूर बाची । राजी हुवा पछ माहाराज थी अजीतसिह जी गाव तलबाड थी<sup>3</sup> भनीनायजी

1 हिसार<sup>(2)</sup> । 2 शुक्रवार, अप्रैल 22 1687 ई ।

3 सोगवार अगस्त 8 1687 ई ।

4 भीवरनाई = बाडमर से 34 मी पूव, द, पूव मे ।

5 तलबाड = सिवाणा से 25 मी उत्तर पश्चिम म ।

रा दरसण करण पधारिया । ने ऊठा भू गाव भीवरलाई नाती बद 11<sup>1</sup> पधारिया । राठोड दुरगदासजी सारा साथ मू साहमाँ आय पगा लाया । हजूर सिरपाव दिया, न घण्टे सातर फुरमाई । पछ दुरगदास जी अरज कियी के 'आप तो पीपलोद रा पहाड़<sup>2</sup> मे पधार विराजो ने माह बने साथ सावढा छे सो घरती म घोषो फेर आवा छा ।'

महाराज श्री अजीतसिंह जी बारे पधारिया री ने इनायत खा सिवाएा रो गढ ने मूलका म चोय दे, महाराज सुलह कियां री दिलए म पातसाह जी मू मालम हुई । तर पूरा किकर कीयो । ने इनायत खा ने श्रोलमा लिखीयो क हमे थे ही बदावस्त कर माहाराज न पकड़ ले ज ।' पछ इनायत खा तो मात मर गया । न गुजरात मू सावेदार मारतल खा आयो । ने राठोड सारा भेना हाय ने जोधपुर री तरफ दोडिया । लारा तुरका रा घोडा चढ़िया । झगड़ो हुबो, मदारी मयाचद काम आयो । सिवाणो तुरका छुडाय लिया । दरवार छपन र पहाड़<sup>3</sup> म जाय रह्या ।

ममत 1744 रा बाती बद 13<sup>4</sup> हाडा दुरजनसिंह जी राठोड अखराज रतनात जोवा राठोड, दुरगदास बरणोत रा, गठोड मुकनदाम चापावत सोजत रा राठोड सुजाणसिंह केसरीसिंहात जोधा ऊपर गया मू सहर गढ सभायो ने सुजाणसिंह झगड़ो कियो । तठ इतरा बाम आया—

- 1 मुहतो सिखमीनास, राठोड अखेराज जी रो चावर ।
  - 1 राठोड रामसिंह जेतर्सिंहोत रा रजपूत ।
  - 2 धाय भाई रुघो गाधा रो राठोड अखेराज जी रो, कोटेचो चादो ।
- 

4

राठोड दुरगदास जी सपामसिंह जी, सिध री तरफ पेसकसी लेण गया । जगरामजी राजसिंहजी, दुरजणसिंह जी बगरे सिरदार जेतारण री तरफ आया । जीहा निंो सोजत सुजाणसिंह केसरीसिंहोत र ही । सारा सिरदार भेला हाय सोजत ऊपर आया । पिण सोजत छूटी नही । पछ मोजन सू सुजाणसिंह जी साथ भेलो बर जगरामजी रा मगरा मे गाव बररी सीव म जगरामगढ हो जिण ऊपर गया ।

- 
- 1 शुक्रवार, अक्तूबर 21 1687 ई ।
  - 2 सिवाणा से 5 मील दक्षिण म ।
  - 3 सिवाणा से 13 मील दक्षिण म ।
  - 4 सामवार अक्तूबर 24, 1687 ई ।

झगड़ो हुवो जगराम जी सुजाणसिंह जो गढ़ पाढ़, पाढ़ा सोजत आया । पछे दुरगदास जी सिध माह सू आय पुर माडल बने देसवसी लीवी ।

समत 1744 रा बेत सुद 14<sup>1</sup> राठोड़ अखेराज जी राठोड़ दुरगदास जी, भगवानदास जी मुकनदास जी रा गाव भोकलोद जारोडे डेरा होता था ने मदसौर रो ने उजीसु रो फोड़दार चलाय ऊपर आयो न झगड़ो हुवो । तठे साथ घायल हुवो तिण विगत—

- 1 राठोड़ भीव गापीनायोत रे तीर लागो एक ने घोड़ो रे तीर 1 गोली लागी ।
  - 1 राठोड़ बरन भदावत रे घोड़ी रे तीर लागो ।
  - 1 भाटी सुदर रायपालोत रे घोड़ा रे गोली लागी ।
  - 1 मागलिया महेसदाम रे घोड़ी रे गोली लागी ।
  - 1 अजमेरी खमीसा रे बेटा रे तीर लागो ।
- 

5

जठा पच राठोड़ मदनसिंह मनरूपोत नू साथे दे राठोड़ अखेराजजी कने राविया था सो रामसर रा डेरा बसाव बद 6° तुरका सू दूजी झगड़ो हुवो तठे काम आया तिण री विगत—

- 4 कछवाहा सिरदारसिंह सुजाणसिंहोत आदमी 4 काम आयो,  
पिडा 1 — 1 पचोली अखेराज, 2 रजपूत ।
- 

4

17 बीजा साथ रा रजपूत रा चाकर—

- 4 घायल हुवा—
  - 1 राठोड़ मदनसिंह मनरूपोतरी धागती बटी ने घोड़ा रे घाव लागो ।
  - 1 राठोड़ ईसरदास आसवरणोत घाव 2 लागा, घोड़ी काम आई ।
  - 1 राठोड़ अचलसिंह मेडतिया रे लोहो घाव 1 लागो ।
  - 1 कछवाहा लूणरण रे घाव च्यार लागा ।
- 

4

25

- 
- 1 बुधवार अप्रैल 4 1688 ई ।
  - 2 बुधवार अप्रैल 11, 1688 ई ।

समत 1744 रा फागुण सुद 13<sup>1</sup> पुर ऊपर डेरा बारले राठोड मखराज जी हाढो दुरजनसिंह जी राठोड दुरगदास जी आसावत सेहर ऊपर, गया । माह बायम खानीया मभाय भगडो हुमो, तठे बाम आया त्यारी विगत—

4 काम आया—

- 1 हाढो दुरजनसिंहजी ।
  - 1 बछवाहो विद्रावनदास ।
  - 1 रा मूरजमल क्लावत ।
  - 1 आहाण सिरमाली मुर्लीधर ।
- 

4

आयत हुमा—

- 1 राठोड मखराज जी रे तीर एक लागो ।
  - 1 गठोड म्यानसिंह मानसिंहोत मेडत्या रे तीर 1 लागो रजपूत रे पाव 3 तीन लागो ।
  - 21 सिरदारा र धाव लागा      --- ऐक बारठ बेसरीसिंह रे तीर एक लागो ।
- 

23

आयमखानीया रा आदमी जणा 40 मारिया, न घोडा 25 खोम लिया । ठोड रघनाथ देवकरणोत सेलाप ऊपर गयो थो, तठ राठोड अमरो आसकरणोत पावत बाम आयो ।

बूदी रा धाणी हाढा अनुरुधसिंह र ने हाढा दुरजनसिंह जी र आपस मे मेल हुवो तर दुरजनसिंहजी बारे निसर बूदी रो विगाड करता था । तिए ऊपर देवकरण मू पातसाहाजी क्न अनुरुधसिंह जी सीख कर बूदी आया । तर राठोड रगदास जी करणोत विसटालो कर बर भाज भेला वसाण दुरजणजी रा बेटा लेलतमिह जी फतेसिंह जी नू पगे नगाय मुलह कराय राखिया समत 1744 रा तिगण<sup>2</sup> महीना मे ।

चद्रावता रे ने मखराज रतन महेसदासोत रे माहोमाह वर थो सो चारण रिणदास न भेल विसटालो कराय मुलह कराई, ने सगाई दोय 2, ने हपया )

1 रविवार माच 4 1688 ई

2 फरवरी माच 1638 ई ।

राठोड असराज नू दिराया समत 1744 रा चेतसु<sup>5</sup> ।

समत 1745 रा मिगसर बद 5<sup>2</sup> गूषरोट रा पहाड़ा<sup>3</sup> म श्री महाराजा जी रे राठोड करणोत दुरगदास जी पावा लागा ने राठोड दुरगदास जी नू न राठोड उदसिहंजी ने महाराज सिरोपाव देने काम सूपिया ।

समत 1745 रा फागुण सुद 8<sup>4</sup> जालार री पेसकसी लेण साह राठोड तजकरण दुरगदासोत राठोड राजसिंह असेराजोत न मलिया था सो गाव सेणा सू कूच करता दीवाण कमाल खा री फौज सू भगडा हवो तठ इतरा काम आया—

1 शीसोदियो राजसिंह सबलसिहात रा ।

1 राठोड हरनायसिंह अमरावत जेतमालोत रा ।

2

समत 1745<sup>5</sup> — पातसाह दिलए म सिभू सेवा ने पकडियो ।

समत 1745<sup>6</sup> रा काजम वग जोधपुर सू चढियो सो सोजत रा गुरा जेनावत नाथा नाराणदासोत न पकडियो ने गाव मारिया ने तुरक कियो । आ बात पातसाह सुए राजी हुवा साबादार ने निवाजस हुई ।

समत 1746<sup>7</sup> रा मेडतियो राधोनास दुवारकादासोत आवला रा पातसाहो चाकर हो सो छाडिया । जिण ने मडता रा सोबादार भहमद अली मेडता सू दिल्ली जावतो हो । सू मेडयितया गोकलदास जावला रा न जोधा हरनायसिंह चद्रभाणोत देवाणा रा असी 80 बोस ऊपर मिरजा मेहमद अली ने जाय पोहातो ने राधोनास रा बर मे मेहमन्अली न मारियो ने उण री बोजी न पकड लाया ।

समत 1747<sup>8</sup> रा — श्री महाराज अजीतसिंह जी री बोथ मुलक मे लागती राहानारी रा याणा रेहता जिण री पातसाहजी न खबर गई तरे सोबादार मुजायत खा ने ग्रोलभो आयो । तर सुजायतवा कहया के छाने लिया जावा चवडे याणा मत रखा । तरे उणी तरे लिया गया ।

1 सोमवार माच 26 1688 ई ।

2 शुक्रवार नवम्बर 2 1688 ई ।

3 गूषराट पहाड़ सिवाणा स 13 मील पश्चिम दभिण पश्चिम म ।

4 रविवार फरवरी 17 1689 ई ।

5 1689 ई । 6 1689 ई

7 1689 ई । 8 1690 ई

समत 1747 रा माह सुद 13<sup>1</sup> राठोड मुकनदास सुजाणसिंहोत चापावत राठोड मानसिंह दलपतोत मेडियो मेडता री चोय रा फोजनार था तिणा ऊपर धन कोली खायमखानी आयो तिणमु झगडो हुवा तठे इतरा काम आया विगत—

- 1 कछवाहो कु बो देईदासोत ।
  - 1 सेखावत फत्तेसिंह राजसिंह तेजसिंहोत भालेज ।
  - 20 धायल हुवा, रजूता रे चाकरा रे धाव लागा ।
- 

समत 1748<sup>2</sup> रा सुजाणसिंह जी रे मेडता री हीसो मोकूदा करने नागौर रा कबर माहकसिंह हृद्रासिंधोत रे हुई ।

समत 1748 रा मेवाड मे राणा जसिंहजी रे ने कबर अमरसिंहजी रे आपस म अमेल हुवो । तर राणा जसिंह जी भाग धाएराव रा ठाकुर गोपीनाथ जी कने आया जद रो दूहो छे—

राणा जतन कर राखिया गाढो गोपीनाथ

दरवार न खलीना मेलीया के भाह रो ऊपरा करो तो आ बगत छे । मे ही आढा भावासा । पछे दरवार मुकनदास जी ने मेलीया तर राणे जी पाढो लिखयो वं दुरगदास जी ने मेलज्यो । तर श्री दरवार दुरगदास जी न पुरमायो “थ जावो” ।

तर दुरगदास जी लारली चाकरी थट सू लगाय सुणाई न अरज बीबी के बन्गी तो मे इतरी बीबी ने अठे मुलक रा धावला<sup>3</sup> खोस लोक मालक हुवा’ । तर श्री दरवार यातरी कुरमाई । न दुरगदास जी ने राणो जी कन मेहलिया । राणोजी दाढी ताइ सहमा आया । पछ दुरगदास जी राणोजी सू अरज बरी तुरक ता हृद्वाना घटाया चाव छ । म्हारी तो जमी हाल गईज है न आपरा धर म विरोध पडियो है सो आछो नही । दोनू तरफा आपरो खराबो हुसी । नही तर कबर न लगाय लिराबो न यारो पटा दिराबो ।’ तर राणाजी मान लिबी । ने इणीज तर कबर न आदमी मेल समझायो ने केवाही म्हे राठोड सारा राणाजी सामल हा सो काढ देसा ।’ तर कबर अमरसिंह आ बात मान लीबी । राणाजी राठोडा रा धोडा एक 1000 हजार चाकर राखिया । उदपुर गया । माहोमाह फेर कतो हुवो । जद रो गीत छ—

“मालहर विखायत थकै हर मेटियो,  
राणा रो विखो अगजीत राजा ।

कह छे महाराज पिंडा धाएराव पधारिया था । दुरगदासजी रो बचन कबर न दिरायो । पछ कबर रे मन मे उठारा उमरावा अभेरासो धालियो, जिए सु कबर

1 रविवार फरवरी 1 1691 ई ।

2 1691 ई ।

3 धावरा ।

चढ़ ने परो गयो । दुरगदास जी फेर राणजी नू ने कवर जी नू मनाय एक किया श्री एकलिंग जी रा मंदिर में । ने पछे राणजी तो उदपुर गया ने कवर जी राज सामर रा महला मे रेया — — ।

पछे जेठ रा महीना<sup>1</sup> मे राणाजी बनासु विदा होय दुरगदास जी तो तोडा री तरफ गया पेसकसी लीबी । भगवानदास जी पाढ़ा हजूर आया । मुकन्मास जी सुजाणसिंघ जी चापावत डीडवाणो कानी जाय पेसकसी लीबी । पछे मठते आया । कवर मोखमसिह मू झगडो कीयो । कवर नाठो तापा खोस लीबी । पछे कवर मोखमसिह गाव तातुवास राठोड जसकरण हरीसिहोत करमसोत ऊपर गया । इण आगे नागोर रा गाडा लूटिया था जिएनु दुरगदासजी तोडा री तरफ गया था । पुर माडल सहापुरो बडलो, सरवाडे फूलियो खारी रा ढाहो गोडा सीकोदिया कने जायगा पेसकसी लिकी दरीबो मारियो । देवगाव गोड चादा नीचे था सो दुरगदास जी चदा ने काढ ने जोधा नरसिह अखेराजोत ने बसागियो ।

समत 1748 रा काजमवेग गाव उमरलाई सिवाणा री असाढ सुद 9<sup>o</sup> मारी । सीसोदियो अनोपसिह रायसिहोत राठोड दुरगदास जी ने आय कहयो के भने महारे भाया तोडा माह सू काढ दियो है । हमे मोनू रजपूत लेखबो<sup>2</sup> ने मारी मदद करो । तर दुरगदास जी उदेपुर सु परवारा तोडा ऊपर गया । सो समत 1748 रा असाढ बद 14<sup>o</sup> सहर लूटियो उठे काम आया तिएना री विगत—

1 राठोड किरतसिह कसरीसिह सगत सिहोत जोधो ।

1 राठोड कल्याणदास बद्धराजोत चापावत ।

5 पडिहार जोधो । बीजा रजपूत 4 ।

7

पछ बात करने रुपया दस 10 000) हजार दिया । ने राज महल उतररण नू दियो थो ।

समत 1748 रा असाढ सुद 14<sup>o</sup> बावल २६ भडसीये राठोड दुरगदासजी आसकरणोत ऊपरा अजमेर रा सोबायत नवाव आयो । लडाई हुई, तर काम आया त्यारी विगत—

1 मई 1692 ई ।

2 रविवार जून 12 1692 ई ।

3 लेखबा = समझो ।

4 शुक्रवार जून 3 1692 ई ।

5 शुक्रवार जून 17, 1692 ई ।

6 बावल परगना=अजमेर सरकार म बतमान बावल किशनगढ़ से 13 मील पश्चिम मे ।

- 1 राव गुमानीचद देवीचदोत तिलावचदोत मनोहरपुर रो घणी ।  
 1 तिवाडी हरजी  
 1 राठोड तजसिह पिरयीराज वीरमदेमोत रजपूत जणा दोय 2 ।  
 1 भाटी दोलतखान रथनायोत ।
- 

बीजा सरदार रजपूत 40 चालीस घायल हुवा, ने पातसाही लोक 60 काम आया ।

समत 1748 रा पोहो सुद<sup>1</sup> --- राडदारो रावत ईसरजी रे गुडा री गाया चोहाण चादेजी लिबी । तर बाहर चढिया था । तर रावतजी काम आया । पछ वेटो ठाकुरसी राठोड दुरगदासजी नू मदद रे वास्ते बुलाया था । सो फायुण वद 13<sup>2</sup> सुराच्छद कोटे र धेरो दियो । दिन पाव 5 खडिया पछ राणा साढून ने केवायो 'कदीला कोट मे राखो ने थारे तुले ज्याते ले वारे जावो थानू मारने थारा वेटा नू टीझो दे म्हे जासा' । तर बाथेते माह सू केवायो "इए तर तो राणजी ने बार नही काढा ।" पछ रातरा निसर गया । पछ कोट ढायो<sup>3</sup> । माह आदमी 8 आठ था सो मारिया ।

समत 1748 रा असाड<sup>4</sup> मे भेडता रा परगना मे चौब राठोड मुक्कदास चापावत लेतो थो । ने कवर माहक्तसिह ऊपरा आया । तर घोडा रे गोली लापी सो भूमो । न अठीरा आदम्या रे घाव लागा, तिणा री बिगत—

- 2 सोनगरो देइदास करणोन राठोड भीब सबलसिह दलपतोत कू पावत  
 रे घाव 3 तीन लागा ।  
 1 राठोड विठ्ठलदास ।

भाटी रिणोद्धोडदास छोडीयो सो गाव भावरो मारिया ।

समत 1749<sup>5</sup> रा जोधपुर सू काजमवेग रा वेटो अला कुली चडियो साथे मुजाणमिहजी था । सेतरावा वगरे गावा म बिगाड कर जोधपुर पाढ़ा परा गया । पइ सुजाणसिह जी नू मनसफ इजाफा सिवाणा री रदन वदल हुई । मुजाणसिहजी सिवाणो कबूल किया । अर सिवाणा री तरफ कूच कियो । इतरा म खबर आई देवगाव राठोड नाहरसिह ऊपर गोड आया । मुजाणसिह जी रा कवर किसनसिह जी, जूनिया वेवडी सू नाहरमिह जी मदद गयो थो । सो भादवा सुद 11<sup>6</sup> काम

1 दिसम्बर 26, 1691 ई के बाद ।

2 गुरुवार फरवरी 4 1692 ई ।

3 दुग छवस्त किया गया ।

5 1692 93 ई ।

4 मई जून 1692 ई ।

6 शुक्रवार अगस्त 12, 1692 ई ।

आयो । आ बात सुजाणसिंहजी सुए ने गोडा उपर चलाया । पेला पिसाणए आय बवर करण जुभारसिंह नू ले ने जूनिया गया । विसनसिंह रो कारज कर पछ साथ भेलो कियो । राडे री तयारी कीवी । गोडा रे मुदे । गरीबदास बगर जिए 4, भताजा उदमिह बगरह बटा 8 आठ जूनिया सू वरण जुभारसिंह बगरे बीजेपुर आय लागा । गोडा गट सभायो । धेरो दियो दिन 20 हुआ गढ़ तूटे नही । तर सुजाणसिंह जी आया । मास तीन गोला री राड हुई । पछ सेमान खूटो तर गोड निसर गया । पछ साथ दीडियो गोड जिए 14 विजसिंहोत काम आया । पछ करणजी ने गढ़ मे राखते सुजाणसिंह जी उठा सू कूच कियो ।

गुजरात सू नवाब जावपुर आयो न सुजाणसिंहजी ने जोधपुर बुलाया । महाराजा सिवाएंद्रो दावियो थो ने आप पीपलोद रा पहाड़ा मे रहता ।

समत 1749 रा माह<sup>1</sup> म पातसाह श्रीरगजेव जी रो हुकम अजमेर रे सोबायत नवाब सफीखा नू आयो के राजाजी नू अजमेर बुलाय मुनसफ री जागीरी री अरज लिख सी सू मजूर करा । तिण सू नवाब श्री दरबार ने समाचार दिया । तर दरबार अजमेर री तरफ मगरा मे भरत्व सामगढ़ कानी डेरा कर मुकनदाम जी ने अजमेर मेहलिया । सो जागीरी अजमेर री निरद री देणी कही तर मजूर नही किवी । ने उठा सू कूच कर सुमल चाग मानपुरे बोडाच हुय सारण सिर्यारी आय डेरो कियो । नवाब आपरी तरफ सू अजमेर रे गाव <sup>2</sup>—म याणा वेसाणा राहा रो हासल आवे सो ले था ।

समत 1750<sup>o</sup> सुजाणसिंहजी महेवा रा रावल भारमल मिरजा सू मेल बराय चाकर राखियो । गोड केसरीसिंह प्रथीराजोत र ने जोधा सुजाणसिंह रे मिरजे भर भगायो । पछे मुकनदाम जी बगरह वसिया री ऊपर करण आयी । सुजाणसिंह जी मिरजो सुवाणा रो गाव कु ढल बगरे मारिया । पछ श्री दरबार ही कूच कर गाव सिगली पधारिया ।

पछ दुरगदासजी आव तो ठीक छ । दूजा सिरदारा रे कहयो अजमेर जाय सिवाएं ही गमायो । पछ थी दरबार दुरगदास जी बन पधारिया । दुरगदास जी सामा आया । दरबार भीवरलाई पधारिया गोठ किवी । दुरगदास जी री दरबार खातरी कीवी । न फुरमायो थे माने अजमेर जावता नू वरनिया पिण मजूर नही कीवी । तर तुरका दगा सू सिवाणो ही गमाया । दुरगदास जी री खातरी कीवी । दुरगदाम जी अरज कीवी आपरो भरोसो दोय महीना सू आवसी । तर आप हाजर हुय जामू । तर दरबार बराजी हाय पाढ्या गाव कुडल डेरा आय किया ।

1 जनवरी—फरवरी 1693 ई० ।

2 1693—94 ई० ।

उदसिंहजी काम रा मालम दूजा सरदार सारा भेला होय तुरका रा थाणा उठाय तुरका सू भगडा मोकला बिया । जालीर री तरफ गया चोथ उगाई । उठ भगडो हृष्टो । अजमेर रा सावायत सफी खा जेठ सुद 9<sup>1</sup> मीत मर गयो । दरबार सिवाणा र गाव सहल डेरा राखिया ।

समत् 1750 रा फागुण सुद 6<sup>2</sup> जोधपुर सू जमातदार औरग खा दौडने गाव राठोड हठीसिंह सावतसिंहोत खाप चापावत नू पकड जोधपुर ले गयो । सो समत् 1751 रा मिगसर वद 4<sup>3</sup> विहारी कमाला हस्त हाथी । देने छुडाया ।

समत् 1751<sup>4</sup> रा साहजान अवधर रा वेटा मुलतान ने वेगम दोनू दुरगदास जो कने था । सु पातसाह नराणदास कुलबी गुजरात री पाटण रा ने भेजन क्यो—“मान सू प देवा थाने जुदी मनसव पातसाहजी देसी ।” सो दुरगदास जी मानी नही ने कहयो के ‘पेहली श्री दरबार न मुनसफ हुवे, पद्ध हू लेऊ’ । तर नराणदास पाढो पातसाह कन गयो ।

पद्ध दुरगदासजी ने मुकनदासजी, तेजमिहजी मनाय ने लाया । दरबार सामल होय जोधपुर जालार विचला गावा मे ने सिव बोटडे पोहोकरण तकात सारी ठोड पेसकसी ले मुलक मे किरिया । लार काजमवग, राठोड भगवानदास जोधपुर मू चढिया । पिण बयू ही हुवो नही । पाढ़ा परा गया । पाढ़ा आवता गाव रिडमलमर मे पातावत जीवणदास ने मारियो पद्ध श्री दरबार गाव कु इल आया ।

समत् 1752 रा माहा सुद 5<sup>5</sup> श्री महाराज रा डेरा बोट बोलर था । तठ जोधपुर रा मावायत सुजायत खा री तरफ सू लस्करखा थो सो आयो । भगडो हुवा । तर नागोरी अलीमहमद ने गुजराती सिरदार न आदमी जणा 80 अमी काम आया । पद्ध लस्कर खा नाठो बड़ी पते हुई । न महाराज रा उमरावा रे जख्म लागा पिण बचीया री विगत—

- 1 राठोड सु दरदास अमरावत खाप कू पावत रे गोली लागो ।  
1 सोलबी वारम रा घोडा र तीर लागो ।

1 बुधवार मई 23 1694 है ।

2 मगलवार फरवरी 20, 1694 है ।

3 शनिवार अवतूवर 27 1694 है ।

4 1694 F. 1

राणा जसिहजी ने कवर अमरसिंहजी रे केर दूजी बार अमेल हुवो । तर समत् 1752 रा जेठ मे<sup>1</sup> राठोड उदसिंह मुकनदासोत खाप जाधा नू राणा जसिहजी मे ल नू वेवायो वे माहारे ने कवर अमरसिंह जी रे अमेल छ । सुलेह कराय दबो ता अठे रहसो जितरे खरच मैं देसा । ने भाई गजसिंह री वेटी परणावा । ने हाडा नू दायजो दिया जितरो देवा । तर आ बात म जूर बरी । घोडा 2 दोय रुपे रा पिलाए सूधा छावो हाथी 1 नालेर 1 सान सू मडियो दियो । पछ गाव वयो हरख वास्ते पधारिया । तर उदपुर था कोस 3 राणोजी साहमा आय मिलिया । हाथी 1 रुपा रे होडा सू न घोडा 2 साबत सूदा निजर किया । ने पछ घाडा 2 महाराजा गजसिंहजी नजर दिया । पछ असाड वद 7<sup>2</sup> राणोजी डेरे आया । गाव आहड हजूर डेरा कर माहे वेसाण आदे तोरण बाधने परणोजण पधारिया । पछ श्री हजूर गगाजल आरोगियो ने वासे रखो सो राणोजी आरोगियो घणी सगा विधने धणी मनवार मे रहया । भेला आरोगिया । पछ दायज म इण मुजद दियो—

हाथी 9 घोडा 46 वेस 150 बागा

पछ कवर अमरसिंह जी सु समजायस कीवी क विक्षेरो करण म वयू ही सवाद नही । पातसाह पिण लागू द्ये । तर कवर म जूर कीवी । राणाजी र ने कवर रे सुलह कराई । पछ राणोजी तो उदपुर गया ने कवरजी तलाव राजसमद गया ।

पछ श्री हजूर साहबा रो कूच असाड सुद 3<sup>3</sup> हुवो वे सेड विखरी ।

उमेसिंहजी श्री महाराज सू वेराजो हृष्य उदपुर राणाजी र चाकर रथा सो पाढ्या मनाया ।

पातसाहजी रा हुकम नवाब सुजात खा ने आया के 'साहजादा अकबर री हुरम ने साहजादी साहजादो मुलतान राठोडा कने है । सो दुरगदास सु बात कर जामीरी देणी करन ज्यू होवे ज्यू मुरताए ने हजूर म पाहोचावजो । तर समत् 1754 पास<sup>4</sup> म राठोड दुरगदास आसकरणोत ने राठोड मुकनदास सुजाएसिंहोत चापावत रणा जीव म लालच घार नवाब सु बात बरी वे मनसक दिरावो अकबर जो रा वेटा मुलतान ने सूप देसा । मो इण बात मू लाक्षि म दुरगदासजी करणात री चक चक हुई<sup>5</sup> । श्री दरवार दुरगदास जी सू मिलिया ने फुरमायो के 'लोक भे

1 भई-जून 1696 ई ।

2 गुहवार, जून 11, 1696 ई ।

3 सामवार जून 22 1696 ई ।

4 नवम्बर-निसम्बर 1697 ई ।

5 अग्रिय चर्चा फली ।

बाता कर दे ।" तर दुरगदास जी पांची भरज करी के 'हू आपरा मतलव रे वास्ते काम बणाऊ थू । पेहला थी दरवार रो काम कर सू पछ मारो कर सू ।' पछ नवाब सू दुरगदासजी दरवार रो न आपरो ने बीजा सरदारा न भनसब री पकाई कर साहजादा जी ने लं सु जायत खा रे साथे वहार हुवा । सा ऐमदावाद रे मुकाम चेला सहवेग साथे साहजादा जी ने मेलिया । पालखी 1, हावी 2, हथसिंणा 2, घोडा 10, निसाण, खोजा 4, ने दुरगदासजी वगरे रे मुनसब रो तालीको मेलियो । तिए री विगत—

| जात   | असवार | आसामी                                |
|-------|-------|--------------------------------------|
| 3000  | 2000  | राठोड दुरगदास आसकरणोत ।              |
| 600   | 500   | राठोड खीवरण आसकरणोत ।                |
| 500   | 300   | राठोड तेजकरण दुरगदासोत ।             |
| 500   | 300   | राठोड भेहकरण दुरगदासोत ।             |
| 400   | 200   | राठोड अर्मकरण दुरगदासोत ।            |
| 300   | 100   | राठोड अनोपसिंह तेजकरणोत ।            |
| 400   | 200   | राठोड दलकरण जसकरणोत ।                |
| 500   | 200   | राठोड देवकरण जसकरणोत । <sup>1</sup>  |
| <hr/> |       |                                      |
| 500   | 300   | राठोड रूघनाथसिंह सुजाणसिंह आइदानोत । |
| 600   | 300   | राठोड मुकददास सुजाणसिंहोत चापावत ।   |
| 200   | 100   | राठोड मोहकमसिंह ।                    |
| 200   | 100   | राठोड महासिंह ।                      |
| 150   | 50    | पैमसिंह ।                            |
| 300   | 100   | भाटी दूदो चाद्रभाण भाव रूघनाथ ।      |

राठोड दुरगदास आसकरणोत रे जानीरी री विगत विरादरी सूधी 2 32 27,823 परगने मेडतो दरोवस्त सायर सूधी ने कस्बो नवाब सुजायत खा ।

<sup>1</sup> अख (लादन), श्रीरग , 48-2, पृ 118 अ-व ।

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
|             | रे रहतो पछ दरोवस्त ठाकुरा री जागीरी<br>म हुओ ।    |
| 40 00 00    | परगने जेतारण पाई ।                                |
| 20 00,000   | परगने विवाणे दरोवस्त ।                            |
| 1 28 86 258 | गुजरात रा परगना ।                                 |
| 71 79 981   | धाषुको (सरखार प्रहमदा<br>बाद) ।                   |
| 10 45,000   | राणपुर सिरकार सारठ ।                              |
| 33 82 287   | प्रापर चौलको (परधारी<br>तालको ?) सोरठ ।           |
| 12 79 790   | इस्लामनगर मढी (माडवी<br>?) हवेली सिरकार<br>सोरठ । |

---



---

राठोड मुकनदास सुजागसिंहोत चापावत ने पाली री जागीरी ने फोजदारी मनसक मे हुओ । साहजादा ने पोहचावण ने सुजायत खा सुरत रे गाव क्षूबी सूधो गयो थो । राठोड दुरगास हाथ बाध हवियार खोल पातसाहा जी रे पावा लागो न मोहर एक 100) सो ने रुपया एक 1000) हजार निजर विया । दिन हजूर रहिया । पछ पातसाहजी फुरमापो के साहजादो अकबर पारी सलाह मे द्ये सू ले आवो । तर उठा सू विदा हुय सिध गया । न तेजकरण ने आगे म्हेलिया थो । सा साहजाना री विसटालो कि हुई पार पडियो नही । पछे हुकम आया ये गुजरात तइनात होय ने पाटगा री फोजदारी करो । तर उठया रहया । गुजरात साहजादो आजम रहतो ।

पातसाह ओरनजेव जी जहानाबाद सू दिवाए असदखा री म्होर सू सुजायत खा जोधपुर रो सोबायत था तिण ने तिलियो दोन हजारी जात ने 500 पाच सो असदार मुनसफ न जानीरी मे जालार ने महाराज थी अजीतसिंहजी ने देजो न उठारी हीज फोजदारी दीजो । तर उण हीज मुजव सुजायत खा दिवी । ने महाराज समत 1754 रा जेठ सुद 13<sup>1</sup> जालोर गढ दालिल हुआ । महाराज थी अजीतसिंहजी र जालोर हुआ पथे कर्द्दन सरदार रहता ने केईक सिरदार आप आप रे ठिकाण बठ गया न तुरवा न पईसो देता ।

## बोधपुर राज्य की स्थान

समत 1759 रा मिग्सर बद 14 सनवार<sup>1</sup> महाराजा वार थी उद्देशिहजी  
रो जम हुया।

जतावत उरजनसिंहजी यगडी रा पली न चापावत उद्देशिहजी भाऊवा रा  
पणी जालोर रहता। माराज पणा मुलायजो रातता। परथानगी पाली रा पली  
चापावत मुकुनदास रे थो। दीवाणगी भदारी विटलदास रे थो। ने मारवाड रो  
मुनमप करणोत दुरगदासजी रो तरफ सू भदारी विटलदास तू थी। जालोर  
मुजब भाजीबका सारा रजपूतां चालरा ने कर दिया थी। पणा मिरदार पातसाही  
चालर रह गया था। न जालोर सायर री गालस<sup>2</sup> हूती सा धायण री धायण  
च्यार 4 पातिया बाट लता। पातो । एक तो थी महाराज रा गरच तातडे दवा,  
न पातो । एक चापावत उद्देशिहजी लता, पातो एक । जतावत उरजनसिंहजी लता,  
पातो एक । भदारी दिवाण विटलदास न व्यास दोलचारज लिखमीचाद बगर  
लता। इय तर पातिया बेचिजे। राज रा वारगानो सारा पट गया। मेडियो  
राजविह विलाणसिंहोत मालण्यावास रो घणी न बैइ भासामिया केर मेडियो री  
महाराज रो दरसण करण जालार धाया तिणा राज रो ढाल देण धरज विकी न  
ग्राप न जापपुर लगो थे नही। राज रा ढाल भा भला न थे। तर थी हजूर  
गांधो कुरमायो क जाणा तो सारी था 'पिण ढव हाल न थ'। पछे इणां री  
भरज कपर जालार म वादावस्त करण री विचारी सा उद्देशिहजी उरजनसिंहजी ने  
सारी लगी।

राठोड दुरगदासजी भासवरणोत गुजरात म पाटण रेहता। सो पातसाहजी  
साहजादा आजम न दिवण हजूर बुलायो थो। सा साहजादे दुरगदासजी ने लिखिया  
थो क 'एक वार सिताव भावज्यो। थो सू वात न रणी थे। मु करन विदा करसा'।

समत 1762 रा काती सुद 12<sup>3</sup> घटमनावाड दुरगदासजी न खबर पहुची के  
न चलान था, तिण खबर दीनी। ने बळू चो नारणदास पिण खबर दीवी। निण था  
विषप सावधान हुया। दरबार न गया। पछ काती सु<sup>4</sup> 12<sup>4</sup> दीवान अफजलखा  
जी आपरा साय मू दूच कर पाण्या पाटण री तरफ धावता हा, सू वासे फौज कोस

- 1 शनिवार नवम्बर 7, 1702 ई।
- 2 दनिंश आय।
- 3 गुष्वार अक्टूबर 18 1705 ई।
- 4 गुष्वार अक्टूबर 18, 1705 ई।

7 साथ सूधी आई । तर क्वर मेहकरण अरज किवी के ग्रदव घगो ही कीवि  
पिण यू निभा नही । राज कूच किया पधारा ने मै यामू झगडो करसा ।<sup>1</sup> तरे  
इतरा पाढ्या किरीया क्वर मेहकरण दुरगदासोत क्वर अभेकरण दुरगदासात  
क्वर अनोपसिंह तंजकरणोत राठोड रघनाथ सुजाएसिंहोत चापावत भाटी दुरजण  
सिंह, चढ़भाणोत राठोड माहकमसिंह अमरावत ऊदावत राठोड हरनाथ चढ़भाणोत  
जाधो पीपाडा गिरधरदास चारण मीसग भारमल फिटक सकलसिंह मभिया ने  
भगडो कीयो तर इतरा जिणा काम आया तिला री विगत—

- 1 क्वर अनोपसिंह तंजकरणोत खाप करणोत बरस 18 अठारे री  
उमर थी, सो भली भाति लडाई क्वर काम आया ।  
1 राठोड मोहकमसिंह अमरावत खाप उनावत ।  
1 राठोड मानसिंह जागीदासोत खाप करणात ।
- 

3

रजपुता रा चाकर काम आया—

- 1 दावडो सबला जोगीदासोत चाकर मेहकरणजी रो ।  
1 पडिहार बलू राठोड मोहकमसिंह अमरावत रा चाकर ।
- 

2

दतरा र लोहो लागा—

- 1 क्वर महकरण दुरगदासात र घाव 2 लागा तरवार । तो साहमे  
मूरे न तरवार 1 ढाका लवा र ।  
1 क्वर अभेसिंह दुरगदासोत रे चिलहत<sup>1</sup> ऊपर तरवार लागी न  
घोडा रे तरवार 1 न गाली 1 लागी ।
- 

2

गाव बरसडे<sup>2</sup> सारा भेला होय डरो कर पाटण आया । बमीरा लोक सारा  
सिवाणा रा गावा मतिया ने राठोड दुरगदासजी रहा । पछे पातसाहजी आ  
हरीकत मुणी तर फुरमायो ‘साहजादा विगर समझीया मारा बिना दूकम कीवी ।

- 
- 1 क्वच ।  
2 बरसई पाटन स 9 भील दरिण पूव म ।

ये खातर जमा सू पाटण री फौनदारी करज्या ।' तर आप गाव क्वोई<sup>1</sup> सावधेती थका रहता ने पाटण साथ रहतो, कोटवाल पठिहार शिवदान महेशदासान रहता ।

राठोड दुरगदासजी री लिखी अरजदस्त समत 1762 रा माह बद 2<sup>2</sup> जातोर महाराज बने आई लिखियो 'माह सू साहजादे आजम सा जी किंचि सा सुणोज होतो । मोनू श्रीरामजी आपरा माहा सू चतायो थे । ने वारे चूँक द्ये आप सावधान रहजा ।'

समत 1762<sup>3</sup> रा वरस मे चापावत उद्दीप्ति लखधीरोत न चापावत उरजन सिंह परताप मिहात इणा दोनू जणा राव इंद्रमिहजी रो क वर मोहकमिंह पातमाहजी री तरफ सू मेडते धागो था तिण सू मिलावट वरते केवाया थ 'च'ने जालोर उरा आवज्या । महाराज अजीतसिंहजी न पकडाय देमा । 'तर माहकमिंह अस्वार हजार 2 000 दाय सू चदिया । सो धाघल उदेकरण थोठी<sup>4</sup> मलियो, महाराज नू खबर दीजा 'माहकमिंह आवे थे । खीयमर सू खबर देणा साह थोठी मेलियो । केर ही मारवाह रा सिरदारा न खबर लागी तरे खबर दण ने थोठी मेलियो । चोहाण फतेहसिंह रे बेटे जग महा सुद 2<sup>5</sup> आधी रात रा आय खबर दिया । भवराणी कटक देखन आयो छ ।' महाराज उदेसिंह जी न कवाया क 'मोहकमिंह आवे छ । ये काई कहा छा ।' तर उदेसिंह जी केवायो आप नचीता रहा । म मूढा धागे छा । मेह काम आया पछे जाण जीऊ कीज्यो ।' तर महाराज उदेसिंहजी री बात जाणी महाराज कहयो मोहकमिंह आगे निकला नहा सदाई करस्या ।' तर राठोड तजसिंह आई<sup>6</sup>न दलपतोत चापावत गाव काकानी रो सुदो थो, तिण कहया न इ इभाण भीबोत राठोड भीब रिणद्योडदामात जोधा भदारी विट्ठनास पराहित प्रभेराज मोहरदासोत सीची कू भे कू पावत, राम मिह सवन्धसिंधोत, इणा सारा दवाय न कहयो ।' हमार आपणो कावू न द्ये । असुवार पचीस हीस कन छ । दुसमणा रा चाया नही कीजे । ऐ महाराज न घाडे चढाय न ले निसरिया । राठोड ढू गरमी जगनाथोत सीची शिवराम प्रायत रिणद्युआ जदवात चापावत देवडा जेतसी ऐ पहला जनानी प्रस्तवारी ले निसरिया था । कवर मोहकम मिह माहा सुद 3<sup>7</sup> जालोर थाय बाग छोड नीवा नीवे ढेरो कीयो । मेहना म राठोड

1 विचुपा पाटन से 6 मील उत्तर मे ।

2 शुक्लवार, दिसम्बर 21 1705 ई ।

3 1705 ई के आत मे । 4 थोठी-सुतरसवार ।

5 शनिवार, जनवरी 5 1706 ई ।

6 रविवार जनवरी 6 1706 ई ।

जाधसिंह राजसिंहोत मडतिया राठोड भावसिंह अणदरामोत ऊदावत, राठोड भावसिंह राजसिंहोत मडलो राठोड रूपसिंह अमरावत ऊदावत गाव बठवासिया रा राठोड लाडलान अमरावत मडलो राठोड नेतसी बाघावत ऊहड इद्रभाण जीवावत रो, नाई नायियो दिन 3 बाट समाय रहया। तछ इतरा काम आया फ़ गत—

## 2 खाप ऊदावत

- 1 राठोड नेतसी बाघावत।
  - 1 राठोड रूपसिंह अमरावत।
  - 1 राठोड लाडलान अमरावत मडला।
  - 1 भाटी चाद्रभाण जी रो नाई नायियो।
- 
- 4

पछ राठोड उदेसिंह जी आय बाबा रा ने समझाय काटिया जनाना री चौज वस्त थी सो त ने निसरिया। न चौज वस्त बाबी रही सो राठोड उदेसिंह लखधीरोत अवेरी। लीची कु भो नेतसीहोत आपरा घर रा ऊट 4 ऊरा ऊपर सिरवार रो असवाव सिलेखानो दारू सीसो पहरण रा वपडा ले महाराज रे साथ चालियो। व्यास दीपचंद बानविशन रो खजाना कोठार जुहार गहणो थो सो तय ने हजूर सहारे साथ हूबो। नागलेचिया करड<sup>1</sup> ले सेवग — जनाना साये हुय गयो। मडारी विटलदास माहाराज माथे गयो। राठोड विटलदास भगवानदासजी आप री वसा रा न राठोड उदेसिंहजी री बसी साथ गाव जोरावरे थो, सा गाव कालघरी आय महाराज र सामन हूबो। “यास लिखमीच” ने सेवा सूपता सो लिवि नहीं के मातृ हात नहीं। तर “यास दीपचंद भाईवद हा त्रिए सवा लीकी जद सू व्यास पूर्वा दीपचंदाता र है।

क बर मोहम्मसिंहजी जालोर रा मेहला दाखल हुया।

मडतियो बुसलमिह मचलसिंहोत गोठ जीमण गयो थो। सो मोहम्मसिंह जी चटिया रा खबर लागी तर इण जागियो जहर जालोर ऊपर जावे थ सा पुरसियोहा थाल घाड चटिया। सो रिया माया ठाकुरा भगवानदासजी न कहो बाबरी री बखत थ। अजीतसिंहजी कने चालो।<sup>2</sup> सो भगवानदास जी चटिया नहीं। तर एक हूल रजपूत थो तिण भगवानदासजी ने कही माज रीया बारा घर सू बुसलसिंहजी रे जाय थ। बुसलसिंहजी उठा सू बलू दे माया सो विजसिंह हरिसिंहोत सावठो साय स चटिया सो गाव प्रगर बगरी माराज र सामल हुया। बीजो हा साय

1 करणिया=पिटारा।

2 सवा पूजा होव नहीं।

माराज कन मोकलो सामल हुवो । माराज क वर मोहकमसिंहजी न केवायो के 'आया छो तो पग माडज्यो भेह आबा छा' । कोज माह सू किण ही केवायो साथ घणो छ रया तो मामलो सबलो होसी । लोक घणो मारियो जासी । तर महा सुद 13<sup>1</sup> क वर मोहकमसिंहजी जालोर सू पाढ्यो दूच कीयो । ने महाराज सारे चलाया । राठोड फतेसिंह विजेसिंहोत कू पावत महाराज सामल हुवो । भाद्राजण रे गाव साझी । पाली रा डेरा राठोड चन्द्रभाण, राठोड करण मुकु ददासोत राठोड विहारीदास उदेभाणोत ऊदावत जगराम विजेरामोत ऊदावत हिरदेराम राजसिंहोत ऊदावत महाराज रे सामल हुमा । कु वर मोहकमसिंह ने गाव घुनाडे<sup>2</sup> आय पोहता । आमा सामा भोरचा भडिया । गोलिया वेहण लागी । महाराज ने सारा सिरदारा पागडा छाडिया । सिरदारा महाराज सू अरज किवी के 'चिलहते बकतर सिलेह पहरो ।' घणो हट कियो पिण पहरी नही । लारा सू हावी नगारो निसाण आवतो दीठो तर जाणियो क वर आव द्ये तर चढ न घोडा ऊपर नाखिया सा दखे तो चापावत उदेसिंह जेतावत उरजनसिंह चादोल यका आवे छ । तर इणा ऊपर घोडा नाखिया । तर सारा ही सिरदारा महाराज सू अरज बीवी के हराम खोरा ने मारिया विच्चे जीवता राखीजे तो आपरो कुजस काना सुण दुरी तरह मरे तो भला द्ये । तरे बीया मारिया नही । उदेसिंहजी रा माथा मे थी हजूर साहबा कदाए री दिवी ने 'फुरमायो हरामखोर इसदो काम न कीजे' । मोहकमसिंहजी रा साय रा आदमी 30 तीस काम आया, न आदमी 50 पचास घायल हुवा । न नगारो 1, निसाण 1, हाथी 1 घोड़ा 6 भारविरलारी रा ऊट बगरे कोस लिया । महाराज री फतेह हुई । खत महाराज र हाय रयो ।

महाराज री कोज मे काम आया उमरावा, रजपूत तिणा री विगत—

- 3 राठोड दलराम भेडतियो । रा । राठोड चवाण गोकल 1, राठोड हृद ।  
 1 गाटी सूरजमल जगनाथात रो रजपूत ।  
 1 - ऊदावत रो मु राठोड दोततसिंह भनोपसिंह रूपसिंहोत रो ।

महाराज री कोज रा घायल हुम्रा—

- 1 राठोड कुसलसिंह अचलसिंहोत भेडतिया रे जीवणे हाय ऊपर गोली लागी ।

1 मगलवार, जनवरी 15, 1706 ई ।

2 दुनाडा—जोधपुर से 32 मील दक्षिण पश्चिम म लूणी नदा के उत्तरी किन

- 1 राठोड तेजसिंह इदानोत चापावत रे मूढा ऊपर जीवणी बाजू  
तीर लागो ।
- 1 राठोड भीव सबलसिंहान दू पावत रे जीवणा हाथ रे तरवार लागी ।  
निपट सखरा हुया ।
- 1 राठोड मुवन्दास चाद्रभाणात जोधा रे तीर । लागो ।
- 1 राठोड जोगीदास करण मुकदमासात जोधा रे गोली लागी ।
- 1 राठोड प्रनापसिंह राजसिंहोत ऊवात रे जीवणा हाथ रे आगली  
ऊपर तरवार लागो न असवारी रो घोडो काम आयो ।
- 1 राठोड राधोनास सबलसिंहोत दू पावत रे पग रे गोडा ऊपर तीर  
लागो ।
- 

#### इतरा घोडा काम आया—

- 1 भाटी हू गरमी सेसमलात री घोडी काम आई ।
- 1 राठोड दृष्टी रे बेटो वगसीराम ऊदावत रे असवारी रो घाडो काम  
आयो ।
- 1 चौहाण हेमराज रे घोडा रे ऊपर गाली लागी ।
- 

3

महाराज थी अजीतसिंह जी रो डेरो गाव ढीढ़म<sup>1</sup> हुवा । सो फन कर ने सो  
माथ थाकोडो घो तिए सू हजूर तो डरा दाखिल हुवा । ने कवर मोहकमसिंह उण  
हीज रात कूच कर पीपाड डरो बियो उठे सिरावणी<sup>2</sup> कर कूच कीयो सू मेडते गया ।  
ने दिन ऊणा गाव ढीढ़सा सु थी हजूर लार चत्तिया सा गाव काकाणी कन आवता  
बोधपुर रो फौजदार जापरवग वाकानवस मेहमद मुक्कीम ने काजी करीमुल  
कूपियानवस<sup>3</sup> महाराज रे आडा आय किया क ‘आप आधा मत जावो । धरती  
मे पिगाद हुसी, न गाव लूटिया जासी । न मुलक सूनो होसी । मोकमसिंह किया  
जेसा पाया मे पातसाहजी ने हृकीकृत भलोभान सू लिख कवर रो नुकसान करासा  
ने आपरी हाजरी करसा ।

कवर मोहकमसिंह पातसाही ओहीदादार सू रुपिया हजार 8000) आठ  
देशा किया था क अजीतसिंह जी वासे आवे है सो नागोर ऊपर आवसी । सो  
ये आगा मत आण दीजो । जिए सू ओहदेदार महाराज ने भात भात सू वरजिया ।

1 ढीढ़स-नुनाडा से कोई 4 मील दक्षिण मे नूणी नदी ने दक्षिणी तट पर ।

2 बलवा

3 गुप्तचर ।

सो दूजा उमरावा तो लारे जावण रो हट कियो । पिण चापावत मुकनदास जी खाच न<sup>1</sup> अरज किवी 'पातसाही श्रोथेदारा री रयायत कर राजी राखिया चाहिजे । 'तर हजूर काकाणी सू पाछा जालोर पधारिया ।

समत 1763 रा मिगसर<sup>2</sup> मे श्री महाराजा जी मुखक जालोर देवलावाटी सूराचद दिसी पसकसी ने असवार हुया था । सो पेसकसी लेता था, सो पातसाहजी श्रीराजेव जी दियण म फौत हुप्रा री खबर अहमदावाद था उकील रो लिखियो आयो थो । ने पातसाही लस्कर था वकील पचोली जगजीवणदास भनोहरदासोल री कासीदा री जोडी साथ अरजदास्त आई, के पातसाहजी कागुण 30<sup>3</sup> फौत हुवो छ । हम मरजी म आवे ने भलो हुवो सो कीजे । चेत बद<sup>4</sup> आ खबर सूराचद आई । उणी बखत महाराज जोधपुर न अस्वार हुप्रा ।

जोधपुर मे, फौजदार काजमवेग रो वेटो जाफरकुली वेग तीन सदी, अजमेर रा सोबायत जबरदस्त खा रो नायब था तिण न पातसाह फौत हुवा री खबर चेत बद<sup>5</sup> आई । इण रे भाई गुजरात सू लिखियो थो 'जोधपुर मे उभा भत रहजो ।' रात पोहर गया खबर आई, उणीज बखत असवार पचास 50 साथ ले ऊटा भ मान भरन अजमेर मेलिया । आप डेरा बारे कियो तरे बाकानवेस ने अब्दूल रहीम मेवाजी वगरे सारा भनसवदारा जाफरवेग ने भना कियो 'आपा कने एक हजार तोपची पातमाही छ । इतरा भनसवदार छ । चार पाच से असवार था कन छ । ये क्यू नीसरो छ्यो ।' तरे रहयो । चेत बद<sup>6</sup> पातसा आजम जी री युहाई केरो, नोबत बजाई ।

चेत बद 4<sup>6</sup> रात रा किताएक भनसवदार मेवाही नास<sup>7</sup> सोजत गया । ने सूराचद सू जोधपुर एक सो बीस 120 बोस हुवे । सो चेत बद 2 रा चडिया चेत बद 5 बुधवार<sup>8</sup> पाहर सवा दिन चडिया, महाराज थ्री अजीतसिंहजी जोधपुर पधारिया । तर जाफर वेग रा बया सू राठोड किरतसिंह सूरजमल नाहार खानोत कूपावत राठोड उदभाणु सप्रामित्तिहोत चापावत, सेख अब्दुल रहीम, व्यास हर किशन हरवश रा सिरीमाली साचारी गिरधर रुधनाथ रो, दोष सदी भनसवदार

1 जोर देकर, अत्यधिक आग्रह पूवक ।

2 नवम्बर दिसम्बर 1706 ई ।

3 शुक्रवार फरवरी 21, 1707 ई ।

4 रविवार माच 9, 1707 ई ।

5 सोमवार माच 10, 1707 ई ।

6 भगलवार माच 11 1707 ई ।

7 भाग कर ।

8 बुधवार माच 12, 1707 ई ।

पणो धनवान । सो इतरा जणा महाराज र साहमा गया । अरज करी आप नागोरी दरबाजा कानी जाफरवेग रा डेरा कन डेरो करावो । बिगर हुरम सेहर म जाणो मुनासिंह नही छे । तर हरकिशन ने फुरमायो मेह घरे आवा ने तुम ना करे । सो विरामण छे तर आघो काटा द्या । बीजे क्यो हुवे सो गरदन मारा । सिरदारा भ किरतसिंह न कहयो ठाकुरा आ बात याहारे बेहण री नही । पछ सारा न ठेल ने सहर माह पधारिया तलहटी रा महला दाखल हुवा । आगे जाफर वग री बहूवा 2 ने जाफरवेग रो मामो मेहमद जमा महला म था सो किवाड जड बेठा । सो महाराज रा लोका माह बड किवाड खोलिया । ने मेहमन जमा रे धणा दू पा जवलिया<sup>1</sup> लागा । जाफरवेग री दोनू लुगाया ने गाडी म बसाए जाफरवेग रे ढेरे पाहचाई । ने हजूर तलहटी रा महला भ विराजिया । सेहर मे भणो उद्याह हुयो । मोहला माहला म गीत गवीजिया । लुगाया बडबेहडा<sup>2</sup> बनाया । राज राजा करे । महाजन रत सारा आय पगा लागा । नोबता बाजी । श्री परमेशरजी री किरणा सु गई । भोम रा बाहाए<sup>3</sup> हुआ । इतरा सिरदार हजुर रे साथे था तिणा री विगत—

### 3 चापावत—

- 1 हरनाथसिंह तेजसिंह आइदानोत ।  
 1 जगनाथ आईदान दलपतोत ।  
 1 सबलसिंह खानावत ।
- 

### 3

- 1 कूपावत पदमसिंह जेतसिंहोत ।

### 5 जोधा

- 1 राठोड भीव रिणछोडदासोत ।  
 1 राठोड शिवान रिणछोडदासोत ।  
 1 राठोड अखेराज हिरदनारायणोत ।  
 1 राठोड भीव सबलमिहात ।  
 1 राठोड केसरीसिंह सबलसिंहोत ।
- 

### 5

- 1 यातनाए दी गई ।  
 3 लौटा लान बाले ।

- 2 स्वागत मूचक कलश ।

## 2 दरणोत

1 सीवकरण भासकरणोत ।

1 मेहकरण दुरगदासोत सूराचद दिसी साथ थो । सो उठा  
सू धरे गयो ।  
सो चेत सुद 11<sup>1</sup> प्रायो ।

---

## 2

## 3 शूणावत

1 जगराम विजरामोत ।

2 राजसिंह बलरामोत रा वेटा 2

1 हिरदेनारायण ।

1 प्रतापसिंह ।

---

## 3

1 भाटी सूरजमल जगनाथोत ।

चेत बद 13° घडी 5 दिन चढ़िया बडे जलूस सू नोवता वाजता महाराज  
गढ़ दाखिल हुवा । गढ़ रो बागरो पाग रा पला सू भाडियो<sup>3</sup> । चेत सुद 14 चावड  
मुरज पधारिया । ने सारो कोट दीठो । तर चेत सुद 10° जालोर सू राज सोक  
आया तिणा री विगत—

1 बहू राणावतजी, राणा गजसिंह राजसिंहोत री वेटी, जिणा रे  
बाई सूरज बवर ।

1 बहू सीसोदणी जी देवलिया रा धणी प्रथीसिंह प्रतापसिंहोत री  
वेटी जिणा रे कवर ऊदोतसिंहजी ।

1 बहू भटियाणी जी, जेसलमेर रा रावल अमरसिंहजी री वेटी,  
तिणा रे—

1 वेटा जोधासिंहजी ।

---

1 मगलबार अप्रैल 1, 1707 ई ।

2 गुरुवार, माच 20 1707 ई ।

3 पगडी के छोर से स्थान साफ किया अर्थात् उसका ग्रादर किया ।

4 रविवार माच 23, 1707 ई ।

5 सोमवार माच 31, 1707 ई को जोधपुर लाया गया था ।

## 1 बेटी पूलकवर ।

1 वहू भटियाएंगीजी देरावरजी ।

1 वहू चवाणजी, चहुवाण पतेसिंहजी री बटी रे बेटा 2 दोप

1 कवर अखेसिंह जी ।

2 कवर आनादसिंह जी ।

1 वहू चवाणजी, चहुवाण चुन्नमुजजी री बेटी जिणा रे कवर

1 कवर अभेगिंह जी ।

1 कवर बसतसिंह जी ।

1 कवर तेजसिंह जी ।

## 3

1 वहू चहुवाण जी साचोरी सेहसमल री बेटी

1 वहू भालीजी रे

1 कवर छतरसिंहजी ।

1 बाई

माजी श्री देवडी जी, राव अखेराज जी री बेटी, सिरोही था ज्ञेत सूद 11<sup>1</sup>  
भाया ।

महाराजा जी सहर माह सू धुडला न गवारा मगाई देखी तिणा तृ एक  
एक रुपयो 110) दियो । दवस्थान थी ठाकुर जी श्री महादेवजी श्री माताजी,  
विराजिया, पूजा भालर घटा वाशा सारा वाजिया ।

राठोड़ दुरगदासजी रो पाटण री हकीकत

समत 1763 रा काती मुद 12<sup>1</sup> साहजाना प्राजम रो साहजादो बेदार बगस  
सेद वाकर तू अस्वार हजार 5000 पाच धव दे प्रहमदावाद था, विदा किया।  
सो पाटण आय डेरो करने कोटवाल ने अस्वार 100 एक सो दे विदा किया। तर  
कोटवाल पडियार शिवदान अपर आयो। लडाई कीवी। तर बाम आयो री विगत—

1 पडिहार शिवदान महेशदासोत ।

1 पडिहार कतेसिंह मु दरदासोत ।

1 पडिहार दुरगदास बल्याणदासोत ।

3

ने सारी फौज मे कोटवाल कुल मुदे हुय आयो थो। सो आदमी सू द्वच कर  
बाहडमर री थली आया। बास फौज थाई। सो शुराचद देहरो थी घरणी घरजी  
रो थो सो पडियो। राएं पचाए लडाई कर फौज हटाई। तर विराद जाय रही।  
जद मू दुरगदासजी मनसव थोड वेठा। थी महाराजाजी जोधपुर लियो। तर  
दुरगदासजी जोधपुर आया सो महाराज असवारी कर तराव भाडेलाव सूधा  
पण तू हाथ पालिया। दुरगदासजी पेहला थोडा सू उतरने सिलाम कीवी।  
पथवार हुया। दुरगदासजी रुप्या 11) निजर किया। पथे बाता करता सेहर मे  
पथवार हुया। दुरगदासजी रुप्या 11) निजर किया। पथ राठोड दुरगदासजी गठ  
डेरो कियो। ने थी महाराजाजी गृह दाखिल हुया। पथ राठोड दुरगदासजी गठ  
अपर गया। माजी थी देवडी जी सू, ने महाराज कवार 4 था त्यासू जनामी  
दोडी जाय मुजरा मालम कराय डेरे आया। पथ बसाल बद 6<sup>2</sup> थी महाराज जी  
सुरसापर दुरगदासजी रे डेर पथार पोहोर 1 विराजिया। थोडा 2 दुरगदास जी  
निजर किया त्याम थोडो। राखियो। बाता थणी कीवी। थी महाराज जी मया  
कर राज र बाम रो मदार ने परधानगी देता था, पिण दुरगदासजी रे लेण री  
सलाह म बेठी नही। ने चावरी रो थणो इरादो राखियो। थी महाराज तू राजी  
राखिया। ने अरज किवी 'फुरमायो सो जठे चाकरी म हाजर हूँ। हृकुम हूवे तो  
चार निन थोडा तू चारवा। तरे बसाल मुद 7<sup>3</sup> थोडा सिरपाव दे विदा किया।  
सो दुरगदासजी माणसा तू ल चढिया सो उद्देशुर गया।

1 दुधवार नवम्बर 6, 1706 ई।

2 शनिवार मप्रेल 12 1707 ई।

3 रविवार, मप्रेल 27, 1707 ई।

कवर भीवसिंह इ द्रसिहंजी रो बेटो जोधपुर वेसाख मुद 7<sup>1</sup> आयो । अस्वार चालीस पचास था सो गड मे जाय थो महाराजा जो रे पांव लागो । पहला सभा मडल म विद्यायत थी जठ राठोड दुरगदासजी जगरामजी घणा साथ बठा था कवर ही बेठा था । श्री महाराजा जी बडा उमरावा नै माह बुलाया, उणा न साथ ल न महला माह सू बारे पधारता दोढी म कवर भीवसिंहंजी छ्वा भडप सू सामा जाय घणी बुरनसा<sup>2</sup> कीवी । पगा तू हाथ पातिया । श्री महाराजाजी छाती रे तगाय मिलिया । पछे सभा मडप म सीधासण आय बेठा । एक तरफ कवर भीवसिंह बेठी । दूजी तरफ राठोड दुरगदासजी न साथ बेठो । स्पष्टा 200) दोय सो खरची रा निराया ।

वसाख मुद 14<sup>3</sup> मडोबर राजलोक सूधा जात देवण ने पथारिया था । तठे मुजाइ उमराव जीमिया । न श्री हजूर भीवसिंहंजी तू भेला ले वेसाणिया । ने राठोड अनेदसिंह अनूपसिंह इसरसिंह श्री अमरसिंहंजी रा पोता तू भेला जीमण तू वेसाणिया नही । तिण सू रिसाय चाकरी छोड ने परा गया ।

**राठोड गोक्लदास** —— <sup>4</sup> मडतियो मेडता रा याव पाच छव री तालिया लाट लीना था । तर राठोड हि दुमिह आन असिंहोत श्री हजूर री तरफ सू फौजदार थो । तिण रोकिया । तद कहयो हू श्री राजाजी रा कदमा म जोधपुर जाऊ छ । चाकरी झरसू ने मारगी सा दसू । पछे जाधपुर आयो । श्री महाराज गढ म बमाल सु<sup>5</sup> 1 घणी तामीम कीवी ।

राठोड भावसिंह सबलसिंहान वगरे व्रासामी 4 कृ पावत न राठोड उरजन मिह परतापमिह देवकरणान जेतावत इणा कितरायक सारा ही रा मामला सू वेराजी हुयन निसर गया ने कह्हा 'ध चापावत रा राजा छ्हो । म्हे बीजा भाई दलथमगाजी छ त्यातू खडा कर राज आधा थारे बना सू बटाय लेसा । पछे तो दनथमण एक गड किया भोजत म पातसाही गनसबदार सिरदार ला था । न सहर परगना म अमन चन आवनानी तामी घणी थी । तिण सू लोठा बरस 4 करता रहया । पछे पातसाह ओरमजेव जी समन 1763 रा फागणमद 30<sup>6</sup> दिखण म पान हुया ने सगली ठोड भामिया जार पकडिया । पातसाही लोका तू खोसिया मारिया । जाधपुर म महाराज अजीतसिंहंजी अमता किया । ने सोजत म फौजदार मिरदारत्या था सो कबीला दोलत लय ने हाठो सो अजमेर गयो । ने धान अराबी लारे रह्यो । सो दनथमगाजी रो साय कू पावत भावसिंह जतावत उरजनसिंह वगरे तीन सो अध्यार सो असवारा सू साजत म आय बेठा ने अमां कर लिया । ने परगना

1 रविवार अप्रैल 27 1707 ई । 2 अभिवान ।

3 रविवार मई 4 1707 ई । 4 कुशल सिंह होना चाहिये ।

5 गुरुवार फरवरी 21, 1707 ई ।

रा रजपूता ने कहा—‘आय मिलो का पइसो देवो’। यू बडो धोकल रहो। पछे असवार पनरा बीस हजार ले महाराज थी अजीतसिंहजी चढ़िया सो सोजत घेरी मोहिलाई समिया गढ़ सहर सभियो। गोला गोलिया बह। दिन 11 घेरो रहेया। सिधिया रो मोरचो बारले कोट थो। महाराज सिट्वीया न चाकर राख लेण रो क्वायो। ने रजपूता न क्वायो” उरजनसिंह तो म्हारो हरामखोर छ। सो इण ने तो मारसा। ने बीजा थे चाकर छो। आबो पटा लो। थान सोजत तो आवे नही। थू मरो छो। दलथमण द्ये तो म्हारो भाइ द्ये। सो म्हा कने लाबो।’ तर रजपूता चहा यू ही सूपा नही मरन देसा।” निदान बात बणी नही।

समत 1763 रा जेठ बद 6 छठ सूरजबाट<sup>1</sup> हलो हुबो। पोहोर 6 छव चडगडो रहो माह थान दारु सीसा रो सामान खूट गयो थो<sup>2</sup>। सो रजपूत रात आधी रा गढ़ माह सू पेली पोला कानी निसर गया। सोजत म महाराज रो अमल हुग्रो। जणा 2 दोय काम आया। राठोड मुक्कनदास सुजाणसिंहोत राठोड बलभद्र महेसदासोत रा चाकर 2 दोय धायल हुम्हा राठोड जगराम, राठोड सुरतगाम। कट 2 सुतरनाला रा गोला था मोरचा म मूझा।

थी महाराज धणा सजूस<sup>3</sup> सू दोफेर रा गढ़ दाखल हुम्हा। सेहर वचायो। खोसण नही दीया। राठोड पदमसिंह उर्देसिंह लखधीरात पिण उणा कने आयो थो, गाव धणल बेठो था। महाराज फौज ले सोजत क्षपरा आया। तद पदमसिंह नाठ गया।

मडारी विठ्ठलदास नराणदास बगसी था तिके साथ ले न गया। सो सोजत रा गावा म उणा री वमिया थी, सो खोसी लूटी। पचोली हृपचद रा बेटा दुलीचद ने गरदन मारियो।

पछ दलथमण वणाया था तिण ने राठोड उरजणसिंह प्रतापसिंहोत पातसाहा प्रालम बन दिली आगरे गयो। उठे कबूल नही हुबो। तरे भूखा भरता बाग चीतार म हुवे ने जोधपुर मे पातसाहजी री तरफ सू हमराज खा थाएं सो तिण बने आया। सामी गोविंददास के असतल मे ढेरा थो। आदमी दस पनरे बने था। सो महाराज थी अजीतसिंहजी साजत सू आदमी मेलीया सा समत 1764 रा असाढ सुद 11<sup>4</sup> पछारे पेस ने रात रा मिनूर ने मारिया। तिण आदम्या ही ने आसामिया न हजूर थू इनाम दीयो तिण री विगत—

1 रविवार, मई 11, 1707 ई।

2 समाप्त हो गया था।

4 गुरुवार जून 17, 1708 ई।

3 जुलूस।

## ग्रासामी

इनाम

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| राठोड जतसिंह सूर्यसिंहोत खाप जोधा ने घोड़ो 1 | 400) |
| भाटी किसारसिंह रो जेतसिंह ।                  | 400) |
| भाटी अमरा केसोनासोत ।                        | 400) |
| भाटी नाहरखान सबलसिंहोत ।                     | 400) |
| भाटी जेतसी आईदानोत ।                         | 61)  |
| भाटी खतसी आईदानोत ।                          | 41)  |
| राठोड रिणछोडदास राजसिंहोत ।                  | 51)  |
| राठोड पिरथीराज ।                             | 20)  |
| भाटी अरजनसिंह द्वारकादासोत ।                 | 41)  |
| भाटी किशनदास भीवोत ।                         | 51)  |
| चारण साढ़ू मिशनो रामसिंधोत ।                 | 30)  |
| भाटी अजवसिंह रतनोत ।                         | 10)  |
| भाटी डूगरसी उदेसिंहोत ।                      | 20)  |
| भाटी गोपीनाथ बदरीदासोत ।                     | 41)  |
| भाटी गोरधन मुकनदासोत ।                       | 20)  |
| राठोड हरनाथ रतनोत ।                          | 20)  |
| पीपाढ़ो लाया ।                               | 20)  |
| भाटी चद्रसेण आईदानोत                         | 20)  |
| भाटी फतेसिंह महेसदासोत                       | 20)  |
| भाटी जेतसिंह दलपतोत ।                        | 61)  |
| राठोड दलपत मुहु दासोत ।                      | 70)  |
| भाटी जेसो आलएसी रो ।                         | 20)  |
| राठोड फतसिंह वेसरीसिंहोत ।                   | 20)  |
| चारण चादो तोडर रो ।                          | 25)  |
| उमरावा रा कुन्वर चाकरा ने ।                  | 60)  |

फिरूर ने मार मायो काट लाया ने इतरी जिनस लाया था—

मोतियाँ री जोड़ी कानाँ री ।  
तरवार सोनेरी ।  
पीढ़ा च्यार 4 ।  
निसाण । ।

फिनूर रे इनरा आदमिया रे लोहो लागा—

भाटी अमरा दयालदासोत रे तरवार 2 लागी ।

सोडे किसना रे हाय रे तरवार लागी । ।

राठोड मनसिंह रे चिलहते ने ढाल ऊपर तरवार 6 ।

महाराज श्री अजीतसिंह जोधपुर पधार नें गुनहगार था त्यानें सजा दिवी—

गोशी गिरधर रुधनाथ साचारा रो साहजादा अबबर रो बबीलो ने बेटो श्री पातसाहा  
गोरगंजेब न सुजायतवा री मारफत सूचिया तर राठोड दुरगदास करणोत कने अ  
था । त्या रे विस्टालो गिरधर किरिया थो । तडे श्री अजीतसिंहजी रा कुवचन मालम  
केया था । ने हमार फेर पातसाह गोरगंजेब जी री बाकी हुवा तरे जाफर वेग कना  
बाकानवेम मुखीम कना नामोर कवर मोखमसिंहजी नू सिताब सू लावण रो  
लेलियो । इणनें, व्यास हरकिमन तिण वास्त सभा विरामण ने दिवी । मनसव  
दोय सदी पातसाही सू पावता न बडी दोलत थी । सो घर लूटियो धणी वार कोरडा  
मू चबूतरे बाजार म मारियो । वठा नू मारिया । सो काती बद 11<sup>1</sup> भाखती माह  
मुझो । सो हलाल खोरा कने चारू चोहटा फेर दरवाजा बारे नखाय दिया । इण न  
मास 11<sup>2</sup> दोय ताई अनपाणी खावण पीवण नही दीयो । भू डी भात मूथा<sup>3</sup> ।

यास हरकिमन हरवश रो सिरमाली गाद इण राजाजी ने सेहर मे पस्ता<sup>4</sup>  
आय मने किया । राठोड किरतसिंह सुरजमलोत कने केवायो ‘पातसाह र विगर  
हुक्म सेहर म गढ म दखल करणो मुनासिब न छ । जितरे जाफर वेग फोजदार  
कने डेरा वर बारे रह या । आ सलाह छ । सो महाराज नही मानी सेहर गढ म  
फतह कर नावत बजाई । उण हीज दिन जाफरवेग नू लूट लियो । नै व्यास नू  
वेटा जीवण सूधो घणा दिन कोरडा सू लूटिया चबूतरे । जेठ बद 5<sup>5</sup> रप्या बीस  
हजार 20000) ले छोडियो ।

पिरोहित जसो हरराम रो पोहोकरणो डोकर<sup>6</sup> राखतो । तिण कने रप्या  
900) नवम ल न छोडियो । सिधवी दिजेमल प्रथीमलात रा वेटा जोधपुर माह सू  
मता<sup>7</sup> ले दीपमल विजेमल, गया था । सो इण समै आप सू आया सू वेग लागण  
न पाया । वारा सू हीज भडारी विटलदास रोकिया । डेरा घोडा खोस लिया ।  
चातरे वेद किया । जोशी भागीरथ मनाहर नू रोकियो, चोतरा सू घर लूटिया ।

1 शुक्रवार घट्टवृबर 10 1707 ई ।

2 बदहवाल होवर मरा ।

4 गुरुवार अप्रैल 29, 1708 ई ।

6 द्रव्यादि ।

3 प्रदेश वरते समय ।

5 व्यथ का वडप्पन ।

मुहतो अखेराज केमोदासोत रो तिण ने चौतरे कद कियो । केसोदास कवर मोहकमसिंह<sup>1</sup> रे मडता म चाकर था । सुजातखा रे अमल मे टका धणा पाया । फौज दारी म तद ग्रधथ के जोधपुर म मदुजिन चोवठिया नो नालोबा कन लिखायो क जोधपुर रा लोक कवर मोहकमसिंहजी सू राजी है । अजीतसिंहजी सू राजी नहीं ॥” तिको कागद पातसाह जो कन मेलिया मुहतो केमोदास । पछे कवर मोहकमसिंहजी बेसोन्स रो घर खोस लियो । दोलत लाल 1 री लीबी । ने केर नाठो जोधपुर आयो । दोलत घणी लायो । न इएर बपिया 15,000) ठहरिया ।

महाराज श्री अजीतसिंहजी जोधपुर पधारिया पछ सिरगार नू बघाव बघायो<sup>2</sup> तिणा रा दुहा भाट सतीदास रा कह्या—

### बोहा

अचला मे परताप रे, हृतो न रेवा ठाव ।  
तेनू महाराजा दियो, रीया सरीखो गाव ॥१॥  
गाव बीजा वसना दीयो, पित्त ज्या रा खातो ।  
— दीधो, अति तेनू बातो ॥२॥

————— — — — —

तिण ऊदा जगराम ने, त दीधो पीपाड ॥३॥  
सबला रा सबला किया, लेख पराया लोप<sup>3</sup> ।  
खारडिया ए खुद न, तें दीधी आसोप ॥४॥  
तेनू दीधो घरती———— काकाणी ।  
राखेचा राजा अजा, बीरत आपाणी ॥५॥  
पेहला हृतो दूधबड, ते नू दी पाली ।  
सेवा सत पुश्या तणी क्यू जाव खाली ॥६॥  
अे करमू आगे हुवा, लस्कर वालो काम ।  
तेनू महाराजा दियो, बगडी सरीखो गाम ॥७॥  
छोटा रिया उपरे, ते कोसोणो गाव ।  
दीधो दालतसिंह ने, हाय अजमल वरियाम<sup>4</sup> ॥८॥

1 जागीर मम्मान आदि मे दृढ़ि की ।

2 स्थान ठिकाणा ।

3 दूसरा के भाग्य लख का उल्लंघन कर ।

4 बीर थष्ठ ।

हृती नरहवा वाप रे, दोय पगा ने ठाव ।  
 बडो विखायत<sup>1</sup> जाण ने, राहण दी बलराम ॥9॥  
 ते खोची ने राव कहे, दोधी गाधाणी ।  
 राखेवा राजा अजा, कीरत आपाणी ॥10॥

समत 1764 रा पोस सुद<sup>2</sup> पातसाह बहादुरसाजी बन राठोड मुकनदास सुगाणसिंहोत चापावत परधान ने सिंहबी तखनमल विजमलोत दीवाण पचोली उदराज रे भाई ने मुनसी आगरा रा, तिण नु सिरपाव खरचो द म्हेलिया सो दीवाण खान खाना री मारफत पातसाहजी रे नजर कर पावा लागा । तर फुरमायो जसवतसिंहजी ता भारे हीज तरफ था न मै यारी गौर करता रहे था । सु सुलतानी जिग म नहो आया । सो जसवतसिंहजी री खातर सारी तखसीर माफ किवी । हम महाराज नु सताज सू हजूर ले आवा । खतरो दिल म बयू ही राखो मती ।” जद इण्ठा अरज किवी ‘कबूल छे, आवसा’ । ने मुनसवदार नाहरखान खानखाना रो छे तिण नु साथे दियो । सो महा सुद<sup>3</sup> जोधपुर आय हड्डीकत सारी कही । ने राठोड मुकनदास अरज किवी के ‘जाघपुर मेडो नही देवे अर खोजी ठोड सारी देसी ।’ सा थी महाराज यारे “ह कीवी न दिल म पिण बेठी नही । पातसाह रो भरोसो नही । तिण सू राजबोक सिवाए नु चलाया । सेहर सूनो कियो । गढ सजायो न माह इतरा जणा हा त्यारी विगत—

राठोड जुभार्सिंह बलूग्रोत चापावत ।

राठोड हरीदास भगवानदासोत ऊहड नु सिरपाव दीयो, दरवाजा री कू चिया विलो सूपियो आदमी 60 ।

राठोड पर्मसिंह चुनमुजोत जेतावत ।

राठोड धनराजसिंह खेतसिंहोत ।

पातावत जणा 3—

- 1 राठोड हरराज श्यामदासात ।
- 1 राठोड नारायणदास राजसिंहोत ।
- 1 राठोड श्यामदास सुदरदासोत ।

3

1 विपत्तिग्रह्त अभाव पीडित ।

2 दिसम्बर 1707 ई के उत्तराढ म ।

3 जनवरी 12 1708 ई के बाद वा पक्ष ।

ऊनवत वेठवासिया रा जणा तीन ३ ।

- 
- 1 राठोड दूदो बाधावत ।
  - 1 रा ईसरदास नेतस्योत ।
  - 1 रा तजमाल ।
- 

3

गणा दे कु भा जोगीदासात ।  
भाटी साम कु भावत ।  
भाटी विहारीदास मेघराजोत ।

---

इदा जणा ४—

- 1 भोजराज हरीदासोत ।
  - 1 ईसरदास उदेसिहोत ।
  - 1 नरसिंह दयालदासोत ।
  - 1 मनोहर हरदासोत ।
- 

4

पवार जणा २ दोय—

- 1 बीठो रामावत ।
  - 1 पिराग चापावत ।
  - गहलोत बलू रामसिंहोत ।
  - गूजर खींचो मुकुन्दास नरसिंहोत ।
- 

प्रोहित यखराजजी मनोहरदासोत सजन निवरी सू गढ चत्ता री निमत  
बेठा था । पछ महाराज पातसाहजी सू सुलह बरणी विचारी तर महाराज साथे ल  
गया । प्रोहित जीवणदास अठी गढ चडण नू एक भत था । सो सुलह रो विचार  
हुवा तर रह था ।

दीवाण खानखाना र बेटे खानजमा पातसाह मू मात्रम कर नाहरता न  
किना कराय साथ मेनियो । सां या इगा रा पा दब दीठा । ने पातसाहा विल  
अजमेर बराबर आया था । ने इण मौसम म सवाई जसिंघ जी रो भो कामड आयो ।  
तिण म निखियो के आवेर मे पातसाही थमणो रातियो है । ने कहे क्षे जोधपुर  
देवसा । सो पातसाह आयो भनो नही । सो जमीत वर पातसाह री हजूर आवज्या ।  
पापा भेला हासा पढे सलाह होसी सा करसा । ' इण तरे सवाई सवाई जेसिहजी

रा कागद भ्राया ने नाहरखा फागण वद 12<sup>1</sup> गढ म जाय श्री हजूर ने हकीकत मालम करी के खानखाना ने खानजमा पातसाह रे दिवाए थे । कुल इकत्यार इणा रो थे । सो थाहारे उसीते थे । बोहरा री हिसा करसी । ने उकीलायत ही करसी । इणा पातसाह रो खोल सीनो थे । ने इणा मानू काल दे मेहलियो थे । आप भात भात खातर जमा हजूर चातो । और वाई मत ताका सारी बाता भली होसी ।' तर महाराज रा दिल मे बठी । फागुण वद 14<sup>2</sup> कूच कर राई के बाग डेरा किया । फागुण सुद 2 गुर<sup>3</sup> पीपाड सू कौम 2 ऊनी कानी खानजमा माहमो आयो । दोनू सरदारा री कोजा तीरे पते<sup>4</sup> लारे ऊभी रही । ने सिरदार दोनू बीच आया । घोडा था उतर मिलिया । दोनू सिरदार खुमाल होय दोनू सिरदार ने राठोड मुकनदाम मुजाणसिहोत यानजमा रे हाथी ऊपरा वेस गाव पीपाड मे, खानजमा रो डेरो थो, जठे आया । घडी । एक बेठा । तर महाराज रे निजर कियो सो राखियो तिण री बिगत—

थान कपडा रा नग नव 9 हाथी अवाढी सूधो फनेममारक 1, घोडो नीलो साज मलमा रो साना रो 1 डरो करनाटी रावटी सूधो खासा 1 — ।

फागुण सुद 3 सुकर<sup>5</sup> खानजमा महाराज रे डेर आयो । घडी च्यार 4 बाता कीवी । सो घोडा 4 चार महाराज निजर किया था त्याम घोडा 2 राखिया ——— । पछ फागुण सुद 5<sup>6</sup> गाम कालू पातसाहजी रा डेरा हुबा था, तठ सामल हुबा । खानखाना रे डेरे श्री महाराज पधारिया था घडी । विराजिया । तर इतरो इनायत कीयो बिगत —

हाथी 1 कपडा रा थान 5, मेवा रो खूमा ।

नवाब खानखाना री मारफत पातसाहजी री असवारी मे फागुण सुद 6 सोम<sup>7</sup> पावा लागा । तरे हसने फुरमायो के खुब बीवी । आये । तर अरज कीवी 'मोनू हजरत रा पावा बिना किसी ठोड छ । खाना जात बदा छ ।' न मोहरा 100) एक सो न रुपिया हजार एक निजर किया । नें डरा ने बिदा किया । तर इनायत किया तिण री बिगत—

1 शनिवार फरवरी 7, 1708 ई ।

2 सोमवार फरवरी 9 1708 ई ।

3 गुरुवार फरवरी 12 1708 ई ।

5 गुरुवार फरवरी 13 1708 ई ।

6 रविवार, फरवरी 15 1708 ई ।

7 सोमवार फरवरी 16, 1708 ई ।

4 तीर के पासले पर ।

- 1 धुगधुगी जडाव री, तिण री कीमत रूपया हजार 14 000) री।  
 1 मातिया रा चोकडा री कीमत छव 6 000) हजार री।  
 1 सिरपाव रा नग-पान 1 जामो 1 पोतियो 1।
- 

फागुण सुद 9 गुरु<sup>1</sup> बोलाड डेरा हुया। श्री महाराज मुजरे पधारिया। तर वार हजारिया म खडा किया ने इनायत वियो-तरबार। कटारी 1 ढाल 1 जडाव रे साज सू बड़ी धोडा नीलो 1 बोडा खासा 40 निराया। ने रूपया हजार 50,000) पचास इनाम खरच नू दिराया।

माताद सदा पावता सो उक्कील पचाली जगजीवणदास भनोहरदासोत तू श्री महाराज फुरमायो के सदा पावे छ सोथे भली भात सू दने राजी राखया। नद राठोड मुकनदास सुजार्हासिहोत ने भाटी विठ्ठलदास भगवानदासोत हमेशा दीवाण बगसी र जावता काम काज रदल बदल बरता। इगानू ही श्री पातसाहाजी री तरफ सू सिरपाव इनायत हुवा था।

श्री महाराजाजी राजा जसिंहजी र ढेरे पधारिया। तर धोडा 4 जसिंहजी निझर विया। तिण मे धोडो 1 रूपा रा साज रो राखियो। फागुण सुद 11<sup>2</sup> पछ हजूर साहबा रे ढेरे सवाई जसिंह जी आया तर महाराज री तरफ सू घोडा 2 निझर विया। तिण मे धोडो 1 राखियो थो। महाराज अदुल्ला जी रा बेटा र ढेरे पधारिया। तर श्री जी रे निझर धोडा 2 रूपा रा साज रा किया। सो राखिया। अदुल्ला खा रे बेटे रे हेरे पधारिया तठे आमी सामी मिखमानिया हुई। पागुण सुद 14<sup>3</sup> श्री महाराज पातसाह जी र मुजर पधारिया। तर हाथी 1 इनायत वियो सलाम बीबो। पछ हाथिया रा दरोपा ने रूपया देण म ढील हुई तिण सू हाथी हाथ नह पायो। जतारण डेरा चत बद 4 सन्<sup>4</sup> पातसाह जी रे जिसन रो दिन जनूस हुवा। तर श्री महाराज निझर वियो माला मातिया री बीच धुगधुगी बीमत रूपया चबदे 14 000) हजार री।

साहजना र निझर विया—

पजीमदीन जी री—

मोजदीन जी री—

- 
- 1 शुक्रवार फरवरी 19 1708 ई ।  
 2 शुक्रवार फरवरी 20 1708 ई ।  
 3 सोमवार, फरवरी 23, 1708 ई ।  
 4 शनिवार फरवरी 28 1708 ई ।

प्रम्भतर विलेद जी री—

रकीयुलक्कदर जी री—

पातसाह जी री तरफ सू दिया—

1 दीवाण खानखाना जी नू सिरपाव, हाथी, माही मुरातब दीयो ।

1 असद खीं जी रा बेटा जुलकार खा बहादुर ने सिरपाव दियो ।

1 हिंदुवा मे पेहली सिरपाव श्री महाराज जी ने हृवो जामो तास रो पाग मुकेयी लाल पोतियो अजदी ।

3

चत वद 11<sup>1</sup> विपलिया रे डेरा श्री महाराजा जी श्री पातसाह जी रे मुजरे पधारिया । तर पाग ऊपर बाघण रो जडाऊ सिरपेच बीमत रूपया पाच 5 000) हजार रो बीच म धनायक चोकी हीरो जडाव रो जडियो, न पालती चोकी 7 सात ।

चेत वद 14<sup>2</sup> बड़ालीकने लाडवो छ तठ डेरा हृवा । तर श्री महाराज घोडा रूपा रा साज रा दिया —

1 राजा सुजाएसिंह अनोपसिंहोत बीकानेर रा ने घोडो 1 एक ।

1 राठोड सत्रसाल रतनोत गत्ताम रा धनी नू घोडो 1 एक ।

1 भाटी बिजेसिंह अमरर्त्तिहोत जैसलमेर रा नू धाढो 1 एक ।

1 राठोड भीव सबलसिंहात कू पावत नू घोडो एक ।

4

चेत सुद 5<sup>3</sup> सोम पोहोकर जी मे श्री महाराजा जी कियो तर चढायो । तिण री अिगत—

5 जल मे, 15) मेंट किया, 1 बीटी सोने री 1 कठो सोने री 1 मोत्या री जोडी, 1 घोडो

1 सिरपाव 200) रोकडा तोला 3 ।

गऊ दान 40, तिण म 20 पोहोकर वामिया नू, ने रूपया 300) भूरसी<sup>4</sup> दक्षिणा रा त्या मे रूपया 200) ब्राह्मणा नू घर दीठ रूपयो 1) पावलो, ने रूपया 100 भगत सायासी जोगिया नू ।

1 रविवार माच 7, 1708 है ।

2 दुष्वार माच 10, 1708 है ।

3 सोमवार माच 15 1708 है ।

4 एक प्रकार का दाम ।

वेत सुद 10<sup>1</sup> पातसाहजी रा अजमेर आनासागर रा मेहला म हुवा । ने रेती माह श्री महाराजा जी रा डेरा हुवा था ।

दीवाण खानखाना श्री महाराज ने कहयो राणा जी रा विस्टाला थे रहा । रे पातसाहजी सू करज करसो सा मजूर करावाया ।' तर पातसाहजी सू प्रर्ण कीवी के 'राणा जी माहनू लिखियो छ । दीक्षायत तो बदेइ पावा नही आयो थे । ने म्हारे एक वेटो थे सू बयू बर मेलू । ने पसकसी सदा द्वू छ सो कबूल छ । अस्वार हजार 1000 एक चोकी री नीदरी करे थे । सो कबूल थे । सु जवाब आ वात यारे बरेने साम दाम कर तियो ।

दिवण मे साहजान्हो कामवगस जमीत भेली कर न हिंदुस्थान ऊपर चढ़ाई कर आवण री त्यारी कीवी । तिग सू पातसाहजी ताकीद कर दरकू चा दिवण ने चलाया ।

राठोड दुरगदास आसकरणोत श्री पातसाह जी र पावा लागा । जिसन रो सिरपाव इनायत हुवो । ने हूकम हुवो मनसप तनस्वाह री अरज करो । तर दुरगदासजी अरज करी के महाराज श्री अजीतसिंहजी रे मनसप जागीरी हुय चुका पछे प्रर्ण करसू ।

नवाब खानखाना उकील पवाली जगजीवणास राठोड मुकनदास मडारी विठ्ठलास नू हमेशा बहतो— राजाजी नू बही जू दरबार भ आप च्यार हजारी मुनसप री सलाम करो जू जागीरी लिख दा' । सो कूच रा सबव सू दरबार नाय सविन्या नही । बमाल वट 5<sup>2</sup> भोम पातसाहजी रा डेरा हुवा तठ श्री महाराजाजी रा डेरा री बास । भागो तिण था पीठ ऊपर थोडी सी जरव<sup>3</sup> आई । पाखती उमराव मोक्षा था त्याव सभाप लीदि । श्री परमेसरजी बडी साप<sup>4</sup> कीवी । तर इतरी खेतायन हुई—

1000) श्री हजुर री तरफ सू एक हजार ।

500) श्री सवाई जसिंहजी जी तरफ सू पाच सा

100) राठोड दुरगदास आसकरणोत था लवर सुण ने पहले मुजरे आया न निष्ठरावत बीवी ।

1600)

1 शनिवार माच 20 1708 ई ।

2 मगलवार माच 30 1708 ई ।

3 साधारण चोट ।

4 सहायता ।

नवाब खानखाना श्री पातसाहजी सू अज करी महाराज अजीतसिंहजी रे मनसप ने जागीरी रो फुरमायो । ज्यु उणारी खातर जमा होवे । माह सू हमेसा ताकीद करे छे ने कहे छे लोक भूखा मरता परा जावे छे न एकला माह सू काई चाकरी हुसी नहीं ।” तर फुरमायो “साढ़ी तीन हजारी जात ने च्यार हजार असवार देसा । ने जोधपुर मेड्तो हमार नहीं दात र केर अरज करी के ‘आगे च्यार हजारी जात वही थी, ने हमे कम फुरमावो छो । वहसा तरे दिलगीर होसी ।” तरे पचास लाख दाम इनाम किया । ने क्वरा नू मनसप रो दृक्म हुबो । सो मनसप रो हिसाब उकील पचोली जगजीवणदास ल ने आयो—

|           |                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 231 000)  | जात साढ़ी तीन हजारी तिण रा दाम 92 40 000 बरस<br>1 रा । खरा प्रत रप्ये थेक रा दाम 40 लेखे । मुकरडे<br>रप्या दो लाख इकतीस हजार 231 000)              |
| 8,00 000) | च्यार हजार असवार तिण रा दाम बरस 1 रा खरा, मास<br>11 रा मास इग्यारे पावे सु दाम 32 00 000 प्रत रप्या<br>1) रा दाम 40 लेखे । मुकरडे रप्या 8 00,000 ) |

---

10,31,000

तनखा मे—

|           |                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3,07 500  | परगनो सोजत तिण रा इतरा दाम 1,23,00,000 प्रत<br>रप्ये 1) रा दाम 40 लेखे मुकरडे 3 07,500 ) |
| 52 500    | परगने सिवाणे दाम 21 00,000 प्रत 40 लेखे । मुकरडे<br>रप्या 52 500 )                       |
| 57,500    | परगनो फलोधी दाम 2 30,000 रा रप्या मुकरडे<br>57 500 )                                     |
| 4,17,500) |                                                                                          |

---

बाकी

---

6 13 500)

क्वर अभेसिंहजी चोहाण चत्रमुज रे दोहीतरा तिणा रे मनसप जात एक हजारी असवार पाँच सो 500 ।

क्वर अखसिंहजी, चोहाण फतेसिंहजी रे दोहीतरा, तिणा र मनसप जात सात सदी, असवार तीन सो ।

क्वर बततसिंहजी चोहाण चुत्रमुज जी रा दोहीतरा तिणा रे मनसप जात पाँच सदी असवार दोय 200 सो ।

उकील पचाली जगजीवणदास मनसप री खबर ले आयो । तर नोबत बजाई ने जगजीवणदास ने घोडो सिरपाव इनायत हुआ ।

महाराज पातसाहजी री हजूर पधारिया । तर पातसाहजी फुरमायो के 'जोधपुर विना हुकम लीनो, सो जोधपुर म पातसाही थाणो मलसा । तर मेरावला न थाणो भेहलिया थो ।

समत 1764 रा वेसाव सुद 5<sup>1</sup> पातसाह रा डेरा मदमौर हुआ । तर राठोड दुरगदासजी श्री महाराजा जी र मुजर आया था । ने राठोड जगराम ऊनावत राठोड चापावत हजूर बेठा था । तर याने हजूर फुरमायो के हकीकत कहता था 'सू ठाकुरा ने पूछो' । तरे पांच से दुरगदासजी ने कहया 'पातसाहजी जोधपुर मठतो दवे नहीं । ने या बिना आपणो वाणि ढूँढे नहीं' । ने जोधपुर म महाराव खा थाण जाय बेठो छे । रजपूत री वसी उपर पइसा नू दोडसी । रजपूत भूखा थका देसी नहीं । तर रजपूत मारिया जासी । न पातसाहजी सू खानखाना भात भात कर हकीकत कही ने मालम किंवी सा हलकारा सू हकीकत श्री महाराज सू मालम हुई । धिण आधो काने छ । पातसाहजी रो मन जोधपुर देण सु नहीं छे । न नरवना पार हुवा, तो उठे रुपया 1) एक रो धान सर 2 दोय मिले छ । ने उठा सू पाढो फिरिया जासी नहीं । तर दुरगदासजी कही के हकीकत तो इण्हींज भात छ । सु निजर ही आव छे । मरजी म तुल ने भलो हुवा जिझ करावे । तर हजूर पुरमायो के माहरा तो दिन म आधा जावण री नहीं तुले छे । न एक बार थे महाराज सवाई जेसिह जी सु मिला । ने बात करो । मु वारी काई सला छ । 2) तर ऊ न जाय एकात श्री राजाजी न बडा उमराव कामदारा ने ले हकीकत पूछी । तर उणा कहयो आवेर ही पातसाही थाणो बेठा छ ने थारे बात ज्यू ही मार द । सारा ही बडा ठाकुर भेला हुप्रा द्या । सो आधी होय सो बीजो । थाहरी न माहरी एक बात छे । भेना रहसा । सला मसलत आपणी भेली छे । तरे उठा सू प्राय श्री महाराज सू मालम बीबी के आ बात ठहराय आया द्या । ने फेर श्री राजाजा ने आप भेला हो सो मलाह म वसे ज्यू कराई ज । दुरगदासजी वही आपरी बात साभल द्या । सा रण बात उपर वेसाव सुन् 6<sup>4</sup> बडी फजर रा श्री महाराज सवाई जेसिहजी र डेरे पधारिया ।

ने एकात बात किवी । ने बाहीं बात ठहराय ने डेरे पधारिया । पछ वेसाव सुन् 12<sup>5</sup> गाव बडो<sup>6</sup> सू पातसाहजी रो दूच आगा ने हुवा । ने महाराज

1 बुधवार अप्रैल 14 1708 ई ।

2 अपना काय समुचित रूप से नटी हो सकता ।

3 गुर्वार अप्रैल 15 1708 ई । 4 मगलवार अप्रैल 20 1708 ई ।

5 बडोड—बडावदा मासूर न 38 मील द पू भ स्थित ।

श्रीतसिंहजी ने सवाई जसिंह जी + राठोड दुरगदास जी कूच कर पाढ़ा फिरिया। सो देवलिया<sup>1</sup> ने चताया। पछ पातसाहजी ने खबर हुई। तर दीवाण रानवाना मु एतराज हुवा नें कहो 'पेला क्यू नहीं कही। दोनूं राजावा रा डेरा बडोद र मुकाम नारे रथा था, सो पातसाहजी खालसे किया।

देवलिया रे गाव रावत पतारसिंहजी सामा आया। दोनूं साहवा सू मिलिया न मिभमानी किवी। पछ दूजे दिन महाराज श्री अजीतसिंहजी फुरमायो 'सवारे मदसोर ऊपर फौज मेला।' तर रावजी कहो 'मान देवलिया भाह सू बाढ न पछ मदसोर ऊपर फौज मेलो।' तर श्री महाराज हस ने फुरमायो "मदसोर थाहरा मुलाहजा सू नारे छोड़ी।"

देवलिया सू उद्येपुर पधारिया। देवारी राणा अमरसिंहजी साहमा आया मिलिया। जेठ बद 8<sup>2</sup> उद्येपुर दाखल हुया। मिभमानी कीवी। तर राणाजी श्री अजीतसिंह जी श्री सवाई जसिंहजी भेला जीमिया। ने राठोड दुरगदासजी पातियो तो एक एक्हीज न बाजोट ऊपर थानी लेने जुदा जीमिया। सारा उमराव जीमिया। उद्येपुर रह्या, जितरे राणाजी री तरफ सू मिजमानी रा रोजीना रोकड मेलता—

महाराज श्री अजीतसिंहजी साहवा रे। 400) र ।

महाराज श्री सवाई जसिंहजी रे रुपया। 400) ह ।

राठोड दुरगदासजी रे रुपया। 200) ह ।

राणाजी अमरसिंहजी आपरी बटी रो सगपण सवाई जसिंह जी सू कियो। हाथी 1 घोडा 4 बागा 4 नालर 2 साने रुपे सू घन्योडा, ने रुपया च्यार 4,000) रोकडा टीका रा मेलिया। तिण म घोडा 2 मे रुपया 3 000) सवाई जसिंह जी पाढ़ा भेहलिया। दस्तूर माफक राखिया। जेठ मुद 1<sup>3</sup> रो साहो<sup>4</sup> थापियो। महाराज श्री अजीतसिंह जी रुपया 2,000) रोकड न घोडा 2, नोता ग सवाई जसिंह जी र भेहलिया। न इण हीज मुजव राणाजी रे नहुता रा महलिया। राणा जी बेवायो थे माढी<sup>5</sup> छो सरखरा मे थान रहणो पडसी। महाराज पाढो बेवायो बे मै दोनूं तरफ माजसा। पछ सवाई जसिंह जी रे साथे जाय ने तोरण बनायो। ने पछे राणा जी बने बेठा माहडी हुवा।

1 देवलिया-मदसोर से 27 मील पश्चिम म।

2 रविवार, मई 2 1708 ई।

3 सोमवार मई 10 1708 ई।

4 तमन।

5 माढी=वधु पर।

राणा अमरसिंहजी भाषपरे कावा सूरतसिंहजी री बेटी गाव तावा रा डोडिया रजपूत ने परणावण लागा । जद राजसोका भाया उमरावा सारा भने किया । 'वे भाप डोडिया सू राजी थो तो इनाम इकराम पटो बधारो न्हिरावो । बेटी नहीं दिवी चाहीजे । सगपण तो सदा होता भाया है, जठे हीज हुवा चाहिजे । पिण राणीजी मानियो नहीं । ने परणाय दिवी । तर राणा अमरसिंह जो रो सगो काको राजा गजसिंह जी महाराज अजीतसिंहजी रा सुसरा जेठ सुद<sup>1</sup> जहर खाय मर गया । तर गजसिंह जी री राणी हाडी जो सती होए लागा । जद महाराज अजीतसिंहजी समजास कराई । राणिया चार तो सत कियो थे । ने थ ही सत करसो तो घर उठ जासी । माहा री अरज कर बठा रहो ॥' तरे हाडीजी सत नहीं कियो । महाराज थी अजीतसिंहजी राणीजी ने कहया गजसिंहजी री मालमता जागीरी इणा रे बहाल राखीजो जबत नहीं कीजे । 'ता राणाजी महाराज रो बहयो मजूर कीयो ।

मडारी विठलदास ने उमरावा साथे गजसिंहजी लोकाचार महलियो थो । तठे पग रे धोडा री लात लामी । पग रो हाढ भागो । पाढ़ो आयो तरे विठलदास र डेर थ्री हजूर सुख पूछण पधारिया । पाटो बधायो न रुपया 1000) एक हजार धरम पुन रा न्हिराया ।

असाद बद 8<sup>2</sup> गुवाम विठलदास रे डेरे महाराज फेर पधारिया । मडारी मोहरा 100) एक सो निजर कीची । साथ म मिठाई अमल पाणी मिजमानी कीची । मडारीस नें<sup>3</sup> थ्री महाराज कडा जढाव रा इनायत किया ।

साहजादा बडा अजबदीन रा कागद राणाजो र जसिंहजी र अजीतसिंह जी राडेड दुरगदास जी रे नावें राणाजी री मारफत उदेपुर म आया ।<sup>4</sup> लिखियो मास 2 बेठा रहीजो । विगाड मत कीजो । जागीरी मह लिखाय मेलसा । दोड घाव कीजो मती ।

दोनू राजा राणाजी सू सीख कर मारवाड ने विना हुवा । तर सवाई जेसिंहजी ने दायजो दियो ने महाराज अजीतमिहजी रोकड रुपया दस 10 000) हजार ने धोडा 4, हाथी 1 बपडा रा थान दिया । दोय हजार बरकदाज ने च्यार तोपा देने साहा सावलदास नू दोनू राजावा र साथे मेलियो । ने कहया दोनू साहिव राजी हाय सीख देवे जद पाछो आवजे । ने थारी बदगी आळ्ही कीजे । सावलदास

1 मई 10 से मई 23 1708 ई ।

2 सोमवार मई 31 1708 ई ।

3 सभी को ।

4 शाहजादा मुइजुद्दीन का 14 सप्तर 1120 ई हि—शनिवार अप्रैल 24 1708 का निशान बीर 2, पृ 773-774 ।

ने फौज राणा जी री ने खरची राणेजी दीवी। महाराज अंजीतसिंहजी रा डेरा राजसागर मेहला मे हुवा। प्रसाद बद<sup>1</sup> ने लारा सू महाराज जसिंहजी ने राठोड दुरगदासजी आया। उठा सू श्री जी द्वार पधार दरमण किया। उठा सू रूपजी पधार दरमण किया। उठा सू महाराज रविया 100) एक सो चढ़ाया, ने रविया 25) चतुरमुजजी रे पधारिया तर चढ़ाया। पछ देशुरी रे धाटे उतर आऊवे डेरा किया। चापावत उदेमाण सप्रामसिंह जुभारसिंह महेसदासोत गोठ कीवी। भक्तो साथ ने एक एक घोडो दीया। उठा सू सोजत दाखल हुवा ने जेतावत उरजनसिंह चगरह दलषमणजी रो फितूर उठायो थो सो भहाराब खा कन जोधपुर था। भगत गोविददास रे घरे डेरो थो। जिण ने सोजत स रजपूत मेल ने चूक करायो सो इण री हकीकत ऊपर लिखी थ।

गाव विरामी रो रावलोत भाटी हरीसिंह अमरसिंहोत महाराज रो सालो थो। सो जोधपुर मे मेहराब खा पाणयत तो तिण कने रेवतो ने रोजीनो पावता थो। सो प्रमाद सुद 15° महाराज बने आयो। तर व्यास दीपचद ने भा देवराज ने साहमा भहलिया, ने डेरा हुवा पछे हजूर हरिसिंह रे डेरे पधारिया।

जोधपुर थाणेदार मेहराब खा कने दा हजार असवार ने एक हजार वरकादाज था। ने मेहराब खा गढ सफियो<sup>2</sup> न प्रजमेर ने लिखियो के मारी मदद बीजो। ने खरची मेलजो।' पिण प्रजमेर रे सावेदार मदद कीवी नही। न खरची मेली नही। तर मेडतिया कल्याणसिंह राजसिंहोत सू महराब खा रे छब<sup>3</sup> थो। सो इण ने कवाया ये आय ने भन बोल बचन देन अजमेर सूधा पूगाव देवो तो हू कूच कर अजमेर जाऊ।' तर या महाराज सू प्रज बीवी। तर महाराज फुरमायो के "मेहराब या ने मारसा।" ओ आधमनो होव न आया छे। सो इण न मारिया बीजो इण तरफ मूढो नही करे। तर दुरगदासजी अरज बीवी के सहर लून्यो जासी पाव आत्मी अठी उठी रा मरसी तरे मेहराब खा मरसी। आया ने घणा काम करणा थ। हिंदुसिंध जी कल्याणसिंहजी प्रज कर छ सो मजूर करावो। ने इण नु विदा करावो।' तर इण नु बचन देने बिदा किया। सो ओ सावण बद 10<sup>5</sup> जोधपुर आया। मेहराब खा सू बात करने सावण बद 11<sup>6</sup> ने कूच कीयो, सो

1 सोमवार, मई 24 1708 से बाद का पक्ष।

2 सोमवार जून 21, 1708 ई।

3 राजस्तपक पृ 428 के अनुसार अंजीतसिंह ने थावण बदि 7, 1765 वि  
—मगलवार जून 29 1708 ई को जोधपुर पर धेरा ढाला।

4 मेलजोल।

5 शुक्रवार, जुलाई 2 1708 ई।

6 अनिवार जुलाई 3 1708 ई।

मेडतो गया । उठा रा फौजदार न साये स मेहराव गां धजमेर गयो । महराव या ने धजमेर पुगाय तिरनार पाठा भाया ।

समत 1765 रा गावण वर्ष 131 महाराज अजीतसिंहजी सवाई जमिहत्री दुरगदासजी पणी जनूस मू नोबत राजता जोधपुर रे गढ दासल हुवा । महाराज सिहासन विराजिया । सवाई नमिह जी टीको काढ भातियो रा भासा चेणिया । सारा तिरनारा टीका रा हाथी घाडा निजर लिया । सवाई जसिह जी रा हरा सूरतागर महला म कराया । दुरगदासजी रा डेरा द्रहु कु ड ऊपर कराया । राणाजी रा साप रा डेरा क्ल पावत राजसिह सीमाबत रा बाग म हुवा रेती म ।

समत 1765 रा सावण मु<sup>३</sup> 11 मनु<sup>३</sup> राठोड मुकनदास ने रुपनाथसिंह दानु भाई सुजाएसिंह धाइदानोत चापावत पाली पणी परघान या । स्थान गढ ऊपर आधरणी री साल म चूव कर मराया । राठोड प्रतापसिंह राजमिहोत ऊनावत छिपिया रा पणी ने राठोड भीर सदलसिंहत या कटारिया मु मारिया । मुकनदास रा रजपूत नाहर घना ने गहलात भीवो भाटी वेसरीसिंह बदरीदासोत मेर रजपूत ब्राह्मण शिवदान, ऊदावता रा चाकर यो तिण रा हाथ सू बाम भाया । नाहर घना री हाथ री न गहलोत भीवा री हाथ री कटारिया ऊदावत प्रतापसिंह राजसिंह बलरामात रे लागी तिण मू बाम भायो ।

### दोहा

आजूणी अधरात, मेहल ज रनी मुकद री ।  
पातल री प्रभात, भली रोवाणी भीवडा ॥

इनरा महाराजा रे ऊमरावा रे धने भीवे तोहडा लगाया । राठोड भीव सवरसिंहोत कु पावन रे धाव राठोड रामसिंह गोपीनाथोत ऊनावत रे तोह, राठोड महासिंह श्यामनास नरसिंहदास ऊनावत रे लोहो राठोड भजवसिंह भागमलोत ऊदावत र लोहो राठोड प्रतापसिंह किमोरसिंहोत रतनात जोषा रे लोहो 3 । राठोड मुकनदास रुपनाथसिंह ने इणा रा रजपूत घना भीवा वेसरीसिंह न भेला हीज माचा मे धाल न रासोनाई ऊपर गाल म भलो हीज दाग दियो । राठोड राजसिंहोत प्रतापसिंह ने भेलो तर वेकु ठी म वेसाण वेसरिया वागो पहराय गढ ने चाकेलाव ऊपर भाटी सकरद स री छ्यनी कने दाग दियो । ने ऊपर छ्यनी गढ म नवी कराई । रुपया 150) म भुकाते । ऊनावता र डेर मातमपुरसी ने पधारिया । प्रतापसिंह रे वेटा दोय ने घोडा सिरपाव दिया 12=रुपया 1000) एवं हजार खरच नू दिराया ।

1 रविवार, जुलाई 4, 1708 ई । 2 अक्षत ।

3 शनिवार, जुलाई 17 1708 ई ।

पणी दिलासा दिवी के 'प्रतापसिंह जी म्हारे अरथ आया था । सातर जमा राखजो । मोठा बरसा ।'

महाराज थी अजीतसिंह जी राठोड मुकनदास रा अवगुप्त इतरा जाहिर थीना विगत—

"मन म मगज<sup>1</sup> घणो राखतो, वे मेह चापावता म सिरदार ऊथापण थापण" समरथ, मता सू करा । पातसाही मनसपदार । मता<sup>2</sup> घणी । पाली रो थाणे जुदो थे । पातसाह री तरफ सू सनद कराय लिवी । '

सिराही पर राणा री फोज म भिरदार राठोड गोवीनाथ थो सो मारवाड रो माह रो भलो चाहे । ने मुकनदास मारवाड रो ने म्हारो भलो नही चाहयो । आपरे दाय आयो कियो ।'

'खवर मोहकमसिंह इंद्रसिंहोत रो हेतु थो । म्हारो परघान थो मारवाड रो भार मह दीनो थो पिण वेडो<sup>4</sup> थो ।'

"हमार मुकनदास आपरो मनसप पाली रो थाणो जुदो लिखायो न लीनो म्हारो चूक्ता पहला ।'

खवर मोहकमसिंह जालोर माहा रे ऊपर आयो तर सबो रजपूता री सलाह थी । पिण मुखियो थो । पद्ध माहारे क्वने साथ भेलो टूटो ने मोहोकम नाठो तर मै नागार मारणो विचारियो, सो इण नह जावण दीना । जाफर वेग फीजदार नू बुलाय म्हारे आडो फिरियो थो ।"

राठोड जगराम कपर सौजत री फीज ले गयो ।"

जोधो रामसिंह रतनोत कहतो थो 'हू म्हारा हुपिया लाल्ह दोय लाल्ह चारच न ही अजीतसिंहजी री पातमाही तरफ अरज री तजबीज कर सू । जिण ने थण जोधपुर रा फीजदार आगा नू गाव ले जाय ने रामसिंह ने भरायो ।'

सावण सुद<sup>5</sup> आवर सू सवाई जर्सिंह जी ने खवर आई । मुहता रामचद दीवाण ऊपरा आवर रो फीजदार घगो जमीत लेने दाइया । तठे लडाई हुई । कधवाहा भेला हुवा बढ़ी लडाई किवी । फीजदार रा घगो लाक मूआ तर भागो

नु तरफ गयो तर रामचद आवेर गयो । पाढ्यला तुरक मारा मारिया ने बाढ लिया । तुरक मुलक मे कठे ही राखिया नही । साथे बडी जमीत लेने मुलक मे सारे सामर सूधी पईसो लीनी ।

1 अभिमान घमण्ड ।

2 राजगदी पर बठाना और उतारना ।

3 था दौलत ।

5 जुलाई 7 से 21 1708 है ।

4 व्येच्छाचारी ।

राजा सवाई जसिंह जी ने खरची रा रुपया हजार 18 000) प्रठारे एकठा दिया। अस्वार हजार एक 1000 रा। त्याने रोजीना खरच रा दीना। रुपया 5000) एक बार ने। हजार 5000) पाच भादवा मुद 21। हमिया 2 लंपर घाल मेहलिया। राठोड़ दुरगदासजी भ्राप रा रुमिया 4000) च्चार हजार दीया वेला स्थार करन।

समत 1765 रा भादवा बद 5 सोम" राजा सवाई जसिंह जी नु म्हाराज अजीतसिंहजी रे बेटी सूरजकवर बाई, जेसलमेर री भाणजी री सगाई किवी। मडारी बिठलदास प्रोहित अस्तराज रो बेटो जसिंह व्यास दीपचद साथे, सूर सागर रा महेला इतरो मेलियो। बिगत—

नालेर सोना रुपा रा

1 नालेर एक सोना सू भडियो सोना तोला 5)।

1 नालेर एक रुपा सू भडियोडो रुपा सोला 6)।

---

2

सोणारिया सोना रुपा सू मडियोडी—

11 सुपारी इम्मारे सोना गू मडियोडी सोना तोला 21)।

11 सुपारी इम्मारे रुपा सू मडियोडी, रुपा तोला 21)।

---

22

फूल सोना रुपा रा

फूल सोना रा, तोला एक भर रा 1)।

फूल रुपा रा तोला 10 भर रा 10)।

रोकड़ रुपया 1,000) —

500) निष्ठरावल रा।

500) निगदारा रा।

---

1000

हुयसी 1 भेघमाला।

बरगा 4 पाच पाच ठाका<sup>1</sup> रा—

1 शुकवार, अगस्त 6 1708 ई।

2 सोमवार जुनाई 26 1708 ई।

3 पाच प्रकार के वस्त्रों सहित।

## जोधपुर राज्य की स्थान

- 2 वागा दोष केसरीया पाच ठावा ।  
 2 वागा दोष खीनखाब रा पाच ठावा ।
- 

4

घोडा 4—

- 1 घोडा एक, सोना रो हाव मूदो सोना तोला 20) भर ।  
 3 घोडा तीन, रुपा रा हाल<sup>1</sup> मूरु रुपो तोला 74) भर ।
- 

4

नोवत बाजता गीत गावता नालेर ले गया । प्रोहित जसिह टीको काढियो । मोतिया रा आखा चेडिया । न राजा जसिह जी री आरती कीवी । सवाई जसिह जी प्रोहित जसिह जी रे आरती री थाली भ माहरा 4) ने रुपया 25) धालिया, जिन म भडारी मोहर 3) ने रुपया 20) पाछा दिया ने माहर 1) रुपिया 5) प्रोहित रो नेग थो मा प्रोहित ने दिया । साथ नूतणा अमल पाणी कराया । केसर रा छाटणा दिया । घणो उठाह किया । राजा सवाई जसिह जी घोडा 4 वागा 4, ने रोकड रुपया 1 000) म्हेलिया । नेगदारा सार् । सो श्री जी रुपिया 200 राखिया, सा नगदारा ने बाट दिया । ने बाकी रा रुपिया 800) ने घोडा वागा पाछा मेल दिया । श्री महाराजा जी श्री सवाई जसिह जी ने भिजबानी भादवा बद 10<sup>2</sup> री किवी । पकदान चावल दाल खाजसा 60 बिया । ने खाड मण 50) पचास गाली तिण मे आधी मिठाइ ऊबरी ।

भादवा सुद 1 गुरुवार<sup>2</sup> राजा सवाई जसिह जी सेहर मे तलहठी रा मेहन दैख गढ़ क्षेत्र गमा । दोनू राजाजी छभा मढप मे भेला था । सवाई जसिह जी रणवास मे जुहार केवायो । तर रणवास मू आसीत रा रुपिया ने खीनखाब रा थान आया तिण रो बिगत—

- 100) 1 माजी देवडी जी रा रोकड 100) थान एक खीनखाब रो ।  
 100) 1 सीसीदणी जो देवलिया रा 100) रोकड 1 थान खीनखाब रो ।  
 100) 1 भटियाणी जो जेसमलमेरी जी 100) रोकड एक । थान खीन खाब रो ।
- 

1 खुरताल अथवा भोती री लगाम बी ढोरी सहित ।

2 शनिवार, जुलाई 31, 1708 ई ।

3 गुरुवार, अगस्त 5 1708 ई ।

50) भाती जो रा  
 भटियाली जी देरावर रा ।  
 चहूवाणजी पुनमुज री बेटी ।  
 चहूवाणजी साचारी जी ।  
 चहूवाणजी, पनहसिह री बटी ।

---

बवरजी अभसिह जी आय मुजरो किया । तर सवाई जसिह जी कठिया<sup>1</sup> गुरग दियो । समत 1765 रा भादया सुद 2<sup>2</sup> शुश्वार राजा सवाई जसिह जी सरावत जी रे तनाव देरा किया ने महाराजा जी पिल रात रा सकावत जी र सकाव जसिह जी रे हरे पथारिया । गुजरात रा सोरेनार गावूरी सो रो कागद स वासीदो री जाडी जेसिहजी बने घाइ । सो कागद वाच ते श्री जी न ही बचाया । पछ रात रा ही श्री जी गड दालन हुवा । ने दूज टिन महाराज ने सवाई जेसिह जी राठोड दुरगदासजी कूच कियो । सो भेड़त होय पुस्कर जी ढरा किया । न अजमर सोवायत सुजायत सो थो तिण राठोड कनीराम ऊदावत न मल म बंवायो बे अजमर पातसाही सुबो थ्य ने साजाजी री दरगा थ सो थदब रामण री ठोड थ । सो वाकी रा मुल्क भे भसो हा पेसवसी लेवो हु भने नहीं कर । न पातसाहीजी ने लिखन जोधपुर आवेर रो मनसप मगाय दे सू । ने खरची रा रुपिया लाल 3 00 000 तीन ह थाने पाहोचाय देसू । भडारी खीवसी ने सवाई जसिह जी रे देरे मेल न महाराज अ समाचार केवाया । सो उणा ही कहो थीक है । अजमेर रो भूवादार इए तरे रो बूतो देने दोनू ही राजावां न महीनो एक पुस्करजी राम दिया । न पातसाही न मन्त रे वास्त लिनिया । सा असदला ऊपर हुक्म आयो बे अजमर मदद सिताव सू मल जो । सो भागरा सू मुखरा सू नारनोल सु ने आवेर माह सू रामचंद दीवाग बाहिया या तिके अस्वार ऐ सईदा रा च्यार सूवा रा अस्वार विदा हुवा । सो खरच सवाई जसिहजी र आई । तर बूच कर साभर ऊपर गया । साभर रा फौजदार भली मेहमद थो । तिए काती बद 13<sup>3</sup> बेड किंवि । पछ नाम ने देवजानी रा कोट म पठो । बाती सुद 1<sup>4</sup> मुखरा रो फौजदार गरत खा सइद, नारनोल रो फौजदार सइयद हुसन खा आवर रो फौजदार सइयद हुसेन अहमद हजार 8000 भाठ घोडा ने घणा तोपतानो लेने आया । दोनू राजावा कर्ने फौज हजार 20000 बीस पचीस थी । सइा सू लडाई

1 शुश्वार अगस्त 6, 1708 ई ।

2 शनिवार अगस्त 7, 1708 ई ।

3 गुरुवार सितम्बर 30 1708 ई ।

4 रविवार अक्टूबर 3 1708 ई ।

है। महाराज अजीतसिंहजी, जसिंहजी, दुरगदामजी पिंड घोडा उठाया। राठोड दुर्गदाम नहको सप्रामिह, निराट। आया लड़िया। सइद सिरदार हाथी ऊपर बेठा था सो गोलिया सू फूट गया, सो काम आया। न अलीमेहमद ने पकड़ लियो। तुरका रो फौज भागी। सो कोस 5 ताइ महाराज गीफोज रा रोकिया दोय 2000) हंगार तुरक मारिया गया। हाथी 4 चावर लूट में आया हाथी एक तो महाराज रे आयो। न हाथी 2 जसिध जी र आया। न हाथी 1 नहका मध्यामसिंहजी र आयो। घोन हजार 2000 लूट में आया। पालखिया नगारा निसाण डेरा खजानो तोपखानो बगरे घणा मान लूट म आया। ने काम आया तिणा री विगत—

- 1 राठोड भीव सबतसिंहोत कू पावत, आसोप रो घणी तागीर किरत सिह सुरजमलोत री।
- 1 भाटो किसनसिह महब रो, पटे गाव आटण।
- 1 राठोड केतरीसिह काशीमिहोन करावा रो, सदाई जसिह जी रो चाकर जसिह जी रो मासो थो।

महाराज अजीतसिह जी री फोज रा च्यार 400 सो आदमी भाम आया।

---

धायल हुवा तिणा री विगत—

- 1 राठोड किलाएसिह राजासिंहोत रे गोली लागी।
  - 1 राठोड दोसतसिह जुभार्मिहोत रे गोली एव ने तरवार लागी।
  - 1 राठोड जगतसिह करणोत रा हाय रे तरवार 3 लागी।
  - 1 पचोली भनोराम जगनाय रामचदोत रे तोर गरदन रे हलको सो लागो।
  - 1 रजपूत द्वृजा 40 चालीस धायल हुवा।
- 

तुरका रा आदमी घणा धायल हुमा। ग्रल्हवरजी उपाडे माये होय फौरा भेनो जाप बेठो। सेहर म दोनो राजापा रो भमल हुको। सामर री पदास दोनू राजाका रे प्राधू प्राप्त लेणी छहरी। दोनू राजावा रा हावम 2 दोय, बोटवाल 2 सामर म थठा। महाराज अजीतसिहजी री तरफ सू हावम भढारी खीवसो रामायत पाटवाल जुगराम नू रागिया। थी जी हाथो रे होडे विराज असवारी बीवो। न इए माफ्क निवाजता बीवो तिण रो विगत—

- 4 000 राठोड उमरावा न सिरपाव रा दिया, चार हजार।
  - 100 प्रोहित परमार ने दिया एक सो।
-

- 100 वास देरासरी ने एक सो ।  
 50 खानसामा प्रोहित रिणछोड ने पचास ।  
 50 बगसी पचोली हरकिशन ने पचास ।  
 मडारी विठ्ठलदास ने कडा री जोडी ।
- 

साभर रो काजी खालक मेहमद तिण न कद कियो । रोजीना पजारा<sup>1</sup> सू बृटता । काजी रो घर खोल्नियो । लाख 3 00 000) तीन रो काजी कना सु लियो ।

डीडवाणा मे महाराज अजीतसिंह जी रो अमन हुवो ।

दीडवाणा असदखा आगरा रो फौजदार ने हजार 4 000 लाख सू अजमेर मेहलियो । तिण रा डेरा कामा हुवा । जो कामा रे वणी रातीबासा दे फौजदार ने मार नाखियो । हाथी 4 चार, नोबत निसारण खजावो खोस लियो । तुरक घणा मारणा ने तुरकता री फौज भागी ।

महाराज अजीतसिंहजी साभर मे तरत रवा<sup>2</sup> विराजण ने करायो सो 16 सहकार जुतता । गुरजा 14 रुपा री बराई गुरजबदार बणाय फेर ही पातसाही रो नवाजमो बणायो ।

समत 1765 रा मिगसर बद 8<sup>3</sup> साभर सू खजानो म्हेलिया ऊटा ऊपर । तिणरी बिगत —

जोधपुर रे गढ दाखिल किया रुपिया इकत्तीस हजार 31 000) ।

शीडवाणा रे गढ दाखिल किया रुपया 7 100) इकोतर सो ।

डीडवाणा सु जोधपुर पथारिया तर लाया रुपया चबदे हजार 14 000) हजार ।

दोनू महाराजावा आवेर नू कूच किया । ने तुरगदास नु उदेपुर राणा जी चने म्हेलिया, केवायो राज जमीयत ले पधारो सो पातसाही न गाल देमा । दानू राजा आवेर दाखल हुवा । मिगसर<sup>4</sup> जसिंह जी टीके बेठा । बडो जलूस हेयो । टीका रा हाथी धोडा जसिंह जी नू दिया । सागानर सु रुपया 12 000) हजार रो बपडा मगाय रणवास मे ने जसिंह जी उमरावा ने पहरावणी कीवी । जेसिंहजी

1 जूता ।

2 ऊठाकर ले जाया जाने याला सिहासन विशेष ।

3 सोमवार, अक्टूबर 25 1708 ई ।

4 अक्टूबर-नवम्बर, 1708 ई ।

महाराज भजीतसिंह जी रा माथ ने मिरपाव म्हेलिया । भो व्याम प्रोटित बगेरे रा चार ४ रायिया । याको रा पाढा म्हेलिया । जसिंह जी मिजमानी थीवी । इण मिकमानी रा घणा बगाण हुमा । मिकमानी रा रपिया महाराज जेसिंह जी ने भर दिया, जवाई रा भरच लगावणा नहीं, जिण वास्त । आवेर रा भेहल बगेचा दत्तिया । महाराज जेसिंह जी तो आवेर ही रपा ने महाराज भजीतसिंह जी माभर ढरा किया ।

रूपनगर रा राजा राजसिंह मानमिहोत महाराज भजीतमिहजी रा फर सू देवलिय उणा रा नानारण थो, जठे जाय बठा । भो राजसिंहजी साहजादा भजीमदीन न निविया के दानु राजावा कने फोज घणी द्ये ने दिल्ली तक फिसाद वरण रा मनसोबो द्य । सो इणा रे उतन जोधपुर आवेर हे सो इनायत वरावा, तो मैं दोनु राजावा ने इणा र ठिकाणे बसाणु दक । तर साहजादे पातसाहजी सू अरज वर जोधपुर आवेर रा फुरमान दानु राजावा र नाव लिखाय मेलिया राजसिंहजी बना । सू देवलिया सू राजसिंहजी फुरमान ले महाराज भजीतसिंहजी बने आया । न भरज करी 'हम पधार ने ठिकाणे विराजो सा आपर न पातसाहजी र मुलह रहे । तरे महाराज कूच कर जोधपुर पधारिया ।

समत 1765 रा पोस<sup>1</sup> जोधपुर सू फोज ले क्वर माहोक्मसिंह ऊपर नागोर ने चढ़िया । गाव कुचेरे ढरा हुवा । मोहक्मसिंह ने पोहार । पेहला व्यवर हुय गई भो नास गयो । हजूर रा डेरा मू ढवे हुवा । जठ इ-द्रसिंहजी री मा शेखावतजी न क्वर अजवसिंह साहमा आया क्लस बदाया । महाराज दादा हुव सो पगा लागा<sup>2</sup> । निजर निद्धरावल किंवी । साना रूपा रा पूल उछालिया । अरज किंवी मोहोक्म सिंह याप रो हरामखोर द्ये ने इ-द्रसिंहजी रा ही हरामखार द्य सो हाय आवे तो मारणे जाग द्य । रायसिंघजी ग्रमरसिंहोत री बहु भात भात अरज करी के आप मने इ-द्रसिंह ने नागार काचती रो बगसावो । देवर जो महा आया रो शरम राखो । तर फुरमायो भाभी थाह रा मुलाहजा सू गई वर द्य । पछे थी आनन्दधन जी थी नागणेचिया जी री सेवा हयणा 1 घोडा 2, रपिया एक 1 00 000) लाख निजर कर राव इ-द्रसिंहजी बेटा पोता न ने पावा लागा । महाराज राव इ-द्रसिंहजी ने ने क्वरा ने घोडा सिरपाव दिया ।

दिन—नागोर रहने कूच कियो । नागोर पधारता गाव जूटिया ने खोडो मे हजारा मण धान थो सो लियो ।

1 नवम्बर—दिसम्बर 1708 है ।

2 राजसूपक पृ 446 ।

नागोर सू इद्रसिंहजी रा क्वर दोय स 200 घोडा सू जोधपुर आया । महा मुद 2<sup>1</sup> असवारी म मसूरिया भास्तर कने पावा लागा । गढ मे जाय रानलोबा रे पावा लागा । मईता छोरवा रो सा व्याहार हुवो । दिन च्यार रह्या बिदा हाता ने सिरपाव दियो ।

पोहोस मुद 7<sup>2</sup> माजी देवडी जी राव अक्षराज जी सिरोही रा री बेटी तुलाव बेठा । सूर सागर रा महला मे । महाराज ने राजसोक सारा सूर सागर ही था । तरे एक सा न 108 आठ गया सेनरूप दिन पनरे पेहला द्वादशणा ने दिवी थी ।

तुलाव बेठा रूपा री एक ।

4000) तुलिया चार हजार ।

1000) महाराज और म्हेलिया ।

700) राजसोक 7 साथे या त्या धालिया ।

तुलाव छव 6 बीजी हृई—

1 सपत धात री<sup>3</sup> ।

1 शृत री ।

1 लवण री ।

1 वपडा री ।

1 तिल री ।

1 खाड चीणी री ।

विरामणा री बरणिया 34 र्यानू परत 8) रप्या रोकने रप्या 2) याली लोठी बाटकी, ने पाच हाथ अगोछो ।

विगत—

11 पोहोकरणा नू दिवी इग्यारे—

1 लिखमीचद । 1 बालकिशन ।

1 नीपचद । 1 सूरजमल ।

1 जेता जोत वराई । 1 जोशी लिखमीचद ।  
रो ।

1 श्री नाथजी । 1 श्रीपतजी जदपद ।

1 शनिवार जनवरी 1 1709 ई ।

2 बुधवार दिसम्बर 8, 1708 ई ।

3 सात धासुमा वी ।

|   |                 |   |                           |
|---|-----------------|---|---------------------------|
| 1 | व्याहरी व्याम । | 1 | खानसामा प्रा । रिणद्योड । |
|   |                 | 1 | द्वारका जी रा वेटा ।      |

---

20 सिरीमाली विस्तृ ।

2 प्रोहिता री बरणी दी ।

1 प्रोहित अखेरात नू प्रो चतुरमुज ने दीवी ।

---

1

---

34

माझी देवदी जी पोस सुद 15<sup>1</sup> देवलोक हुवा । मण्डोर दाग दीयो ।

फागण बद 10<sup>2</sup> मडारी विठ्ठलदास रे घरे श्री महाराज पघारिया न आरोग्या ।

पहले दिन विठ्ठलदास न हाथी सिरपाव इनायत किया था । श्री जी रे मडारी विठ्ठलदास निजर रप्या 46 000) छियालीस हजार किया, तिण री चिंगत—

31,000) राष्ट्रा ।

13,000) मोदिया रा सान्तिा ।

2,000) वृष्टो निजर कियो ।

---

46 000)

श्री महाराज विठ्ठलदास ने हथणी 1 राव इन्द्रसिंहजी निजर बीकी थी, इका इनायत कीबी । मो मडारी रे घरे मूँइ ।

समत 1765<sup>3</sup> रा अजमेर रा सावेदार मुजायत खा महाराज ने समाचार महिलिया के 'मने पातसाह उठा सू तामीर कीना छे थ साभर डीडवाणा लीना । सईदा ने मारिया जिण मुदे पातसाह जी माह सू नाराज छे । सो हू ता चाकरी छोड नें अठा सू हीज उत्तन ने जावसू न अठा रे सुवे पिरोज खा रा वेटा नू महिलिया थ । सा डरता नही आय सके थे । उज्ज्ञण मे होय आगरे गमा थ । सो

1 गुरुखार, जनवरी 16, 1708 ई ।

2 सोभवार जनवरी 24 1709 ई ।

3 1709 ई ।

वते<sup>1</sup> देवते प्रावसी । सो थे आय ने अजमर उरो समो । हूं धठे बेठो बेमतलब  
खराब हाऊँ छू ।<sup>2</sup> मुजायत साँ घो वपट बीना थो जाणिया घोडा साथ सू काट  
म आ जावे तो मार लू । सो सुजायतवा रा समाचार आया तर भडारी विठ्ठलदास  
महाराज न होनी पेहला हीज फागुण सुद 5<sup>3</sup> से चातियो । महाराज कन साथ घणो  
भेलो हूंवो । घोडा पदल कर पच्चीस तीस हजार फोज भली हुई । जटेरा घणा  
भेला हूंवा था । उणा गाव सूटिया । चेत बद 7<sup>4</sup> अजमर पोहता । सो आग मवाती  
फिरोज खा रा बेटा पुर माडल र थाए था जिकाने नाहर खाँ हुसन खा बडा सेमान  
जमीत सु हजार दाय प्रडाई लोक सुजायत खा बुलाय राखिया था । दरवाजा वारे  
खाई खोद मोरचा बाध बढ़ा था । हजूर तो बुलाया गया था । दातडे ढरा दिया  
था, आगे अजमर साजियो दीठो जरे तोपखाना फोज ठोड ठोड सू बुलाय ने अजमर  
ऊपर गया । चत बद 7<sup>5</sup> लहाई शुह हुई । आना सागर कने जग (?) थो सो  
लूटियो । बिला री तोपा 2 दूटी सू फाट गई । बढ़ी लहाई हुई । एक दिन मेवाती  
फोज रा ऊठा ऊपर दोहिया सा फोज जाय न दटाया । मेवातिया म हसन खा  
सिरदार थो त्रिग र गोली लागो सो काम आयो । मवातिया रा फेर एक दोय  
सिरदार काम आया । वाणिया रा ऊठ दोय तीन गया । सेहर म घान मुहगा हूंवो ।  
विच्चाईज गया । भूखा मरता मरण लागा । तर रूपनगर राजा राजसिंह जी हस्ते  
सुजायतवा हस्त विस्तालो कराय हाथी रो छावो । घोडा 2 रोकड रपमा  
45 000) पतालीस हजार रोकड़ा महाराज अबीतसिंहजी रे निजर कर थेरो उठायो ।  
महाराज अबीतसिंह जी राजमिहजो रो क्यो मानियो । जो पाव दस दिन अजमेर  
थेरिया रहे तो अजमेर तुरका न मार उरो लता । पिण उतावल बीनी । अजमेर सू  
परवारा देवलिया परणीजग पधारिया । चेत मुन् 12<sup>6</sup> मोरत बिना सावे उछाव  
सू परणीया । हथणी 1 घोडा 8 वागा 2000), दायजो दिया । बमाल बद 5<sup>7</sup>  
महाराज परणीज ने जोधपुर पधारिया । रात आधी रा बदोले बधाय घणी आतस  
बाजी ने घणी रोशनी रे चानणे जोधपुर गढ दाखिल हुमा ।

महाराज अबीतसिंहजी र समत 1764 रा तथा 1765<sup>8</sup> रा बरस म जोधा  
इण मुजब हुआ था ।

1 अच्छा भीका देखकर ।

2 गुरुवार फरवरी 3 1709 ई ।

3 अनिवार फरवरी 19, 1709 ई ।

4 अनिवार फरवरी 19 1709 ई ।

5 शुक्रवार माच 11 1709 ई ।

6 अनिवार माच 19, 1709 ई ।

7 1708-1709 ई : 8 घोहदा=अधिकारी ।

## विगत—

- 1 परधान राठोड मुकनदास सुजाणसिंहोत खाप चापावत आईदानोत,  
पटे पाली ।
- 1 दीवाण भडारी विठ्ठलदास भगवानदासोत ।
- 1 बखसी पचोरी हरविशन रामचंद्रोत खाप भामरियो ।
- 1 श्री हजूर रे दपतर दरोगो धीची शिवराम किल्याणदासोत,  
मुकनदाम रा भाई पटे गाव भादवा वगरे गाव 20 000) बीस  
हजार रो पटा न हाथी बेसण रा कुरव ।
- 1 दोढीदार गुजर विजेराम अहीर ।
- 1 खानसामा प्राहित रिणछोड जदेवोत ।
- 1 व्यास पदवी व्यास दीपचाद वालकिशन रो ।
- 1 सिक्कदार सोभावत दयालदास वेणीदासोत, दोढी रो विण काम  
करतो ।
- 1 वारठ बेमरीसिंह ।
- 1 परगन मेडन हाकम भडारी नराणदास भगवानदासात लूणावन ।
- 1 परगन जालोर हाकम ।
- 1 परगन साचोर हाकम ।
- 3 परगना
- 1 सीबाणे हाकम ।
  - 1 परगन फलोधी पाकम ।
  - 1 परगने सोजत हाकम ।

## उमरावा ने जागीरी दिया री विगत—

- 1 आऊबो सूरजमलोत चापावता सू छुडाय ने गाव वाकाणी रा ने  
दीवी ।
- 1 राठोड भगवानदामजी चापावत र रणसी गाव थो सो भीनमाल  
दीवी । पथ महासिंघ जी रे पोहोचरण हुई ।
- 2 ढंदावत जगरामजी रा वेटा सुभराम जी न तो रास, ने श्रमरस्तहजी  
ने नीबाज ।
- 1 मेडतिया कुसलसिंह जी रा वेटा सिरदारसिंहजी ने रीवा ।
- 1 आसोप आगे राजसिंहोत कूपावता मे किरतसिंहजी रे विला मे  
हाजर नहीं, तर कू पावत भीव सबलसिंहोत ने दीवी पथ रामसिंह  
जा ने दीवी ।

इण तरह घणा ठिकाणा वे चाकरी वाला सु छुडाय चाकरी वाला नू दीया ।

भडारी विठ्ठलदास ने कद हुई सो मास 8 रही । तर सिधबी बखतावरमल जोधमल जीवणमल वगर सुखमलोत विखा म बीकानेर जाय बेठा या तिणा ने बुलाय ने (न्यया 20 000) बीस हजार भराया न दीवाणगी समत 1764 रा<sup>1</sup> मे दीवी । ने पछ भडारी विठ्ठलदास रे रुपया अदाई लाय पेसवसी रा ठहराय दीवाणगी दीवी ।

1 खीची गाकलदास मुकन्दासोत ने राव पदबी दीवी । ने गाव गागाणी पटे हजार 25 000) पचीस रो । पटो न मिसलदारी बठण रो कुरब ।

एक बार आधा इण तर हुवा था—

- 1 तन दीवाणगी भडारी माद्दास देवराजोत लूणावत र हुई ।
  - 1 देस दीवाणगी भडारी खीकसी रासावत र हुई ।
  - 1 जोधपुर री हाकमी भडारी रुघनाथ रायचदात रे ।
  - 1 भडता री हाकमी, भडारी देवराज रे ।
- 

समत 1766 म श्रोधा इण मुजब हुवा—

- 1 तन दीवाणगी भडारी रासोत दीपावत ।
  - 1 दस दीवाणगी भडारी रुघनाथ नू राव पदबी हाथी पालखी कडा मोती ।
  - 1 जोधपुर कचेडी हाकम भडारी रुघनाथ रो बेठो अनोपचाद र ।
  - 1 जानोर सांचोर हाकम भडारी पेमसी रामावत रे ।
  - 1 भडारी माईदास मे कद कियो मास 6 कद रथो पछ गाव बडायू पटे दीवी ।
- 

समत 1765 रा आसाढ कद 6<sup>3</sup> भडारी विठ्ठलदास भगवानदास नू परधानगी दिवी सो सिरपाव बडी कीमत री ने जडाव री कटारी निवी ।

समत 1766 रा आमोज सुन् 7<sup>4</sup> भडारी विठ्ठलदास गिरधरदास भगवान रा बेटा 4 न बेद किया । घर जवत किया कने यो सो सारो खालस ही कियो । घाधल

---

1 1707–1708 ई । 2 1711 ई ।

3 शुक्रवार जून 17 1709 ई ।

4 गुरुवार सितम्बर 29 1709 ई ।

रो हवेली म बद किया। एवया 16,000) रोकड लिया। उपर्युक्त लतो सो लीनो इकातर लाख रो रायबी<sup>1</sup> लाका बताई थी।

सम्राट् 1766 रा मिगसर सुद 1<sup>2</sup> बड़ी फजर राठोड भगवानदास जोगीदास विठलदास चापावत तू परघानगी दीवी। घोड़ो सिरपाव बड़ा बोमत रा दिया ने पटो पचास 50.00) रो रियो। पछ्य समत 1768 म भीनमाल पटे दीवी ने राव पट्टवी दीवी।

बवर जोधसिंहजी जेसलमेरी रो बड़ो बेटो बरम 7 म थो, सो रामसरण समंत 1766 रा मिगसर सुद 2<sup>3</sup> हुवा, कागे दाग लियो।

थी महाराज री फौज भडारी पोमभी देवगाव ऊपर ले गयो तर पेसकसी रा रिया पनरे 15000) हजार लिया। ने पछ्य सुवत 1767 सावण सुद 10<sup>4</sup> थी महाराज रो डेरो (देव) गाव हुवो। तर राठोड नाहरसिंह तू क्ष्यो 'गढी खाली कर देवो के सभाव।' तर अरज बिवी 'मर्ने तो राज फौज दे राठोड दुरगदासजी वसागियो थो। जद रो बेठो छ्य। मरजी म आदे सो बीजे।' तर रुवया पनरे 15000) हजार फिर माथे पसकसी रा छहराय + करार कियो के थाहरो बेटो साथ रहे न चाकरी कर न थानू बुलावा जरे आवो ढील न हुवे।" सा मजूर दीवी। सो इण बात थीच "—राठोड— है जामन हुआ। तर भादवा भुद 2<sup>5</sup> कूच कर विशनगढ डेरो कियो। राजा राजसिंहजी रो कामदार आदमी कोई न थायो। तर थी महाराज भ्रसवार न्हे सहर मे पधार ने सहर म भण्डो रोपियो। कामदार सारा कोटवाल, साहारी जाय बेठो थो भादवा सुद 9<sup>6</sup> कूच कर रुपनगर डेरा लिया। महाराज राजसिंह कोट सहर सभियो गोला छूटा। दिन 4 लडाई हुई। भोरचा बठा। भोरचा मे काम थाया, त्यारी बिगत—

1 राठोड भीव मेडतियो।

राजा राजसिंहजी केवायो मैं ता राज रा छोरवा दाखल था। विचार देखो तो मैट आगे ही चाकरा बीबी था। ने हमे ही हुक्म मे था। अठी रा ने

1 रियवत थीर राज्य आय की चोरी।

2 सोमवार नवम्बर 21 1709 ई।

3 मगलवार, नवम्बर 22 170 ई।

4 सोमवार जुलाई 24 1710 ई।

5 मगलवार, अगस्त 15 1710 ई।

6 सोमवार अगस्त 21 1710 ई।

उठीरा सारा ही राजरा थे । विना तमसीर<sup>1</sup> मारो भती । पाच ठाकुरां रा योन दिरावो । चाहाण फतेसिंहजी न माँ कन मेसो । म हकीकत वहां सो राज ने कहे । पछे राज बहसी मूँ म्हे बरसा । तर चाहाण फतगिह प्रथीराजात नूँ मनिया । बडा उमराव साप रा पाच जणा रा बोल तिगाय दियो । न पचोली रामतिशन मूरजमलोत नूँ साथे मलिया त्या रद बदल बरन ठहराव कियो । राजा राजसिंहजी धाप श्री महाराज मु भुजरो करसा । न विसनगढ़ बगर परगना आदमी वेडा थे तिणा री उठातरा-बर उरा बुलावसी । पातसाही था मल भसो होसी न तापा 2 देसी ने सामर ताई राजसिंहजी साथ होसी । उठा मूँ सीपवर रुपनगर आवसी, न बवर ताथ रहसी । इण ठहराव ऊपर भादवा मुद ।<sup>3</sup> राजसिंहजी श्री हजूर साहबा र ढेरे धाया । मुलाकात कीवी । पछ राजसिंहजी नूँ राव इन्द्रसिंहजी था न राव गोपालसिंहजी रामपूरा रा धणी था मिलाय न मसनद था न जीर्ण त बठालिया । पछ विदा किया । दूज दिन बवर 4 सिरपाव 4 द विना किया पणो प्यार कियो आसोज बद 5<sup>4</sup> कूच बर डरा सामर किया । आवेर था राजा सवाई जसिंहजी धाया, त्या मूँ मिलिया ।

जोधो सुजाणसिंह केसरीसिंहोत पिसाण जूनिया रो धणी अजीतसिंहजी रा विया म पातसाही धाकर रयो थो । सोजत सिवाणो जागीरी म पाया था । महाराज रा रजपूता मूँ वैई लडाया कीवी । ने राजा बैवावतो । सुजाणसिंहजी रे एक हथणी छाटी थी । सो महाराज अजीतसिंहजी विला म बालक था तर मगाई थी । सो दिवी नही । न कह्यो मेडता म हाथी कुबारा<sup>5</sup> चोला हुव थे सो मगाय ने रमो ।

समत 1769<sup>6</sup> सुजाणसिंह रो वेटा करणसिंह जुभारसिंह ने जाधपुर कुनाया था । पछे सीख देण सार गढ ऊपर बुलाया था । पछ आगरणी री साल रे मालिया आगे बिद्धायत बर दरबार बर नैठ सुद 17<sup>7</sup> रात आधी रा सिरपाव दे विदा किया । ने हटे भेरु जी रा तहसाना ऊपर ने मारग री बरसाली भ पावडिया<sup>8</sup> ऊवा

1 अपराध ।

2 हटावर ।

3 रविवार अगस्त 27, 1710 ई ।

4 शनिवार, सितम्बर 2 1710 ई ।

5 कुम्हार जाति ।

6 1713 ई ।

7 गुरुवार मई 14 171

8 छलाघात हत्या

राखिया था । तिण चूक कर मारिया । करणसिंह न चूक करण में इतरी आसमिया थी—

विगत—

- 1 राठोड जेतसिंह सूर्सिंहोत भेडतियो गाव बोर दा रो ।
  - 1 राठोड दोलतसिंह जुभारसिंहोत भेडतियो, गाव बोसाणा रो ।
  - 1 राठोड अरजन गोपालदासोत गाव बढसण रो ।
  - 1 राठोड अनोरसिंह सायबव्वानोत भेडतियो ।
  - 1 राठोड हरमाथ अखराजोत भेडतियो ।
  - 1 राठोड प्रथीसिंह दुलेराजोत भेडतियो, गाव राहण रो ।
- 

जोधा करणसिंह जुभारसिंह रा बेली<sup>1</sup> वारे बेठा था । जिए न कह यो हरामखोरा नू मारिया थ । थे परा जाओ । तर परा गया । ने करणसिंह जुभारसिंह ने रासालाई बानी नाख दिया ने दाग दिरायो ।

राठोड विसोरसिंह रत्नोत डेरा थो । तिए कहो मासू घणीया नू कयू ही कहा जाय नही । हमे लोक भेल मनें रजपूत व रो । करणसिंह जुभारसिंह सू छेती<sup>2</sup> पडे थे । तर फुरमायो 'आसू किहूई मतलब नही । हरामखोर था सो मारिया । पीसागण वगोरे उपर फौज भेल उरणारी बसी परी बाढ़ी परगना म सारे अमल कियो ।

कू पावत किरतसिंह सूरजमलात आसोप रा घणी महाराज रा बिखा म पातसाही चाकर थो । सो उणा सू आसोप जबत कर कू पावत भीव सबलसिंहोत न थीवी ।

नरावत चाद्रसण बिखा मे पातसाही चाकर रहा था । पिले सहाराज रो सामधरमी भी राखतो । महाराज रा रजपूत आय निसरता तिए ने बिसराम देता । जिए सु राठोड चाद्रसण रा बेटा रे पोहकरण बाहल राखी ।

सोठे भगु घोडा रो नाम अजीतो बढायो तिण सू समत 1767 रा<sup>3</sup> गाव बावलली रा ई दा लखधीर विठ्ठलदासोत ने भगु न मारए भेलियो । सो बाहुडमेर काटडे गया ।

1 साथी, सनिक ।

2 दूरी ।

3 1710-11 ई ।

हाकम ऊपर परवाणे कर दियो थो । ऊट 6 छ्वच महीना ताइ चराय तईयार कियो । थोरी एक चाकर राखिया ने सोढा भगू रे गाव गया । कोटडी बारे उत्तरिया : रोटिया आई सो खाई नहीं । छाने रेत मे द्वर दिवी । रात रा चिलमिया रे मिस कोटडी मे दोय चार बार गया । सो पाढ़ली रात रा पाहरायता ने नीद आई तरे माह पेठा सो कटारिया सू भगू ने मार न पाढ़ा बार आया । सो ऊठ तोडाय नास गया । तर इन न थोरी यारा यारा नाठा । इनो खोस पाच माथे आवतो याक गयो । दिन री उगाली<sup>1</sup> चोर मिलिया तिणा कोसण रो मनसोबो कियो । तिणा न इदे लखधीर कह्या 'महाराज अजीतसिंहजी सोढा भगू ने मारण मेलियो थो । सो मार ने आया छु । सो याक गयो छु । सो चारणा रे गाव ताई पोहोचाय देवो । ने माहरी गेहणो शस्त्र हू थानें राजी होय ने देऊ छू । तर चोरा चारणा रे गाव पोहाचाया । उठा सू बाहडमेर होय जोधपुर आयो । महाराज फुरमायो गाव माग तर गाव बावलती भाया रे पठे लिखाई ।

समत 1767<sup>2</sup> म भगवाने सूधा मेडते था । सो उकील रा कागद आया जिणा म भडारी विट्ठलदास गिरधरदास रा कागद राव द्वार्दसिंह रा क्वर मोहकमसिंह र नाव तिणा कागदा म लिलियो वे श्री महाराज कन साथ थोडो र । रजपूत विष्वर गया है । फेर ही गिलो लिलियो थो । सो अ विट्ठलनास रा हाथ रा कागद भडारी खीवसी विजनस भालम कीया । जद विठ्ठलनास दानू भाया ने वेदिया पहराय ओरी<sup>3</sup> म भ<sup>4</sup> निया । दिन 2 कद मे राख पागण व<sup>5</sup> 13<sup>6</sup> री रात दोनू भाया न कटारिया सु मराया ।

समत 1767<sup>5</sup> रा पातसाहा बहादुरसा रिखण माय सू अजमेर आयो । तरे राजलाका बवरा ने पनोधी पोहाकरण मेलिया । पछ मडारी खीवसी ने अजमेर मेहनिया । सो साहनादा अजीम सा री मारफत पातसाही जी सु मिलियो । सो कादुल रो साढो कदुल बर श्री महाराज र नावे खातरी रो फरमाण ल आयो ।

पछ पातसाह रा डेरा गाव सढीरे<sup>6</sup> हुवा । भडारी खीवसी जी पाढ़ा पातसाह बन गया न शाहजादा री मारफत मीठी किवी । ने श्री महाराज ने भरज लिमी के आप पधारजो<sup>7</sup> । तर श्री महाराज मठता सू कूच कर माहारोठ मेडतिया री ही सो फौज लगाई मोरचा लागा । राठीड विजेमिहजी लडिया । पछ आलण्यावास रा मेडतिया किलाणसिंह राजसिंहात री मारफत म्हारोठ खाली हुवो । ने समत

1 सूर्योन्य वे समय ।

2 1710-11 ई ।

3 ओरी—कोठरी ।

4 रविवार, फरवरी 4 1711 ई । 5 1710 ई ।

6 सढारे = स दौरा अन्वाला से 22 मील पूव मे ।

1767 रा वेसाख बद 14<sup>1</sup> अमल हुवो । मारोठ हावम भडारी विजेराज नू रायियो पर भाली बरायो । रूथनार्थसिंहोत मडतिया थो दरबार रा चाकर रहया । पछ भडारी खीवसी साहजाना अजीम सू भीठी कर थी महाराज नैं कावल रो सोबो भाकूब रो हुवम मेहनायो । नैं थी महाराज नैं पातसाह कन बुलाया । नैं आवेर सू सवाई जेसिंहजी नैं बुलाया था, सो साडोरा रा डेरा दोनू महाराज आया । नैं शाहजादा रो मारफत दोनू ही माहराजा भुजरो कियो । नैं दोनू ही महाराजा नैं सोख हुई । सो सवाई जेसिंहजी तो आवेर गया नैं थी महाराज जोघपुर पधारिया ।

पछ भडारी खीवसी पातसाह री लारे लाहोर गयो । पातसाह बहादुर सा क्लावत री वेटी जोरावरी सू धर मैं धाल लीवी । नैं ऊही क्लावत कने खिलबत मैं रहतो नैं गावतो । समत 1768 रा फागण<sup>2</sup> मैं पातसाहा नैं तारतखाने जावता खजर सू क्लावत चूक बियो— ।

पछे खीवसी जी जाघपुर आयो नैं शाहजादा भोजदीन तखत बेठो । नैं वजीर प्रसदखा रो वेटा जुलफकार खा थो नैं कोक्लतास खा नैं पातसाहा धणो बधायो उमीर सारा बेराजी हुवा ।

पूरब रे सोबे साहजादो फूरक्सेर थो । नैं वारह रा सईयद अबदुल खा, हसन अली परक्सर रे मृसाहब था । सो पूरब रा जमीदारा री असी हजार 80 000 फौज ले दिल्ली नैं कूच कियो । खरची नहीं थी सो सईदा आपरा मामा कना सू लाय दिवी । दिल्ली सू भोजदीन साहमो कूच कियो नैं महाराज अजीतसिंहजी न बुलाया । सो गया नहीं नैं भडारी विजेराज नैं मेहलिया नैं फुरमायो दोनू तरफ कागद<sup>3</sup> दवाई राखज । तुरक लड मरे जीण मैं ठीक छ । फते होवे जिणा रे सामल हुई जो । इण काम मैं बहुत हुशियारी राखजो । माजदीन दूजा ही राजावा उमरावा नैं बुलाया पिण कोई गयो नहीं । आगरा सू उरली तरफ भोजदीन रे फूरक्सेर रे राढ हुई । सो क्लकत्तास खा मारियो गया । फौज भागी । भोजदीन नैं पकड लियो । सईदा रे धाव लागा । फरक्सेर दिल्ली आय तस्त बठो । जुलफकार खा नैं विश्वास देन चूक बियो । तर असद खा जुलफकार खा रो बाप धर लुटाय फ़कीर हुवो । मसीत मैं जाय बठो । बजीरात मैं खलसी सईयद हसनअली नैं अबदुला खा रे हुई । भडारी विजेराज पातसाह सू मिलियो, नैं सीक कर जोघपुर आयो ।

हीडवाण रो परगनो सवाई जसिंहजी रा भाई चिमन कुवर री जागीर मैं पा सा चिमन क्वर नैं कर बियो । तर उठे पातसाही फौज आई थी । तिण ऊपर सवाई जेसिंह री तरफ सू खगारोत शामसिंह नैं फौज दे नैं मेलियो । सो जाय नैं

1 गुरुवार अप्रैल 5 1711 है ।

2 फरवरी 1712 है ।

3 पञ्च व्यवहार ।

बेठो थो । ने महाराज अजीतसिंह जी री तरफ सू राठोड जुम्हारसिंहजा, ने राठोड करणसिंह सुजाणसिंहोत घर रा असवार हजार 1000 एक जोधा ने राठोड हरीसिंह नृथनाथोत मढ़तियो न भदारी बिजराज न मेनिया । लोक हजार 3000 तीन थो सो भेला हुय ने पातसाही फौज सू लडाई कीवी । सो महाराज श्री अजीत सिंहजी ने सवाई जसिंह जी री फत हुई । पातसाही लोक नाठो त्यारा लारो कास 4 ताई कीयो । सवाई जेमिह जी रा मिरदार बेठालिया हिंडवाण बालबा लायक हुवा ।

समत 1769 रा पोत वद 8<sup>1</sup> राठोड जुम्हारसिंह ने करणसिंह जोधपुर आया । सो इणा रो बाप सुजाणसिंह रा कभुर सू जेठ मुद 1<sup>2</sup> आधीरात रा गढ़ ऊपर चूक करायो । तिण रो हवीकत ऊपर मनी द्ये । सो इणा रे पटे जतारण रो गाव रास थो न पेर ही घणी जागीरी थी ।

नागीर रा राव इन्द्रसिंहजी रा क्वर मोहोकमसिंह जी पातसाह फरकसर कर्ने दिली गया । ओ उकाला रा कागद आया के मोहोकमसिंहजी पातसाहा ने सरफराज है न जाधपुर री हर छाडे नर्ही छ । तिए ऊपर व्यास दीपचद री मारपत मोहोकम सिंह जी ने चूक करणे इतरा जणा मेहलिया विगत—

- 1 माटी अमरसिंह केसोदासोत गाव कीम्बांगोद रो ।
  - 2 राठोड अमरसिंह नाथावत न इण रो भाई मोकमसिंह याप घवेचा गाव कीटणोद रो ।
  - 1 राठोड करणसिंह विजेतिहोत मटेवचा गाव योव रो ।
  - 1 राठोड दुरजणसिंह सबर्नमिहोत जोयो गाव पाटोी रो ।
- 

इणा सरदारा ने घाडा धीम 20 पचोस 25 सू चूक करण ने मलिया । सो ए दिल्ली जाय सोनागर हाय रहया । न घाडा नू चरामा न हेरो राखिया<sup>3</sup> । सो समत 1770 रा भादवा मुद 5<sup>4</sup> क्वर मोहोकमसिंह रा ढेरा सहर बार था, सो पालमी बस पाला आम्ब्या री जेलेद ले किंगी नवाव री मातमपुरसी करावण ने सहर मे गया था । सो हेरे वाले खबर दीवी । तर थे मारा घोडा चढ़ दरबाजा बारे मारण सू नजीब उभा रह्या । सो दिन सबा पाहोर चढ़िया क्वर मोहोकमसिंहजी री भसवारी पाढ़ी आवनी पी । सो मारण रे दोनू बाजू तो गुलबाड<sup>5</sup> रा उत ऊभा

1 बुधवार दिसम्बर 10, 1712 ई ।

2 गुरुवार मई 14 1713 ई ।

3 तलाश करते रह ।

4 शनिवार, मार्गस्त 15 1713 ई ।

5 गने के ।

या ने सांडो सेरियो<sup>1</sup> थो । सो उठे असवारी आई तरे, इणा घोडा सामा उठाया मा लोक ता विवर गया ने क्वर मोहकमसिंह पालखी माह सू कूद ने गुलवाड रा खत म जाय पड़िया । सा भ्रे पालखी कने आया, सो देस तो पालखी म कवर नहीं तरे अठी उठी देलियो सो भाहकमसिंह री पाग म बादला रो तुर्रो टाकीयोहो थो । सो गुलवाड रा खेता मे नासता रो सूरज री बिरण सू तुर्रो पलकियो<sup>2</sup> । सो भाटी अमरसिंह देवियो । तर सारा घोडा कुदाय खेत मे बड़िया । मू कवर मोहावमसिंह (भाना सू मार लिया । ने माथो काट ने पाग ने लेने जोधपुर चलाया । सो चालीस 10 कोस आवता पागडो द्याडिया । लारे बहार चढ़ी, सो पूरी नहीं । जोधपुर आय विर री पाग हजूर रे नजर बिवी । तर इण मुजब निवाजश हुई—

व्यास दीपचद नू

1 हथ साक्ना री जोडी एक, 1 सिरपाव, 1 हथणी ।

भाटी अमरसिंह क्सोदासोत ने ।

1 हथणी एक, एक घोडो एक 1 सिरपाव एक 1 कडा री जोडी 1,

1 मोतिया री जोडी एक ।

राठोड नाहरखान

1 घोडो एक 1 सिरपाव 1 मोतिया री जोडी एक,

1 कटारी जोडी, 1 बीस हजार रो पटो ।

राठोड अमरसिंह नाथावत घवचा नू । सो इण रा हाथ सू मोक्षमसिंह मरण गयो ।

1 हथगी सिरपाव 1 घोडो, कटारी जोडी

1 मातिया री जोडी, 1 पटो बीस हजार रो ।

राठोड करणसिंह विजेसिंहोत महेचा नू

1 घोडो, सिरपाव, कटारी जोडी मोतिया री जोडी पटो बीस हजार रो ।

क्वर मोक्षमसिंहजी ने दिल्ली मे महाराज चूक करायो । तिण सू पातसा फरकसेर महाराज ऊपर धणो नाराज हुवो । ने नामोर सू राव इद्रेसिंहजी ने, ने मोक्षमसिंहजी सू छोटो क्वर मोहणसिंहजी था तिणा नु पातसाहा जी सिनाव सू निली बुलाया । सो हजार दोषक लेने गया । ने नामोर सू कूच कियो । तर व्यास दीपचद महाराज सू अरज किवी के हुकम हुवे तो क्वर मोहणसिंह ने ही क्वर मोहकमसिंह भेलो भेलो । निवाजस रजपूता ने मारी थरज माफ़क दिरावणी पड़सी । “महाराज कुरमायो ‘बहुत आद्यो’ । तरे इतरा ’विदा किया री बिगत—

- १ राठोड़ दुरजणसिंह सबलसिंहोत जोधो, पाटोदी रो ।  
 १ राठोड़ सिवसिंह गोपीनाथा ।, गाव सरनावडा रो ।  
 १ राठोड़ मोहाकमतिहं जाधो पाटोदी रा ।  
 १ राठोड़ फतेसिंह —— जोधो पाटोदी रा ।
- 

4

अे घणा घोडा ले ने चढ़िया । इद्रमिहजी मोहणसिंहजी रो डेरो सेखावाटी मे गाव कासली हुवो थो जठे जाय पाहता । सो बाकी रा घोडा तो उलीकानी राखिया । व दुरजणसिंहजी बगरह पीडा कवर मोहणमिहजी रे डेरा ऊपर गया । सो दोढी माथे आदमी दायचारेव था जिणा मे लोप ने क्वर मोहणसिंहजी डेरा मे सूतो थो जिएने दुरजणसिंहजी मारियो । ने पाछा रातो रात यड़िया, सो जोधपुर उरा आया । ने श्री महाराज सू मुजरो कियो । महाराज घणा राजी हुवा । ने दुरजणसिंहजी ने आप रे भेले जिमाया । जद सू राठोडा रे भेले जीमे है ने सगपण राठोडा वरावर हुवे है ।

राव इद्रसिंहजी दिल्ली जाय पापसाहजी रे पावा लागा । पातमाह घाड़ो सिरपाव इनायत कर घणी खातरी किवी । ने सइयद हसनप्रसी ने घणी फौज दे मारवाड़ ऊपर बिदा किया । ने सवाई जैसिह जी ने उज्जेल रो सूवा इनायत कियो ।

समत 1771 रा मिगसर<sup>1</sup> म माराज रा डेरा राईके बाग हुआ । परगना म सारे हुक्म पूणो वे साथ भेलो कर हाजर हुज्यो । भडारी खीवसी ने भडारी रुघनाथ कद मे था । सो खीवसी न श्री महाराजा जी बुलाया चानणी आढी राख बात कवी ने फुरमायो रुघनाथ ने छोडा नही ने तने छाडा । सू काम ल । तरे खीवसी अरज कीवी के रुघनाथ दिना हू बारे आऊ नही । तर खीवसी न तो पाढ़ी सीत दिवी । ने दूजे दिन उण हीज तरे रुघनाथ ने बुलाय ने फुरमायो वे खीवसी ने तो छोडा नही ने तने छोडा सू काम ल । तर रुघनाथ हुक्म मजूर किया । तर कद बारे कान्तियो ने साथे लियो । जद सू दीपावला रे माहो माह कुमेल हुवो । दीपावली भडारी माईदास लूणावत र न मूषा गोक्लदास समन्डीयो इणा दाना रे हीज रही ।

माथ भेलो हुवा घोडा हजार 18000 इठारह था । थी हजूर साहब आधो कूच कर डेरा राहण किया । न नवाब हृसन अली खा रा डेरा गाव रिढमोडी था । सो नवाब सू बात करण ने राठोडा बाग सू महाराज इतरी आसामिया ने मेहलिया । तिएरी बिगत—

- 1 परधान चापावत भगवानदास जोगीदासोत भीनमाल ।
- 1 जोधो भीव रिणछोडदासात खेरवो ।
- 1 जोधो हरनाथ चाद्रभाणोत, देघाणे रा ।
- 1 उदावत हृदयराम राजसिंहोत, रायपुर रो ।
- 1 उदावत लालसिंह गोपीनाथोत, काणेचा रो ।
- 1 मेहतियो किलाणसिंह राजसिंहोत आलण्यास ।
- 1 उदावत लालसिंह राजमिहोत ।

थे सारा सिरदार रिडमोडी रा डरा नवाब कने गया । न उठे डरा किया । पछ तो जे दिन नवाब बुलाया सो चापावत भगवानदासजी ने जोधा हरनाथसिंहजी ए तो डेग रहा, ने वाकी रा सिरदार ने भडारी रूपनाथ नवाब रे डेरे गया । सो दगो कर इणा ने उठे बेसाण दिया । दोली चाकी बेसाण दीबी । सो आ खबर डरा आई तर जोधा हरनाथसिंहजी, चापावत भगवानदासजी ने कहयो थे नीसरो थारे लारे तुरका नें आवण देस्यू नही । नें हु लारे झगडो करस् ने काम आवसू । तर नीसर गया । ने हरनाथसिंह चाद्रभाणोत देशाणो रो डरा सू चढ ने झगडो कर बाज ने काम आयो । नें चाकर एक भगवानदासजी रा उग बक्त नासो सा पौज म पाय नें कहो 'ठाकुर भगवानदासजी काम आया ।' तरे भगवानदासजी रो बेटो माहसिंहजी भद्र हुवो पाणी बाढे गया नें तिहारो जीमण कीयो । सो लोक जीमतो ही जितरे ठाकुर भगवानदासजी आय ऊभा रहया । सो चारण गीत कहो—

आव भगवान, भगवान उवारियो ।  
मरे नहीं तू किणी मनख रो मारियो ।

था सारी हृषीकेत श्री हजूर मालूम हुई । तर श्री हजूर राहण सू दूच कर प्रासाप देरा किया । ने नवाब रा डेरा महता हुआ ।

खीची जोधा ने आसोप रा डेरा सू जोधपुर मेलियो । सो राजलोक क्वरा न तो फलोधी मलिया नें भडारी खीवसी कद म थो तिण ने हजूर चत मे ले आयो । पछ भडारी खीवसी ने दीवाणगी हुई । ने सिरपाव हुवा री विगत—

- 1 भडारी खीवमो रासावत ने दीवाणगी हाथी, पालखी मिरपेच किलमी जडाऊ कडा माती मात्या री बठी, ढाल जडाऊ तरबार कटारी ने मोहर म नाबो भडारी खीवसी न भडारी रूपनाथ रा । ने सनदा भली हुती ।
- 1 भडारी रूपनाथ रे सोवेदारी ने हाथी पालखी जडाऊ कडा मोती सिरपेच बठी मोतिया री, नवाब कना सू दूर ने पाढा पाया तर ।

१ भडारी पोमसी रासावत नू जोधपुर गढ सजण मलिया सो गढ सभियो  
नै इण रे मेडता री हावसी हुई सो मटता रो गाव गगारडे भेलो  
नवो मडायो तिण रा हासल रा रुपया पाच हजार 5000} थठा ।

---

पछ भडारी खीवसी न नवाब हसन ग्रसी खा कनै मेडते बात करण सारु म्हेलियो ।  
सो इण तर ठहराई—

इद्र क्वर बाई ने पातसाहा नू परणावण नै थना रो सोबो कूच कियो ।  
नै कवरजी अभेसिहजी नै पातसाह कनै चाकरी म राखणा । था बात नवाब सू  
ठहराय उभरावा नै भडारी रुपनाथ नै सीख दिराई—

नवाब रो मेडता सू आधो कूच करायो । नै साथे अभेसिहजी ने मनिया ।  
नै साथे भडारी खीवसी नै मेलियो । नै पछ महाराज जेठ॑ म जोधपुर  
पधारिया ।

समत 1771 रा आसाज॒ मे श्री महाराज जोधपुर सू थठा ने कूच कर  
सिवाए हुय, वाहडमेर कोटडे पधारिया । नै भडारी खीवसी नै लिलियो वे थटे  
साखा बाते “ह जासा । गुजरात रो सोबो माहारोठ परबतसहर बावल वगरे वेळडी  
मुनसब मे हुवा सू बाई रो ढोलो चलावसा । खीवसी पातसाह सू अरज कर समत  
1771 रा मिगसर<sup>3</sup> म गुजरात रो सोबो रो फुरमाण न परबतसर मारोठ बवाल  
तोसीणो, केळडी रो मनसब लिखाय मेलियो । तुलाराम नै चेला नारखा साथे थठा  
रा सोबो भोकूब ठहरायो । खीवसी री अरज मालूम हुई तर माराज कोटडा सू  
कूच कर जोधपुर पधारिया । न तुलाराम नै चेलो नाहरखा फरमान ते हजूर आया ।  
तर भडाही विजेराम खेतसीहोत नू नै सिरदार नू बिदा किया ।

समत 1771 म अहमदावाद जाप अमन कियो । नै क्वर अभेसिहजी  
पातसाहजी सू सीख करी । सिरपाव हाथी मोतिया री माला इनावत कर विदा  
किया । सो थ्री कवरजी नै भडारी खीवसी समत 1771 रा असाड<sup>4</sup> म जोधपुर  
आया । थ्री महाराज सू मुजरो कीयो । थ्री महाराज कच कर अहमदावाद  
पधारिया ।

राठोड राव भगवानदास जोगीदासोत समत 1771<sup>5</sup> रा म रामसरण हुवो  
दोनो बवत नोबत नही थाजी ।

1 अप्रेल मई 1714 ई ।

2 सितम्बर अक्टूबर 1714 ई ।

3 दिसम्बर 1714 ई ।

4 जून, 1715 ई ।

5 1714 15 ई ।

पछे ममन 1772<sup>1</sup> म परणानगी भडारी स्त्रीवसी ने इनायत हुई । ने दीवानगी भडारी स्थापनाय ने इनायत हुई ।

समत 1772 रा ग्रासोज़े<sup>2</sup> म बाईजी इन्द्रकवर बाईजी रो डोलो दिनी मतियो । ने भडारी स्त्रीवसी ने सुगावा सूधो साथे मेलियो । सो पातसाह क्षेत्र क 'पार हिंदुवा रे रीत रसम हुवे, तिण माफव व्याव करो ।' सू पोस रे महीने<sup>3</sup> बाईजी न पातसाहजी ने परणाया । पातसाहजी तोरण बादियो । भडारी स्त्रीवसी रा वह पातसाह री भारती कीवी । न कसर रो तिलक कीयो । मोतिया रा ग्रासा चेडिया नाक खीबीयो । पातसाहजी घला राजी हुवा । ने मिरपाव दण माफव दिया, तिण री पिंगत—

- 1 प्राहित असराज ने गुरुपदा रो मिरपाव, न हाथी ।  
 1 वारठ बेसरीसिंह ने सिरपाव, हाथी तोरण रा ।  
 1 भडारी स्त्रीवसी न  
     1 सिरपाव, 1 सिरपेच, 1 किलमी, 1 पट्क, 1 हाथी ।

इए माफव हुवा । ने महाराज कवार थी अमेसिंहजी र नाव नागार रा मुतसव हुवो सू ही मेलिवो । भडारी स्त्रीवसी सारी घरज लिखी । सो थी हजूर मालूम हुई । तर महता रा हाकम भडारी पोमसी ने, न जाधपुर रा हाकम भडारी भनोर्पसिंह ने हुशम पाहतो के शहमदाबाद सू, नागार जाय कायम कीजो । सा जाधपुर रो हाकम ने सोजत रो फौज सामल हुई । समत 1772 रा जेठ सुद 13<sup>4</sup> ने चेडिया सो असाड बद 13<sup>5</sup> गाव नाराधण डेरा हुवा । तर नागोर सु राव इन्द्रसिंहजी रो फौज सामी आई । सो पोहार तीन 3 मोरचा रो लडाई हुई । पद्ध नागोर रो फौज भागी, सा नागार गई । भडारी पामसी कूच कर असाड सुद 15<sup>6</sup> नागोर डरा दिया । ने बानोत कूपावत दीपावडी बगैरह रा ने आईदानोत मेडिया जूणामर रा मेलिया । पोमसी सामल डेरा फौज माह सू धायने किया । पद्ध मारचा नागा पद्ध राव इन्द्रसिंहजी राठोड भीव रिणछोडदासोत री मारफत बात बराय ने नागार घोडिया । ने कोलियारी ने बडतू री पटी रावजी ने देणी । ने राव इन्द्रसिंहजी नागोर घोड दिल्ली गया ।

- 1 1715 16 है ।  
 2 सितम्बर 1715 है ।  
 3 बुधवार, निसम्बर 7 1715 है के दिन ।  
 4 मण्डलवार मई 22 1716 है ।  
 5 बुधवार जून 6 1716 है ।  
 6 शनिवार जून 23 1716 है ।

समत 1773 रा सावण बद 7 सन<sup>1</sup> ने नागोर में श्री महाराज रो प्रमल हुवा। फिण्डो रोपियो 1 न नागोर कायम कियो। भडारी पीमसी अहमदावाद भी महाराज ने अरज लिखी सो अहमदावाद सू तिरदारा रे सिरपाव न सोनेरी मृठा री तरवारा आई। ने नागोर ही हाकमी भडारी पीमसी रासावत ने इनायत हुई। तर पीमसी थी हजूर में अरज लिखी “मेडता री हाकमी छोड़ी।” सो भडारी गिरधर दास उदेकरण खेतसी रा पाता नू हुई।

मोहणोत नेणसी मुदरदास ने श्री बडा महाराज कद किया था। पेसकसी मागो तर कटारिया खाय भूवा। तर बेटा करमसी ने छोड़िया। पेसकसी माफ हुई। पछ ऐ नास नागोर राव अमरसिंह गजसिंहोत रा बेटा रायसिंह कन गया। तर मोहणोता नू काम देण री तलाक काढी। सो दिवाण मे राव रायसिंह जी कनेथो सा उठे रायसिंह जी दोय चार घड़ी बेमार रहने चल गया। तिण रो बजो करममी ऊपर आयो। सो इग नू उठे मारियो। ने बाकी रा घर रा ने नागोर मे मारिया।

ने दोय 2 भाई सगरामसिंह सावतसिंह ने बडारण ल किशनगढ आय रही। मो इणा रो भडारी खीबसी ने भडारी रुघनाथ श्री महाराज सु अरज कर थी हजूर बुनाया। सो थी महाराज महारोढ परबतसर बगेरे परगना 7 सात री हाकमिया तो राणोत सगरामसिंह न दिवी ने जालोर री हाकमी मोहोणोत सावतसिंह र हुई।

समत 1771 रा काती सुद 11<sup>3</sup> सिहवी मूलचद थी महाराजा साथे अहम दावाद सा सोवा मे अदालत थो। सो जूनागढ रो नवाब अहमदावाद ऊपर आयो। तर अदालत मूलचद भली भात झण्डो वियो ने बाज नैं काम आयो। तरवार रे मूहड सिहवी मूलचदोता री चाकरी ठहरी।

समत 1773<sup>4</sup> रा भहलोदा रा भाला जसा ने फिर्क उरजना न मेल ने चूक करायो। सो उरजन पसार पेस मारियो।

बडनगर जाडेचा र राजधानी मे थो। सो तुरकाएरी म किट्ठुई खून गुनो पड गया। जिए सु थी महाराज बडनगर ऊपर फौज लने चढाई कीवी। तर जाडेचा डोलो लाय ने हजूर म परणाया। पछ फेर फौज कर बडनगर ऊपर पधारिया तर जाडचा कने रुपया दस 10 00 000) लाख म गिया। तर थी महाराजा जी री सासू निराट लाचारी री अरज बराई के कीडी ऊपर काई कोप करावे। तर ऊदाहत — — — सिह राजसिंहोत दीवाण भडारी रुघनाथ ने सामल ले

1 शनिवार जून 30 1716 ई।

2 आराप।

3 शनिवार तबम्दर 6 1714 ई।

4 1716 17 ई।

ने ग्रंज दिली । भो निहायत रूपया पाच 50 0000) लाख ठहरिया । ने श्री महाराज रा काकी मुसरा ने ग्रोलमा दियो । ने श्री महाराज रा सालो पाटबी नगर रो घणी थो । सो निराट बालव थो । सो श्री महाराज रे मुजरे आयो । तर इतरो इनायत कियो—

मोतिया री कठी, घोढो । ने दिसासा दिली ने बदगी म साथे लिया ।

समत 1774<sup>1</sup> रा सइदा सु महाराज रे ढब जाण अहमदावाद रो सोबो पातसाह जी तगीर कियो । तरे श्री महाराज खीवसी नें दिली लिखियो के ‘मेह थो दुवारकानाथजो री जात्रा करने पाछा प्रावा जितरे सोबो वाहाल रखावज्यो’ । तर खीवसी पातमाहजी सू ग्रंज कर मास 4 री बाहाली लिखाय मेली । ने (चेत) रा महोना<sup>2</sup> म श्री महाराज राजलोक क्वरा उमरावा मुतसदिया सू धा थी ब्वार पानाय दरसण करण पधारिया । सो जात्रा कर पाछा जोधपुर पधारिया ।

भडारी खीवसी दिली सू जोधपुर आयो ।

समत 1774 रा जेठ<sup>3</sup> मे भडारी खीवसी रे बटी रो ने पोती रो ब्वाव हुवो । तर श्री महाराज क्वर महृत भडारी खीवसी री हवली आरोगण पधारिया । पग मडा किया । रूपया 100) एक भो श्री महाराजाजी बड वेहडा मे घालिया । रूपया 25,000) पचीस हजार भडारी खीवसी निजर किया । रूपया 100) एक सो निष्ठरावल किया ।

समत 1775<sup>4</sup> मे श्री महाराज दिली पधारिया । ने समत 1776 राँ<sup>5</sup> मे अजमेर होय जोधपुर पधारिया ।

समत 1775 मे<sup>6</sup> मुहथा अवेराज बागरेचो वेहला क्वर मोहोकर्मसिंह जी सू मिलियो थो तिण सू मरायो ने घर खालसे कियो ।

महाराज श्री अजीतसिंहजी इण माफक कमठा<sup>7</sup> कराया तिण री विगत —

1 समत 1774<sup>8</sup> मे गढ रे फते पोल न गोपाल पोल हेटला कोट करायो ।

1 समत 1775<sup>9</sup> मे जोधपुर रा गढ उपर दोलतखाना रा बडो मेहल राजम बास तिखडियो करायो । तिण महन म महाराज अजीतसिंह जी ने चूक हुवो ।

तिण सू श्री महाराज बखतसिंहजी भो मेहल पडायो ।

1 1717 ई ।

3 मई 1718 ई ।

5 1719 ई ।

7 भवन आदि निर्माण काय ।

9 1718 19 ई ।

2 माच 1716 ई ।

4 1718 ई ।

6 1718 19 ई ।

8 1717 18 ई

- 1 समत 1775 म ठाकुर जी श्री गगतामजी रो दहुरो सिखरवाद मठी में कराया सो पब देवरिया बाजे है ।
- 1 ठाकुर जी श्री मूलनायकजी रो दहुरा गुदी रा माहला में बड हेटे समत 1775 रा म करायो ।
- 1 समत 1775 में मढोवर रा बाग में एक यमियो भेहल ने जनानी जायगा कराई ।
- 1 समत 1776<sup>1</sup> म मढोवर में बाग रे कने भालर म भेह जी श्री बाला गोराजी रा सरूप ने बाच म श्री गणेशजी रो सह्य कोराय<sup>2</sup> साल कराई । ने जापे परणिये जात सह हुई । न कने भालर मे पावूजी ने हरमू जी रामदेवजी बगेरे देवता हुवा है जिणा री मुहरत<sup>3</sup> भालर म, घोड़ा ऊपर कोराय साल कराई ॥
- 1 समत 1776 में बडा महाराज थी जसवंतसिंहजी रो देवल मढार म नागादरी ऊपर करायो ।
- 

इतरा सह्यरूपा रा देवतावा रा साढा तीन तीन हात रा महाराज कराया ।  
बिगन—

- 1 ठाकुर जी श्री मुरली मनोहरजी चबमुज सरूप मठ ऊपर भादर मे बिराजे । ने श्री आनादधनजी महाराज श्री गजसिंहजी अमरचंपू दिल्ली कने सू मेवा लाया सो इण भादिर मे है ।
- 1 श्री हीगलाज जी रो सह्य ऊमा रो ।
- 1 श्री महादेवजी पारवती जी भेला विराजिया रो सह्य
- 

समत 1774 मे पातसाहा फरकमेर सइद अबदला खा से छाते नवाब \*\*\* ने बगसी गिरी सिलाम कराई । अबुला खाँ ने खबर पडी के पातसाहा रे न सर्दना रे आपस मे पूरो अबरोसो<sup>4</sup> पडियो । सो महादा न बिगाडण र वास्ते चेला नाहरखा ने फरमान देने माहाराज ने बुलावण नू जोधपुर भेलियो । सो समत 1775 रा भादवा सुद 5<sup>6</sup> अलह बर्नी री सराह रा डरा पातसाहजी तरवियत खा ने साहमा

1 1719 20 ई ।

2 उत्कीण करवाकर ।

3 प्रतिमायें ।

4 1717 18 ई

5 अभरोसो=अविष्वास ।

6 मगलवार अगस्त 19 1718 ई ।

महलियो । भादवा सुद 6<sup>1</sup> मोती बाग रा डेरा । अत फरमान देने मेलियो । भादवा मु<sup>2</sup> 7<sup>2</sup> पातमाहजी नवाब खानदीरा ने, ने कोटा रा महाराव भीवभिंहजी बगरे मनपदवारा ने माहाराज रे साहमा मेलिया । माहाराज पातसाहजी रो हजूर गया । पातसाहजी धणो कुरब दीयो । बाहु पसाव कर मिलिया । जीवरो सिरे खड़ा किया । राजराजेश्वर रो खिताब दियो । सिरपाव, हाथी, घोड़ा, माही मुरातव, मातिया री माला जडाऊ कटारी सिरपच हजार असवार दो सपा रो हजारो, ने कोड दाम इनाम दिया । आसोज वद 13<sup>3</sup> नवाब खानदोरा न नवाब सिरविलद खा न पात साहजी हजूर रे डेरे मेहलिया । हजूर पातसाहजी मुजरे गया । तर सिरपाव मानिया री, माला जडाऊ, किलगी, ने फेर हजार असवार दोय असपा रो हजारो ने कोड दाम इनाम दिया ।

दरवार बोहडियो<sup>4</sup> । तर पाढ़ा आवता अदुल्ला खा भनवार कर माराज ने आपरे भेला हाथी ऊपर बठाया । तर महाराज न एकला जाग ऊदावत अमर्सिंह कुसलसिंहोत नीबाज रा ठाकुर छ्वरी बाला री जायगा अबाई रे पाढ़े जाय बठा । जद मू उभरावा रे खवासी म बसण रो सरसता<sup>5</sup> पडियो । महाराज ने नवाब महाराज रे डेरे आया । ने आपस मे चचन मोगन कर नवाब ने महाराज एक हूवा । आ हवीकत पातसाह जी सू मालम हुई । तर फुरमायो 'मे तो जाणता था महाराज महारा जनाई छ, तिणमु बुलाया छे । सो झ सईदा सू मिल गया । तिण ऊपर पातसाह सार विद्यायत ब्राई ने महाराज सू चूक विचारिया । के महाराज आव तर अडे बठाए सार लगाय दीजो । सो आ खबर याई जो हजूर ने पोहचाई । तर उण ठोड विराजिया नहीं ने मुजरो कर डेरे उरा आया । जठा पथ्य केर एक दोय बार पातसाह चूक री तजबीज किवी पिण महाराज सावचेत होय गया तिण मू खेर हुई । पातसाह जाणियो माहाराज सावचेत होय गया । सो हमे चूक सजे नहीं । तरे पातसाह सिकार रो मिस कर महाराज ऊपर चढ ने आवण रो विचार कियो । तर आ खबर अदुल्ला खा ने हुई, तर महाराज रे डेरे आदमी बीस हजार ले न आ बठा । ने पातसाहजी डेरे कने आया मा नवाब रो लोक साथठो देख आगा जाय सिकार रम नालकोट दाखल हूवा ।

ने पातमाहजी री बेमहरवानगी री ग्रेवाल हमनप्रली दिखण मे थो, तिण ने प्रदुला खा लिखियो थो सो हसनप्रली फौज ले दिखण सू दर कूचा दिल्ली आपा । तर

1 बुधवार अगस्त 20, 1718 ई ।

2 गुरुवार, अगस्त 21 1718 ई ।

3 गुरुवार सितम्बर 11, 1718 ई ।

4 चरहवास्त विया ।

5 परम्परा रिवात ।

आवेर महाराज जसिंह जी पातसाह जी री तरफ था । सो दिन उगा पहली दिल्ली सू चन्तिया सा आवेर गया । एक दिन महाराज अजीतसिंह जी घोड़ा फेरण पथा रिया । सो माजी जादमजी नरुकी जी ने उमराव काम आया जिका जायगा रस्ता म आई । तर जिणी अरज वरी था जायगा है । तर महाराज कुरमायो हिंगलाज जी कियो तो उण बात रा बदलो ल लसा । पातसाहजी असदवा न मलाह पूछाई वे हमे काई कियो चाही ज । तर असदखा कही हू तो बूढ़ो हुबो ने फकीर हुबो । मसीत म बठा हू । सा मासू तो किहुई हुवे नही । ने जुलपश्चार खा ने सईदा रे कहे आप मराय नामियो । जो कद मे ही राखता तो आज आडो आवता । हमे आप राज कियो चाहो तो सइद कहे छ के बो बखसी कियो तिण न माने सूप देवा । सूपए री पातसाहजी रे मन मे बठी नही । ने सईदा सू बिसटाला करायो नवाब ने सू पा नही । ने और जिण बात सू धाने दिल जमीई हुवे जिकाई मे मजूर करा । तर सईदा अरज वराई तोपखाना री दरोगाई न लाल किला री किलादारी माने बखसाहो तो म्हारा दिल रा खतरा मिटे । तर तोपखाना री दरोगाई ने लाल किला री किलानारी सईदा ने इनायत किवी । सो तोपखानो ने लाल किलो सईदा रे आहात<sup>1</sup> हुवा । तर सईदा न महाराज अजीतसिंह जी पातसाहा न पकड़ए रो विचार कियो । सो समत 1775 रा फागण सुन्दर 10 नवाब गुलतासा ने महाराज श्री अजीतसिंहजी काटा रा हाड़ा भीवसिंहजी रूपनगर रो राजा राजसिंहजी बगरह दीवाण आम मे जाय बठा । न पातसाहजो ने खबर पाहोती सो जनाना मे जाय बठा । न नाजर रे साथे फूता री माला महाराज अजीतसिंह नू मली । जिण भ लिखियो 'माहारी पातसाही न ज्यान थार दीयाढी है । इण बबत रो आसान हू भूल सू नही । कुरान बगरे सोगन लिखिया । तर भडारी खीबसी महाराव भीव सिंहजी रूपनगर रा राजसिंहजी सलाह कर थी महाराज सू अरज किवी के पात माह नू बचायो चाहा तो प्रजेस क्यू ही विगडिया न है । हुक्म पातसाहत म आपणो रहमी । न मोहलो आद्यो लापसी । हिंदु सारा आपरे हुक्म थे । न तुरन पिण वितराव सामल होसा । ने पातसाह रा क्यू ही विगड़ा दसा नही । थी महाराज कुरमायो मर्दिंगा नू थी हिंगलाज जी विषे दिया हैं । पातसाहा मानू चूक विचारियो ने देरा ऊपर आया । सो नवाब दर नही आवे ता माहन कद छोड़ता । मा थी महा राज र दाय महीं आई । न मर्दिंगा रा आमी जनाना म सू पातसाहा परकसर नू परह लाया न छद कियो । महाराज थी अजीतसिंहजी इन 3 नाल किला म दीक्षारु भ्रम म रहा । उठ ही सवा किवी भगतरा बजाइ जिण सम रो गीत —

1 हाथ म आया ।

2 बुधवार फरवरी 18 1719 ई ।

बड़े गढ़ माल रे पोतरे बजाया ।

भालरे भाल रा तणा भणकार ॥ १ ॥

सईदा ने कह ने बाईजी ने जोधपुर पोहोचाया । ने उठा रो सारी चीज बस्त  
से न आया । नाजर माथे थो । पछ्य बाईजी प्यालो पीय नै मरिया ।

पातसाह फरकसेर रे गले तात केर ने सईदा मारियो ।

समत 1775 रा फागुण सुद 13<sup>१</sup> साहजाना रफिउद्दरजात ने तखत वेसा  
एियो । सो महीरोक जीवियो न पछ्ये फोत हुवो ।

पछ्य साहजादा रफिउद्दला ने तखत बसाएियो । आगरा म बिलादार बगरे  
मरेकस<sup>२</sup> हुवा था । जिण मू पातसाह ने ले सइद ने महाराज आगरा मे अमल  
किया । न पातसाहा रफिउददोला ही मास छ्यव 6 जीवियो न फोत हुवो ।

समत 1776 रा भामोज<sup>३</sup> म मईदा रा उजीर राजा रतनचंद ने महाराज  
अजीतसिंहजी तरफ मू भडारी राव लीवसी इणा दोना तू साहजादो लेण ने दिलती  
मैह लियो । सा लिली आया ने समेल कोट म सारा साहजादा दीठा । तिणा म  
महमदशाह वरम 22 बाईस मे थो सो अबल प्रिजर आयो । तर कहो आप पधार  
‘तखत विराजो’<sup>४</sup> तर मेहमद साह री मा आगला पातसाह वेगा वगा मूम्रा तिणा  
मू जागियो अ ले जाय औ मार नाले छें । तिण मू कहयो के मारा वेटा रे पाठ  
साही चाहीज नहीं । तर सौगत कर न निसा दिवी ने भडारी लीवसी पातसाह री  
मा बन न पातसाह महमद शाह कने मुतालजा रो महाराज सा दूजा नहीं होए  
रा काल पजा रा खत लिखाया । पछ्य मेहमद माहजी न आगरे ने गया । पछ्य समत  
1776 रा (द्वितीय) आसोज (वदि 2)<sup>५</sup> तखत बसाएियो । तखत वेसण साह माह  
मू महमदसाहजी दरखार मे आया जिण वखत पातसाहजी रो एक हात नौ अबदुला  
गा रे हाथ ऊपर थो ने एक हाथ महाराज अजीतसिंहजी रा हाथ ऊपर थो इण  
तर लाय न तखत बसाएियो । महाराज अजीतसिंहजी डरे पधारने फुरमायो के  
थो पातसाह सारा सू आटा लेसी ।<sup>६</sup>

पछ्य मानुनाखा आवर ऊपर कूच किया । नै महाराज अजीतसिंहजी ने गुज  
रात रा मोदा रो फरमान लिखाय न साथे नाया । आवर ताडण रा सईदा रे मन म  
घणी थी । राजा जयसिंहजी रे उकील महाराज अजीतसिंहजी कने आय घणी  
गिष्टाचारी की । तर महाराज अजीतसिंहजी अबदुला था जी क्यो के ‘जयसिंहजी रो

१ शनिवार फरवरी 21 1719 ई ।

२ विद्रोही ।

३ सितम्बर, 1719 ई ।

४ शनिवार सितम्बर 19 1719 ई ।

५ वर्षा नेगा ।

तखसीर माफ करो' तर नवाब क्यो "ओ तरेदार है। सजावार करगा दो। न एकण कबर ने बुलामो। ज्यू आवेर देठाण देवा। ने कछवाहा री जमीदारी उठाय काढ देसा। राठोडा री जमीदारी धाल दसु। असवार 20000 बीस हजार मारा राखसु।"

पछ माराज अजीतसिंहजी धणा दवाया। तर नवाब आपरी छाती कूटी न कहयो इए सू आधो कढावो हो, सा धणा पछतावसो। पछे नवाब ता पाड़ा कूच कियो। ने श्री महाराज नू सीख हुईं सा नवाब रा डर सू जयसिंहजी महाराज अजीतसिंहजी माथे आवेर आया। सा ममत 1777<sup>1</sup> मे श्री महाराज अजमेर हुय मनाहरपुर गोडा र पररीज ने जोधपुर पदारिया। गढ़ दाखिल हुया। तर भडारी धानसिंह ने मूढा आगे बीया। हाथी र हौदे बेसाण ने सेहर म थानसिंह रा हाथ सू रूपया उछालता गढ़ दाखिल हुया ने राजा जयसिंह तू सूरसागर रा मेहला भढो दिराया।

भडारी अनोपसिंह रुधनाथोत नू फोज दे ने अहमनावान रे सोब बिदा किया। नायब भडारी रतनसी उदयकरणात ने राखियो। अहमनावाद म साहूकार भडसाली क्षेत्रचद जबर धणो थो। किणी चूक तकसीर वाला कन सू रूपयो लेण देता नहीं तिण सू इए ने नायक खाज बक्स कन दगो कर मरायो।

माराज अजीतसिंहजी रे वेटी सूरजक्कवर बाईजी जसलमेर री भारेजी थी तिण री सगाई जैसिंह जी भू पहला बीपाड़ी थी। तिण ने सगत 1777 रा जठ<sup>2</sup> मे जसिंह जी ने परणाया। धणा ह्याम<sup>3</sup> सू याव कीयो। जयसिंह जी पररीज न सूरसागर डरा दाखिल हुवा। पछ प्रभात रा राठोड़ हरनाथसिंह चापावत आऊवा रा ने ऊनावत जसकरण परतार्पिणियोत ध्यिया रा इए दोना रे साथ केसर रा घडा 40 चालीस सूरसागर मेनिया। सा सारा कछवाहा नू केसर मे गरक त्रिया। न जान ने नोतिया। सो आथए रा महाराज जयसिंहजी आरोगण पदारिया। सा महाराज जसिंह जी ने महाराज क्वार एक थाल भेला विराजिया। अठी उठी रा उमरावा पातिये जीमिया। ने जसिंह जी रा साथ मे धणी मान मनुवार सू जीमाया। जसूसायत देख महाराज जसिंह जी धणी तारीफ की।

राठोड़ सावतसिंह जिसनसिंहोत जोधा रतनात दुगोली रा नागोर मे अमल जमण देतो नहीं तिण सू इए ने गाव सरनावडा बडा रा राठोड़ सिवसिंह गोपीनाथ गुप्तदास कने चूक कर मरायो।

1 1720 ई।

2 मई 1721 ई।

3 उत्सव समारोह।

सईदा पातसाहा फरक्सर न मारियो ने कुआ मुखवार हुआ। तर कितराक सारा अमीर उमराव सइदा मूँ भेल बर लियो। ने मुाल निजामुलमुलक बढ़ो उमराव थो जिकण आप रो फौज ले ने उज्जीरा तू कूच कीयो।

नगोर रा राव इंद्रसिंहजी पिण निजामुलमुलक रे माथ हुवा। फेर ही धणा पातसाही सामधरमी मुगल निजामुलमुलक रे भेला हुआ। ने सइदा दिलबरखा ने फौज दे निजामुलमुलक रे लारे विदा किया। न कोटे रा महाराज भीवसिंहजी न कछवाहा गजमिह जी ने लिलाप्र खा साथ मेहलिया। सो दिलए म रवा नदी रे पार जाय पाहता। ने निजामुलमुलक मूँ जा भगडा कीयो। नहाइ भारी हुई। सईद निजावर खा काम आयो। ने महाराव भीवसिंहजी काम आया। राठोड विजेमिह जगतमिहोत जोधो महाराव भीवसिंहजी रो चाकर काम आयो। नरवर रो कछवाहो गजसिंहजी काम आयो। भीवसिंहजी गजमिहजी रा घणा रजपूत काम आया। निजामुलमुलक री फत हुई। श्रीरामावाद म सईद आलम अली ने हलकारा भाया खबर दियो। तर आलम अली फौज ले चढ़ियो। सो आय ने निजामुलमुलक मूँ भगडा कियो। सो आलम अली काम आयो। कर निजामुलक री फते हुई। दिनी तबर आई। नर अब्दुला खा न तो दिली राखियो ने पातसाह महमदसाहजी न साथ लेन हसन अली घणी फौज मूँ दिलए कूच कीयो। पातसाहजी रो वय ही बढे नहीं हुक्म सारो सईदा रा हाले। जिए मूँ भद्र पातसाह फरक्सर न सईदा मारियो। जिए मूँ भेहमद साहजी पूरा नाराज। सो अमीर मेहमदसाह ने कमरदीखा न सईद हसनअलीखा ने चूर करण रो गोश<sup>2</sup> फुरमाया। सो इणा रा केणा मूँ हुदग्गा चूर करण रो होकारा भरियो। सो हमन अली पालखी म बठो पातसाह जो रे डर जाता हो, सा हुदरवेग रस्ता म प्ररजी दियो। सो धरजी बाचता हुदरवेग यजर मूँ हमन घस्ता ने मारियो। तर पातसाह जी फुरमाया 'हरामोर महारा हुक्म मूँ सजा पाई दें। तर सईदा रा तनाई था मा ना भाज गया। न दूजा सारा उमराव धरमर पानसाहा जी रा फरमावनार हुआ। निजामुलमुलक आय पगा सागो। पातसाह जी घणी निवाजम सातर फुरमाई। पातसाहजी पाथो लिली न कूच कीयो। अब्दुलासा फौज ल दिली मूँ साहगो चढ़ियो। पातसाहजी फौज मूँ भगडा कीयो। पातसाहजी री फतह हुई। न अब्दुल्ला रां न पकड लिया। निजामुलमुलक ने दीवा रणी दीवो। था तबर महाराज जसिह जी र पहला आई। सो महाराज धजीतसिह जी मूँ दिना मिलिया ही भूरसागर मूँ चड़ि गया रात रा। सो दिली गया। महाराज धजीतसिंहजी फौज ले चढ़िया। मो धजमेर धमल बर लिया। ने धाना सानर रा धेहनां जनाना मूपा दातिन हुआ। धजर धमिहजी रे साथ नेढारी रुपनाथ न पणी फौज द विदा किया सो जाय नारनान लूटी। ने हिंदुस्तान म धीरज

मचाया। जिए सू दिली मे अभेसिहंजी रो नाम धीकलसिहंजी पडियो। नारनोल रो फौजदार बाजीदबा नास दिनो गयो। कवर अणदसिहंजी जाय ढीडवालो लूटियो। भडारी थानसिहं मनरूप साये हो। पातसाह भडारी खीवसी नें फुरमायो कि इण तरे फिनूर मत करो। ने महाराज नू लिखो सा घठे हाजर हुवे। 'तर महाराज ने अरज लिखी तिण ऊपर महाराज पाछ्यो लिखायो वे मारवाड मे तुरवाणी हुई। तर जजियो नगायो सो माफ करो। ने सर्द अ दुला खा ने कर माह सू छोडे। तर चाकरी मे आवा।' खीवसी जी पातसाहंजी सू आ अरज कराई। तर जजिये रा आदमी दोठ रूपया सात?) ने पाव 5 न साढा 3!!) तीन लागता सो माफ किया। ने नवाब — — — खीवसी ने कह्या जजियो माफ री सिरपाव दीरीईजे। सो महाराज अजीतसिहंजी ग्रठ नहीं सो पेहली महाराज जसिहं जी ने पछे थाने होमी। 'तर खीवसी नवाब ने कह्यो के जजियो तो म्हाने माफ हुवो थे। सो पह्ना सिरपाव मने हुवो चाहीजे न पेला सिरपाव मने नहीं हुवे तो हू लेझ नहीं। तर सिरपाव भडारी खीवसी न हुवो। न पछ महाराज जेसिहं ने हुवो। ने महाराज अजीतमिहंजी ने ता राज राजेश्वर रो विनाव हुवो। ने महाराज नू बुलावगा माह चेला नाहरखा न भडारी खीवसी साये विदा कियो। ने पातसाह जी फुरमायो 'अठ महाराज ने बुलावा हा सो आवसी तर अ दुला खा न छोड देसा। ने विदा हो तो भडारी खीवसी से सिरपाव न पदर एक जुहाक रा, ने सिर पाव 19 उमरावा ने किया। चेला नाहरखा ने भडारी खीवसा टिली सू विदा हुआ। सो महाराज बन आया। अद महाराज रा ढरा साभर था। ने राजलाक पूऱ्हरजी था। महाराज फुरमायो के पहला अ-दुला खा जी न छोडे। ता पछे म्हे टिली पवारा। चेना नाहरखा न भडारी खीवसी ने पाद्या दिली विदा किया। सो दिलनी गया तर बमरनीखा ने खाननोरा जी ने महाराज जेसिहं जी इणा तीना जगा विचारियो वे महाराज अजीतसिहंजी ग्रठ आया ठीक नहीं। ने अ-दुला ना द्यनो ठीक नहीं। सो इणा सलाह कर ने नाहर खा न कया थने पातसाहंजी पूछे कि महाराज रे अवला रो कोई ठीक है। तरे सू अरज कीज कि अ-दुला खा जीव जितर महाराज आवे नहीं। तरे ताहर खा कह्या यू बेहण मे थारे काई फायदो। तर इणा बह्यो सू तू अरज वरसी तर अ-दुला खा न मराय नाससी। तर नाहर खा कया बणम मन काई फायदो। तरे तीनू जणा बचन दीयो के म्हे अरज वरने थने हृष्य हजारी बरावमा। तर विणा रा कहणा सू नाहरखा न पातसाहंजी पूऱ्हियो तर इणा ही तरह अरज किवी। तर पातसाहंजी अ-दुला खा न मराय नाखियो। न महाराज नू बुलावण बास्त फेर नाहरखा न पाद्या तयार कीया। तर बमरनीखा खाननोरा जेसिहंजी पातसाह जी सू अरज कावि नाहरखा ने हृष्य हजारी बराव न मृत्ताव। सो अजीतसिहंजी सू बरावर बठ ने थात बरे।

तर नाहरखा ने हफ्ते हजारी बीयो । ने खीवसी जी ने नाहरखा न महाराज बने मृतिया, सो सांभर प्राया भडारी खीवसी ने माराज पूछियो के मृत तो या ने अब्दुलासा ने छोड़ावण मैतिया था । ने अपूठा मराय ने थाया ।” तर खीवसी धरज बीवी । ‘नाहरखा इए तर पातसाहजी सू अब्दुल्लाया न मराया । तर हैदर फुरमायो ‘नाहरखा न मै मार नावग्मा ।’ खीवसी माकला वरजिया । विण महाराज न मानी । तर खीवसी तो माल्यी रा चित करन सांभर शहर य जाय बढ़ो । पछ भडारो थानसिंह खीवसिहान न गठोड खिवसिह गापोताथोत महनिया ने जाव करण र मित बड़ी कजर रा मृतिया मा डेरा ऊपर गया । सो नाहरखा ने उए रा भाई रोहिलाखा दोता न मार लिया । बाकी रा भाग गया डेरा असवाद लूट लीयो । नाहरखा न मरिया री पातसाह जी सू मालम हुई । तर पातसाहजी घण्ठो अतराज हुवा । ने बाईसी दे हैदर कुन्नी ने महाराज अजीतसिहजी ऊपर विदा किया । आवेद राजा अर्पितहजी बगेरे घण्ठा उमराव साथे बिदा दिया । अजमेर रा किला बीटली म निवाज ठाकुर ऊदावत अमरसिंह जी न भडारी बिजेराज खीवसीबोत ने रातिया । ने महाराज पातसाह री फौज सामो कूच दियो । सो भोहरपुर बन चिवणी है जठे डेरा दिया । उठ घण्ठी फौज मेली हुई । यर्ची भोहरनी टिथी । हैदर कुली रा डेरा कोस चार 4 ऊपर हुधा । महाराज लडाई री तथारी बीयो । आवर रा राजा सवाई जेर्सिहजी आपरा भला भादमी मेल केवायो के ‘पातसाहजी सू राड दिया पड़पसी नहीं<sup>1</sup> । राठोड भरसी सो फेर पदा होसो नहीं । ने पातसाह री फौज मरसी, तो एवज म फेर दूजी आवसी । सो मैदान री लडाइ भत करो । ने बिला म लन्हो । तर माराज पाद्या कूच कीयो । सो अजमेर हृष मेडत पधारिया ने पातसाह री फौज अजमेर आई मोरचा लगाया ऊदावत अमर सिहजी किला म था सो आछा लडिया । उए ममे रो दूरो ।

कब फौजा चहु फेर, दग तोपा गाजे दुरग ॥  
आजुरा<sup>2</sup> अजमेर, ईखण<sup>3</sup> जेसो अमरसिंह ॥ 1 ॥

1 नवाव हैदरकुली, 1 सिरविलद खा जसिह जी तीनो एव हाथी र होने अमवार हाय ने खाजेजी री दरगा दरसण नू जावता था, सू गढ कपर सू गोला थायो, सो हाया रो महावत उड गयो । पछ नवाव हैदरकुली ने जसिह नी महाराज अजीतसिंह सू विस्टालो वरियो । समत 1779<sup>4</sup> रा म कवर जी अमरसिंहजी ने

1 पार नहीं पड़ेगा ।

2 दुग, किला ।

3 आज फा ।

4 उखन योग्य ।

5 1723 इ ।

फौज साथे दिली चाहरी में मलण ठहराया । ने इतरा परगना महाराज कने छुड़ाया तिण रा विगत—

|   |        |   |           |   |        |
|---|--------|---|-----------|---|--------|
| 1 | अजमेर  | 1 | भिणाय     | 1 | तोड़ी  |
| 1 | परबतसर | 1 | म्हारोठ   | 1 | हरसोर  |
| 1 | भेस्टा | 1 | तीसीणो    | 1 | वान्तल |
| 1 | बदाल   | 1 | साभर      | 1 | नागोर  |
| 1 | केकड़ी | 1 | डीडवाणो । |   |        |

14

पातसाहजी नागोर राव = द्रसिंहजी न दीया । तबत रा सामधर थका निजामुल मुलक रे सामल रहया जिण सू ।

क्वरजी थी अमसिहना न जाधपुर सू बुनाया । ने भडारी खीवमी ने साथे जावण रो फुरमाया । सा खीवसी बिचारियो महाराज माथे पातसाह री घणी बेमरजी है सो क्वरजी माथे जावण भ तत नहीं<sup>1</sup> । तर खीवसी तो नट गयो । तर आऊवा रा ठाकुर चापावत हरनाथसिंह तेजसिंहोत न घणी भवावण द साथे भेलियो । क्वर जी अजमेर गया । हैदर कुली जसिंह जी बगरह सू मिलिया । महाराज मेडते सू बूच कर मढोवर दालिल हुआ । क्वरजी अजमर सू पातसाही फौज साथ बूच कियो थो सा मजल दोय चार म आऊवा रो हरनाथसिंह तेजमिहात चल गयो । महाराज सू मढोवर भ मालम हुई घणा पिकर कीयो । एक टह<sup>2</sup> तोबत नहीं बजो । माहाराज गट थालिन हुआ ।

क्वरजी अमसिहजी दिली पधारिया । पातसाहजी सू मुजरो हुवो । खातर कुरमाई । एक दिन पातसाहजी आम दरबार थो क्वर जो मुजर पधारिया । सो साम ले चसम पच हजारी हफ्त हजारी चहे जिण चशम क्वरजी बवाक्वी सू चढ़िया । तर मिर तुजक आडा हाथ दे वरजिया । तर क्वरजी कटारी ऊपर हात दियो । जितर पातसाहजी ऐख लिया । सो आप रा गला री मोतिया री माला दे खानपोरा ने महलियो सो क्वरजी न माला पहराय राजी किया । पछ सदा मन्त्रे चश्मे हुय ल गयो ।

क्वरजी अमसिहजी माथ पातसाह री मरजी घणी— “ क्वरजी रे जसिंहजी सू गुप्ट<sup>3</sup> घणी । जिण सू महाराज अजीतसिंह जी रे मन भ खतरो पड़ियो । सा प्रोहित जगू न रोहिटरा ठाकुरा चापावत सगतसिंहजी न दिली ने

1 लाभ विशेष ।

2 दिन म एक बार बी ।

3 आपसी मित्रता ।

विदा दिया । ने फुरमायो के क्वर ने घड़े ले आवो पातसाहजी रा पुरमाण सू जेतिह जी क्वर जी भ्रभर्तिसिंहजी ने सधमास कीवी के 'मईदा न महाराज भजीतसिंह जी पातसाह फरकसेर ने मारियो । सो सहदा न तो पातसाहजी मराया । ने पातसाह जी रे मन में अजीतसिंह जी री धणी खटके थे । सा उबार<sup>1</sup> देखे हैं न आयो जितरा घडी जाधपुर उरो लेसी । न हजारा राठोडा रा जीव ही जावसी । न जमी ही जावसी । सो आप महाराज भजीतसिंहजी ने चूक कराय बाढो सो पातसाह जी री गुस्सा मिटे । ने आप सू राजी रहवे ।" भढारी रुपनाथ ही आद्वीज सला दिवी 'पातसाह जी राजी रह ज्यू बरणो माराज जेतिह जी ठीक फुरमावे थे । तर महाराज नू चूक करण रो भाई बखतसिंह जी न जोधपुर लिखियो ।

समत 1780 रा आसाढ सुद 9<sup>2</sup> साचोर चीतलवाणा रा चहुबाण रा ढोलो आयो । सो महाराज व्याक कोयो थो । ने आसाढ सुद 13<sup>3</sup> अगहरण रा महल म पोडिया था । सो रात रा क्वर बखतसिंहजो आपरा हाथ सू चूक किया । ने शृ गार चौकी पथार ( ) बरणोत दुगदासोन चौकी थो । तिण ने फुरमायो के महाराज ने न महासतिया ने मढो र पधरावण री तयारी बरावो । प्रभात रा महाराज री न सतिया री असवारी हुई । सतिया साथे क्वर अणर्दसिंहजी, रायसिंह जी तो सगा भाई ने क्वर किशोरसिंह जी दुभात भाई नीसरिया । सो सतिया रा डर सू बखत सिंहजी बरजिया नहीं ।

- 6 राणिया छव, सो इणा रा नाम राजलोका री बिगत मे लिखीजसी
- 29 सहेलिया 4, खालसा री बडारिएया 4, गायणिया 12, उद्दा वेगणिया 9 ।
- 7 हजूर वेगणिया 2, पातरिया 5 ।
- 1 गण महाराज ने चूक हुवो तर महाराणी ।
- 20 बडाराणिया राजलोका री तथा बाया री—
- 2 बडी भटियाली जी री ।
- 1 चुहाणजी री ।
- 2 तु बरजी री ।
- 1 छोटा भटियालीजी री ।
- 1 सेखावतजी री ।
- 1 सीसोदणजी री ।
- 3 जाडे ची री ।

1 ग्रवसर घात करने के लिए मीका ।

2 शुक्रवार जून 19 1724 ई ।

3 मण्डलवार, जून 23, 1724 ई ।

- 2 राणावत जा री ।  
 2 चावडी जी रा ।  
 1 देवडी जी री ।  
 1 पून कवर बाई री ।  
 3 इन्ह बवर बाई री ।
- 

20

- 1 सीसोदिया उमदसिंह जगतसिंहोत देवतिया बाला री वह राठोड़ थी, ने उणा सू देवलियो घूट गयो थो । तिण सू जोधपुर आय बेठाया । ने उणा रा बेटा 2 दाव था । 1 सालमसिंह जी, 1 खुमाणसिंहजी नावे था । न सगी बन रो मन नह राव जितरो हजूर इणा रो कायनो राखियो । जिण मोह सू कर बेटा नू छोड़ ने महाराज साथे बत गया ।

2 नाजर नथ 1 किरणी 1

---

66

राजवी घण्डसिंहजी रायसिंहजी किशोरसिंहजी नू सतिया रा घोडा ऊपर चढ़ाय नै गाव बिलाडा रो जोधो मोहवमसिंहोत जामसिंहोत ल नीसरियो । बीलाडा कन पेसवसी लीबी । न ऊनवर दुरदराम रामसिंघोत कन रायपुर गया ।

महाराज अजीतसिंहजी महाराज बयसिंहजी साभर लीबी ने साभर डेरा रह्या जद दुरगदासजी आप रा पौज सूधा यारा उतरिया था । सो महाराज अजीतसिंहजी मिसा में डरो करण रो कुरमायी । तर दुरगदासजी अरज किवी हमे महारी तो ऊमर थोड़ी बाबी रही थै । नै लारता मिसला म हीज डरो करसी । इए बात सू दुरगदास जी कुद हुआ । सो राणा जी ने बुलावण बास्ते दुरगदासजी न मेलिया था । सो पाढ़ा ह आया । राणजी रे उठे रहा नै उठ ही चलिया ।

श्री महाराज र था हिंगलाज जी रो भाव घणो थो । सो आसोजी चेती नीरता म सियासीया री जमाता आवनी तिणा न भाजन दिरीजता ने दिपणा दरीजती ।

समत 1771<sup>2</sup> रा रतलाम पातसाह जी ताणीर कीबी थी सो रतलाम रो राजा मानसिंह महाराज कन आयो तर महाराज पातसाहजी सू अरज कर रतलाम पाढ़ी दिराई ।

उदेपुर राणा भ्रजसी रो पोतो चादो तिण रा चढ़ावत वही जे । रामपुरी  
लडाई लास रो जागीरी पातसाह जी दीवी राव गोपालसिंह चढ़ावत रामपुरा रो  
कवर रतनसिंह जी ने काढ दियो थो सा रतनसिंह पातसाहजी कन जाय तुरक होय  
फाज ल ने आयो । सो बाप ने काढ दीया ने रामपुरे थमल कीयो । पछ गोपालसिंह  
महाराज अजीतसिंहजी कने आयो । सो रतनसिंह मूवा पछ, महाराज पातसाहजी सू  
प्ररज कर नें पोता रे नाव जागीरी लिखाय न गोपालसिंह न रामपुर बठाणिया ।

समत 1778<sup>१</sup> रा भ खगारोत श्यामसिंह मनस्पात आवेर सू छाड ने जोधपुर  
महाराज कने आयो । मू राजीना स्पया 1000) हजार कर दिया । पछ स्पया  
500) पाच सो कर दिया । पर्छ तोडा रा गाव लिख लिया । तोडा थी महाराज री  
जागीरी म थो । तोडे हाकम मुहतो गोपालदास थो ।

जसलमेर रा रावल अखराज जी महाराज अजीतसिंह जी रे भरणे आया  
था ।

समत 1769 रा फागण<sup>२</sup> मे भजारी थीवसी धघनाय ने अटकाव<sup>३</sup> हुबो । ने  
दीवाणगी भडारी भाईदास ने मुहतो गोकलदास म भेली दीवी ।

1 भडारा भाईदास दीवाण ।

1 मुहतो गोकलदास सोवेदार, समदडी रो मुहतो ।

1 जोधपुर री कचेडी हाकम मुहतो गोपालदास किल्याणदासोन जात  
कोचर ।

1 मडता री कचेडी हाकम, मुहतो भाईदास गोकलदास रो भाई ।

बूदी रा राजा बुधसिंहजी आवेर रा राजा जसिंहजी रा बेन परणिया था ।  
सो जसिंह जी री बेन घणा बरमा सू आवेर आया । ने उणा रा कवर बालक थो  
सा जसिंह जी भारेज ने श्रोलखिया<sup>४</sup> नही । जिण सू बूभियो । वाई ने सज मे<sup>५</sup>  
पूछियो क “बाइ आ किण रो नाइ छे ।” सो बाइ और तर भमभिया । न जाव  
नियो के ओ ता साग छे विण थाने लाया सो हु जाणू छू । जिण मू जसिंहजी  
घणा बराजी हुग्रा । हाडा बुधसिंहजी रा छाटा भाई दलेलसिंहजी नै जेमिह जी आप  
री बटी परणाई । ने दलेलसिंहजी साथे कोज मेल बुधसिंहजी सू बूदी बारे काढ  
दिया । ने दलेलसिंहजी तू बूदी रा घणी कर दिया । तर बुधसिंह जी महाराज  
अजीतसिंहजी कने आया । सो जाधपुर मू फोज मेल बुधसिंह जी नू बूदी पाढा  
बसाण दिया । ने दलेलसिंह ने बूदी बारे काढ दियो समत 1773 मे<sup>६</sup> ।

1 1721-22 ई

2 फरवरी 1713 ई ।

3 कद ।

5 स्वाभाविकता से ।

4 पहिचाना ।

6 1716-17 ई ।

- 2 राणावत जी री ।  
 2 चावडी जी री ।  
 1 देवडी जी री ।  
 1 फूल कवर बाई री ।  
 3 इन्द्र कवर बाई री ।
- 

20

- 1 सीसोदिया उमदसिंह जगतसिंहात देवलिया थाला री बहू राठोड़  
 थी, ने उणा सू देवलियो छूट गयो थो । तिए सू जोधपुर आय  
 बेठाया । ने उणा रा बेटा 2 दोय था । 1 सालमसिंह जी 1  
 खुमाणसिंहजी नाव था । न सगी बेन रो मन नह राखे जितरो  
 हजूर इणा रो कायदो राखिया । जिण मोहं सू कर बेटा नू छोड  
 ने महाराज साये बल गया ।
- 2 नाजर नष्ट । किरण ।
- 

66

राजबी अणदसिंहजी, रायसिंहजी किशारसिंहजी नू सतिया रा घोडा  
 ऊपर चढ़ाय न गाव बिलाडा रा जोधो माहकमसिंहात जोधसिंहोत ले नीसरियो ।  
 बीलाडा कन पेसकसी लीकी । न ऊावब हृदयराम रायसिंहोत कन रायपुर गया ।

महाराज अजीतसिंहजी महाराज जयसिंहजी साभर लीकी न साभर डेरा  
 रह्या जद दुरगदासजी आप री कोज सूचा यारा उतरिया था । सो महाराज  
 अजीतसिंहजी मिसल मे ढरो करण रो कुरमायो । तर दुरगदासजी ग्ररज किवी हम  
 महारी तो ऊमर थोड़ी बाकी रही थे । नैं लारला मिसला मे हीज डेरो करसी ।  
 इण बात सू दुरगदास जी कुँद हुआ । सो राणा जी न बुलावण धास्त दुरगदासजी  
 ने मलिया था । सो पाढ़ा ह आया । राणाजा रे उठे रह्या नैं उठे ही चलिया ।

श्री महाराज रे श्री हिंगलाज जी रो भाव घणो थो । सो आसोजी चेती  
 नोरता म सियासीया री जमाता आवनी तिणा न भाजन दिरीजतो ने दिपणा  
 दरीजती ।

समत 1771- रा रत्नाम पातसाह जी तापीर कीवी थी सो रत्नाम रा  
 राजा मानसिंह महाराज कन आयो तर महाराज पातसाहजी सू घरत्र कर खताम  
 पाढ़ी दिराई ।

---

1 खिल्लि ।

2 1715 ई ।

उदेपुर राणा अजसी रो पोतो चादो तिण रा चाद्रावत कही जे । रामपुरो लडाइ लाख री जागीरी पातसाह जी दीवी राव गोपालसिंह चाद्रावत रामपुरा रो कवर रतनसिंह जी ने बाढ़ दियो थो सो रतनसिंह पातसाहजी कन जाय तुरक होय फौज ल ने आयो । सो बाप ने बाढ़ दीयो ने रामपुरे अमल कीयो । पछ गोपालसिंह महाराज अजीतसिंहजी कने आयो । सा रतनसिंह मूवा पछ, महाराज पातसाहजी सू भरज कर ने पोता रे नावे जागीरी लिखाय ने गोपालसिंह न रामपुरे बेठाएयो ।

समत 1778<sup>2</sup> रा मे खण्डारोत श्यामसिंह मनस्तपात आवर सू छाड ने जोधपुर महाराज कने आयो । सू रोजीना रप्या 1000) हजार कर दिया । पछ रप्या 500) पाच सो कर दिया । पछ तोडा रा गाव लिख दिया । तोडा थी महाराज री जागीरी मे थो । तोड हाकम मुहतो गोपालदास थो ।

जसलमेर रा रावल अम्बराज जी महाराज अजीतसिंह जी रे सरणे आया था ।

समत 1769 रा फागण<sup>3</sup> म भडारी खीवसी रुधनाथ ने घटकाव<sup>4</sup> हुवो । ने दीवाणगी भडारी भाईदास न मुहतो गोक्लदास मे मेली दीवी ।

- 1 भडारी भाईदास दीवाण ।
- 1 मुहतो गोक्लदास सोवेदार, समर्थी रो मुहतो ।
- 1 जोधपुर री कचेडी हाकम मुहतो गोपालदास विल्याणदासोत जात कोचर ।
- 1 भडता रो कचेडी हाकम, मुहतो भाईदास गोक्लदास रा भाई ।

बूदी रा राजा बुधसिंहजी आवर रा राजा जसिंहजी रा बन परणिया था । सो जसिंह जी री बन धणा बरसा सू आवेर आया । ने उणा रो कवर बालक थो सो जसिंह जी भाणेज ने ओलखियो<sup>5</sup> नही । जिण सू बूझियो । बाई ने सेज म<sup>6</sup> पूछियो क “बाइ ओ किण रो साइ छे ।” सा बाई और तर समझिया । न जाव दियो के ‘आ ता सामे छे पिण चान लाया सो हु जायू छू ।’ जिण सू जसिंहजी धणा वेराजी हुया । हाडा बुधसिंहजी रा छोटा भाई दलेलसिंहजी ने जसिंह जी आप री धटी परणाई । ने दलेलसिंहजी चाये फौज मेल बुधसिंहजी सू बूदी बारे काढ दिया । न त्लेलसिंहजी नू बूदी रा धणी कर दिया । तर बुधसिंह जी महाराज अजीतसिंहजी कने आया । सो जोधपुर सू फौज मल बुधसिंह जी नू बूदी पाछा बसाण दिया । ने दलेलसिंह न बूदी बारे काढ दियो समत 1773 मे<sup>7</sup> ।

1 1721-22 ई

2 फरवरी, 1713 ई ।

3 कृ ।

4 पहिचाना ।

5 स्वाभाविकता से ।

6 1716-17 ई ।

समत 17791 मे जौसी श्री जकिशन ने मावेर मेहलिया था । सो खत पड़ियो तर आवता मारग मे भराया । न बटा बरस 7 सात रो थो सो जोषपुर मारिया ।

महाराज श्री अचीतसिंहजी रे राजलोक क्वरा बाया री विगत—

1 राणावत अमोलक दे जा पीहर रा नाम ऊनेत कवर राणा अमरा  
जी रा भाई गजसिंहजी राजसिंहीत री बेटी समत 1752 रा आसाद बद 7 उद  
परणिया सों पाटराणी था । जिणा र कवर ने बाया री विगत—

१ कवर सुरताणसिंहजी समत 1775<sup>3</sup> रो जनम थो सो भड  
गिरधरदास थेहमदाबाद म भूठी अरज करी । तर महाराज अर्भ  
जी तु भरम पन्डियो सो चूक कराय मराया । पछ बात भूठी ह  
तर गिरधरदास न फरमायो के तु पेट फूँ ने मरसी ।

१ बाईं कूलकवर बाईं, महाराज बखतसिंहजी जेसनमर रा रा  
ग्रखसिंहजी ने समत १८०४<sup>५</sup> मे परणाया।

१ बाई इंद्रकवर बाई बादशाह फरमसेर ने समत 1772<sup>5</sup> परण्या।

## १ बाई फतीकवर क्वरा चलिया ।

(कुल) कवर 1 वाईया 3 |

4

इण्ठ गणावत जो रो करायोडो मदिर सिखरबद गोल मे तु घर जी भालरा कन है।

1 बडा चहूवाण जी, चतुरमुज दयालदासात री बटी सिधला री भाणः  
गाव होट्लू रा । समत 1757 रा फागण बद 10<sup>6</sup> परणिया  
सती हवा । जिए रे कवरा री बिगत—

1 कवर भग्नेशिहजा रो जनम 1759 रा मियसर बद सनिवार<sup>१</sup> रा ।

२ कवर बखतसिंह जी रो जनम समत १७६३ रा भाद्रा बद  
रो जनम ने दूजा तैजिसिंहजी रो ममत १७६३<sup>०</sup> रा ।

1 1722-23 § 1

2 गुरुवार, जून 11, 1696 ई

3 1718 4 1751

5 1715 § 1

६ शुद्धदार परकमी २१, ३७०१ फ्ट

७ शनिवार, नवम्बर ७ १७०२ ई।

८ भग्नलवार, झंगस्त 20 1706 ई

1 बडा भटियाणी जी, जेसलमेर रा रावल जी री बेटी । बडा भटियाणा जी पीहर रो नाव साल बवर ।

जसलमेर रा रावल ग्रमरसिंह सबलसिंहोत री बेटी । जेसलमेर जाय परणिया पा । सा सती हुवा । तिणा रे बवर तीन 3 ने बाई रा । तिणा री बिगत—

1 कवर विसोरमिह जी रो समत 1766 रो जनम आसोज बद 11<sup>1</sup> रो ।

1 बवर बडा दोलतसिंह जी रो जनम समत 1758<sup>2</sup> रो, जनम सो बरस । म चल गया ।

1 बवर जोषसिंहजी समत 1767<sup>3</sup> रो जनम ने समत 1767 मे ही चल गया ।

1 बाई सूरज बवर, आवेर रा राजा सवाई जेसिह जी सईदा सू डरता जाधपुर सरणे आया, तर गूर सागर महला म डेरा दिराया जद परणाया । सगाई पहना किंवी थी

बवर 3 बाई ।

1 छोटा चहुवाण जी । गाव रोईडचा रा चवाण पतेसिंह प्रधीराजोत री बेटी, हजूर घका चलिया । जिणा रे बवर तीन—

1 बवर अणदसिंह जी समत 1764 आसोज बद 5<sup>4</sup> रो जाम ।

1 बवर रायसिंह जी समत 1768 रा सावण बद 12 रो<sup>5</sup> जाम ।

1 बवर अखेसिंह जी बालव घका चलिया ।

3

1 छोटा भटियाणीजी, देरावर रा भाटी दसेलसिंहजी री बेटी, सती हुमा । कवर एक हुवा, सो मास 7 सात रा होय ने चलिया ।

1 बडा तू बवर जी ग्रमरग दे जी पीहर रो नाम विजेकवर पाटण रा बख्सीराम जसवतोत री बेटी । समत 1767 रा आसाड बद 14 राव साम<sup>6</sup> देवा लग्न<sup>7</sup> पधार परणिया सवाई जसिहजी जानी हुवा पा । जिणा रे—

1 बाई किसोर कवर ।

1 जाडेची जी, नवानगर रा जाम लाला जी री बेटी । इणा सु महाराज री मरजी घणी थी । इणा चादपोल बार बावडी कराई थी ।

1 रविवार, सितम्बर 18 1709 ई । 2 1701-1702 ई ।

3 1710-1711 ई । 4 शुक्रवार सितम्बर 5, 1707 ई ।

5 रविवार जुलाई 1 1711 ई ।

6 सामवार जून 4 1711 ई । 7 दिवा लग्न ।

## 1 बाईं अल कवर ।

- 1 लाडी तू वर जी लखासर रा तू वर किरतसिंह जी री बेटी सती हुवा ।
- 1 चावडी जी । माणसा रा चावडा पिरथीसिंह जी री बेटी सती हुवा ।
- 1 देवडी जी । सिरोही रा राव उमेदसिंहजी अखराजोत री बेटी । समत 1765<sup>1</sup> रा वरस म परणिया ।
- 1 चटुवण जी साचोर रा । (स 1760 वि )<sup>2</sup>
- 1 गोड जी । राजगढ रा देसरीसिंहजी री बेटी उरजनसिंह जी री पोती । समत 1766 रा चत सु<sup>3</sup> 10<sup>4</sup> राजगढ पधार परणिया । जिणा रे—
- 1 कवर साभागसिंहजी । महाराज विजेसिंह जी रा राज मे देवलोक हुवा ।
- 1 बडा सीसोदणी जी । देवलिया रा रावत प्रिधीराज जी री बेटी । महाराज जालोर थका रामसरण हुवा । जिणा रे कवरा री बिगत—
- 1 कवर रतनसिंहजी । समत 1774 रा सावण सुद 9<sup>5</sup> देवलिय जनमिया ।
- 1 कवर रूपसिंह जी समत 1775<sup>6</sup> रो जनम ।
- 1 कवर जोरावरसिंहजी । बालक थका चलिया ।
- 2 कवर दाय पेर बालक थका चलिया ।

## 5

- 1 चहुवाण जी । नीवराणा रा राजा टोडरमल छतरसिंहोत री बेनी समत 1767 रा असाढ बद 9 गुरुवार (?)<sup>7</sup> नारनोल रा डेरा नालर आया था । असाढ सुद 10<sup>8</sup> नीमराणे पधार परणिया था । सा हज़र थका चलिया । जिणा रे—
- 1 कवर मानसिंह जी । समत 1772<sup>8</sup> रा मे राम बह थो ।

- 1 छोटा सीसोदणी जी देवलिया रा रे कवर एक हुवो सो दसोटण पेहली चतियो ।

|   |                          |   |               |
|---|--------------------------|---|---------------|
| 1 | 1708–1709 ई ।            | 2 | 1703–1704 ई । |
| 3 | बुधवार माच 29, 1710 ई ।  |   |               |
| 4 | रविवार अगस्त 4, 1717 ई । | 5 | 1718–19 ई ।   |
| 6 | मगलवार मई 29, 1711 ई ।   |   |               |
| 7 | गुरुवार जून 14 1711 ई ।  | 8 | 1715–16 ई ।   |

- 1 भाली जी उत्तम दे जी । हलोद रा भाला चाद्रसेण गजसिंहोतरी बेटी जिणा रे कवर, ने बाई—
  - 1 कवर प्रताधिसिंहजी । समत 1767<sup>1</sup> रो जनम न समत 1849<sup>2</sup> मे चलिया महाराज भीवसिंह जी रा राज मे ।
  - 1 कवर छत्रसिंहजी । समत 1770<sup>3</sup> मे चलिया ।
  - 1 बाई बखतावर कवर ।
- 

3

- 1 सेखावतजी, मनोहरपुर रा सेखावत सगतसिंह जी री बेटी सती हुवा । जिणा र
  - 1 बाई सोभाग्यक । रुडेपुर रा राणा जगतसिंह जी रा कवर प्रताधिसिंहजी ने महाराज अभसिंहजी परणाया समत 1797<sup>4</sup> मे ।
- 

- 1 छोटा चहूबाण जी साचोरी जी । चीतलबाणा रा चौहाण री बेटी । समत 1780 रा असाड सुद 9<sup>5</sup> परणिया ।
  - 1 पासवान—साचोरा चावाण बलदेव महेसदासोत री बेटी रो ढालो नाया था । सो गढ़ ऊपर भोलाय गया था सो गढ़ सू उतारणी नही । तरे जनाना मे दागल कर दिया । परणिया नही तिण सू पासवान कीवी ।
  - 3 खवासा तीन—झजवगुल । गुलबदन । नैणसुख । पड़दायतिया, गायणिया उड़दा बेगणिया, घोटा बरदारणिया जलसायत घणी थी ।
- कवर 21 बाया 8 हुवा ॥
- 

22— गणिया 18,



- 1 भाली जी उत्तम दे जी । हलोद रा भाला चांदसेण गजसिंहोतरी बेटी जिए रे कवर, ने बाई—
  - 1 कवर प्रताबसिंहजी । समत 1767<sup>1</sup> रो जनम ने समत 1849 म चलिया महाराज भीबसिंह जी रा राज म ।
  - 1 कवर छत्रसिंहजी । समत 1770<sup>2</sup> म चलिया ।
  - 1 बाई बखतावर कवर ।
- 

3

- 1 सेखावतजी, मनोहरपुर रा सेखावत सगतसिंह जी री बेटी सती हुवा । जिए रे
  - 1 बाई सोभागकव । रउदेपुर रा राणा जगतसिंह जी रा कवर प्रतापसिंहजी ने महाराज अनसिंहजी परणाया समत 1797<sup>3</sup> मे ।
- 

- 1 छोटा चहवाण जी माचोरी जी । छौतलबाणा रा चीहाण री बेटी । समत 1780 रा असाढ़ सुद 9<sup>5</sup> परणिया ।
  - 1 पासवान—साचोरा चोवाण बलदेव महेसदासोत री बेटी रो ढोलो लाया था । सो गढ़ ऊपर भोलाय गया था सा गढ़ सू उतारणी नही । तरे जनाना म दाखल कर दिया । परणिया नही तिण सू पासवान कीवी ।
  - 3 खवासा तीन—अजवगुल । गुलबदन । नेणसुख । पड़दायतिया, गायणिया, उडदा बेगणिया, धोटा बरदारणिया जलूसायत घणी थी ।
- कवर 21 बाया 8 हुवा ॥
- 

22— राणिया 18